

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28032024-253416
SG-DL-E-28032024-253416असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 2024/चैत्र 7, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 513
No. 22]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 2024/CHAITRA 7, 1946	[N. C. T. D. No. 513

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 27 मार्च, 2024

सं. मु.चु.अ./चु.सं./102(64)/2024/255.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2024

संख्या : 56/2024/रा.दल अनु.-III.—यतः भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में जारी, पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (प.अ.रा.द.) की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाली, अपनी अधि-सूचना संख्या 56/2022/रा.द.अनु.-III, तारीख 15 मई, 2023 को अद्यतन करने का निर्णय लिया है;

2. अतः अब निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र में, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (iii) में प्रकाशित तारीख 15 मई, 2023 की, अपनी उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 56/2022/रा.द.अनु.- III के अधिक्रमण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है:-

- (क) सारणी-I (क) में, पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.) और उनके मुख्यालयों के डाक-पता;
- (ख) सारणी-I (ख) में, सूची से हटाये गये पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.) और उनके मुख्यालयों के डाक-पता; और
- (ग) सारणी-I (ग) में, निष्क्रिय पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.) और उनके मुख्यालयों के डाक-पता।

सारणी-1(क)

रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	आबाद पार्टी	4-1/2, एससीबी नगर, रामावरम, मंडल: चुंचुपल्ली, जिला – भद्राद्रि कोतागुडम, तेलंगाना – 507118
2	आदर्श भारत निर्माण दल	ग्राम- भैणी भैरों, तहसील- महम, जिला- रोहतक, हरियाणा- 124112
3	आदर्श जनता सेवा पार्टी	रणजीत हाउस, डिडवाडा रोड, सालवन, जिला – करनाल, हरियाणा
4	आदर्श मिथिला पार्टी	ग्राम व पोस्ट - ठहरा गोपालपुर, वाया दिघरा, जिला – समस्तीपुर, बिहार – 848115
5	आदर्श संग्राम पार्टी	डी/एस- 1252, सेक्टर- डी, एल.डी.ए. कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226012.
6	आदर्शवादी काँग्रेस पार्टी	ई0 डब्ल्यू0 एस0 -04, कौशलपुरी कालोनी, फेस-2, निकट पानी टंकी, ग्रामसभा- गद्दोपुर, विकास खण्ड-मसौधा, तहसील-सदर, जिला-फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।
7	आधी आबादी पार्टी	डी-1385/7, डी- ब्लाक, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016
8	आदी भारत पार्टी	116, बोपल हॉट एण्ड होम, इंसाईड सनसिटी, बोपल, अहमदाबाद, गुजरात- 380058
9	आदिजन मुक्ति सेना	प्रथम तल, 21 दुर्गेश विहार, जे. के. रोड, भोपाल (मध्य प्रदेश)।
10	आदिम समाज पार्टी	म0 नं0 – 84, ग्राम – मवैया कलां, पोस्ट – नारीबारी, शंकरगढ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
11	आदिवासी सेना पार्टी	ग्राम व पोस्ट-रुपवेल, (निशाल,फलिया), ता0- वनसदा, जिला-नवसरी-396 321, गुजरात।
12	आजाद भारत पार्टी (डेमोक्रेटिक)	ग्राम+पोस्ट – बेहटा बुजुर्ग, वि0 ख0 – भीतरगांव, जिला – कानपुर, उत्तर प्रदेश।
13	आम आदमी मुक्ति मोर्चा	4, यू.एफ्. बाबर प्लेस, टोडरमल रोड, बंगाली मार्केट के पास, नई दिल्ली- 110001.
14	आम आदमी परिवर्तन पार्टी	सत्य साईं कालोनी, प्रीत विहार, नियर समर विला स्कूल, छपरा, गौदम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-2001001
15	आम आदमी संघर्ष पार्टी (एस)	डी- 489, गली नं.- 7, मुकन्दपुर एक्स्टेंशन, पार्ट- 1, नई दिल्ली- 110042
16	आम अधिकार मोर्चा	मनोज मंडल, आदर्श नगर, चेठारिया पीर, वार्ड नं.- 15, पोस्ट ऑफिस व थाना- कहलगांव, जिला- भागलपुर, बिहार- 813203
17	आम अवाम विकास मोर्चा	फ्लैट नं-डी. 202, गोकुल धाम अपार्टमेंट, रांची, झारखण्ड-834008

18	आम भारत पार्टी	अरविंद कुमार दिक्षित नं.3, तीसरी मंजिल, द्वितीय विलिंडिंग, अम्बिका कम्पलेक्स, दामोदर रिया, तालुका-इंदर, जिला-साबरकांठा गुजरात- 383430.
19	आम भारतीय पार्टी	103-रेडियो कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001
20	आम दल	प्लाट/भवन नं0 - 191, बुद्धा एन्कलेव, लोहिया नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
21	आम हिन्दुस्तानी पार्टी	गांव- भगौती दूबे का भिस्वाँ, पोस्ट- चौरी चौरा, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273201.
22	आम जन मजदूर पार्टी	भदपर चौराहा, भदपर, तहसील- लहरपुर, जिला- सीतापुर, उत्तर प्रदेश।
23	आम जन नीति पार्टी	वार्ड नं. 8, सेक्टर नं. 12एल, जी.जी.एस.पब्लिक स्कूल के पास, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान- 335512
24	आम जन पार्टी (सेक्यूलर)	मीना वाटिका, माँ दुर्गानगर, ग्राम- चकसकरा, पोस्ट- चन्द्रालय, थाना- हाजीपुर सदर, जिला- वैशाली बिहार।
25	आम जनता जागरूकता पार्टी	झफर बैठा मार्केट, डगरुआ, थाना जगरुआ, पोस्ट-डगरुआ, वाया-गुलाबबाग, जिला- पूर्णिया, बिहार-854326
26	आम जनता पार्टी	ग्राम-जीगीना, डाकघर - मंझरिया विक्रम, जिला-बस्ती, उत्तर प्रदेश
27	आम जनता पार्टी (सर्वजन हिताय)	243-244, द्वितीय तल, राधा चैम्बर्स, प्लॉट नं0 - 9, जी - ब्लॉक, कम्यूनिटी सेंटर, विकासपुरी, दिल्ली - 18
28	आम जनक्रान्ति पार्टी	ग्राम व पोस्ट - भगीपुर, शिकोहाबाद रोड, मॉडर्न इंगलिश स्कूल के पास, जिला - एटा, उत्तर प्रदेश - 207001
29	आम जनमत पार्टी	एच.आई.जी.फ्लैट नं0 7 एच.एफ.-25, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, पटना, बिहार- 800026
30	आम जनशक्ति पार्टी	डब्ल्यू0जेड0-जे-62, उत्तम नगर, दिल्ली - 110059
31	आम जनता पार्टी (इंडिया)	रानीपुरवा प्राइमरी स्कूल के पीछे, जानकी नगर, पोस्ट- बस स्टाप, जिला- गोण्डा, उत्तर प्रदेश।
32	आम जनता पार्टी (सोशलिस्ट)	ग्राम व पोस्ट-इंदईपुर, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश-224129
33	आम जनता पार्टी डेमोक्रेटिक	हाऊस नं. 1403, बेला, वार्ड नं. 4, ग्राम पंचायत बेला, तहसील- उमरेड, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र- 441115
34	आम जनता पार्टी राष्ट्रीय	फ्लैट नं0 - 804, 8वाँ तल्ला, घरौंदा कम्पलेक्स, जगदेव पथ मोड़, बेली रोड, पटना, बिहार - 800014
35	आम जनता प्रगति पार्टी	बी - 141, अमर ज्योति कॉलोनी, सेक्टर - 17, रोहिणी, दिल्ली - 110081
36	आम लोक पार्टी युनाइटेड	मकान सं.328, गली नं.4, नेताजी पार्क हैबोवाल कलां, लुधियाना, पंजाब-141001
37	आम नागरिक पार्टी	ग्राम - बौल्ला मजूरपुर, पोस्ट - कीरतपुर निमाना, ब्लॉक - गौण्डा, तहसील - इगलास, जिला - अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
38	आम नागरिक युवा पार्टी	ग्राम- नल्हड़, डाकखाना - नल्हड़, तहसील व जिला- नूह, हरियाणा- 122107
39	आमजन एकता पार्टी	मोहल्ला-मुंशीपुरा, तहसील के पास-कस्बा-नकुड़, तहसील और थाना-नकुड़, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247342
40	अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम	1/47बी, जे.एस.एम. कैथेड्रल रोड, इट्टेरी, जिला- तिरुनेलवेली, तमिलनाडु- 627007
41	आप और हम पार्टी	वार्ड नं. 24, मकान नं. 714/647, मोहल्ला- बसन्ती गली, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार
42	आप की इंसफ पार्टी	निवासी 62 A, अबू बाज़ार ऊँचा, घासीकटरा, नियर आइडियल मेरीज हाउस,

		थाना-तिवारीपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273001
43	आप सबकी अपनी पार्टी	विनायक हाईट मेन रोड पर, तारबहार, वार्ड नं. 15, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495001
44	आपका गणतंत्र पार्टी	वेकट वार्ड -13, गली नंबर 2, शास्त्री कॉलोनी, कटनी, मध्य प्रदेश-483501
45	आपका हमारा पार्टी	ग्राम-महुडर, पोस्ट - रेवाली, जिला - हजारीबाग, झारखण्ड-825301
46	आपकी अपनी अधिकार पार्टी	मकान सं0 - 381/5, नई पर्वतिया कॉलोनी, सारन स्कूल रोड, महादेव चौक, गांव - सारन, एन.आई.टी. फरीदाबाद, हरियाणा।
47	आपकी अपनी पार्टी (पीपल्स)	खसरा नं. 19/26, नियर अमृत विहार, मेन रोड बुराडी, बुराडी, नई दिल्ली-110084
48	आपकी आवाज पार्टी	206, चंद्र प्रकाश, रेसीडेंसी, सिदसर रोड, भावनगर, गुजरात-364002
49	अपना पंजाब पार्टी	मकान नं0 - 2442, फेज -II, सेक्टर - 65, एस.ए.एस. नगर, मोहाली, पंजाब।
50	अपनी सरकार पार्टी	6/शान्ति कुंज सोसायटी, गायत्री मंदिर के सामने, नेशनल हाईवे, कलोल, जिला-गाँधीनगर, गुजरात-382721
51	आपनी डेमोक्रेटिक पार्टी	धानी अमरुद के बाग वाली, धौलपुर रोड, ग्राम- भोडिया खेडा, तहसील व जिला- फतेहाबाद, हरियाणा-125050
52	आपसी सहयोग पार्टी	ई-737, ई-ब्लॉक, जे.जे.कॉलोनी, मंगोलपुरी, दिल्ली-110083
53	आरक्षण विरोधी पार्टी	डीटी-146, तिरखा कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004, हरियाणा।
54	आर्थिक विकास पार्टी	नील कण्ठ धाम मठ जिन्दा नागा समाधि, ग्राम- कितुखेडी, पोस्ट- झारडा, तहसील- महारगढ़, जिला- मंदसौर, मध्य प्रदेश- 458553
55	आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन पार्टी	मकान संख्या - 166, गाँव- तेजा का पूरा, अब्दुलपुर खास, पोस्ट- हरिसेन गंज, मऊ, आइमा, थाना- सोराऊं, तहसील- सोराऊं, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 226020
56	आस पंजाब पार्टी	1901, 1902, चौक शक्ति नगर, अमृतसर, पंजाब-143001
57	आसरा लोकमंच पार्टी	म्हाडा कॉलोनी, गाला क्र.683, गट क्र.74, देवलाई, ता. व जि. औरंगाबाद, महाराष्ट्र - 431001
58	आवाम अधिकार जागरण पार्टी	ग्राम - सरोखनपुर, निकट सरकारी अस्पताल (CHC), पोस्ट - बदलापुर, जिला - जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222125
59	अवामी पिछड़ा पार्टी	मकान संख्या 269, अराजी नं0-1, चक रशीद देहाती, अदिलाबाद, पावर हाउस मोहमदाबाद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश-233227
60	आजाद समाज पार्टी (कांशी राम)	मकान नं0 180, गली नं0 3/22, (खसरा नंबर-265), गोकुल पुर गांव, हक्का शाहदरा दिल्ली-110094
61	आजादी का अंतिम आंदोलन दल	एम. आई. जी. डी.- 27, शैलेन्द्र नगर, रायपुर - 492001 छत्तीसगढ़।
62	अभय समाज पार्टी	ग्राम - अन्धया, पोस्ट - हरपुर तिवारी, तहसील - सदर महाराजगंज, जिला - महाराजगंज, उत्तर प्रदेश।
63	अभिनव भारत जनसेवा पक्ष	कामिनी हाउसिंग सोसाइटी, गली नं -1, महालक्ष्मी नगर, गैस गौड़ाऊन्च्या बाजूला, अंबरनाथ (पूर्व), जिला - ठाणे, महाराष्ट्र - 421501
64	अभिनव भारत पार्टी	आर बी -10, ब्लॉक आर बी, इंदरपुरी दिल्ली- 110012.
65	अभिनव लोकतंत्र पार्टी	एच.नं.97, ठाकुर पट्टी लीखली, पोस्ट- मरियादा, तहसील - सिकराय, जिला - दौसा, राजस्थान-303326.
66	अभिनव राजस्थान पार्टी	सी-14, गांधी नगर, मेड़ता सिटी, जिला- नागौर, राजस्थान- 341510

67	अबुआ झारखंड पार्टी	रोड न. 7, मिडिल दौडनगर, डिबडीह, रांची, - 834002
68	एक्शन पार्टी	गाँव व पोस्ट- मैगलगंज, मेन मार्केट, निकट हरिचरणेश्वर महादेव मंदिर, ब्लॉक-पसगवां, जनपद- लखीमपुर(खीरी), उत्तर प्रदेश।
69	एक्शन पार्टी फॉर पीपुल्स प्रोग्रेस	नं. 13/7, ऐश्वर्या बिल्डिंग, शॉप नं.- 11, तीसरा क्रॉस स्ट्रीट, ट्रस्टपुरम, कोडामबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600024
70	आदर्श जन शक्ति पार्टी	हाउस नं० 10204, अरेई वाली गली, मान आटो स्टैण्ड, दुर्गा पुरी, हाई बोवाल कलान, लुधियाना, पंजाब।
71	आदर्श जनकल्याण दल	ग्राम-चन्दुआरा, पोस्ट-जट डुमरी, थाना-पुनपुन, जिला-पटना, बिहार- 804453
72	आदर्श जनता पार्टी	ग्राम - कुडी, पोस्ट - कटनाहर्षा, आदर्श नगर, शिकोहाबाद, जिला- फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश- 283135
73	आदर्श लोक दल	आबू नगर, पुलिस थाना फतेहपुर सिटी के सामने, जिला-फतेहपुर, (उत्तर प्रदेश)।
74	आदर्श मानवतावादी पार्टी	डी.एस./919, सेक्टर-सी, सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
75	आदर्श न्याय रक्षक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- मातौल, तहसील-खरगापुर, जिला- टीकमगढ़, मध्य प्रदेश- 472115
76	आदर्श पोलीटिकल पार्टी	405, कुन्दन भवन कोमर्शियल काम्पलैक्स, आजादपुर, दिल्ली-110033.
77	आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी	मकान नं० 1369, सुरक्षा-1, सैक्टर-4, ई०एल०डी०ई०सी०ओ० रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
78	आदर्श समाज पार्टी	बी-505, कमला नगर आगरा, उत्तर प्रदेश।
79	आदर्श व्यवस्था पार्टी	सुगही वार्ड नं. 12, गांव- बंजरिया, टाउन एरिया सलेमपुर, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश -274509
80	आदर्शवादी दल	जवाहर रोड, खुर्जा-203136, जिला-बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)।
81	आदर्शवादी पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं. 81, मोहल्ला- चित्रसाई, नियर अशोक इंटर कालेज के पास, सदर जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222001
82	अधिकार पार्टी	234, खिड़की अलीबेग, रेकाबगंज, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश - 224001।
83	अधिकार विकास पार्टी	शिवाला छाया मकान नं० - 10/571, अरुण नगर, अल्प आय वर्ग समिति, वार्ड नं० - 10, तहसील - हुजूर, जिला - रीवा, मध्य प्रदेश।
84	आधुनिक भारत पार्टी	299ए, नानकारी आई.आई.टी, कानपुर महानगर, कानपुर उत्तर प्रदेश- 208016
85	आदिम भारतीय दल	बेलदार भवन, कूरी बाजार मार्ग, (बलूआ) कूरी बाजार, जिला-गोरखपुर- 273404. उत्तर प्रदेश।
86	आदिवासी जन कल्याण पार्टी	द्वारा दक्षिण गुजरात गामित समाज सेवा ट्रस्ट पानवाडी, गुजरात ट्रेडर्स के पास, व्यारा, जिला-तापी, गुजरात-394650।
87	अद्वैत ईशावास्यम् काँग्रेस	गुरुआईन वाडी आश्रम, रीवा नाका, मैहर, जिला-सतना, मध्य प्रदेश।
88	अगर जन पार्टी	बी-949, अग्रवाल वाली गली, मेन कृष्णा गली के पास, मौजपुर दिल्ली- 110053.
89	अगिला इंडिया मक्कल कझगम	नं 3, द्वितीय क्रॉस, वल्लालर नगर, पेथूचेट्टीपेट, लॉस्पेट पोस्ट, पुडुचेरी-605008
90	अहिला इण्डिया धायगा मक्कल मुन्नैतरा काँची	नं० 1/407, अय्यर कॉलोनी, थानाक्कनकुलम, तिरुनगर, मदुरै, तमिलनाडु - 625006
91	अहिंसा सोशलिस्ट पार्टी	डी० नं० - 5/125, वेस्ट पालापट्टी, पोस्ट - सेलप्पमपट्टी, तालुक व जिला - नामक्कल, तमिलनाडु - 637019

92	अहिंसा समाज पार्टी	प्रियदर्शनी कॉलोनी, वृद्धा आश्रम के पास, वार्ड नं० - 47, छिंदवाडा, तहसील व जिला - छिंदवाडा, मध्य प्रदेश- 480001
93	अहिंसावादी जनता पार्टी	एन.टी.पी.सी. मुख्य गेट के पास, नौफरी, ग्राम-लोधई, शमशाबाद रोड, आगरा, जिला - आगरा, उत्तर प्रदेश
94	ऐहरा नेशनल पार्टी	1/24, एस.एफ. के एम टी भवन, गली नं० 2, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली- 110092
95	एम पॉलिटीकल पार्टी	543, बाबासाहेब आंबेडकर सोसायटी, रूम नं० - 179, सीईएन नं० -301, कैप्टन प्रकाश पट्टे मार्ग, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई, महाराष्ट्र - 400005
96	अकाली दल (1920)	296, सैक्टर - 10 - ए, चण्डीगढ़-160010।
97	अखंड आर्यावर्त एक्सेस पार्टी	1/4961, बलबीर नगर एक्सटेंशन, गली नं.4, शाहदरा, दिल्ली-110032
98	अखण्ड भारत चेतना दल	प्लॉट क्रमांक- 9, खसरा नं. 144/2, साई कॉलोनी, भाईजान रिक्षे वाले के पीछे, न्यू कॉलोनी, गढ़ा, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482003
99	अखंड भारत एकता मंच	ए-204, फेयरडील हाउस, स्वास्तिक क्रॉस रोड के पास, सी. जी. रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात- 380009.
100	अखंड भारत जनप्रिय पार्टी	गणेश शर्मा, रोड नं०-3, बजरंगपुरी, भगत सिंह पथ, गुलजारबाग, पटना बिहार- 800007
101	अखण्ड भारत पार्टी	47 - रुकमिणी विहार, मण्डी समिति के सामने, बाई पास, मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281001
102	अखंड भारत समाज पार्टी	ई-14, फर्स्ट फ्लोर, डी.डी.ए.मिनी मार्केट, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086
103	अखण्ड भारत सम्राज्य पार्टी	एफ-305, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, अकबरपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462042
104	अखण्ड भारत स्वतंत्र पार्टी	ग्राम- पटनी, पोस्ट व थाना- चिकलाना, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
105	अखंड भारत विकास पार्टी	प्लॉट नं० - 100, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247001
106	अखण्ड भारतीय आवाज	ए-54 मानेक नगर सी. एच० एस० लिमिटेड, एम०जी० रोड कान्डीवाली (पश्चिम), मुम्बई - 400067, महाराष्ट्र।
107	अखण्ड भारतीय कवच पार्टी	बी-33, अशोक नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
108	अखंड भारतीय युवा पार्टी	421/6, ब्लॉक -बी, लक्ष्मी विहार, बुरारी, नई दिल्ली- 110005.
109	अखण्ड हिन्द पार्टी	बी-13, रफीक कम्पाउन्ड, किशन नगर, पश्चिम द्रुतगति मार्ग, दहीसर (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र 400068
110	अखंड लोकतांत्रिक पार्टी	मुख्य मार्ग स्टेट बैंक के सामने, C/O सहेतरीन बाई साहू, वार्ड नं.02, लवन, जिला- बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़-493526
111	अखण्ड मानव पार्टी	मकान नं.सी-20, नीलबड़ बालाजी नगर, फेस-1, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश-462044
112	अखण्ड राष्ट्रवादी पार्टी	7/5/67/2, विकास नगर, सेक्टर - 7, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002।
113	अखंड राष्ट्रीय रक्षक पार्टी	बी-267, श्री जीवराज पार्क, नारायण नगर के पास, पोस्ट-खोडयार नगर, अहमदाबाद गुजरात- 382352
114	अखण्ड समाज पार्टी	2/45, बालु अड्डा, संजय गांधी नगर, पाग नारायण रोड, थाना- हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
115	अखण्ड समता पार्टी	फ्लैट नं. आर- 202, टैरा ग्रीन्स, अलवर बाईपास भिवाड़ी, तहसील- तिजारा, जिला- अलवर, राजस्थान- 301019

116	अखिल भारत हिन्दू महासभा	मंदिर मार्ग, नई दिल्ली- 110001.
117	अखिल भारत समग्र क्रान्ति पार्टी	राजेन्द्र पाण्डे का घर, डा० सलीम अहमद की गली के सामने, कटरा, बस्ती, जिला-बस्ती, पिन कोड सं० 272001, उत्तर प्रदेश।
118	अखिल भारतीय अशोक सेना	117/0/117, गीता नगर, कानपुर-208025, (उत्तर प्रदेश)।
119	अखिल भारतीय कांग्रेस दल (अम्बेडकर)।	च-1, कुम्भा नगर, हाऊसिंग बोर्ड, चित्तौड़गढ़-312001 (राजस्थान)।
120	अखिल भारतीय गरीब पार्टी	गाँव-कुराना, पोस्ट-सिम्मावाली, जिला-गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश)।
121	अखिल भारतीय गोरखा लीग	महावीर बिल्डिंग, लाडेन्ला रोड, दार्जिलिंग-734101, (पश्चिम बंगाल)।
122	अखिल भारतीय हिन्दू क्रान्ति पार्टी	कृष्णा भवन, सेमरिया चौक, सतना, मध्य प्रदेश।
123	अखिल भारतीय जन संघ	टी-14, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज -2, नई दिल्ली-110020.
124	अखिल भारतीय जनशक्ति पार्टी	2538, हडसन लाईन, जी.टी.बी.नगर, दिल्ली-110009
125	अखिल भारतीय किसान मजदूर मोर्चा	श्री महात्मा गाँधी विचार केन्द्र, उलदान, झाँसी (उत्तर प्रदेश)।
126	अखिल भारतीय लोकतंत्र पार्टी	गाँव और पोस्ट-दत्तावाली, जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश)।
127	अखिल भारतीय मानवता पक्ष	मानवता भवन पेन्ट्री (कोके), तहसील-सिन्देवाही, जिला-चन्द्रपुर, महाराष्ट्र।
128	अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (सेक्यूलर)।	खारी कुआं मुगलपुरा प्रथम, मुरादाबाद-244001, (उ. प्र.)
129	अखिल भारतीय राजार्या सभा	आदर्श गुरुकुल शाही, जिला-पीलीभीत- 262001, (उत्तर प्रदेश)।
130	अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस	सी-31, हौज खास, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016.
131	अखिल भारतीय संघर्ष दल	नंगली भट्टा, फतेहगढ़, चुडियाँ रोड, अमृतसर-143001 पंजाब।
132	अखिल भारतीय सेना	ओम कला निकेतन संकल्प, को. ओप. हाउसिंग सोसायटी, आनन्दगार, विखोरिली पार्क साइट (पश्चिम), मुम्बई - 400079 (महाराष्ट्र)।
133	अखिल भारतीय शिवसेना राष्ट्रवादी	अखिल भारतीय शिवसेना भवन, गुड मंडी, लुधियाना (पंजाब)।
134	अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी	3 सर्कुलर रोड, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-211001
135	अखिल भारतीय आमजन पार्टी	मुकाम, पोस्ट-लाइपुरा, गाँव-गगवाना, जिला-अजमेर, राजस्थान-305023.
136	अखिल भारतीय आपकी अपनी पार्टी	एफ - 2, ग्राउंड फ्लोर, राजेन्द्रा पार्क, नांगलोई, नई दिल्ली- 110041
137	अखिल भारतीय आरक्षित समाज पार्टी	392बी, सेक्टर- बी, सर्वधर्म कॉलोनी, कालोर रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462042
138	अखिल भारतीय अपना दल	1372, गणेश नगर, मालिक मऊ आइमा, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश- 229010
139	अखिल भारतीय एकता पार्टी	जाधववाड़ी रोड, हनुमान चौक, तहसील व जिला - उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413501
140	अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी	263, राहुल नगर, कोलार रोड, भोपाल - 462003, मध्य प्रदेश।
141	अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी	सा-17/235.जी.पी. सारंग ताताब पहड़िया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, पिनकोड- 221007
142	अखिल भारतीय जन मोर्चा	मकान संख्या- 960, प्रताप नगर, भानपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462037.
143	अखिल भारतीय जनादेश पार्टी	मकान सं.43, ग्राम-देल्हुआ नजदीक बेरुआरबारी, मेन रोड, सुखपुरा, बांसडीह रोड, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश-277301
144	अखिल भारतीय जनता सहारा पार्टी	7/96-97, विकास नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
145	अखिल भारतीय जनहित पार्टी	पोस्ट - साजणी, तालुक - हातकणंगले, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416115
146	अखिल भारतीय जनसत्ता पार्टी	60, चौधराना, पोस्ट- जायस, जिला- अमेठी, उत्तर प्रदेश- 229305
147	अखिल भारतीय झारखण्ड पार्टी	गांव-किनुडीह, पोस्ट-करनडीह, जमशेदपुर-831002, जिला-पूर्वी सिंहभूम,

		झारखण्ड ।
148	अखिल भारतीय कल्याण पार्टी	मो0 मिर्दहान दक्षिणी, पोस्ट- दरियाबाद, जनपद- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश- 225403
149	अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी	ग्राम-फरीदपुर, तहसील-तिगांव, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा-121101
150	अखिल भारतीय क्रांति सेना पक्ष	महाराणा प्रताप चौक में दुकान नंबर 01, ओ.पी.पी., भगत सिंह स्कूल के सामने बजाज नगर, वालुज एम.इ.डी.सी., जिला-औरंगाबाद, महाराष्ट्र- 431001
151	अखिल भारतीय लोकाधिकार पार्टी	शॉप नं0 – 9, बी विंग, भुराज ऐनक्लेव, समर्थ वाडी, मान खुर्द स्टेशन रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400088.
152	अखिल भारतीय मानवाधिकार विचार मंच पार्टी	बलिया(जिलेबियामोड़), सुलतानगंज देवघर रोड, पो0 – मंझली मटिहानी, भाया – बेलहर, जिला – बांका, बिहार।
153	अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी	मकान नंबर 820, गोपी कॉलोनी, राजा गार्डन, सेक्टर-19 के पास, सर्वोदय अस्पताल, फरीदाबाद, हरियाणा - 121002.
154	अखिल भारतीय मिथिला पार्टी	विलास राय कॉम्प्लेक्स, सीतामढ़ी रोड, एन०एच०-77, निकट एस०एस०बी० हैड क्वार्टर्स, रुसुलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार – 842004
155	अखिल भारतीय नैतिक पार्टी	मो0 कन्हईपुरवा, निकट बिलग्राम चुंगी, जनपद - हरदोई, उत्तर प्रदेश – 241001
156	अखिल भारतीय नवनिर्माण पार्टी	ग्राम- सिकटिया, पोस्ट- लंगरी, थाना- हाटा, जिला- कुशीनगर उत्तर प्रदेश- 274203
157	अखिल भारतीय परिवार पार्टी	ए-37, पाकेट-11, भूतल, जसोला जनता फ्लैट, नई दिल्ली- 110025.
158	अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिवार पार्टी	बी-19/70-4, ज्योडियाबीर, भेलूपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
159	अखिल भारतीय सर्वधर्म समाज पार्टी	72, बजरंग नगर, रोड क्र: 6, मानेवाडा रोड, पोस्ट- पार्वतीनगर, नागपुर, महाराष्ट्र- 440027
160	अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी	448/986, मल्लाही टोला-1, नागरिया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226003
161	अखिल भारतीय सवर्ण पार्टी	177/क्यू/94, एल0 आई0 सी0 सोसाइटी, शारदा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश – 208024
162	अखिल भारतीय सुधार पार्टी	मकान सं०- 2389, प्रथम तल, हडसन लेन, किंग्सवे कैप, दिल्ली - 110009
163	अखिल भारतीय स्वराज दल	मकान न० 22/178, मांझखोर रमेडी तरौस चौराहा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश ।
164	अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी	एस-7, विकासदीप बेसमेन्ट, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001 उत्तर प्रदेश ।
165	अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक (क्रांतिकारी)	वार्ड संख्या - 36, होलिंग संख्या - 711/499, रेलवे हंडर रोड, उपाध्याय लेन, पश्चिमी लोहानीपुर, कदमकुआँ, पटना, बिहार – 800003
166	अखिल राष्ट्रवादी पार्टी	मोहारवती सिसोदिया भवन, नजदीक डाक बंगला, नाद्री गेट, कासगंज, जिला एटा (उत्तर प्रदेश) ।
167	अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी	ब्लॉक-22, पहला तल, गणेश चेंबर, घंतोली, नागपुर महाराष्ट्र-440012
168	अखिल भारतीय रयथा पार्टी	नं० 127, श्रवनाबेलागुला टाउन, बैंगलुरु मेन रोड, चन्नारायापटना तालुक, जिला-हसन, कर्नाटक-573135
169	अखिल इण्डिया जनानयाका मक्कल काची (डॉ० इसाक) ।	नं० 171, कानन नगर, वींटरपेट, अराकोनम, जिला-वेलौर, तमिलनाडु ।
170	अखिल केरला त्रिणमूल पार्टी	मकान नं० 161, स्वातिनगर, इटकोट देशम, पल्लिचल विल्लेज, नेमौम पी.ओ. तिरुवनन्तपुरम केरल – 695020
171	अखिला विजया पार्टी	डी.591,5 वीं मंजिल, हबडाउन मार्केट, गीता मंदिर, बस स्टोप, अहमदाबाद, गुजरात- 380022
172	अकिला इण्डिया वल्लालार पेरावई	43, पिल्लायार कोल स्ट्रीट, वीरा रागवपुरम, चेन्नई-600 077, तमिलनाडु ।

173	अकिला इन्थिया मक्कल मरूमलार्ची कझकम	144/82, मरीअम्मन कोविल स्ट्रीट ठुवाकुदी-पोस्ट, थिरुवरुम्बुर तालुक त्रिचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु- 620015
174	अल-हिन्द पार्टी	बी-2/40, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली - 110029।
175	ऑल भारत तोजिलालर काचि	नंबर 106/1, (ओल्ड नं. 19) थीरुवल्लुवर स्ट्रीट, करप्पाचावाडि, कृष्णनकुप्पम पोस्ट, कुरिनजेपट्टी, टीके कुललनचावडु वे, कुड्डालोर जिला, निकट श्रीदुलुकनाथम्मन कोइल, तमिलनाडु- 607302.
176	ऑल इंडिया आर्य महासभा	ग्राम-नाबा-हिम्मतपुर, कृष्णापुर, पी.एस. नलहटी, पोस्ट-कृष्णापुर, जिला-बीरभूम, पश्चिम बंगाल- 731237
177	ऑल इंडिया आजाद कांग्रेस पार्टी	म0 नं0 5-9-30/सी, मेडिशन हाऊस, बशीर बाग, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
178	ऑल इंडिया बैकवर्ड पीपुल सुनामी पार्टी	1-2-53, फ्लैट नं. 302, ओडियन एन्क्लेव, दोमालागुडा, (गगनमहल), हिमायत नगर, हैदराबाद, तेलंगाना-500029
179	ऑल इंडिया बी० सी०, ओ० बी० सी० पार्टी	म० नं० 1-1-109/18, रामदास नगर, कपडा, ई.सि.आई. एल., रंगा रेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश-500062
180	ऑल इण्डिया भारती जग पार्टी	लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, ग्रेन मार्किट, मनसा- 151505, पंजाब
181	ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी	एम0-77, सेक्टर-9ए, साकेत नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश-462024
182	ऑल इंडिया डिसेबल्ड पार्टी	प्लॉट नंबर 57, भगवान श्री शेषस्थिरी नगर, मालापट्टी रोड, डॉन बॉस्को कॉलेज बैकसाइड, बालकृष्णपुरम पंचायत, डिंडीगुल, तमिलनाडु- 624003.
183	ऑल इंडिया फेडरल ब्लॉक	मलेक्कुडी, इलम्बकापिल्ली पी.ओ., कूवाप्पडी, ऐरणाकूलं जिला, केरल- 683544
184	ऑल इंडिया फार्वर्ड ब्लॉक (सुभासिस्ट)	49-एम, मोतीलाल, फर्स्ट स्ट्रीट, मदुरई-625010, (तमिलनाडु)
185	ऑल इण्डिया हिन्दुस्तान कांग्रेस पार्टी	191 सी, चन्द्रनगर ए, नौ दुकान, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान - 302012
186	ऑल इंडिया जयहिंद पार्टी	डोर नं.- 22-77, भगत सिंह नगर, छठी लेन, यानमलाकुंडरू, विजयवाडा, आन्ध्रा प्रदेश- 520007
187	ऑल इंडिया जन कांग्रेस पार्टी	ए-1बी/110ए, कृष्णा अपार्टमेन्ट, एल.आई.जी फ्लेट्स, ए-1बी, पश्चिम बिहार, दिल्ली-110063
188	ऑल इंडिया जन समस्यानिवारण पार्टी	वार्ड नं0 - 1, सु. पो. ता. - कलमेश्वर, जिला - नागपुर, महाराष्ट्र - 441501
189	ऑल इण्डिया जन आन्दोलन पार्टी	खादाले, पुदुंग बस्ती, रैली रोड, कालिम्पोंग खासमहल, पोस्ट व थाना - कालिम्पोंग, जिला - दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल - 734301
190	ऑल इंडिया जननायक मक्कल कझगम	नं.- 137, केसवा गार्डन, तीसरा ब्लॉक, डेमेलिएस रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600012
191	ऑल इंडिया जनारक्षा पार्टी	के.नं. 1403/बी.एस-17/1404/बी.एस 18, गंगाधरपुरा, डोड्डाबल्लापुरा टाउन, बेंगलोर रूरल जिला, कर्नाटक
192	ऑल इंडिया किसान जनता पार्टी	हाउस नं0 2-221, ग्राम - जयपुरम, कुदैर मंडल, अनंतपुर, जिला - आन्ध्र प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश- 515751
193	ऑल इण्डिया किसान मजदूर मोर्चा	गली गुज्जर सिंह वाली, बगदादी गेट के अंदर, फिरोजपुर सिटी, पंजाब-152002
194	ऑल इण्डिया क्रान्तिकारी कांग्रेस	184/1469, मोती लाल नगर-1, गोरेगाँव (पश्चिम), मुम्बई-400104, महाराष्ट्र।
195	ऑल इंडिया लेबर पार्टी	34/1-ए, लोवर रेन्ज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700019
196	ऑल इण्डिया लीगल राईट्स पार्टी	डी.नं.-27, न्यु नं.-8 जे, कल्याणावायनागर कोयाल स्ट्रीट, पंडियन नगर, थीरुनगर, जिला- मदुरई तमिलनाडु- 625006.

197	ऑल इण्डिया लिबरल पार्टी	प्लॉट नं० 48, विनायक मन्दिर के पास, सेक्टर-6, एम.वी.पी. कॉलोनी, विशाखापटनम-530017, आन्ध्र प्रदेश
198	ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी	डोर नं० - 9-4-135/35/ए, 9-4-135/35, प्लॉट नं० - 35, सर्वे नं० - 206, 207, 210 199, 198, 195/2, अरुणा कॉलोनी, टोलीचौकी, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500008
199	ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत	नं. 23-1-1009/13,मोगलपुरा,हैदराबाद,तेलंगाना- 500002
200	ऑल इण्डिया मजलूम अधिकार पार्टी	ग्राम-दुर्गापुर (ताजपुर फतेहपुर), पी.ओ.-जयनगर माजिलपुर,थाना-जयनगर, जिला-दक्षिण 24 परगना,पिन-743337,पश्चिम बंगाल
201	ऑल इंडिया मक्कल नलवालवु कॉची	नं. 2/259, ओन्दीबदानायकनपट्टी, पलकानुथू पोस्ट, डिंडीगुल जिला, तमिलनाडु- 624619
202	ऑल इंडिया मक्कल राज्य कझगम	प्लाट नंबर 6-7,शेख मोहम्मद नगर,अलुंदुर,श्रीरंगम-तालुक,जिला-तिरुचिरापल्ली,तमिल नाडु-620012
203	ऑल इंडिया मानवाधिकार राजनैतिक दल	ग्राम व पोस्ट - राजापुर, थाना - चोलापुर, तहसील व जिला - बाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221101 ।
204	ऑल इण्डिया मांची पार्टी	फ्लैट नं० एफ-5, साई अपार्टमेंट, काटूरु रोड, वुय्युरु, जिला-कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश ।
205	ऑल इंडिया मजदूर पार्टी (रंगरेटा)	मकान नं० - 2453, बाग वाला खूह, जण्डियाला गुरु, जिला - अमृतसर, पंजाब
206	ऑल इंडिया एम.जी.आर. मक्कल मुन्नेत्र कझगम	फ्लैट नं.- ए-4, श्रीनिवास आर्केड, नं.- 1/2, अरुणाचलम रोड, चेन्नई, तमिलनाडु- 600093
207	ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फ्रंट	148, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001
208	ऑल इंडिया मूवेन्दार मुन्नानी कझगम	लेक एरिया, मेलुर रोड, मदुरई-625107, (तमिलनाडु)
209	ऑल इंडिया नैशनल रक्षा सेना	फ्लैट नं.503,पाँचना फ्लोर,सामानिस पार्क वियू,साईदाबाद,सरूरनगर,हैदराबाद
210	ऑल इंडिया न्याय पक्ष	मकान संख्या - 1106,सेक्टर-16-17,जिला - हिसार,हरियाणा- 125001
211	ऑल इंडिया पसुम्प्र मुननेत्र कझगम	47बी/2, सोर्गावासल स्ट्रीट, सी.एन.ग्रामन, जिला - तिरुनेलवेली, तमिलनाडु - 627001
212	ऑल इंडिया पट्टाली मुनेत्र कॉची	नं० - 90, गांधी रोड, कल्लाकुरुची, विल्लुपुरम - जिला, तमिलनाडु- 606202
213	ऑल इंडिया पीपल डेवलेपमेंट पार्टी	डी नं.-1/119 बी, नार्थ स्ट्रीट, अनैकुत्तम(पोस्ट) थिरुथंगल, शिवकासी, जिला-विरुधूनगर, तमिलनाडु- 626130.
214	आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल)	बी. पी.-18, 40-फीटरोड, पटेल नगर, मुगल सराय, चन्दौली, उत्तर प्रदेश ।
215	ऑल इण्डिया पिछड़ा जन समाज पार्टी	475/15 क, कदम रसूल, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
216	ऑल इंडिया प्रजा पार्टी	मकान नं.- 5-1-240, द्वितीय तल, जामबाग, स्ट्रीट नं.- 17, फ्लावर मार्केट के समीप, हैदराबाद, तेलंगाना- 500095
217	आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम	डी. नं. 33, कल्लादासन मेन रोड, पहली मंजिल, एस.एस.कॉलोनी, मदुरै, तमिल नाडु-625010
218	ऑल इण्डिया रविदास समता पार्टी	भगवत सिंह भवन सं०-10, सेक्टर-11, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
219	ऑल इंडिया समता पार्टी	मकान नं. 23-8/3, मिलीनियम टाउनशिप शादनगर, रंगा रेड्डी जिला, फरक्कोनगर मंडल, तेलंगाना स्टेट- 509216
220	ऑल इंडिया समुथुवा मक्कल काञ्ची	2, कल्याणी नगर, कट्टीवक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।
221	ऑल इंडिया सत्याज्योति पार्टी	ओंगाराकुडिल, 19, एक्सटेंशन, तुरैयूर, तिरुचि जिला, तमिलनाडु - 621010.
222	ऑल इंडिया सेक्यूलर फ्रंट	फुरफुरा,पोस्ट- फुरफुरा,थाना-जंगीपाड़ा,जिला-हुगली पश्चिम बंगाल- 712 706

223	ऑल इंडिया शिरोमणि बाबा जीवन सिंह मजहबी दल	गाँव और पो. ऑ. मजीठा, अमृतसर, (पंजाब)।
224	ऑल इंडिया तफसीली यूनाइटेड पार्टी	गाँव-सिमुलपुर, पो- ठाकुर नगर, जिला-24 परगना (एन), (पश्चिम बंगाल)।
225	ऑल इंडिया उलेमा कांग्रेस	नं0 20-24, जफाराबाद ग्राम, गुलबर्गा तालुक, जिला - गुलबर्गा, कर्नाटक
226	ऑल इंडिया उझावरगल उझाईप्पलरगल काची	द्वार नं0-55, प्रथम तल, सिनावर गली, तिरुप्पचुर -635601, तमिलनाडु।
227	ऑल इंडिया वीमेन डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी	नं0-36, गणेश नगर, नियर अम्बेडकर नगर बस स्टॉप, 200 फ्रीट रोड, कोलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600099
228	ऑल इंडिया वीमेन यूनाइटेड पार्टी	कमरा नं0 - 1, चौथी मंजिल, ए-117, शुबराती अपार्टमेंट, ओखला गाँव, जामिया नगर, नई दिल्ली - 110025
229	ऑल इंडिया यूथ डेवलपमेन्ट पार्टी	4/286, कालीपुरम वट्टम, वेला कुट्टई ग्राम, वनियाम्बाडी- तालुक, जिला- वेल्लोर तमिलनाडु- 635752
230	ऑल इंडियन राजीव कांग्रेस पार्टी	41/238, आलापुर हाऊस, राधाकृष्ण मंदिर लेन, नरही, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
231	ऑल इंडियन रिपब्लिकन पार्टी	शॉप नं. 4, स्ट्रीट नं. 33, प्लॉट नं. 2814, मौजा भानापेठ, एम.जी.रोड, तहसील व जिला- चंद्रापुर, महाराष्ट्र- 442401
232	ऑल इंडियन्स पार्टी	डोर नं. 30-3-11, असम गार्डन्स, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश- 530020
233	ऑल जे एण्ड के किसान मजदूर पार्टी	स्टेण्डर्ड होटल, शहीद चौक, जम्मू, जम्मू और कश्मीर।
234	आल जम्मू एण्ड कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी	एम. पी. गली, राजबाग, श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर।
235	ऑल जम्मू एण्ड कश्मीर रिपब्लिकन पार्टी	1464, मौहल्ला ख्वाजा बाजार, पावर स्टेशन के पास, अनन्तनाग, पिन कोड - 192101, जम्मू एण्ड कश्मीर।
236	ऑल पेंशनर्स पार्टी	नं0-12डी पावोडुम तोप्पू, नेल्लूरपेट, गुडियात्तम, वेल्लूर जिला, तमिलनाडु
237	ऑल पीपुल्स पार्टी	डोर नं0 1-138, पल्लेगुन्टा गांव व पोस्ट, गुराजाला रुरल मण्डल, जिला - गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश।
238	एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी	फ्लैट नं0 106, साई श्री टॉवर्स, 3-6-429/106, स्ट्रीट सं0 4, हिमायतनगर, हैदराबाद - 500029.
239	एलाइड मिलेनियल्स पार्टी ऑफ इंडिया	एटी-51, तीसरी स्ट्रीट, अन्नाई थेरेसा नगर, मदिपक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600091
240	आल-इन-वन पार्टी	प्लॉट नं0 - 4, ग्राम - साधूपुर, डी0 डी0 पुरम् कालोनी, पोस्ट - कमलाबाद बढौली, रैथा रोड, निकट नशा मुक्ति केंद्र, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226201.
241	अमन और शांति तहरीक-ई-जम्मू और कश्मीर	जेके-ई-खडमात मरकज, के.पी.चौक, खन्नावल, अनन्तनाग, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के पास, जम्मू और कश्मीर- 192101
242	अमन पार्टी ऑफ इण्डिया	83, सुशीला विहार फेस - प्रथम, वार्ड नं.- 2, भूड, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।
243	अमन समाज पार्टी	बी-1452, गली नं0-4, विजय पार्क, दिल्ली-110053
244	अम्बेडकर बहुजना समथा पार्टी	08-7, तिम्माजीपेट (ग्राम व मंडल), नागरकुर्नूल, तेलंगाना - 503001
245	अम्बेडकर जनता पार्टी	सं0 57/1 सविमाना इंटरप्राइजेज, भद्रप्पा लेआउट, कोदिगेहल्ली नगरेत्यहल्ली मेन रोड बैंगलोर- 560092, कर्नाटक।
246	अम्बेडकर नेशनल काँग्रेस	8-3-323 अमृतपेट, क्रास रोड, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
247	अम्बेडकर पीपुल्स मूवमेंट	39, सरावना स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017. (तमिलनाडु)।
248	अम्बेडकर पॉलिटिकल पार्टी	डी. नंबर 321/1 एस, एस मीनाक्षीपुरम, सोवदार्पति (पी.ओ.), थिरुमंगलम (टी.के.), मदुरई (डी.टी.), तमिलनाडु-625704.
249	अम्बेडकर समाज विकास पार्टी	मकान नं.- 49, मुहल्ला- तिलक नगर, युमना नगर, तहसील- जगाधरी, जिला-

		युमना नगर, हरियाणा- 135003
250	अम्बेडकर सेना पार्टी	ग्राम-कबरी, रविदास मंदिर के पास, तहसील व जिला-पानीपत, हरियाणा- 132013
251	अम्बेडकर विकास पार्टी	गांव-रोहता, इंदिरा आवास कॉलोनी, थाना-सदर बाजार, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282009
252	अम्बेडकर युग पार्टी	240/71 एफ/3, स्टैनली रोड, कमला नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
253	अम्बेडकरवादी पार्टी	136/1, डायमंड हारबर रोड, कोलकत्ता-700063. (पश्चिम बंगाल)।
254	अम्बेडकरिस्ट रिपब्लिकन पार्टी	राष्ट्रभाषा प्रचार समिती के पीछे, वर्धा - 442001, जिला-वर्धा, महाराष्ट्र।
255	आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया	ए.पी.आई., सेंट्रल सेक्रेटेरियट, प्लॉट नं.1672, नियर बुद्धा विहार, नारा रोड, इंदारा (वारपखड), नागपूर-440014, महाराष्ट्र
256	अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम	नया नं.-15, पुराना नं.8, ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट कोट रोड, रोयापेट्टाह, चेन्नई- 600014, तमिलनाडु
257	आमरा बंगाली	नं० 2, बल्लव स्ट्रीट, कोलकत्ता-700004, (पश्चिम बंगाल)।
258	अनाईथिंडिया समुदया मुन्नेत्र कजगम	नं० 7/13, पूर्व माडा स्ट्रीट, थिरुवथीपुरम व पोस्ट चेर्यर तालुक - 604 407, थिरुवनमाला, जिला-तमिल नाडु।
259	अनैथिन्डिया उजैक्कुम पटैप्पाली वाज्जुरिमै कच्ची	नंबर 1, रेगुनाथपुरम ईस्ट स्ट्रीट, देवकोट्टई, शिवगंगई जिला, तमिलनाडु-630302
260	अनैतीन्डीया समुदाय मक्कल काची	80, कूलढाई वेलन लेन, मेन रोड, डिंडिगुल, तमिल नाडु - 624001
261	अनैथिनथिया अन्ना द्रविडा मक्कल सेयल काचि	15/28, पिल्लानल्लूर पुडूर, गुरुसामि पलायम पोस्ट, वेटेरिनरी हॉस्पिटल, गुरु सामि पलायम पोस्ट, रासीपूरम टीके, नामक्कल जिला, तमिलनाडु -637403
262	अनैथिन्थितया तामिझागा मुन्नेत्र कडगम	10/2, नलवर नगर, कलवीरामपालायम, भारतीयार, यूनिवर्सिटी (पोस्ट), कोयम्बटूर- 641048 (तमिलनाडु)।
263	अनैतु इंडिया मक्कल कांची	176/9, 37डी, तालुक ऑफिस रोड, पुलिस क्वार्टर के पीछे, होसर, कृष्णागिरी- जिला, तमिलनाडु- 635109
264	अनैथु मक्कल अरासियल काची	नम्बर 1/111, ईस्ट कोस्ट रोड, इन्जावक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600115
265	अनिथु मक्कल काची	नं. 44, दूसरा तल, नारायणसामी स्ट्रीट, पुलियानतोप, पेरम्बूर बेरेक्स के पास, चेन्नई, तमिलनाडु- 600012
266	अनाईथू मक्कल मुन्नेत्र कडगम	डी नं०- 199/416 (आर०एस०नं० 177-1बी), प्रथम तल, आरकोट रोड, वडापझानी, चेन्नई-600026, तमिलनाडु।
267	अनैथु मक्कल पुराची कांची	नं.268, अमन कोईल स्ट्रीट, आलडी पोस्ट- विरूथाचलम्, (टीके) कडलूर (डीटी), तमिलनाडु- 606115
268	अनैतु मरुथुवार मक्कल मुन्नेत्र कडगम	136/डी 3, अन्नाई आराधना अष्टलक्ष्मी नगर, गुदलूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु, पिन कोड-603204
269	अनाइथू उलागा तमिलारगल मुन्नेत्रा कलगम	नं.17, एजहिल नगर, पेरुमालपुरम, पालयमकोट्टई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु- 627007
270	अनैतुमक्कल नीति कांची	डी० नं० 11, भूतल, 8वीं स्ट्रीट एक्सटेंशन, अर्हिंसापुरम, सेलुर, मदुरै, तमिलनाडु - 625002
271	अनारक्षित समाज पार्टी	मकान नं० - 371, प्रथम तल, मोहल्ला - सधवाडा, कायमगंज, जिला - फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश।
272	अन्बू उदयम कच्ची	12/11, सुभाष ईलम, तेनी - गुडलूर - 625518, तमिलनाडु
273	अण्डमान एंड निकोबार जनता पार्टी	गाराचरमा गाँव, टीटीआई रोड, तहसील - पोर्ट ब्लेयर, जिला - दक्षिण अण्डमान,

		अण्डमान एंड निकोबार द्वीपसमूह -744103 ।
274	अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस	गांव और पीओ – रामकृष्णपुर, लिटिल अंडमान, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह - 744207
275	आन्ध्र चैतन्य पार्टी	डोर नं. 12-20-3, गुडू स्ट्रीट, भीमुनिपटनम्, विशाखापटनम् जिला, आन्ध्र प्रदेश- 531163
276	आन्ध्र प्रदेश राष्ट्र समैक्या समिति पार्टी	मकान नं० 11-8-118/2 (ओल्ड), 11-8-99/84 (न्यू), नरसिम्हापुरी कॉलोनी, अष्टालक्ष्मी एच वाई डी – विजयवाडा हाईवे, हैदराबाद – 500035, आन्ध्र प्रदेश ।
277	आंध्र पेंशनर्स पार्टी	म.न.8-6-666, प्लॉच नं. 64बी, श्री बालाजी नगर, बी.नं.रेड्डी नगर के पास, वनस्थलीपुरम्, हैदराबाद, तेलंगाना-500070
278	आन्ध्र प्रदेश राष्ट्र समिति	डोर नं. 15-8-158/बी, जाकिर हुसैन नगर, 3 लैन, नंदिवेलुगु रोड, ओल्ड गुंटूर, गुंटूर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 522001
279	आन्ध्र राष्ट्र प्रजा समिति	ए. सी. स्टेडियम के पीछे, कोनेयापालेम गेट, दरगामित्ता, नेल्लोर – 524001. आन्ध्र प्रदेश ।
280	अंगिका समाज पार्टी	आनन्द आश्रय, पोस्ट ऑफिस- पुराना जूट मिल, शरीफगंज, वार्ड नं. 42, जिला- कटिहार, बिहार-854105
281	अन्जान आदमी पार्टी	भवन सं. 391/117ए/1, राधा नगर कालोनी, फुलवरिया रोड, दारागंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
282	अंजुमन पार्टी	मकान नं. 95, निजातपुरा, नजर अली मार्ग, कोतवाली रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश- 456006.
283	अन्ना डेमोक्रेटिक हूमन राइट्स मूवमेंट पार्टी ऑफ इंडिया	अमल भवन, शिक्कासमंगल, कोट्टारकाश पीओ, कोल्लम, केरल- 691506.
284	अन्ना द्राविड कझगम	8/1, कटचोरि रोड, तिरुतुरैपण्डि, जिला- तिरुवारूर, तमिलनाडु- 614713
285	अन्ना एम.जी.आर. जयललिता द्रविड मुन्नेत्र कझगम	1/213, थिरुसक्तिमुत्रम्, कीलावीथी, पटेश्वरम्, कुम्भकोणम् तालुक, तंजावुर जिला, साउथ इंडिया, तमिलनाडु – 612703
286	अन्ना मक्कल इयक्कम	नंबर 660, आर.के.जे.वल्लीवेलन नगर, पम्माथुकुलम्, पोत्तुर ग्राम, अम्बातूर तालुका, चेन्नई, तमिलनाडु-600052
287	अन्ना मक्कल काचि	20सी, रेलवे स्टेशन रोड, चिन्नासलेम विलूपूरम्, तमिल नाडू-606201
288	अन्ना एमजीआर द्रविडा मक्कल कलगम	नं.150, 3rd क्रॉस स्ट्रीट, अलवरथिरुनगर, श्रीलक्ष्मी नगर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600087
289	अन्ना एमजीआर द्रविड मुन्नेत्र कझगम	मकान नं० – 176, वार्ड नं० – 5, ईस्ट स्ट्रीट, पलोडाई कॉलोनी, अन्नाईमलाईयान्पट्टी, उत्थमापलायम् – तालुक, थेनी – जिला तमिलनाडु - 625526
290	अन्ना पुरुचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषगम	नं. 1/424, थोतट्टू पाल्यम्, लक्ष्मी नगर, पुलुवापट्टी (पोस्ट), तिरुपुर, तमिलनाडु, तमिलनाडु- 641602.
291	अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी	द्वार नं० 7/2-2, चीलकलाबावी स्ट्रीट, कडपा, आन्ध्र प्रदेश- 516001
292	अन्नदाता पार्टी	ग्राम- बघला, पोस्ट- दुबहा (वाया- जसरा), थाना- लालापुर, तहसील- बारा, जिला- प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 212107
293	अन्न तमिलगा राइजिंग कझगम	223, जीएसटी रोड, क्रोमपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600044
294	अन्नदाता कारीगर पार्टी	गनियारी बैढन, जिला- सिंगरौली, मध्य प्रदेश- 486886
295	एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी	प्लॉट नं. 52, गणेश नगर, वेपामुपट्टु- गांव, थिरुवेल्लार, तमिलनाडु- 602024

296	अपना दल बलिहारी पार्टी	ग्राम- महाखरपुर, पोस्ट- रघवापुर, तहसील- हरेया, जनपद- बस्ती, उत्तर प्रदेश- 272155
297	अपना अधिकार पार्टी	मसीहा ड्रग हाऊस, लाईन बाजार, पूर्णियाँ, बिहार।
298	अपना भारत विकास पार्टी	ग्राम - काशीपुर (मिश्रा नेवरी), जिला - बलिया, उत्तर प्रदेश - 277001.
299	अपना भारतीय सनातन पार्टी	जय शेष मार्केट, ग्राम-किरतारतारा, पोस्ट-बिरशाहपुर, जिला-मिर्जापुर उत्तर प्रदेश- 231001
300	अपना दल	1/2 ए. पी. सेन रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
301	अपना दल (कमेरावादी)	126/17 बी.बी.एन. रोड, लालबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
302	अपना दल युनाईटेड पार्टी	ग्राम-सिसवाँ, पो0-कसया, थाना-कसया, जिला-कुशीनगर, उत्तरप्रदेश - 274402
303	अपना देश पार्टी	मकान नं० - 457, मेजरगंज, जिला - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश।
304	अपना हक पार्टी	म.नं.-244, विधायक विजय यादव आवास, वार्ड नं.- 1, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244601
305	अपना किसान पार्टी	अमला टोला, वार्ड नं.- 30, होटल जय, न्यू मार्केट, कटिहार, बिहार- 854105
306	अपना राज फ्रंट	मकान नं. 1096, सेक्टर-7, बहादुरगढ़, हरियाणा।
307	अपना समाज पार्टी	एससीएफ-49, फेस 3बी2, मोहाली, पंजाब- 160059
308	अपना संघर्ष किसानी एकता पार्टी	2379/2, कृष्णा नगर, आरती बैंक, निकट अमन हॉस्पिटल, सूपर एक्सप्रेस वाली गली, लुधियाना, पंजाब -141001
309	अपनी एकता पार्टी	पुरानी तहसील परिसर के पास, झालूर रोड, ग्राम-शेरपुर, तहसील-धूरी, जिला- संगरूर, पंजाब - 148025
310	अपनी जनता पार्टी	735/4, (1286/60), गली नं० 13, सिद्धार्थ पुरम (चौहान पुरी), नई बस्ती, लल्लापुरा, जिला-मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002
311	अपनी जनतांत्रिक पार्टी	मकान नं० 234-के, संकट मोचन भवन, ग्राम व पोस्ट-अमरपुर औन, जिला- उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209827
312	अपनी पार्टी (सेक्यूलर)	ग्राम- उँची दनकौर, टाउन- दनकौर, जिला- गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 203201
313	अपनी पार्टी इंडिया	एफ-4/149, द्वितीय तल, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली- 110089
314	अपनी प्रजाहित पार्टी	प्लॉट नं 12, दिन प्रजाहित कॉलोनी, ऑपोजिट श्री कॉम्प्लेक्स, नरेंद्र नगर, विवेकानंद नगर, नागपुर, महाराष्ट्र-440015
315	अपनी जिन्दगी अपना दल	ए-119, भूतल, निकट एंजल मेगा मॉल, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201010
316	अप्पाअम्मा मक्कल कझकम	3/59, मारियम्मन कोविल स्ट्रीट, पोस्ट - अम्मापाल्यम्, तालुक व जिला - पेराम्बलूर, तमिलनाडु - 621101
317	एरावोर मन्नेत्र कडगम	डी.नं.0 663, आगराबरम, राजालिपट्टी पोस्ट, थिआगासर अलै वाया, वीरालीमलई यूनियन, पुडुक्कोट्टाई जनपद तमिलनाडु-621312
318	अर्जक अधिकार दल	नं.128/169/26-ए, ब्लॉक-के, किदवई नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208011
319	अर्जुन भारत नेशनल पार्टी	जी-2, 1-फ्लॉर, प्लॉट नं०-216, हस्तिनापुर, विस्तार, पांच्यावाला, जयपुर, राजस्थान-302034
320	अरूणाचल काँग्रेस	जी-एक्सटेंशन, नहरलागुन (अरूणाचल प्रदेश)
321	अरूणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी	एल.आर.बी. 09233/94 दि.टी-30/03/1995, ई-सेक्टर, पीओ/पीएस-ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा, जिला-पापुम पारे अरूणाचल प्रदेश-

		791111
322	आर्य दल	सेन्ट्रल कैम्प ऑफिस – 775, शान्ति कॉलोनी, इटावा, उत्तर प्रदेश ।
323	आर्यावर्त पार्टी	ग्राम व पोस्ट- बरसैना, थाना – अहिरौली, जनपद – कुशीनगर, उत्तर प्रदेश – 274207
324	असंख्य समाज पार्टी	ए-490, गली नम्बर-22, श्याम कालोनी, बुद्ध विहार फेस-2, दिल्ली-110086.
325	असली भारत पार्टी	सी-48, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली- 110049
326	असली देशी पार्टी	शॉप नं.10, प्रथम तल, बी-ब्लॉक, सेन्ट्रल मार्केट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली- 110095
327	असम जन मोर्चा	वार्ड नं. 25, ग्राम- आजाद नगर, पोस्ट ऑफिस- छोटहयवर, मोजा- निज सहर, थाना व जिला- नगाँओ, असम- 782002.
328	असम संग्रामी मंच(असम)	म.न.5 ए, राजगढ़ बाई लेन न. 4, गुवाहाटी, असम-781003
329	असम दृष्टि पार्टी	दूम दूमा, पथर गांव, पोस्ट ऑफिस- हंसारा, जिला- तिनसुकिया, असम- 786790.
330	असम जातिय परिषद्	मकान नं. 33 की पहली मंजिल, लैंब रोड, उज्जान बाजार, गुवाहाटी, पी.एस. लतासिल, पी.ओ. - उज्जान बाजार, जिला - कामरूप (M), असम - 781001.
331	अटल जनशक्ति पार्टी	ग्राम- यरता, पोस्ट- सिकन्दरपुर, तहसील- हरैया, जनपद- बस्ती, उत्तर प्रदेश- 272190
332	अतुल्य भारत पार्टी	91, पीली कोठी, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के पास, हरि नगर, नई दिल्ली – 110064.
333	अतुल्य भारत सर्व समाज पार्टी	ग्राम-खरैला, पोस्ट-सराय पलटू, ब्लॉक-ठेकमा, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश- 276302
334	ऑटोनोमस स्टेट डिमान्ड कमेटी	रोंगनीहंग, डिफू-782460, कारबी अंगलॉग (असम) ।
335	अविरत नेशनल सेवा पार्टी	24, श्री लक्ष्मी निवास, प्रथम ब्लॉक, द्वितीय क्रॉस, अक्षय नगर, बैंगलोर, कर्नाटक – 560016.
336	अवामी आमजन पार्टी	न्यू आदर्श नगर, आशापूर्णा कॉलोनी, जालोर, जिला – जालोर, राजस्थान ।
337	अवामी पार्टी	ई-11/77, न्यू कॉलोनी, हौजरानी, मालवीय नगर, नई दिल्ली –110017.
338	आवामी समता पार्टी	भवन संख्या – 631/135, पानी गांव, सेक्टर – 9, पोस्ट – इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226016
339	अवामी विकास पार्टी	606/607, जफरीन चेंबर्स, शिवडी रेलवे स्टेशन के सामने, शिवडी (ईस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र – 400015
340	अयया मुन्नेटरा काजगम	डोर नं.180/128, थिरुगनानासम्बंदर रोड, रोसकोर्स, कोयम्बटोर तमिलनाडु- 641018
341	आजाद अधिकार सेना	5/426, विक्रम खंड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
342	आजाद भारत कांग्रेस	218, द्वितीय तल, एल.एस.सी. मार्केट, ब्लॉक-ए, सम्राट इन्कलेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
343	आजाद भारत पार्टी (नेशनल)	गांव- 50 कुटिया रामपुर, परगना एवं तहसील- नरवाल, जिला- कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 209401
344	आजाद भारत पार्टी (यूनाईटेड)	डी-59/14ए/-1/ए, शिवपुरवा, रथयात्रा रोड, महमूरगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221010
345	आजाद जनता पार्टी	208, डिल्लन काम्पलैक्स, आकाशगंगा सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

346	आजाद क्रांति पार्टी	मकान नं. 559, ब्लॉक- जी, स्कीम नं. 40, पनकी, गंगागंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208020
347	आजाद मजदूर किसान पार्टी	डी-4, प्रेम नगर-पपपए शनि बाजार रोड, किरारी नहर, नांगलोई, नई दिल्ली - 110086.
348	आजाद पार्टी	खनुहट, विकासखंड- मोतिगरपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश- 228132
349	आजाद समाज पार्टी	ग्राम- मण्डूसरा बुजुर्ग, पो.- फतेहपुर, थाना- रानीपुर, जनपद- मऊ, उत्तर प्रदेश- 276402।
350	आजाद शिवालिक भारत पार्टी	यूपी महल, गांव डांगोली, खेवत नंबर-58, खतौनी नंबर-218, खसरा नंबर - 109, तहसील ऊना, जिला-ऊना, हिमाचल प्रदेश- 174303
351	अज़गु तमिल देसियम	टीआई, तीसरी मंजिल, लैंड मार्वल अपार्टमेंट 30, सदायप्पन स्ट्रीट, मंदावेली, चेन्नई तमिलनाडु - 600028
352	बी० सी० भारथा देशम् पार्टी	मकान नं० 12-13-426, गली नं० 1, तरनाका, हैदराबाद-500017 आन्ध्र प्रदेश ।
353	बी० सी० यूनाइटेड फ्रन्ट	15, सप्तगिरि नगर, रेठी बोवली, हैदराबाद-500028, आन्ध्र प्रदेश ।
354	बैकवर्ड क्लासेज डेमोक्रेटिक पार्टी, जे० एण्ड के० (बी डी पी)	पीर बाग कॉलोनी, आर्मी गेट के पीछे, सुंजवान रोड, जम्मू, जम्मू और कश्मीर- 180 004.
355	बडावारा श्रमिकारा रैतारा कांग्रेस पार्टी	1/ए, पारवथी नगर मेन रोड, बेल्लारी-583103, कर्नाटक ।
356	बहादुर आदमी पार्टी	एस-11/37-38ए, चौकाघाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221002
357	बहादुर इन्सान नागरिक दल	खाता न० 678, ग्राम टेमा जेड, शेरपुर, पोस्ट गौरा, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश- 221404
358	बहुजन आन्दोलन पार्टी	शाहजीपुरा, सराजतरीन संभल, प्रथमा बैंक के पास, जिला-संभल, उत्तर प्रदेश- 244302.
359	बहुजन अवाम पार्टी	मकान सं० - 52/42/ए/2, एडमास्टन रोड, ताशकन्द मार्ग, सिविल लाईन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
360	बहुजन आजाद पार्टी	ग्राम- सग्राम फंडा, पोस्ट ऑफिस व थाना- रिगा, जिला- सीतामढ़ी, बिहार- 843327
361	बहुजन बल पार्टी	डी० एस० - 50/जी-II, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
362	बहुजन भारत पार्टी	वत्सलाबाई मोहन कांबले, धारावी कुम्भरवाडा, 90 फुट रोड, वी.ओ.सी., मुंबई सिटी महाराष्ट्र- 400017
363	बहुजन चेतना विकास मोर्चा	म.न. सी-8, कचनार सिटी, तहसील-जबलपुर, जिला-जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482001
364	बहुजन द्रविड पार्टी	मकान नं० 6659, ब्लॉक नं० 9, देव नगर, कारोल बाघ, नई दिल्ली- 110005
365	बहुजन गोंडवाना पार्टी	वार्ड नं. 8, राम जानकी मंदिर के पीछे, बुरहर, जिला- शहडोल, मध्य प्रदेश- 484110
366	बहुजन हसरत पार्टी	ग्राम- खरुवान्वा, पोस्ट- कुंवर पुर, तहसील- मछलीशहर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222202
367	बहुजन जनता दल (खोडावल)	सी-170, सेक्टर-1, शताब्दी नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250103.
368	बहुजन क्रान्ति पार्टी (मार्क्सवाद-अम्बेडकरवाद)	ग्राम-धन्सुआ, पो० -सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश 209601
369	बहुजन लोक दल	नादरागंज रामसागर रोड, मस्जिद गली (बडी दाहा), गया, बिहार- 823001

370	बहुजन लोकराज्य पार्टी	मैत्र निवास, तेमभुरनी रोड, कुरदुवारी ताल - मधा, जि. सोलापूर, महाराष्ट्र-413208.
371	बहुजन महा पार्टी	बी-245, गली नं. 2, मण्डावली, फजलपुर, निकट सद्भावना अपार्टमेंट, मदर डेयरी के पीछे, दिल्ली-110092।
372	बहुजन मजदूर पार्टी	खसरा नं. 249, ग्राम- सिकारी, तहसील- टूंडला, थाना- पचोखरा, जनपद/जिला- फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश- 283204
373	बहुजन मुक्ति पार्टी	फ्लैट नं० -14, आशा पुष्प विहार, सहकारी आवास समिति, सेक्टर-14, कौशाम्बी, गजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
374	बहुजन नेशनल पार्टी (अम्बेडकर)	आर.जेड-35 (तृतीय तल), सीता पूरी, पंखा रोड, निकट डाबरी मोड मेट्रो स्टेशन गेट नं.3, नई दिल्ली-110045
375	बहुजन न्याय दल	596/1, न्यू पहाडपुर, पुलिस कालोनी, थाना- गर्दनीबाग, पोस्ट- अनिसाबाद, जिला- पटना, बिहार-800002
376	बहुजन पार्टी	125/98, न्यू एल0 आई0 जी0, बर्रा-7, कानपुर-208027 उत्तर प्रदेश।
377	बहुजन रयत पार्टी	198क-ई, दत्त हौ, सोसा राबाडे कॉलोनी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416001
378	बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच	हरदास नगर, कामठी, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र
379	बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी	4/17, बी.डी.डी, वर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र- 400018
380	बहुजन सदान मोर्चा	इसरी बाजार, पो0-इसरी बाजार, जिला-गिरिडिह, झारखण्ड-825107.
381	बहुजन समाज पार्टी (अम्बेडकर)	म.सं.-B-33/103, मोहल्ला-शहरियान, कपूरथला, पंजाब
382	बहुजन समाज पार्टी (अम्बेडकर-फुलै)	म०न० बी-25, सन्ध्या वेनस अपार्टमेंट, एस. पी. नगर, मोउला-अली, हैदराबाद, आन्ध्रा प्रदेश।
383	बहुजन समाज विकास पार्टी	20-बी.डी. एस. कमर्शियल मार्केट, ग्रा०-सदरपुर, सेक्टर-45, पो० ऑफिस अरूण विहार, सेक्टर-37, नोएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
384	बहुजन समाजवादी पार्टी (बाबा साहेब)	53-54, प्रथम तल, कमर्शियल कॉम्प्लैक्स, साऊथ पटेल नगर, मेट्रो पिलर नं० 190 के सामने, नई दिल्ली -110008.
385	बहुजन सम्यक पार्टी (मिशन)	83क/1, रिठौरा, बरेली, उत्तर प्रदेश- 243122
386	बहुजन संघर्ष दल	पडाव पुलिस स्टेशन के सामने लक्ष्मणपुरा, पोस्ट ऑफिस-लशकर, (ग्वालियर) मध्य प्रदेश।
387	बहुजन संघर्ष पार्टी (कांशीराम)	बहुजन भवन, खब्बाशपुर, पोस्ट-मलिकपुर, जिला - रोपड, पंजाब।
388	बहुजन सेना	124ए/जी-1, सेक्टर- 6, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201012
389	बहुजन सेवा पार्टी	899, फूलबाग कॉलोनी, कुर्सी रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226021
390	बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी	डी.डी.ए. दुकान नंबर-16, प्रथम तल, सी.एस.सी.नं० बी.सेक्टर-5, रोहिणी दिल्ली-110082
391	बहुजन सुरक्षा दल	1/7, जी. एच. बोर्ड, हरदासनगर, ओल्ड बापूनगर, अहमदाबाद-380024, गुजरात।
392	बहुजन उत्थान पार्टी (जी)	ग्राम- लोनापुर, मजरा-विलाई खेड़ा, निकट पूर्व माध्यमिक विद्यालय लोनापुर, पोस्ट- लौलाई, तहसील/परगना - सदर, जनपद- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226028
393	बहुजन विजय पार्टी	98/5, पोस्ट ऑफिस गली, ग्राम- खुटभार, पोस्ट व तहसील- खजनी, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273212
394	बहुजन विकास अघाडी	ए-301, आरती अपार्टमेंट, वरतक रोड, विरार (पश्चिम) तालुक-वसाई, जिला- थाणे, महाराष्ट्र-401303.

395	बहुजना देशम पार्टी	डोर नं. 4/32, गद्दामीदा हरिजना बाडा, सिंगारेड्डी पल्ली, पेनागलुर मंडल, वाई.एस.आर., कडप्पा जिला, आन्ध्र प्रदेश- 516127
396	बहुजन लेफ्ट पार्टी	मकान नं. 6-73, एससी बाडा, पेड्डालिंगापुर गांव, मंडल इल्लंथाकुन्ता, जिला- राजन्ना सिर्सिल्ला, तेलंगाना स्टेट- 505405
397	बहुजना राज्यम पार्टी (फुले अंबेडकर)	मकान नं.- 4-33-163, वेंकटेश्वरा नगर, कुकटपल्ली, पाईप लाइन जगतगिरीगुट्टा, बालानगर मंडल, जिला- मेडचल, हैदराबाद, तेलंगाना- 500037
398	बहुजना राज्याधिकारा पार्टी	मकान नं0 8-1-77/9/बी, टीचर्स कॉलोनी, जिला महबुबनगर, तेलंगाना- 509001
399	बहुजन राष्ट्र समिति	प्लॉट नं0 – 34/2, ललितानगर, वेस्ट मारेडपल्ली, सिकंदराबाद, तेलंगाना – 500026
400	बज्जिकांचल विकास पार्टी	सहजानंद नगर, भगवानपुर, एन.एच.-28, मुजफ्फरपुर-842002, बिहार।
401	बलीराजा पार्टी	प्लॉट नं. 1, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पृथ्वीराज नगर, बेलतरोडी रोड, नागपुर, महाराष्ट्र-440034
402	बंचित स्वराज पार्टी	सं0 117, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर रोड, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन- नलहाटी, जिला- वीरभूमि- 737220, पश्चिम बंगाल।
403	बंग भारत पार्टी	ग्राम घनश्यामपुर, पोस्ट-पुरंदरपुर, थाना-कांदी, जिला-मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल- 742140
404	बंगाली नवनिर्माण सेना	सी/ओ सुप्रिया दास, चेंगकुरी रोड, ईस्टर्न बाइलेन, पोस्ट- अम्बकापट्टी, थाना- सिलचर सदर, जिला-कछार, असम- 788004.
405	बंगला बिकाशवादी कांग्रेस	युसुफगंज, अफाक नगर, गोलघर-चबूतरा हाऊस के पास, पोस्ट व थाना - इस्लामपुर, जिला - उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल - 733202
406	बेगलुरु नव निर्माण पार्टी	101, ब्रिगेड पैरामाउट, 5, ओल्ड मंद्रास रोड, सी.वी.रमन नगर, बेगलुरु – 560093
407	बेरोजगार आदमी अधिकार पार्टी	डी-2/329, शिव दुर्गा विहार, लक्कड़पुर, फरीदाबाद, हरियाणा।
408	भारतीय जनशक्ति कांग्रेस	डोर नं. 4-148/ए, पणियूर रोड, उच्छिला, उडुपि - जिला, कर्नाटक- 574117
409	भागीदारी क्रान्ति दल	ग्राम व पोस्ट मवई पड़ियाना, ब्लॉक – सरोजनी नगर, तहसील व जनपद - लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226008
410	भागीदारी पार्टी(पी)	30/5बी/4, दक्षिण लोकपुर, नैनी, जिला-प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 211008
411	भापसे पार्टी	ग्राम – मस्सा (खं), तहसील – कलम, जिला – उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413507।
412	भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल	भवन संख्या - ए-1061, सेक्टर- आई, एल.डी.ए. कॉलोनी, कानपुर रोड, पोस्ट- एल.डी.ए. कॉलोनी, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226012
413	भारत (इन्टिग्रेटेड) रक्षक पार्टी	मकान सं0 - बी-98, मेयफिल्ड गार्डन, सेक्टर – 50, गुरुग्राम, हरियाणा- 122018।
414	भारत आदिवासी पार्टी	प्लॉट नं0 27ए, गामडी हाउस (कॉमर्स) कॉम्प्लेक्स, शास्त्री कॉलोनी, डूंगरपुर, राजस्थान- 314029
415	भारत भारती पार्टी	38, कौशलपुरी, गौमती नगर एक्सटेंशन, गली नं० 10, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010
416	भारत भविष्य पार्टी	मकान सं0-94 स, ग्राम - मुगीसपुर, थाना - तारून, पोस्ट – चन्द्रिकागंज, जिला – फैजाबाद, उत्तर प्रदेश 224141
417	भारत भूमि पार्टी	मकान नं. 48, ग्राम- खपरी (टांडपारा), पोस्ट- पकरिया, तहसील – पामगढ़,

		थाना- मुलमुला, जिला- जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ -495553
418	भारत दल	भारत सेवाधाम अरण्यक, क्रान्तिदीप मौराना, नूरपुर, जिला-बिजनौर (उत्तर प्रदेश)।
419	भारत एकता मिशन पार्टी	171/123, आराघर, जिला - देहरादून, उत्तराखण्ड-248001
420	भारत गौरव पार्टी (इण्डिया)	13/543, सेक्टर-13, इंदिरानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016
421	भारत जागो जनता पार्टी	न्यू मार्केट, सहारा इंडिया बैंक बिल्डिंग, हाई स्कूल पारा, कटिहार, पटना, बिहार- 854105
422	भारत जन आधार पार्टी	फ्लैट नं.4, कुर्ला अमर सीएचएस सोसायटी, जनसेवा पेट्रोल पम्प के सामने, काले मार्ग, कमानी कुर्ला(पूर्व), महाराष्ट्र-400070
423	भारत जन चिकित्सा पार्टी	113, कामराज नगर वेस्ट, रेडियार, ऊथंगराई, जिला-कृष्णागिरी
424	भारत जन जागरण दल	वार्ड नं. 5, नारा परसौन, भैरोगंज, पश्चिम चंपारण बिहार-845108
425	भारत जन शक्ति पार्टी	मकान नं. 15/281, शक्ति नगर, शुक्ला नगर, जिला- उन्नाव, उत्तर प्रदेश-209861
426	भारत जनसंग्राम पार्टी	मकान नं0 - 366, अहिल्या, न्यू शांग्री नगर, पोस्ट- एच.वी.पी.एम. अमरावती, महाराष्ट्र-444605।
427	भारत जनता दल (तुगलक)	ग्राम- निरमानी, डाक- निरमाना, ब्लॉक- बघरा, थाना- शाहपुर, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
428	भारत जोडो पार्टी	मोहम्मद अली मार्ग, 786/1, जोगी नवादा, निकट बडखडी नाथ मंदिर, बरेली, उत्तर प्रदेश-243006.
429	भारत का किसान मजदूर पार्टी	ग्राम-बलियाँ (नयन नगर) पोस्ट - बलियाँ, महाराजगंज, सिवान, बिहार - 8415061।
430	भारत कल्याण पार्टी	ग्राम पंचायत - मेवली, तहसील - खैरागढ़, जिला - आगरा, उत्तर प्रदेश-283115।
431	भारत कौमी दल	ग्राम -लाठुरदेवा हूण, पो0 झबरेडा, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
432	भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी	3/250, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश)।
433	भारत क्रान्ति रक्षक पार्टी	बरकतपुर, पोस्ट-बडागाँव, जिला - कौशाम्बी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
434	भारत लेबर प्रजा पार्टी	4-25, सीतानगर कॉलोनी, सोमुलागुदेम (पी), पलवन्चा (एम), खम्माम जिला- 507115 आन्ध्र प्रदेश।
435	भारत लोक सेवक पार्टी	दुकान नं. 16, डी-ब्लॉक मार्केट, पुष्पांजली इन्क्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
436	भारत महापरिवार पार्टी	1286, ग्राउंड फ्लोर, डी.डी.ए.मार्केट, न्यू मीना बाजार, सीमापुरी, दिल्ली-110095
437	भारत माता पार्टी	ग्राम व पोस्ट - कटका, जिला - मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश
438	भारत माता सपूत पार्टी	ग्राम- डेहरिया दयाराम, पोस्ट- लोहरा खास, जिला- भदोही, उत्तर प्रदेश-221303
439	भारत नमन पार्टी	ग्राम व पोस्ट - मंशापुर, ब्लॉक- कटेहरी, जिला - अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश - 224168.
440	भारत नव निर्माण पार्टी	ए-2, नितेश विला, विवेकानन्द कालोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी, जयपुर - 23, राजस्थान।
441	भारत नवनिर्माण वोटर सेना	1255-एफ, बसन्त विहार, कानपुर-208021, उत्तर प्रदेश।

442	भारत निर्माण पार्टी	हाई स्कूल रोड, पो० त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल – 852139, बिहार।
443	भारत न्याय दल	एन० एच०-58, दिल्ली बाई पास रोड, गोपाल विहार, म० नं०-48, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
444	भारत परिवार पार्टी	भारत हृदय आश्रम, मौ० कडच्छ जवालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड-249407
445	भारत पीपुल्स सेना	प्लाट सं. 6-4-787, फुले नगर, सोमनाथपुर रोड, तालुक- उदगीर, जिला- लातूर महाराष्ट्र।
446	भारत प्रभात पार्टी	105, प्रथम तल ए.जी.सी.आर. एन्क्लेव, कडकडूमा कोर्ट के पास, दिल्ली-110092
447	भारत रक्षक पार्टी (डेमोक्रेटिक)	गांव पोस्ट पक्का सहरना, तहसील जिला हनुमानगढ, राजस्थान।
448	भारत स्वाभिमान पार्टी	55/1/228, ग्राउड फ्लोर भावापुर, जी.टी.बी.नगर, करेली, प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211016
449	भारत उदय मिशन	सी-3/4, सुमन नगर, वी. एन. पुरव मार्ग, चैम्बूर, मुम्बई-400071.
450	भारत उत्कर्ष पार्टी	17A/418, प्रेम नगर, लौलाई, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
451	भारत उत्थान पार्टी	ग्राम- हरनी औसेरी, परगना- हिसामपुर, पोस्ट- अरई उमरी, तहसील- कैसरगंज, जिला- बहराइच उत्तर प्रदेश -271904.
452	भारत वाहिनी पार्टी	मातृमंदिर, प्लाट नं. ई- 185, राम पथ, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान-302019.
453	भारत वैभव पार्टी	सी-४, शिवधाम वेलफेयर सोसाइटी, नियर बी.एम.सी. कॉलोनी, एम.डी.नगर, नालासोपारा पूर्व, पालघर, महाराष्ट्र – 401209
454	भारत विकास मोर्चा	शेखपुरा रोड, मधुपुर, जिला-देवघर, झारखण्ड।
455	भारत विशाल पार्टी	ए/6ए, डी०डी० ए० फ्लैट, मुनीरका, नई दिल्ली – 110067.
456	भारत युग जनता पार्टी	ग्राम-गम्फरपुर, पोस्ट-गुलरिया, तहसील एवं जिला-अमरोहा, उत्तर प्रदेश-244221
457	भारतीय बहुजन प्रजा राज्यम्	डी नं. 956, अरूणदेवपेट, दसवीं लेन, गुंटूर – 522002, आन्ध्र प्रदेश।
458	भारतीय मानवाधिकार पार्टी	21, राजेन्द्र मलिक स्ट्रीट, कोलकाता – 700007, पश्चिम बंगाल।
459	भारत धर्म जन सेना	इमारत सं०-849/V, मारारिकुलम उत्तर पंचायत, कांचीकुलंगर मंदिर के पूर्व में, मारारिकुलम उत्तर गांव, चेरत्तल तालुका, आलप्पझा जिला, केरल - 688544
460	भारत प्रजा स्पन्दन पार्टी	डी.न० – 2 - 42, कलावचरला ग्राम, निदादावोले मंडल, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश।
461	भारत समाज डेवलप पार्टी	डी. नं० 40-31-26, धर्म नगर, विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश- 530008
462	भारता चैतन्या युवाजना पार्टी	2-35/एस.एफ.-2, रामावारप्पदु, विजयवाडा रूरल, एन टी आर डिस्ट्रिक, आन्ध्र प्रदेश-521107
463	भारता मक्कल कच्ची	नियर डोर नं. 44 व 45 (पुराना डोर नं. 38), एस.एस. कॉलोली, पोन्मेनी नारायणन स्ट्रीट, जिला-मदुरै, तमिलनाडु- 625016
464	भारता प्रजाकीय पार्टी	म.न.-3-175/1, बोधमपल्ली (गांव), डब्बा (पोस्ट), कोतला (मंडल), कुमरभीम आसिफाबाद (जिला), तेलंगाना राज्य – 504299
465	भारत सेवाई कच्ची	नं. 1 व 2, गूमस रोड, पैरिस, चैन्नई, तमिलनाडु- 600001
466	भारतीय चैतन्य पार्टी	डी. सं. 9-186/7, हाई स्कूल रोड, वेकंट नगर, कडियम, पूर्व गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश- 533103
467	भारतीय जवान किसान पार्टी	XL, VI/2694 (एसबी/एस/867एच), पी.ओ. सिविल स्टेशन, नियर सन्निधान

		टूरिस्ट होम एंड बेस्ट इंजीनियरिंग, कन्नूर, केरल – 670001
468	भारथीया सधरमा समस्थापना पार्टी	हाऊस नं० 3/17, डोरसानी पल्ली, प्रोहतुर मंडल, कडापा डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
469	भारतीय प्रजा सेवा पार्टी	6-3-360/1, श्री कृष्णा देवराय नगर, बडवेल टाउन, वाईएसआर कडप्पा जिला, आन्ध्र प्रदेश- 516227
470	भारथ्या बेलाकू पार्टी	नं. 54, गवर्नमेंट स्कूल रोड, गांव- गोपनहाली, तालुका- मादुरु, जिला- मंड्य, बेंगलुरु, कर्नाटक- 571422
471	भारतीय प्रग्रावंथा कांग्रेस	60सी, 80 फीट रोड, आई.टी.आई लेआउट, मल्लाथाहल्ली, नगरमावी वार्ड, बेंगलोर, कर्नाटक- 560056
472	भारतीय आम जनता अधिकार पार्टी	101-डी, ईस्ट लक्ष्मी मार्केट, गली नं.-4, पटपरगंज रोड, दिल्ली-110092
473	भारतीय आम अवाम पार्टी	सरिस्ताबाद, इन्द्रपुरी पथ, गली नं० ई, गर्दनीबाग, पटना, बिहार- 800001
474	भारतीय आमजन पार्टी (विवेकानन्द)	150, गणेश कॉलोनी, गली नं. 8, जैन मंदिर के पास, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान- 302012
475	भारतीय आवाम एकता पार्टी	23 सी, सेक्टर- ए, सैनिक विहार, नन्दानगर, कूडाघाट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
476	भारतीय अग्रगामी दल	44, श्री कृष्णा नगर, रोड नं. 1, पी.एस. बुध कॉलोनी, पटना, बिहार-800001
477	भारतीय अम्बेडकर पार्टी	मेन बाजार, कृष्णा नगर, जाउरा फाटक, अमृतसर (पंजाब) ।
478	भारतीय अपना समाज पार्टी	LIG-A/LGF-03, यशोधरा कुंज आवासीय योजना, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273016
479	भारतीय आशा पार्टी	मकान नं० 590, गाँव-भरण, गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास, तहसील-मेहम, जिला- रोहतक, हरियाणा- 124111
480	भारतीय अवाम ताकत दल	ग्राम- सुजनडीह (रामपुर), पोस्ट- शोहंसा (मुंगरा बादशाहपुर), तहसील- मछलीशहर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222204
481	भारतीय बैकवर्ड पार्टी	71, सूर्य अपार्टमेंट्स, फ्रेजर रोड, पटना – 800001 (बिहार) ।
482	भारतीय बहुजन कॉंग्रेस	117, खोडियारकृपा सोसायटी, कंतारेश्वर महादेव मंदिर के पास, कतारगाम, सूरत, गुजरात ।
483	भारतीय बहुजन परिवर्तन पार्टी	खसरा नं० – 139/2, ग्राम – लखवाया रसूलपुर, रोहटा रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
484	भारतीय बहुजन पार्टी	156, भरौली, शाहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
485	भारतीय बहुजन समता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- सुरजननगर, जिला- मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244602
486	भारतीय बेरोजगार पार्टी	ग्राम- काँटा करौंदी, पोस्ट- मीरक नगर, थाना- निगोहा, तहसील- मोहनलाल गंज, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226302
487	भारतीय विकास परिषद	बैंक कॉलोनी, प्रथम लाईन, रेडियो स्टेशन रोड, ब्रह्मपुर, गंजाम, ओडिशा-760001
488	भारतीय छात्रसंघ भारत	प्रेमघन मार्ग, बदली घाट, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश – 231 001 ।
489	भारतीय कॉंग्रेस पक्ष	कसबापेठ, लिंबूवाली सवारी के सामने, मु० पोस्ट – बार्शी, जिला – सोलापुर, महाराष्ट्र ।
490	भारतीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायंस पार्टी	मकान सं. 198, मोहल्ला- कच्छपुरा, (शाक्य नगर), वार्ड नं.8, पोस्ट- राजा का रामपुर, जिला- एटा, उत्तर प्रदेश ।
491	भारतीय डेवलपमेन्ट पार्टी	बिल्डिंग न. 14/54, एस.बी.बिल्डिंग, अपोजिट सरी कृष्णा टेम्पल, असरामम, कोल्लम, केरल-691002
492	भारतीय डा० बी० आर० अम्बेडकर जनता पार्टी	नं० 18, बारहवीं क्रॉस, एम० टी० एस० लेआउट, केनगिरी उपनागरा, बेंगलूरु – 560060 कर्नाटक ।

493	भारतीय एकलव्य पार्टी	गांव व पो-0 - बेल्लार कलां, तहसील मेहडावल, जिला - संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश ।
494	भारतीय एकता दल	189, बसंत अपार्टमेंट, बसंत विहार, नई दिल्ली - 57.
495	भारतीय गन परिषद	मकान नं. 3, बाय लेन नं. 4, वार्ड नं. 16, बिष्णुराभा पथ, लालगणेश (उदालवाक्रा), थाना- दिसपुर, जिला- कामरूप मैट्रो, गुवाहाटी, असम- 781034
496	भारतीय गांव ताज दल	ग्राम - कुका, पो-0/0 मक्सूदपुर, जिला - कपूरथला, पंजाब ।
497	भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा	47/1, विक्टोरिया रोड, वार्ड नं. 17, डाक, थाना और जिला - दार्जीलिङ, पश्चिम बंगाल. - 734101.
498	भारतीय ग्रामीण दल	आर्यव्रत प्रकाशन मंदिर, बस स्टाप, गोसाईगंज, जनपद - लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
499	भारतीय हिन्दू सेना	जी-17, रिद्धि सिद्धि टावर, सैक्टर-5, प्लॉट नं. 4, सन एण्ड मून टावर के पास, विधाधर नगर, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान-302023
500	भारतीय हितरक्षक पार्टी	नं0 - 33, मीरा निवास, पुष्कर पार्क, बाबेन, नियर बाबेन प्राथमिक शाला, तालुक - बाराडोली, जिला - सूरत, गुजरात- 394601
501	भारतीय इन्कलाब पार्टी	ग्रा0 राणा प्रताप नगर, इस्लामपुर, पो0 व थाना - इस्लामपुर, जिला - नालन्दा, बिहार, पिन - 801303.
502	भारतीय जय भीम पार्टी	1304, भानतलैया, सिंधी कैम्प, जिला- जबलपुर, मध्य प्रदेश ।
503	भारतीय जन बेरोजगार छात्र दल	आर0 टी0ओ0 ऑफिस के पास, हुसैनगंज, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश ।
504	भारतीय जन जागृति पार्टी	बृजधाम आश्रम, रणहेरा, तहसील - छाता, जिला - मथुरा (उत्तर प्रदेश) ।
505	भारतीय जन क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक)	एफ-23, सैनिक सोसायटी, शक्ति नगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश ।
506	भारतीय जन मोर्चा पार्टी	वार्ड नं.-1, सतना रोड, अमरपाटन, जिला- सतना, मध्य प्रदेश - 485775
507	भारतीय जन सभा	मार्फत राजाराम यादव, रघुवीर नगर, न्यू कॉलोनी, देवरिया (उत्तर प्रदेश) ।
508	भारतीय जनचेतना दल	नं.70, एलआईजी इंदिरा नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208026
509	भारतीय जनक्रान्ति पार्टी	12/17, चक्खुवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
510	भारतीय जनतंत्र संरक्षण विकास पार्टी	ग्राम -पंडित पुर थाना एवं अंचल -पिप्राकोठी, जिला - पूर्वी चंपारण, बिहार - 845429
511	भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी (कांशीराम)	मकान नंबर। 198, पटौदी रोड, आई टी आई के पास, रेवाड़ी, हरियाणा - 123401.
512	भारतीय कार्यस्थ सेना	121, विष्णु कॉलोनी शाहगंज, आगरा - 282010. उत्तर प्रदेश।
513	भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी	नगला दखाल, कोटला रोड, फिरोजाबाद - 283203, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
514	भारतीय किसान रोजनैतिक पार्टी	प्लॉट नं0 04, खसरा नं0 151/01, सेमरा गौड़ी, मडिगांव, सीता रोड लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226021
515	भारतीय किसान सेना लोकतान्त्रिक	मकान नं0 -392/1, चक रघुनाथ, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
516	भारतीय लिबरल पार्टी	सी- 79, प्रथम तल, गली नं. 4, राधे श्याम पार्क एक्सटेंशन. राधे श्याम पार्क एक्स. कॉलोनी, घोडं-ली वार्ड, कृष्णा नगर, दिल्ली- 110051
517	भारतीय लोक सेना	लोअर ग्राउन्ड फ्लोर, ऑफिस नं0-2, बिल्डिंग नं0- ए.-212-सी, तिरुपति प्लाजा, गली नं0- 1, शकरपुर विकास मार्ग, दिल्ली - 110092
518	भारतीय लोकशक्ति पार्टी	371-5, बेघर वसाहत, मेन रोड मजले, तालुका-हलकजंगले, जिला- कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416109
519	भारतीय लोकविकास पार्टी	साई कृपा अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 404, दैवा भारती अस्पताल के पास, कंचनवाड़ी, औरंगाबाद, जिला. औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431001

520	भारतीय मजदूर जनता पार्टी	ग्राम - लालपुरा, पो0- कुकथरी(पिनाहट), तहसील- बाह, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश- 283123
521	भारतीय माइनारिटीज सुरक्षा महासंघ	410, अर्केडिया बिल्डिंग, सर जे.जे. रोड, जे.जे. हॉस्पिटल के सामने मुम्बई- 400008. (महाराष्ट्र)।
522	भारतीय मोमिन फ्रंट	174, आनन्दपुरी, बेस्ट बोरिंग, कैनाल रोड, पटना 800001 (बिहार) ।
523	भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी	77/129, भगत सिंह कालोनी, तरला अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
524	भारतीय मुलनिवासी आजाद पार्टी	एट-रूम नंबर-601, बिल्डिंग नंबर-3, एवेन्यू-एच, रूस्तमजी एवरशाइन ग्लोबल सिटी, विरार पश्चिम, जिला-पालघर, महाराष्ट्र- 401303
525	भारतीय नागरिक पार्टी	गांव-कनासी, पो. ओ. -कनासी, जिला-फर्रुखाबाद-207501 (उत्तर प्रदेश)।
526	भारतीय नेशनल जनता दल	701 ए, सातवीं मंजिल, मेघमल्हार काम्पलेक्स, सेक्टर नं०11, गांधीनगर, गुजरात-382010
527	भारतीय नव क्रान्ति पार्टी	गांव-मखमैलपुर, पोस्ट-सरायखवाजा, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
528	भारतीय नवयुवक पार्टी	मकान नं० 572, बाई साहब की परेड, प्रिया ब्रेड फैक्टरी के पास, लक्ष्मीगंज, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश ।
529	भारतीय न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- डारा, थाना- जयनगर, जिला- दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल- 743337
530	भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी	पूर्व बिष्णुपुर, डाकखाना - रमाकान्त नगर, थाना - मन्दिरबाजार, जिला - 24 परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल - 743395
531	भारतीय परिवर्तन काँग्रेस	126, आदिवासी कॉलोनी, राष्ट्र संत तुकदोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल के निकट, मानेवाडा रोड, नागपुर-440027, महाराष्ट्र ।
532	भारतीय पीपुल्स पार्टी	टी-9, 295/16/11, शिवशक्ति नगर, सैयद चिनचौली रोड, फिल्टर बेड, गुलबर्गा, कर्नाटक-585104.
533	भारतीय पिछड़ा दल	ग्राम-खुजरी, पोस्ट-सागर, वाया-चकरमाथा कैम्प, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़- 495 220 ।
534	भारतीय प्रगति पार्टी	C/o चंद्र प्रकाश, गांव और पोस्ट बेलसड, जिला - तापागौर, थाना - पैकोलिया, तहसील - हरैया, बस्ती - 272163 उत्तर प्रदेश ।
535	भारतीय प्रजा ऐक्यता पार्टी	नंबर 01, कोटे स्ट्रीट, वेंकटेश्वर मंदिर के पास, कोडिगेल्ली एल, सहकारनगर पोस्ट, बैंगलोर, कर्नाटक -560092
536	भारतीय प्रजा पक्ष	नं. 374/ए, प्रथम तल, 1-ब्लॉक, 1-क्रॉस, रविन्द्र नाथ टैगोर नगर (आर.टी.नगर), बंगलोर-560032 (कर्नाटक) ।
537	भारतीय प्रजा सुराज्य पक्ष	ए./पी. - खांडज, तालुका - बारामती, जिला- पुणे, महाराष्ट्र- 413116
538	भारतीय प्रजागला कल्याणा पक्षा	नं० - 23, फ्लैट नं० - 401, चौथी मंजिल, एवरजॉय, नंदनावना, तृतीय क्रॉस, द्वारका नगर, चन्नासंदारा, बैंगलोर, कर्नाटक- 560098.
539	भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी	29/3, पंचकुईयाँ, झांसी, उत्तर प्रदेश ।
540	भारतीय प्रजातांत्रिक शुद्ध गांधीवादी कृषक दल	मिस्टा, जिला जांजगीर, विकास खण्ड नवगढ़, छत्तीसगढ़ांचल, छत्तीसगढ़ ।
541	भारतीय राष्ट्रवादी पक्ष	12, जूना पावर हाऊस, रोटरी हाल के पीछे, जेल रोड, मेहसाना (गुजरात), पिन- 384002.
542	भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी	एफ-402, रोड सं० 9-एफ, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर- 302 013, राजस्थान
543	भारतीय राष्ट्रीय बहुजन समाज विकास	जी-96, 'शांतिपुरम फाफामऊ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।

	पार्टी	
544	भारतीय राष्ट्रीय महिला सर्वोदय कांग्रेस	नं० 2, प्रथम तल, वायुपुत्र आर्केड, वार्ड नं. 15, नियर एन.टी.टी. एफ, पी.बी. रोड, धारवाड, जिला- धारवाड, कर्नाटक-580001
545	भारतीय राष्ट्रीय मजदूर दल	नया सर्राफा, ग्वालियर-474001 (मध्य प्रदेश)।
546	भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा	डी-6, प्रताप बाग कॉलोनी, नया हनुमान मन्दिर, अलीगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
547	भारतीय रिपब्लिकन पक्ष	डा. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर मुम्बई-400014 (महाराष्ट्र)।
548	भारतीय सभ्यता पार्टी	545क / अव -006, अवन्ती विहार, पुराना पारा थाना, हरदोई रिंग रोड, पोस्ट - राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226017.
549	भारतीय सद्भावना समाज पार्टी	खान मंजिल खपाड़गंज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
550	भारतीय समाज दल	85, चौक माकान्डु गंज, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)।
551	भारतीय समाजवादी पार्टी (लोकतांत्रिक)	मुहल्ला-चाहशीरी, पंजाब एंड सिंध बैंक लेन, सिविल लाइंस, बिजनौर, जनपद-बिजनौर, उत्तर प्रदेश-246701
552	भारतीय समतावादी पार्टी	संख्या 60, भाग संख्या 3, बिजलीनगर, चिंचवाड़, पुणे, महाराष्ट्र - 411033.
553	भारतीय सम्पूर्ण क्रान्तिकारी पार्टी	ए-1/150, अमन विहार, नांगलोई, नई दिल्ली -110041
554	भारतीय सम्राट सुभाष सेना	ग्राम - अजीतपुर, पो0 - कनखल, लक्सर रोड, हरिद्वार, उत्तराखण्ड - 249408
555	भारतीय समता समाज पार्टी	ग्राम-देहरामऊ, पोस्ट-गोसाईगंज, जिला -लखनऊ - 227 125 (उ.प्र.)
556	भारतीय समतावादी पार्टी (ए)	निकट खान आटा चक्की, अपोजिट देवी लाल कॉलोनी, सरस्वती विहार, मेहलाना रोड, तहसील एवं जिला- सोनीपत, हरियाणा- 131001
557	भारतीय संघर्ष मोर्चा	सी4/33, ई.डब्ल्यू.एस, विश्व बैंक कॉलोनी, ए.डी.ए. नैनी, तहसील-करछना, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-212301
558	भारतीय संगठित पार्टी (एस)	साई ग्रीन सिटी, अटोर रोड, निकट मोरटी, राजनगर एक्सटेंशन, एन.एच.-58, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201017
559	भारतीय संग्राम परिषद	48, बैंक स्ट्रीट, खटाव बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, एस. बी. एस. रोड, ओल्ड कस्टम हाउस के सामने, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400001
560	भारतीय सन्त मत पार्टी	बहु झोलरी रोड, ग्राम व पोस्ट - नाहर, तहसील - कोसली, जिला - रेवाड़ी, हरियाणा।
561	भारतीय सर्वजन विकास पार्टी	ग्राम- हर्षपुर (पूरे राल्ही), पोस्ट- कोटवाशुकुलपुर, तहसील- लालगंज, थाना-सांगीपुर, जिला- प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश- 230136
562	भारतीय सर्वोदय क्रान्ति पार्टी	113, मलिकपुर, जी.टी.बी.नगर, दिल्ली-110009.
563	भारतीय सत्यार्थ संगठन	भारत नगर, प्रेम विद्यालय- रेलवे क्रॉसिंग, राधापुरम हाउसिंग कॉलोनी के सामने, बिरला मंदिर के पास, वृन्दावन रोड, जीटीवी- 3, मथुरा-281,003, (उत्तर प्रदेश)।
564	भारतीय सुभाष सेना	ग्राम और पो. ऑ. बानकासिया शिवरतन सिंह, जनपद-गोन्डा-271302 (उत्तर प्रदेश)।
565	भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- चितबड़ागांव, मकान नं० - 885ख, वार्ड नं० -8, इन्दिरा नगर, तहसील - बलिया, बलिया, उत्तर प्रदेश- 221713
566	भारतीय सुराज दल	सिन्हा भवन, एगजिविशन रोड, रिजर्व बैंक के पीछे, पटना, बिहार - 800001
567	भारतीय स्वजीवी नागरिक पार्टी	ग्राम- कुकुरिहा, पोस्ट- रूद्रपुर कोरवा, थाना व तहसील- रूद्रपुर, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश।
568	भारतीय स्वतन्त्र पार्टी	गांव-नौगाई, पो०ऑ० रघुनाथपुर, तहसील, वाडरुफनगर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़।

569	भारतीय युवा जन एकता पार्टी	261, केसर पैलेस, अबुपर्वत, ता० अबू रोड, जिला - सिरौही, राजस्थान - 307501
570	भारतीय युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक)	वार्ड सं-54, सर्किल सं-0-71, बिस्कोमान गोलम्बर, बी.एस.एन.एल, टेलिफोन एक्सचेंज के पास, पोस्ट ऑफिस- गुलजारबाग, कुम्हारार, पटना, बिहार-800007.
571	भारतीय युवा शक्ति	हवेलियों का वास, ग्राम पंचायत, कोसेवाल, तहसील-सुमेरपुर, जिला - पाली, राजस्थान।
572	भारतराष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी	शॉप नं० - 22, सी एस सी-II, डी डी ए मार्केट, आई. पी. एक्सटन्सन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092
573	भारतवासी पार्टी	अम्बेडकर नगर पूर्वी, रामकोला रोड, पोस्ट- पडरौना, जिला - कुशीनगर, उत्तर प्रदेश-274304
574	भारिपा बहुजन महासंघ	डॉ. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर मुम्बई- 400014 (महाराष्ट्र)।
575	भरोसा पार्टी	मकान नं. 8-233, पोचाराग्राम ग्राम पंचायत, घाटकेसर- मण्डल, जिला- मेडचल, तेलंगाना - 500088
576	भारती जन सुरक्षा पार्टी	प्रधान कार्यालय, धौलवाहा मार्ग, हीरा कालोनी के समीप, टाउन एवं पो०ओ० हरिआना, जिला होशियारपुर, पंजाब-144208
577	भारती समुदाय पार्टी	7 सी-10, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, थाना - पी० जी० आई०, तहसील - लखनऊ, जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002
578	भारतीय आम आदमी परिवार,	1000 जय अम्बे अपार्टमेन्ट, डी०डी०ए०एल०आई०जी० फ्लैट्स, न्यू कोंडाली, मयुर विहार फेज-3, दिल्ली- 110096
579	भारतीय आम जनता विकास पार्टी	ग्राम व पोस्ट- दुलमा, थाना- मधुवन मोतिहारी, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार।
580	भारतीय अहिंसा पार्टी	728, निराला नगर, अयोध्यापुरी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश।
581	भारतीय अमृत पार्टी	खसरा नं. 661/3, कचनारिया, भोपाल रोड बायोरा, जिला- रायगढ़, मध्य प्रदेश- 465674
582	भारतीय अनारक्षित पार्टी	मकान नं. 08, आनन्दवन, एन.एच-02, नवादा, पोस्ट- औरंगाबाद, जिला- मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281006
583	भीरतीय अनार्य पार्टी	राजवंशी मार्केट बस स्टैंड राजगीर, थाना व पोस्ट-राजगीर, जिला- नालंदा, बिहार- 803116
584	भारतीय अंत्योदय पार्टी	8- प्रीत विहार, फेज- 11, इंदिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248171
585	भारतीय अपना अधिकार पार्टी	किरार छात्रावास के पास, रामपुरी आऊ खाना कला शब्द, प्रताप आश्रम, जिला- ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474012
586	भारतीय आरक्षण मुक्ति दल	291, अग्निहोत्र नगर, मकड़ीखेडा, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208017
587	भारतीय आर्य क्रान्ति मंच	83 राम वाटिका, कॉलोनी, गीता पैलेस के पीछे, श्यामगंज, बरेली, उत्तर प्रदेश - 243005
588	भारतीय अस्मिता पार्टी	मकान नं० 302, ग्राम-कतबाव, दहगांव रोड, पोस्ट- वाशिंद, तालुका- शाहपुर, महाराष्ट्र- 421602.
589	भारतीय अवाम एक्टिविस्ट पार्टी	गाँव- केशरू, थाना- चन्दौती, जिला- गया, बिहार- 823002
590	भारतीय अवाम पार्टी (राष्ट्रीय)	मकान नं०-30 (बी०पी०20), बेचूपुर, पटेलनगर, (40 फीट रोड), मुगलसराय, जिला-चन्दौली, उत्तर प्रदेश। पिन कोड -232 101
591	भारतीय आजाद सेना	15 नं. चौक, बड़कागांव, जिला- हजारीबाग, झारखण्ड- 825311
592	भारतीय बहुजन क्रान्ति दल	सेवागढ़ बिल्डिंग नं.- 02, अजादेगांव, डोंबिवली पूर्व, जिला- ठाणे, महाराष्ट्र-

		421201
593	भारतीय भाईचारा पार्टी	मकान नं0 – 61/3, गांव – छलेरा बांगर, अम्बेडकर विहार, सेक्टर – 37, परगना व तहसील – दादरी, नोएडा, जनपद – गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201303
594	भारतीय चैतन्य पार्टी	बी-97, पंचशील विहार, निकट शेख सराय, कम्यूनिटी सेन्टर, नई दिल्ली ।
595	भारतीय छत्रपती सेना	शगुन रो हाउस डी 3, उद्योग भवन के पीछे, अयोध्या नगर, सिन्नर, नासिक, महाराष्ट्र - 422103
596	भारतीय चेतना पार्टी	सूरतगंज, वार्ड नं0 15, थाना नगर, मधुबनी, जिला मधुबनी बिहार- 847211
597	भारतीय दलित कांग्रेस	चौपडा पारा, काली मंदिर के पीछे, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ - 497001 ।
598	भारतीय दलित पार्टी	खाता सं0- 269, मौ0- विजयनगर, पोस्ट- विजयनगर, अँचल-बाँका, जिला- बाँका, बिहार ।
599	भारतीय दमितजन पार्टी	गाँव-गोविन्दपुर, पोस्ट-सिहारा, तहसील-धामपुर, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश- 246746.
600	भारतीय धर्मनिरपेक्ष पार्टी	मकान नं. 146, ग्राम- खडगपुर, पोस्ट- चौबेपुर, थाना- चौबेपुर, जिला- कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 209203
601	भारतीय दृष्टिगोचर पार्टी	मकान संख्या- 54, ग्राम - मौसंदी, पोस्ट- सूरतगंज, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश- 225304
602	भारतीय एकता मंच पार्टी	शबाब बिल्डिंग, टैगोर मार्ग, नदवा रोड लखनऊ 226020, उत्तर प्रदेश ।
603	भारतीय गदर पार्टी (एस)	गांव-ओदेरा मठिया, पोस्ट-राऊतमऊ, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276406
604	भारतीय गण वार्ता पार्टी	जी-18, ग्राउंड फ्लोर, साँची कॉम्प्लेक्स, शिवाजी नगर, नियर बोर्ड ऑफिस, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन कोड-462016
605	भारतीय गांधीवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट- गडवार, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश ।
606	भारतीय गणराज्य पार्टी	मकान नं0 1094, विकास शर्मा बी.टी.आई. रोड, बजाज एजेंसी के बगल में, मोहल्ला बेनी सागर, पन्ना मध्य प्रदेश-488001
607	भारतीय गरीब विकास कल्याण पार्टी	रेफरल चिकित्सालय के सामने गुलाबपुरा तहसील हरदा जिला भीलवाड़ा राजस्थान-311021
608	भारतीय गरीबमजदूर पार्टी	ग्राम- पचटकी राम, पोस्ट- पचटकी यदू, थाना- बैरगनिया, जिला- सीतामढ़ी, बिहार- 843313
609	भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी	एकता विहार, लेन नं. -1, ग्रामसभा- आमवाला तल्ला, पी०ओ० –कण्डोली, सहस्रधारा रोड, देहरादून उत्तराखण्ड -248001 ।
610	भारतीय ग्रामीण समाज पार्टी	भवन नं0 15/357, भरोसी की धर्मशाला, पंचम वाली गली, दत्तपुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश-476001
611	भारतीय हरित पार्टी	निकट हंस प्राकृतिक चिकित्सालय, मीरापुर रोड, जानसठ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश – 251314
612	भारतीय हिमाचल जन विकास पार्टी	गांव व डाकघर – बड़लठोर, तहसील – देहरा, जिला – कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश – 177105
613	भारतीय हिन्द फौज	यु.जी.एफ-07, चित्रांश ड्रीम सोसाइटी, आर.के.पुरम, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201013
614	भारतीय हिन्द पार्टी	90, ईश्वरी दयाल बिल्डिंग, आर्य समाज रोड, गणेश गंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226018

615	भारतीय ईमानदार पार्टी	सिंधौली, तहसील - पुवायॉ, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।
616	भारतीय इण्डियन सैकुलर पार्टी	हमदर्द नगर-बी, जमालपुर, माफी, तहसील कोल, जिला- अलीगढ़, उत्तर प्रदेश- 202001.
617	भारतीय इंसान पार्टी	नं0 - 84, चतुर्थ तल, बट्ला हाउस, खलीलुल्लाह मस्जिद के पास, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025।
618	भारतीय इन्सान रक्षक दल	मकान नंबर 192/17, धरमपुर, गांम-गेवरबस्ती/गेवरा, पोस्ट ऑफिस, कुसमुंजा, वार्ड नं0 60, तहसील, कटघोरा, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़-495454
619	भारतीय जागरण पार्टी	पूर्वी नवादा, आरा, भोजपुर- 802301, बिहार।
620	भारतीय जन अधिकार पार्टी	गाँव-भीम, हॉस्पिटल रोड, पोस्ट ऑफिस-भीम, जिला-राजसमन्द
621	भारतीय जन हित विकास पार्टी	220, इन्द्रापुरी, जैकबपुरा रोड, गुडगाँव, हरियाणा - 122001
622	भारतीय जन हितकारी पार्टी	प्लॉट नं0 31-32, शिवनगर, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान
623	भारतीय जन जागरूक पार्टी	सर्वे नं. 171, ग्राम- चैनपुरा, पोस्ट- शिवगढ़, तहसील- मेघ नगर, जिला- झाबुआ, मध्य प्रदेश- 457777
624	भारतीय जन जन पार्टी	दुकान संख्या - 8 व 9, द्वितीय तल, गोयल प्लाजा, फैजाबाद रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
625	भारतीय जन मानस पार्टी	मकान संख्या - 262 घ, सरसवाँ, थाना - अर्जुनगंज, अर्जुनगंज, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002।
626	भारतीय जन मंच	361, गली नं0 13, बुद्ध विहार, (बड़े स्कूल के पीछे), मंडोली गांव, नन्द नगरी, दिल्ली -110093।
627	भारतीय जन नायक पार्टी	सी-17-18, सेक्टर-15, वसून्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012
628	भारतीय जन परिषद	एफ.एफ/108, शान्तिविला कॉम्प्लेक्स, एच.पी.पेट्रोल पंप के सामने, देहगम रोड, नारोडा, अहमदाबाद, गुजरात- 382330
629	भारतीय जन प्रगति दल	मकान नं.- 134, गाँव- रामरायपुर (बाय पास रोड), पोस्ट- रामरायपुर, तहसील- भदोही, जिला- भदोही, उत्तर प्रदेश- 221314
630	भारतीय जन सहयोग पार्टी	8/6, जूही सफेद कॉलोनी, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208014
631	भारतीय जन समाधान पार्टी	411, स्पेक्ट्रम, नजदीक यशरीअन, स्वामी विवेकानंद सर्किल, मेम नगर, अहमदाबाद, गुजरात-380052
632	भारतीय जन समाज पार्टी	मोहल्ला ग्राम, अहमदपुर उर्फ कमलापुर परगना, बिजनौर तहसील व विधानसभा, सरोजनी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226002
633	भारतीय जन सम्मान पार्टी	फ्लैट नं. 32, कृष्णा अपार्टमेन्ट, ब्लॉक बी.एच पूर्वी, डी.डी.ए फ्लैट्स, ग्राउंड फ्लोर, शालीमारबाग, दिल्ली- 110088
634	भारतीय जन सम्पर्क पार्टी	मकान संख्या- 3616, शारदा निवास कटरा, आधारताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
635	भारतीय जन समरसता पार्टी	5081, विश्वकर्मा नगर, प्लॉट नं.80, वार्ड नं.14, द्वारकापुरी, रामेश्वरी रोड, राधा मंदिर के पास, पार्वती नगर, नागपुर, महाराष्ट्र-440027
636	भारतीय जन सम्राट पार्टी	खसरा नं. 719, प्रॉपर्टी नं. X-9/10, ओल्ड नं. X-6/12, ग्राम- घोंडा गुजरन खादर, गली नं. 9, X- ब्लॉक, ब्रह्मपुरी, दिल्ली- 110053
637	भारतीय जन सत्ता पार्टी	भवन संख्या - 11, मुख्य ग्राम + पोस्ट - भादवासी, भाया - कटराथल, जिला- सीकर, राजस्थान- 332024
638	भारतीय जन स्वराज पार्टी	एम.बी.-156 एस./एफ., मास्टर ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092
639	भारतीय जन विकास आघाडी	क्रांतीसूर्य नवजीवन नगर, जुना पेडगांव रोड, जिला-परभणी महाराष्ट्र- 431401.

640	भारतीय जन युग पार्टी	हीरा नगर, पुरानी छावनी, लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश – 474010
641	भारतीय जनता समाजसेवी पार्टी	हाउस नं० 116 आरपीजी/844, वर्तमान म.116/839, रावतपुर-2, कल्यानपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश- 208019.
642	भारतीय जनता विकास पार्टी	डी- 4/2, सेक्टर- 20, रोहिणी, दिल्ली- 110086
643	भारतीय जनहित काँग्रेस पार्टी	ए-3, रूम नं. 602, छठा माला, आर.एन. ए. पार्क, वाशी नाका, आर.सी. मार्ग, चेम्बुर, मुंबई- 400074, महाराष्ट्र
644	भारतीय जनहित दल	डी-1/535, जे.जे.कलस्टर, भलस्वा डेरी, नई दिल्ली – 110042
645	भारतीय जनजागरण गाँधीवादी पार्टी	खाता नं. 112, खेसरा नं. 1196, ग्राम- हसमी, पी.एस- माण्डर, जिला- राँची झारखण्ड- 835214
646	भारतीय जनमुक्ति पार्टी	ग्राम – डुन्दुर, पोस्ट – लठेया, थाना – छतरपुर, जिला – पलामू, झारखण्ड - 822116
647	भारतीय जनराज पार्टी	मकान संख्या 653, वार्ड नं. 14, शिव नगर, नियर शिव मंदिर, हिसार, हरियाणा-125001
648	भारतीय जनसमानता अधिकार पार्टी	कोठी नं० - 2, पूर्णागिरी विहार, पटेल नगर, पो० - इज्जत नगर, जनपद- बरेली, उत्तर प्रदेश ।
649	भारतीय जनसमूह दल	म.नं.-55/35, सी.वाई. चिंतामणि रोड, जॉर्ज टाउन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश - 211002
650	भारतीय जनसेवा कांग्रेस	कोठी नं. 768, वार्ड नं. 17, किला कॉलोनी, कोसली रोड, झज्जर, हरियाणा- 124103
651	भारतीय जनता दल	सी-16, संजय विहार, आवास विकास कॉलोनी, मेरठ रोड, हापुड, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
652	भारतीय जनता दल (इंटीग्रेटेड)	मकान नं०-62, गली नं०-16, ए-1 ब्लॉक, सन्त नगर, (बंगाली कॉलोनी), बुराड़ी रोड, दिल्ली-110084 ।
653	भारतीय जनता सेक्यूलर पार्टी	सर्वमंगला नगर, दुरपा, वार्ड नं. 45, पोस्ट- दुरपा, थाना- कुसमुण्डा, तहसील- कटघोरा, जिला- कोरबा, छत्तीसगढ़- 495677
654	भारतीय जनतंत्र मोर्चा	खाता नम्बर-80, प्लॉट नम्बर-528, ग्राम-सिदरौल, थाना-नामकुम, युगान्तर भारती परिसर, जिला-राँची, झारखण्ड-834002
655	भारतीय जनतंत्र सनातन दल	नं. 752, चरित्र वन, टीचर्स कॉलोनी, जिला- बक्सर, बिहार- 802101
656	भारतीय जनतांत्रिक जनता दल	1, दरोगा राय पथ, पटना- 800001, बिहार ।
657	भारतीय जनतांत्रिक पार्टी	ग्राम- चिरोटा, पोस्ट- अजयराजपुरा, वाया- बगरू, तहसील- सांगानेर, जिला- जयपुर, राजस्थान- 303007
658	भारतीय कामगार पार्टी	ग्राम- चान्दोपारा, पोस्ट- चान्दोपारा, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 212402 ।
659	भारतीय कौटिल्य सेना	आर 14/6 (बेसमेंट), राजनगर, स्कवायर माल के सामने, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
660	भारतीय किसान जनशक्ति पार्टी	मकान नं० 600, वार्ड नं० 5, घसियारीपुरा, नौवागढ़ी, बहराइच उत्तर प्रदेश
661	भारतीय किसान पार्टी	ई- 58, तारानगर, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान- 302012
662	भारतीय किसान पार्टी (सेक्युलर)	ग्राम-वियारा, अंचल-भगोडीयाँ, जिला-बड़ौदा, गुजरात- 391760
663	भारतीय किसान यूनियन समाज पार्टी	मकान नं. 332एफ, वृन्दावन गेट के पास, राजेन्द्र नगर, पश्चिम गोरखनाथ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 272115
664	भारतीय किसान विकास पार्टी	ग्राम अमराई, पोस्ट लक्खारामपुर, विश्वेश्वरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश ।

665	भारतीय क्रांति वीर पार्टी	ग्राम- काजीचक, पोस्ट व पुलिस स्टेशन- संदेश, जिला- भोजपुर, बिहार- 802164.
666	भारतीय क्रांतिसंघ पार्टी	नं0 19/ जी-1, बृजेश्वरी एनेक्स, कनाडिया रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश -452016.
667	भारतीय कृषक दल	197, कौशलपुरी (सरला बाजपेयी का बाग), सुभाष नगर के दक्षिण, जनपथ, हरदोई, उत्तर प्रदेश ।
668	भारतीय लोक चेतना पार्टी	जानकी निवास, ब्रह्मपुर, पोस्ट व थाना- फुलवारी शरीफ, जिला- पटना, बिहार- 811505
669	भारतीय लोक नायक पार्टी	ग्राम- नौवापाली, पोस्ट-चकरा, जिला सिवान, बिहार- 841226
670	भारतीय लोक सत्ता पार्टी	गली नं.6, बार्ड नं.47, गडोरा का पुरा, जिला-मुरैना, मध्य प्रदेश-476001
671	भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट- सदाय बिगहा-165, बड़हिया, जिला- लखीसराय, बिहार- 811302.
672	भारतीय लोकशाही पार्टी	खडका रोड, रामदेव बाबा मंदिर, ता0- भुसावल, जिला- जलगांव, महाराष्ट्र- 425201
673	भारतीय लोकस्वराज्य पार्टी	सुभाष नगर, अष्टविनायक कॉलोनी, जि0प0 प्राथमिक शाळे समोर, डी0पी0 भोसले कॉलेज जवळ, सुलतानवाडी रोड, ता0 कोरेगांव, जिला- सतारा, महाराष्ट्र- 415501
674	भारतीय लोकवाणी पार्टी	प्लॉट नं0 6, ए ब्लॉक, एमिटी ग्रीन कॉलोनी, हासेमऊ, पोस्ट-लौलाई, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226028
675	भारतीय महासंघ पार्टी	नं0 के-2413, नगर पालिका रोड, रोसडा समस्तीपुर, बिहार- 848210
676	भारतीय महाशक्ति मोर्चा	जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन- 209601.
677	भारतीय मजबूत पार्टी	ग्राम व पोस्ट-तिगरी, ब्लॉक-गजरौला, जिला-अमरोहा, उत्तर प्रदेश-244235
678	भारतीय मल्लराष्ट्र पार्टी	333, ओ लच्छीपुर भाटी विहार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273007
679	भारतीय मानव कल्याण पार्टी	ई 49/1, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462042
680	भारतीय मानव समाज पार्टी	गांव व पोस्ट- ओइना, तहसील- केराकत, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222146.
681	भारतीय मानवता पार्टी	श्रीरामपुर टोला (बिहटा), पो. +थाना-बिहटा, जिला- पटना, बिहार- 801103
682	भारतीय मानवाधिकार फेडरल पार्टी	154/17, राज चेंबर, (फखरुद्दीन मंजिल), अलीभाई प्रेमजी मार्ग, ग्रांट रोड, मुंबई, महाराष्ट्र- 400007.
683	भारतीय मित्र पार्टी	सर्कल -10, होलिंग सं0 -79ए/64, मोहल्ला - गोला रोड, बाकरगंज, जिला- पटना बिहार- 800004
684	भारतीय मोहब्बत पार्टी (ऑल इण्डिया)	म.नं.-18184, चंदसार बस्ती, भटिण्डा-151001. (पंजाब)।
685	भारतीय नागरिक सुरक्षा पार्टी	नं.13, न्यू केतन सोसाइटी, नजदीक उमा शिक्षण तीर्थ, भ. भाग्योदय सोसाइटी, नरोदा, अहमदाबाद, गुजरात-382325
686	भारतीय नव विकास पार्टी	60, सीडा मोहल्ला, चिल्ला गाँव, नियर साई मंदिर, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-110091
687	भारतीय नवजवान सेना (पक्ष)	श्री. मोरया पार्क, शॉप नं0-4, सोमनाथनगर, सोमनाथ मंदिर के पास, वडगांवशेरी, पुणे-411014, महाराष्ट्र ।
688	भारतीय नवोदय पार्टी	ग्राम- अहेरिया, पोस्ट- चकरनगर, चकरनगर चौराहा, जिला- इटावा, उत्तर प्रदेश।
689	भारतीय न्यू संस्कार क्रांतिकारी पार्टी	ग्राम व पोस्ट- सहसरौंव, भाया- भगवानपुर हाट, जिला- सिवान, बिहार-

		841408
690	भारतीय निवास पार्टी	ग्राम – सरबसी, पोस्ट – बढनी, गोपालपुर (उनवल), जिला – गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273406 ।
691	भारतीय पंचायत पार्टी	डी – 15/674, गली नं0 – 5, गणेश नगर-2, शकरपुर, दिल्ली – 110092
692	भारतीय पंचायती राज पार्टी (लोकतांत्रिक)	बी-247, तीसरी मंजिल, प्रियदर्शनी विहार दिल्ली- 110092.
693	भारतीय पंचशील पार्टी	बी-71, इंदिरी नगर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश- 229001
694	भारतीय पार्टी	न्यू कॉलोनी, पोस्ट-नीम का थाना, जिला-सीकर, राजस्थान – 332713
695	भारतीय पार्टी (लोकतांत्रिक)	ए-12, अन्सा प्लाजा, आर.बी.एस.एस. सहाय रोड, भागलपुर, बिहार- 812001
696	भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी	554 सी/118, दामोदर नगर, नियर राज चंद्र अस्पताल, वीआईपी रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226005.
697	भारतीय प्रगतिशील कांग्रेस	डी.-43, राजधानी पार्क, नांगलोई, दिल्ली -110041.
698	भारतीय प्रजा जन पार्टी	नारायणपुर रोड, कस्बा बानसूर, जिला-अलवर, राजस्थान ।
699	भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी	357/3, श्याम नगर, गली नं0 -1, काली मन्दिर के पीछे, फॉयसागर रोड, अजमेर, राजस्थान – 305001
700	भारतीय रणवीर पार्टी	एस -498, भूतल, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092
701	भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी	जे- 74ए, गली नं. 14, खसरा नं. 6/14, स्वरूप नगर, दिल्ली- 110042.
702	भारतीय राष्ट्रीय दल	सी- 6/52, यमुना विहार, दिल्ली- 110053
703	भारतीय राष्ट्रीय एकता दल	10/10, मोहल्ला कैतवाड़ा, निकट अम्बेडकर चौक, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड – 249407
704	भारतीय राष्ट्रीय जागरूक दल	ई-2548, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226017 ।
705	भारतीय राष्ट्रीय जगसेवा पार्टी	यूनिट नंबर 208, दूसरी मंजिल, सनराइज टॉवर, शिव मार्केट, वजीरपुर, अशोक विहार, दिल्ली-110052
706	भारतीय राष्ट्रीय जनसत्ता	127, प्रथम तल, वर्धमान टावर, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092
707	भारतीय राष्ट्रीय लोक मंच पार्टी	प्लॉट नं0. 2, गली नं0 – 2, चौहान पट्टी, निकट मंगल बाजार, करावल नगर, दिल्ली- 110094
708	भारतीय राष्ट्रीय तंत्र पार्टी	एन. 502, मधुवन ग्लोरी, सेन्टमेरी स्कूल के नजदीक, नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात- 382330
709	भारतीय रिफ्लेक्शन पार्टी	एल.आई.जी.-11- जी, पाकेट ए-2,, मयूर विहार, फेज-3, दिल्ली-110096
710	भारतीय रिपब्लिकन पार्टी (इन्सान)	ग्राम – महुआरी, पो0 जंगीगंज, जिला – सं0 र0 न0 भदोही, उत्तर प्रदेश ।
711	भारतीय रोजगार पार्टी	ई-77, पुराना जसोला गाँव, निकट मैट्रो पिलर नं0– 141, जसोला, निकट जामिया को-ऑपरेटिव बैंक, नई दिल्ली-110025 ।
712	भारतीय सबका दल	मुहल्ला- गोलवार टोला, पोस्ट, थाना व तहसील- मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद- मऊ, उत्तर प्रदेश- 276403
713	भारतीय सबलोग पार्टी	मौजा दीघा, राजीव नगर, रोड सं0 25 ई, पो0-केसरीनगर, थाना-फूलवारी, पटना बिहार-800024
714	भारतीय साक्षर पार्टी	खसरा न.78/4, धरमपुरा अटल बिहारी बाजपाई वार्ड नो.38, जगदलपुर, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़-490001.
715	भारतीय समाज सेवा पार्टी	मकान नं0 – 1, ग्राम – वनुपुर पुख्ता, पोस्ट – मलिकपुर (सोरो), जिला – काशगंज, उत्तर प्रदेश ।

716	भारतीय सामाजिक एकता पार्टी	16, ग्राम- नंदोरा, तहसील- गोहरगंज, जिला- रायसेन, मध्य प्रदेश- 464990
717	भारतीय सामाजिक क्रान्ति दल	गांव- सुवारी, पोस्ट-दानगंज, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
718	भारतीय सामाजिक न्याय पार्टी	गांव व डाकखाना – सेरसा, तहसील व जिला – सोनीपत, हरियाणा ।
719	भारतीय सामाजिक पार्टी	6, बस स्टैंड, अलिराजपुर, जिला - अलिराजपुर, मध्य प्रदेश – 457887
720	भारतीय समाजवादी सेना	भवन संख्या- एस.-2/525, मोहल्ला- सिकरौल, पोस्ट- कैण्टूनमेण्ट, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221002
721	भारतीय समानता पार्टी	चित्रकूट धाम, तीसरी मंजिल, 60-बी, पनकी रोड, कल्याणपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208017.
722	भारतीय समृद्धि कल्याण पार्टी	मकान संख्या- 12/2, बी ब्लॉक, फेज- 2, गोयल विहार, निकट सेंट थॉमस स्कूल, द्वारका, गोगिया डेरी रोड, नई दिल्ली- 110071.
723	भारतीय समता पार्टी	173 डी, राधा कृष्ण चौराहा, रामपुरम् श्याम नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208013
724	भारतीय संगम पार्टी	230/5, न्यू मेंहदौरी, पो0 - तेलियरगंज, जनपद - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211004.
725	भारतीय संघर्ष समिति	मकान सं.4684, निसार नगर, करीदा संकुल के सामने, जम्भून रोड, सांगवान, बुलढाणा, महाराष्ट्र-443001
726	भारतीय संस्कृत विरासत पार्टी	मकान नं. 338, ग्राम व पोस्ट- लखौर खुर्द, थाना- कुरावली, जिला- मैनपुरी, उत्तर प्रदेश ।
727	भारतीय संयुक्त किसान पार्टी	भुसाही बाजार, यादव मार्केट, कमले बलिया, भुसाही, बोछहा, मुजफ्फरपुर बिहार- 843103
728	भारतीय सार्थक पार्टी	शिवशंकर पथ, मिठनपुरा, पोस्ट-रमना, थाना-मिठनपुरा, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार- 842002
729	भारतीय सर्वधर्म पार्टी	विलास मार्केट, शॉप नं.5, खदरी, थाना, माडियाँव, सीतापुर रोड, लखनऊ 226013
730	भारतीय सर्वजन हिताय समाज पार्टी	अनंत विहार कॉलोनी, दलदल सिवनी मार्ग, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
731	भारतीय सर्वजन पार्टी	गांव-रामपुर, हाटा मार्ग, पोस्ट-गौरी बाजार, जिला-देवरिया-274202, उत्तर प्रदेश।
732	भारतीय सर्वोदय पार्टी	152/126, पटेल नगर (पश्चिम), देहरादून-248001, उत्तराखण्ड ।
733	भारतीय सत्य संघर्ष पार्टी	ग्राम-बिड़िया, थाना-मंडला, जिला-मंडला, मध्य प्रदेश ।
734	भारतीय सेवक पार्टी	उत्तराखण्ड ग्रामिण बैंक के नजदीक, बुग्गावाला (मेन मार्केट), हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 247662
735	भारतीय शक्ति चेतना पार्टी	वार्ड नं0 18, ग्राम – खामदार, पो0 मोउ, तहसील-ब्यौहारी, जिला – शहडोल, मध्य प्रदेश
736	भारतीय श्रमिक दल सोशलिस्ट	वामन नगर पतेरी, सेक्टर - 20, जिला - सतना, मध्य प्रदेश ।
737	भारतीय सुवर्नयुग पार्टी	कार्यालय ऐ/33, कैपिटल कॉमर्सियल सेंटर, निकट संन्यास आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात-380009
738	भारतीय स्वदेशी कांग्रेस	12/303, मैक्स सिटी पार्क सफायर, रामप्रस्था ग्रीन्स, सेक्टर-9, वैशाली गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201010.
739	भारतीय स्वराज जन सेवा संगठन	एच. नं. 647, कल्याणपुर माजरा, खेलिया कल्याणपुर, पी.एस. - अहमदगढ़, तहसील - शिकारपुर, जिला - बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश - 203391.
740	भारतीय स्वराज्य क्रांती पार्टी	तुमबोलीनगर, कसबा-बावडा जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र- 431124.
741	भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी	40, लक्ष्मी नगर, रत्नेश्वर रोड, रतलाम, मध्य प्रदेश- 457001

742	भारतीय स्वतन्त्र पंच पार्टी	नोरंगिया चौराहा से 50 मीटर कोनी मार्ग, पोस्ट-कोनी, नोहरू चौक खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश-272175
743	भारतीय तारक समाज पार्टी	465ए बिनीली, तहसील- बडौत, जिला- बागपत, उत्तर प्रदेश- 250645
744	भारतीय ट्रायबल पार्टी	मु.पो. चंदेरिया, तालुका- बालिया, जिला- भरूच, गुजरात
745	भारतीय उदय निर्माण पार्टी	एच. नंबर-431/955एन, वार्ड गंज (132), नेवती टोला, एलाफ पैलेस के पास, मोमिन नगर, कैम्पवेल रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226003
746	भारतीय वंचितसमाज पार्टी	ग्राम – भुड़िया (फगुहा), तहो व जिला – कन्नौज, उत्तर प्रदेश।
747	भारतीय वीर दल	खेवट/खसरा नं.- 39/56, मुस्टिल नं.- 14, मौजा- घुडासन, पोस्ट- तिगाँव, बल्लबगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा - 121101
748	भारतीय वीर किसान पार्टी	ग्राम-खापरखेडा, तालुक- जफ्राबाद, जिला- जालना, महाराष्ट्र।
749	भारतीय विकास पार्टी	139-बी, टामुर नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली।
750	भारतीय विकास दल यूनाइटेड	मकान नं. एसएम.011-0425, ग्राम- छोटा बरियारपुर, वार्ड नं.- 38, पोस्ट- मोतिहारी कोर्ट, थाना- छतौनी, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार- 845401
751	भारतीय विस्तारवादी पार्टी	ग्राम-श्यामपुर, पो० – दुगरेई, जिला – फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।
752	भारतीय योजना रायथु पार्टी	डी.न०.27-1-148/H, अत्ताराताय स्ट्रीट, नियर चल्लापल्ली बंगला गवर्नर पेट, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश-520002.
753	भारतीय युवा एकता शक्ति पार्टी	मकान सं.-63, रामपुर रोड, मानपुर उत्तर, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल, उत्तराखण्ड- 263139
754	भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी	रोजी अनीमा एक्स.टी.टी.आई, अखण्ड ज्योति हास्पिटल के पास, दीघा, पटना, बिहार- 800011
755	भारतीय युवा क्रान्ति पार्टी	ई-ब्लॉक सूरजदीप कॉम्प्लेक्स, निकट दैनिक जागरण चौराहा, जॉपलिंग रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
756	भारतीय युवा पार्टी	एवरशाइन आपार्टमेंट जलाराम सोसायटी के निकट, रॉयल पार्क के सामने, पार्क एवेन्यू के निकट, जानागढ़, गुजरात- 362001
757	भारतीय युवा पार्टी (राष्ट्रवादी)	मकान नं. 139, सोनवरसा बैरिया, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश- 277208
758	भारतीय युवा सेना	मकान नं० – 1-407, कस्बा विभाग, किल्ले धारूर, तालुक – धारूर, जिला – बीड, महाराष्ट्र – 431124।
759	भारतीय युवा स्वाभिमान पार्टी	19/769, मोहल्ला – नारायनपुर, शुक्ला आटा चक्की के पास, गोविन्द नगर, औरैया, उत्तर प्रदेश- 206122
760	भारतीय मानवता निर्माण पार्टी	लाला लाजपत नगर, पोस्ट-पुण्डाग, थाना-जगन्नाथपुर, जिला - राँची, झारखण्ड - 834004.
761	भीम ट्राइबल कांग्रेस	14-ई/जे/804, मारवाड अपार्टमेंट, चोपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर, राजस्थान- 342008
762	भीम सेना	स्वराज नगर, स्वराज अपार्टमेंट, 66/7/बी-134/102, मानेवाड़ा, रिंग रोड, नागपुर- 440024
763	भोजपुरिया जन मोर्चा	सहयोगी नगर, पोस्ट -बहिरो, थाना + जिला भोजपुर, आरा, बिहार-802301
764	भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा	चन्द्रनगर कुरुद रोड कोहका, भिलाई, जिला व तहसील - दुर्ग, छत्तीसगढ़।
765	भ्रष्टाचार विरोधी दल	आर.जेड.डी.-120सी, निहाल बिहार(नानगलोई), दिल्ली- 110041
766	भ्रष्टाचार का अंत पार्टी	64/189 गड़रिया मोहाल, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208001
767	भूमिपुत्र यूनाइटेड पार्टी	ग्राम-इटाहर, पावर हाउस गेट के पास, पोस्ट-इटाहार, पुलिस स्टेशन-इटाहार

		जिला-उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल-733128
768	भूमिसन्तान अधिकार पार्टी	ग्राम-तलूक रानाघाट,पो.-पूर्व रानाघाट,थाना-मथुरापुर,जिला-दक्षिण24 परगना पश्चिम बंगाल- 743338
769	बिहार जनता पार्टी	ग्राम - जेल शहर, ओल्ड रिमाण्ड होम, धर्मनाथ मन्दिर रोड, दौलतगंज, सारण, बिहार - 841301
770	बिहार जस्टिस पार्टी	प्लॉट नम्बर 2251,यदुवंशी नगर दीघा,अशियाना रोड,पटना बिहार-800011
771	बिहार लोक निर्माण दल	मौ. नूनगोला, थाना नगर व पोस्ट- हाजीपुर, जिला- वैशाली, बिहार- 844101
772	बिजु स्वाभिमान दल	प्लॉट नं0 40, उमापदा, स्टेडियम वी आई पी रोड, पी ओ - एफ सी प्रोजेक्ट, कलिंग नगर, जाजपुर रोड, जाजपुर, ओडिसा - 755020
773	बीरा ओडिया पार्टी	मार्फत - श्री पी. सामन्तरे, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), स्था./पो.ऑ. -मधुपटना, कटक - 10 (उडिसा) ।
774	ब्यू इंडिया पार्टी	मकान नंबर 2-8, गांव और मंडल-बचुपल्ली,जिला-मेडचल, मल्काजगिरी,तेलंगाना-500090
775	बोल्शैविक पार्टी ऑफ इंडिया	डा. शशिकान्त वायेकर, 9 भुपेशनगर, गोरेवाडा रोड, नागपुर- 440013, महाराष्ट्र ।
776	बराबर समाज सांझी पार्टी	मकान नं0 - 698, ग्राम - अर्नियावाली, तहसील - नत्थुसारी चोपटा, जिला - सिरसा, हरियाणा - 125055
777	बृज पार्टी	बेसवां मोड़, अलीगढ़ मथुरा रोड, पोस्ट - बेसवां, ग्राम पंचायत - नयाबाँस, तहसील - इगलास, जिला - अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202145
778	ब्रज विकास पार्टी	ए-193, ट्रांस यमुना कालोनी, फेस - II,आगरा - 286002, उत्तर प्रदेश ।
779	बृहत्तर भारत प्रजातंत्र सेवा पार्टी	पैलेस के पीछे, किशोरगंज पन्ना, जिला- पन्ना, मध्य प्रदेश ।
780	त्रिज क्रान्ति दल	16, हरियाणा भवन, दयाल बाग, आगरा - 5, उत्तर प्रदेश ।
781	ब्रहत भारतीय कल्याण पक्ष	2484/एफ, आईसीएस लेआउट, कूडलू, आईसीएस लेआउट, ए-ब्लॉक, बेंगलोर, कर्नाटक- 560068
782	बुलंद भारत पार्टी	दुकान नंबर 8,पहली मंजिल,एस.सी.ओ.नंबर-84-85,सेक्टर-16,सागर सिनेमा के पास,फरीदाबाद,हरियाणा-121002
783	बुन्देलखण्ड काँग्रेस	56, ज्वाला हेडी मार्केट, शर्बती काम्प्लेक्स, पश्चिम बिहार, दिल्ली - 110063.
784	बुन्देलखण्ड क्रान्ति दल	मकान नं. 40, मोहल्ला- खाई, नई बस्ती, झांसी, उत्तर प्रदेश - 284001
785	बुंदेलखंड विकास दल	द्वारा श्री शिव नारायण खरे (एडवोकेट), 116/3 शिवालय, किशोर गंज, टाउन एरिया, कुलपहाड़, जिला - महोबा, उत्तर प्रदेश - 210426
786	चैलेंजर्स पार्टी	दुर्गेश निवास, विठोबा मंदिर के सामने, 68/XX, टेलर स्ट्रीट, काउलबाज़ार, बेल्लारी, कर्नाटक - 583102 ।
787	चण्डीगढ़ की आवाज पार्टी	मकान नं. 2207, ग्रांड फ्लोर, सेक्टर- 45 सी, चण्डीगढ़- 160047
788	चेन्नई यूथ पार्टी	एच नं0 2595,टी.एन.एच.बी.,अयप्पक्कम,प्रथम तल,चेन्नई,तमिलनाडु- 600077
789	छात्रपति शिवाजी भारतीय गरीब पार्टी	ग्राम-फतेहपुर (खौदा),पोस्ट-कटोना,जिला-वाराणसी,उत्तर प्रदेश-221208
790	छत्तीसगढ़ एकता पार्टी	मकान सं. 182/2, वार्ड नं. 08, बड़े पडरमुदा रोड, जमगहन, तहसील- मलखरोदा, जिला- जांजगीर चम्पा, छत्तीसगढ़- 495691
791	छत्तीसगढ़ महतारी पार्टी	एलआईजी 76,सेक्टर-2,शंकर नगर,रायपुर,छत्तीसगढ़,पिन-492007
792	छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा	पो. ऑ. दल्ली राजहारा, जिला - दुर्ग- 491228. (छत्तीसगढ़) ।
793	छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी	रामानुजगंज रोड, संजय पार्क के सामने, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ - 497001

794	छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी	बजरंग नगर (तात्यापारा वार्ड), रायपुर, छत्तीसगढ़।
795	छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच	21, बत्तीस बंगला, भिलाई नगर, जि० - दुर्ग- 490006 छत्तीसगढ़।
796	छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी	खोंगापानी, जिला - कोरिया छत्तीसगढ़ - 497447
797	छत्तीसगढ़ विकास पार्टी	ए-12, फ्लाश विहार, न्यू पुरैना, पोस्ट ऑफिस-रविग्राम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
798	छत्तीसगढ़ समाज पार्टी	हांडीपाड़ा आजाद चौक, रायपुर - 492001. (छत्तीसगढ़)।
799	छत्तीसगढ़िया पार्टी	म०न०-93, ग्राम- धनरास, पोस्ट- छुरी, तहसील- कटधोरा, जिला- कोरवा, छत्तीसगढ़ - 495450
800	छावा दल	सर्वे नं० 11-2, प्लॉट नं० 01, सीताराम नगरी, मल्हारवाडी, पोस्ट-हिंंगोली, तालुका - हिंंगोली, जिला-हिंंगोली, महाराष्ट्र- 431513.
801	क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट	नं. 9, रोसारी चर्च रोड, सनथोमे, चेन्नई - (तमिलनाडु)।
802	सिटिजन एक्सन पार्टी-सिक्किम	पार्टी प्रमुख क्यूटीआर, लोअर लुम्से, एडमपूल से रेष्टिथाग रोड, गंगटोक, सिक्किम- 737128
803	सिटिज़न पार्टी	मकान. नं. 53, सर्वे नं. - 620, बजनाईकोइल स्ट्रीट, मधननकुप्पम, कोलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु-600099.
804	सिविल राईट्स पार्टी	फ्लैट नं. डी- 89, ग्राउड फ्लोर, ब्लॉक-16, शिवजोत इन्कलेव, खरड एस.ए.एस नगर, मोहाली, पंजाब- 140301
805	कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमेटी	कुत्तुकुडी, त्रिवेन्द्रम - 695037, (केरल)।
806	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार	सी-141, सैनिक नगर, नई दिल्ली - 110059।
807	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ तेलंगाना (मार्क्सिस्ट-अंबेडकरिस्ट) सीपीटी(एमए)	मं. नं०-2-2-1106/बी/एसबीके1, शान्तिनगर, अम्बरपेट, हैदराबाद-500013
808	काँग्रेस (सेक्युलर)	राम राज भवन, मनीक्काठ रोड, कोचीन - 16 (केरल)।
809	करप्शन एबोलिशन पार्टी	मकान नं० - 219, गाँव व डाकखाना - शेरिया, तहसील - बेरी, जिला - झज्जर, हरियाणा
810	कण्ट्री सिटीजन पार्टी	#5, 'पद्मावती' माराम्मा मंदिर के पीछे, चिक्कालासंद्रा, बेंगलुरु, कर्नाटक- 560061.
811	दक्ष पार्टी	आई/1102, रहेजा विस्ता, रहेजा विहार, चांदीवली, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400072
812	दलित कान्ति दल	जाति मेघवाले, गांव पोस्ट - धौलीपाल, तहसील व जिला - हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
813	दलित मजदूर किसान पार्टी	इ-11/77 न्यू कॉलोनी, हौज रानी मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110017.
814	दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अधिकार दल	ग्राम- हसनपुर जागीर, पोस्ट- सिकन्द्राबाद, जनपद- बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश- 203205
815	दलित विकास पार्टी (भारत)	हाई स्कूल के पीछे, वार्ड नं. 3, गांव व पोस्ट - धुनवारा, तहसील -मैहर, जिला - सतना, मध्य प्रदेश।
816	दलित बहुजन पार्टी	म.स. 1-7-186/303, श्रीनिवास निलयम चैतन्यपुरी, दिलसुखनगर, हैदराबाद- 500060
817	दिल्ली जनता पार्टी	वाई - 200, कैप नं०-1, नांगलोई, दिल्ली - 110041
818	डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी	गली नं० - 7, गुरु नानक पुरा (पूर्वी), चिन्तपूर्णी मन्दिर के पास, जालंधर, पंजाब।

819	डेमोक्रेटिक काँग्रेस पार्टी	291, ओडियन वाली गली, गोपाल मंदिर के पास, मजीठा रोड, अमृतसर (पंजाब) ।
820	डेमोक्रेटिक क्रप्शन लिबरेशन फ्रन्ट	2एफ/1ए नेडुंगनविलै, पोन्नप्पा नाडार नगर, नागरकोइल, तमिल नाडु - 629004
821	डेमोक्रेटिक ह्यूमन राईट्स मूवमेंट पार्टी	तुन्डुविला वीडू, पन्जियूर, वेनजारा मूड पी.ओ. तिरुवनन्तपुरम, केरल- 695607
822	डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी	डोर न0.3/78, पी.ओ.-एलामकुन्नपुझा, ज़िला-एर्नाकुलम, कोच्चि, केरल- 682511
823	डेमोक्रेटिक नेशनल अलेजियन्स	नंबर 6, राजावेलु स्ट्रीट, एरुक्कनचेरी, चेन्नई-600118, तमिलनाडु
824	डेमोक्रेटिक ऑरगेनाइजेशन ऑफ सोसिओ-इकॉनॉमिक ट्रांसफोरमेशन ऑफ इंडिया पार्टी	प्लॉट नंबर -749, बेसमेंट, सेक्टर-39, गुडगाँव, हरियाणा- 122011
825	डेमोक्रेटिक ऑरगनाइजेशन ऑफ नेशन पार्टी	मन्नारायथु, थेक्केथिल वीतिल, पल्लीसेरीकल, पोस्ट -सष्ठमकोट्टा, कोल्लम, केरल- 690521.
826	डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	162, आनन्दराव उमरा मार्ग, अशोक नगर, नागपुर - 17, (महाराष्ट्र) ।
827	डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (अम्बेडकर)	मोहल्ला - ताजपुरा, राहों, तहसील - नवांशहर, जिला - शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब - 144517
828	डेमोक्रेटिक प्रजाक्रान्ति पार्टी सेक्युलरिस्ट	उम्माथुर पो. व ग्राम. हन्सुर तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक - 571105
829	डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी	राष्ट्रीय उच्च सोनवार, अमर सिंह क्लब के सामने, श्रीनगर, जम्मू और काश्मीर- 190001
830	डेमोक्रेटिक सेक्युलर पार्टी	कोहिनूर बेकरी, उमरेद रोड, ताजाबाद, औलिया नगर, नागपुर - 24, महाराष्ट्र ।
831	डेमोक्रेटिक सोशल जस्टिस पार्टी	तिरुवोणम, एन.एल.आर.ए. 140, नीराझी लैन (नं. 7/242), तिरुवनन्तपुरम नगरसभ, उल्लूर, मेडिकल कॉलेज, पो.ऑ.-तिरुवनन्तपुरम, केरल-695011
832	डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी (प्रबोध चन्द्र)	63- अनन्दा पलित रोड, कोलकाता - 700014, पश्चिम बंगाल ।
833	डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	359, वेस्ट कोदलिया, न्यू बैरकपुर, थाना - घोला, जिला - उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700131
834	डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी	आर्य स्कूल रोड, वीपीओ - सोहना, एस ए एस नगर, पंजाब- 140 308
835	देस मक्कल मुनेट्र कडगम	3/172, वीरचेल्लैयपुरम कॉलनी, वल्लीयूर (पोस्ट), पी. कुमारलिंगपुरम, आमतुर (वाया), तालुक एवं जिला-विरुधूनगर, तमिलनाडु - 626005
836	देसिया प्रजा सोसलिस्ट पार्टी	एन. एस. भवन, वेलायनी, डाकघर - नेमाँम, तिरुवनन्तपुरम - 695020, केरल ।
837	देश बचाओ जन मोर्चा	डी - 6/171, सेक्टर - 31, नोएडा - 201301 (उत्तर प्रदेश) ।
838	देश बचाओ पार्टी	223/ए, केवलपुरी, अहिल्याबाई रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश- 251001
839	देश हित पार्टी	प्लॉट नं0 - 467, ग्राम- जमुनी, पोस्ट- तरकुलवा, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश ।
840	देश जनहित पार्टी	प्लॉट नं. 78, विनायक को0 हाऊसिंग सोसाईटी बिदीपेट, पावर हाउस के पीछे, नरसाला, मकान नं0 - 4430/78, मौजा बिदीपेट, नागपुर - 30 महाराष्ट्र ।
841	देश प्रेम पार्टी	वार्ड नंबर-19, (पुराना वार्ड नंबर-17), दरवाजा नंबर 143(2), विपक्ष पुराना के. एस.आर.टी.सी बस स्टैंड, कोलाचलम कंपाउंड, जनताकल कॉम्प्लेक्स बल्लारी, कर्नाटक- 583101
842	देश सेवा पार्टी	नं. ए-2, अधाना भवन, ग्राम- मोरना, सेक्टर- 35, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201303.
843	देश शक्ति पार्टी	14/39, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
844	देशा दल	मानस रंजन मिश्रा खतियान नं.466/90, तहसील नं.198, आनंद

		बिहार, सर्वहल, हनुमान मंदिर के पास, पोस्ट एवं थाना-झारसुगुडा, जिला-झारसुगुडा, ओडिशा-768201
845	देशबन्धु पार्टी	ग्राम- मेहरबान नगर, निकट प्राइमरी पाठशाला, मेहरबान नगर, बाईपास रोड नानपारा, पो0 - बलहा, तहसील - नानपारा, जिला - बहराइच, उत्तर प्रदेश।
846	देशभक्त जगत पार्टी	638/111, चेतना बिहार, सेक्टर-14, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016.
847	देशभक्त निर्माण पार्टी	सुल्तानपुर बारहगाँवा, पोस्ट व तहसील - मधुबन, जनपद - मऊ, उत्तर प्रदेश
848	देशी किसान पार्टी	मकान सं0 - 1624, वार्ड सं0 - 52, लक्खीबाग मानपुर, जिला गया, बिहार
849	देशवादी पार्टी	मकान नं. 2184, डी- ब्लॉक, इन्दिरा नगर, जनपद- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016
850	देसिया जननयागा कांची	डी. नं. 4/133ई, अन्ना नगर, रेड्डीपट्टी पोस्ट, नमक्कल जिला, तमिलनाडु-637002
851	देसिया मक्कल पेरियक्कम	प्लॉट नं. 19, के.के. नगर, तन्निलम 61010, तन्निलम- पोस्ट, तिरुवारूर, जिला तमिलनाडु- 610105.
852	देसिया मक्कल शक्ति काँची	न्यू न - 21, ओल्ड नं0 - 11, वैकटरमन स्ट्रीट, मिंट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600079
853	देसिया सिरुपनमयिनर मक्कल इयक्कम	एस जॉन, नं. 7, पवुन्जुर, मेन रोड, कीरलवादी- गांव, पुलियारानन काँट्टुड, पंजायत, जमीन, एन्दाथुर- पोस्ट, मदुरंताकम- तालुका, कांचीपुरम- जिला, चेन्नई, तमिलनाडु- 603311
854	देशिया उझवर उझइपलर कझगम	2/52, सी.सी.रोड. इ.बी.ऑफिस से सामने, किलपाल्लीपट्टु गांव, वेल्लोर तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु- 632311
855	धनवान भारत पार्टी	फ्लैट नं. 002, डी विंग, श्री गणेश सी.एच.एस., शांति विद्यानगरी, मीरा रोड (ईस्ट), तालुका और जिला- ठाणे, महाराष्ट्र- 401107
856	धर्म निरपेक्ष दल	24/42, लोकनाथ चौक, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
857	धर्मराज्य पक्ष	601/602, बिल्डिंग नं0 7, शुभारम्भ फेस - 1, कोनकानीपाडा मार्ग, ऑफ जी बी रोड, मानपाडा, ठाणे- 400610, महाराष्ट्र ।
858	धर्म समाज पार्टी	डोर नं. 8-17-90 / बी42, नन्दनवनम, कर्मनघाट विलेज, सरूरनगर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना- 500079.
859	धरतीपुत्र विकास पार्टी	29, विद्युत अभियन्ता कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान-302017
860	देशिया एलिया मक्कल नालाकाची	संख्या- 8 / 166, मारुथम्पट्टी कॉलोनी, कठालपट्टी (पीओ) करूर, तमिलनाडु- 639007.
861	देसीया मक्कल कझगम	डोर नं0 - 1/239-3, मेन रोड, आर.सी. चेट्टीपट्टी, कोट्टामेट्टुपट्टी विलेज, धर्मापुरी ओमलुर तालुक, जिला - सलेम, तमिलनाडु - 636455
862	धू सेना	25/549, श्री शीतला माता मंदिर मार्ग, नवभारत चौक के पास, पुरानीबस्ती, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001
863	डिजिटल ऑर्गनाइजेशन ऑफ नेशन पार्टी	वार्ड नं. 25, मालमत्ता क्रमांक 35, प्लॉट नं. 3776, मोतीनगर पुसद, तालुका- पुसद, जिला- यवतमाल, महाराष्ट्र- 445204
864	दिग्विजय भारत पार्टी	#5 (40/जी) 21वाँ मेन रोड, मारेनहल्ली, स्टैंडर्ड इंग्लिश स्कूल, विजयानगर, बेंगलुरु, कर्नाटक- 560040
865	दो जमा पांच मुद्दे जन पार्टी	गांव व डाकखाना - आसन, तहसील व जिला - रोहतक, हरियाणा
866	डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी	नं0 9 और 10, ब्लॉक - डी, सेक्टर - सी, गांधी नगर, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर - 180004

867	डा. अम्बेडकर पीपुल रिवोल्यूशन मूवमेंट	नं० 4, ग्यारवीं गली, कुमारप्पा नगर, धारापाडावेडु, कटपाडी, वैल्लोर जिला, तमिल नाडु।
868	डॉ. अम्बेडकर पीपुल्स पार्टी	106, 4 वां क्रॉस, के. एच. रंगनाथ कॉलोनी, अपोजिट बीएचईएल फैक्ट्री, मैसूर रोड, बंगलौर -26 कर्नाटक
869	डॉ. अम्बेडकर समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी	वेङ्कतैअहन चतरा, हरदनहल्ली होबली, चामराजनगर तालुक व जिला, कर्नाटक।
870	डा. भीमराव अम्बेडकर दल	ग्राम - कोठीडीह, तहसील - परगना नवाबगंज, जनपद - बाराबांकी - 225001, उत्तर प्रदेश।
871	डॉ. एमजीआर डेमोक्रेटिक पार्टी	नया नंबर 2 और पुराना नंबर 2/75, पडवेट्टम्मन कोयिल स्ट्रीट, शेनबाक्कम, वैल्लोर-632008
872	द्रविड जननायगा मक्कल काची	नंबर-6, इम्मानुएल 2 nd क्रॉस स्ट्रीट, पल्लिकरानी, चेन्नई, तमिल नाडु- 600100
873	द्रविड जनशक्ति पार्टी	नंबर 4 / 87, ओथावीडु, अलीनगरम (पी.ओ.), थिरुप्पुवनम, शिवगंगई जिला, तमिल नाडु -630611
874	द्रविड मक्कल पाथुकप्पु कझगम	नंबर 2, पहली लेन, पी.वी.कोविल स्ट्रीट, रायपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु-600013
875	द्रविड मुरपोक्कु मक्कल काञ्ची	कार्यालय नं० 5/762, सबरई रोड, मडिपक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600091
876	द्रविड पेरावाई	69, रंगापिल्लई स्ट्रीट, पांडिचेरी - 605001.
877	डुगर प्रदेश पार्टी	ड्राइविंग इंस्टीट्यूट कॉम्प्लिक्स, जानीपुर जम्मू - 180007, जम्मू और कश्मीर।
878	एकम सनातन भारत दल	20 बी/बी, गांधी नगर, जम्मू-180004
879	एकजूट अधिकार पार्टी	सी- 1037/2, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
880	एकलव्य समाज पार्टी	53, बी-ब्लॉक, पुराना दारूलशफा लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 251001.
881	एकता निर्माण नेशनल पार्टी	नियर दुर्गा माता मंदिर, 41-बी वदना नगर तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452018
882	एकता समाज पार्टी	6898, नीम स्ट्रीट, अहाता किदारा, बाडा, हिन्दू राव, दिल्ली - 110006.
883	एकता शक्ति	झंझाड़ी, पो० -भैनी खुर्द, तहसील - नीलोखेडी, जिला - करनाल, हरियाणा।
884	एकता विकास महासभा पार्टी	सिन्हा सदन, एल.सी.टी. घाट, पूर्वी मैतपुरा, थाना- पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पोस्ट- जी.पी.ओ. सदर-पटना, जिला- पटना, बिहार-800001
885	एलुची देशम पार्टी	पुराना नं. 1/46, न्यू नं.34, वडिवलपुरम, पोस्ट- वाडुकाचिमथील, तालुक- नानगुनेरी, जिला- तिरुनेलवेली, तमिलनाडु- 627102
886	इंजीनियर्स पार्टी	बूताना हूसुर, पोस्ट- सुनागहल्ली, जिला - मंड्या, कर्नाटक- 571403
887	इक्वालिटी पार्टी ऑफ इंडिया	मिथुनम, 15/818/81ए, भद्रा नगर, उलियाकोविल (P.O), कोल्लम, केरल - 691019.
888	एज़हुची तमिझारगल मुनेत्र कझगम	5/197, चिन्ना मंगलाकुडि, उथांगुडि पोस्ट, मदुरै, तमिलनाडु - 625107
889	फौजी जनता पार्टी	मकान नं० - 104, गाँव - मनोबास, डाकखाना - बराल, तहसील - सिकन्द्राबाद, जिला - बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश- 203001
890	फौजी किसान पार्टी	ग्राम- सेराहवा, पोस्ट ऑफिस- मुराली, बाया हरिनगर, जिला- पश्चिम चम्पारण, बिहार- 845103
891	फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी	244/ब, कठमोडवा, पोस्ट - मदैनिया, जनपद - अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश - 224147
892	फोरम फार प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी	बी/145-146, मित्रल टावर्स, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई - 400021, महाराष्ट्र।
893	फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी	वार्ड नं. 5, रेस्ट हाउस के सामने, गणेश नगर, मुरमाडी, तहसील व पोस्ट-

		लाखानी, जिला- भंडारा, महाराष्ट्र- 441804
894	फ्रीडम पार्टी	एफ-2/260, टॉप फ्लोर, सुंदर नगरी, नन्द नगरी, शहादरा, दिल्ली- 110093
895	फ्रीथॉट पार्टी ऑफ इंडिया	121, धर्म विहार, पो. ओ. खंडगिरि, भुवनेश्वर, ओडिसा – 751030
896	फ्रंट ऑफ रेवल्यूशनार्ड क्रिएटिव एफर्ट्स	श्री गोवर्धन पैलेस, धार रोड, उधमपुर – 182101 जम्मू एण्ड कश्मीर।
897	गदर पार्टी	मकान सं० 32, रामलीला मैदान के बगल में, पड़ाव वार्ड, पोस्ट मकन्दूगंज, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश – 230001।
898	गद्दार प्रजा पार्टी	प्लॉट नं. 26, मकान नं. 1-23-125/1, मदेवी नगर, मंडल, अलवल, पोस्ट-थिरुमालागिरी, सिकंदराबाद, तेलंगाना-500015
899	गणा सुरक्षा पार्टी	ग्राम-दिघलीपुर, तमूलपुर, थाना-तमूलपुर सब डिविजन-बक्सा, जिला-बक्शा असम-781367.
900	गनसंगम पार्टी ऑफ इंडिया	डी. नं. 6/786, साक्य मंजिल, पोन्विलानगर, तिरुची रोड, नामक्कल, तमिलनाडु- 637001
901	गाँधी एकता पार्टी	के-63/01, भूतभैरव नखास (खाशीपुरा), वाराणसी, उत्तर प्रदेश
902	गांधी प्रकाश पार्टी	मकान सं०-126, खाता सं०-236, प्लॉट सं०-637, ग्राम- सिकठी, पोस्ट ऑफिस-अखलासपुर, थाना – भभुआ, जिला- कैमूर, बिहार।
903	गाँधीयन पीपुल्स पार्टी	सी – 1255, इन्दिरा नगर, लखनऊ – 226016, उत्तर प्रदेश।
904	गणतंत्रिक जनहित पार्टी	द्वारा बेदवती देवी, पश्चिमी लोहानीपुर, कदमकुँआ, पटना बिहार-800003
905	गरीब आदमी पार्टी	आर-21, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली -110059
906	गरीब जनक्रान्ति पार्टी	वार्ड – 12, होलिडिंग संख्या – 747/642, दाउदपुर कोठी, एम०आई०टी० गेट के सामने, लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा, मुजफ्फरपुर, बिहार- 842003
907	गरीब क्रान्ति पार्टी	मकान सं. 7, मुकरपुर खेमा, नवाब का आहता, तहसील व जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश -246701
908	गरीब समाज स्वराज पार्टी	शाहपुर तिगरी, पोस्ट और थाना-मझोला, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001
909	गरीब सामना पार्टी	म० नं० -399, आवास विकास कॉलोनी, जिला- मिर्जापुर – 231001 उत्तर प्रदेश।
910	गरीब बेरोजगार विकास पार्टी	ग्राम- चम्पतपुर, पो.ऑ- बलिया, तहसील- आंवला, विकास-खण्ड- आलमपुर जाफराबाद, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश- 243402
911	गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी	132 बृंद लामर मैदान, गुर्जर बस्ती, दा देवसर, कुलगाम, जम्मू एंड कश्मीर-192231
912	गरीब एकता पार्टी	ए-71 ग्रुप, वजीरपुर, औद्योगिक क्षेत्र, वजीरपुर, दिल्ली – 110052.
913	गरीब जनशक्ति पार्टी	कुमार मार्केट, अखाड़ाघाट रोड, होलिडिंग नंबर -17/15, वार्ड सं. 17, बालुघाट ढलान के समीप, मुजफ्फरपुर, बिहार-842001
914	गरीब जनता दल (सेकुलर)	मित्र मंडल कालोनी, वार्ड नं. 11, स्थित होलिडिंग नम्बर- 470, साकेत बिहार, अनिसाबाद, पटना-2, बिहार
915	गरीब कल्याण पार्टी	नं.-सी/ 268, शाप नं.-2, प्रभाकर टेन्ट, नियर सेजल नगर सो., नियर जी.डी.हाई स्कूल, सैजपुर बोधा, अहमदाबाद, गुजरात-382345
916	गरीबी मुक्त भारत पार्टी	मकान संख्या- 185, बलिया देव नगर, बड़ोदरा, गुजरात- 390001
917	गारो नेशनल काउन्सिल	न्यू तुरा, पश्चिम गारो हिल्स, (मेघालय)।
918	गरवी गुजरात पार्टी	नं. 112, घीवाली चाली, चमनपुरा, असारवा, अहमदाबाद, गुजरात- 380016
919	ग्लोबल पीपुल पीस पार्टी	1-आनंदनगर, पोस्ट - आनंदनगर, थाना - कल्याणी, जिला - नदिया, पश्चिमी

		बंगाल - 741245
920	गोवा नेशनलिस्ट पार्टी	मकान नं० - 442, चिंचमाला, वाडा पार्थे, सत्तारी, गोवा - 403505।
921	गोवा प्रजा पार्टी	क्लासिक अपार्टमेंट्स, हाउस नं० - 69, एल्ला, पुराना गोवा, तिसवाड़ी, नॉर्थ गोवा, गोवा - 403402
922	गोवा सु-राज पार्टी	383 - ए, पीराजोना, मोइरा, बारडेज, गोवा, पिन - 403514.
923	गोवा सुरक्षा मंच	दुकान नं० - 644/1, वार्ड नं० - 4, ग्राउण्ड फ्लोर, अहिल्याराम निवास, पंचायती के सामने, सावईवेरें, पोंडा-गोवा।
924	गोवा विकास पार्टी	लक्ष्मी सदन, ग्राउंड फ्लोर, असेम्बली कॉम्प्लेक्स के सामने, जरनलिस्ट कॉलोनी के पास, पुरबोरिम, गोवा - 403507.
925	गोएमकरेंची ऑट्रेक असरो	मकान नं० 780/ए, मुगल्ली, साओ जोस डी एरीयल, सालसेट, गोआ।
926	गोयंचो स्वाभिमान पार्टी	घ.क्र.12/678, सेंट जोकिम चेंपल के पीछे, मडगांव, गोवा-403601
927	गोकुला मक्कल काची	न्यू नं. 7, ओल्ड नं. 3, वेंकटरामन स्ट्रीट, तेनाम्पेट, चेन्नई, तमिल नाडु- 600018
928	गोंडवाना गणतंत्र पार्टी	ग्राम व पो. ऑ. तिवेर्थ, तहसील कटघोरा, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
929	गोंडवाना कांग्रेस पार्टी	शाहपुरा, ए-121, बी० डी० ए० कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश।
930	गोंडवाना दंडकारण्य पार्टी	H.No.4-4-24/2/308/8/1, ग्रीन किराना शाप के पास, रिक्षा कॉलोनी के बगल में, संजय नगर, आदलाबाद, तेलंगाना राज्य-504001
931	गोंडवाना मुक्ति सेना	एम-2, पूर्वांचल फेस- 1, खजूरीकला रोड, भोपाल- 462021, मध्य प्रदेश।
932	गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट	डॉ०जाकिर हुसैन रोड, (जलपहाड़ रोड) पो. ऑ. और जिला दार्जिलिंग, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (पश्चिम बंगाल)।
933	गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट	शाही निवास चन्द्रावनी, पोस्ट-मोहब्बेवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
934	गोर्खा राष्ट्रीय कांग्रेस	9, के.बी. रोड, पोस्ट-धूम, थाना -जोरबंगला, जिला -दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल।
935	ग्रेजुएट इंडिया पार्टी	नंबर 443, काथा नंबर 1200, एजीवी लेआउट, बीबीएमपी वार्ड नंबर 12, चिक्कासंद्रा, बैंगलोर, कर्नाटक - 560090.
936	ग्रामीण विकास पार्टी	शिव ग्राम, प्लॉट नं. 323, (खाता नं. 1161/1314), इंतकाल नं. 5678, किला नं. 10/02, (1-0), चोमा, पालम विहार एक्सटेंशन, तहसील व जिला- गुरुग्राम, हरियाणा-122017
937	ग्रेट इंडिया पार्टी	डी नं० 1-1334, देवस्थानम रोड, मंगलागिरी-522503, गन्तूर डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश।
938	ग्रीन पार्टी ऑफ इंडिया	36-सी, गोविन्दपुरी, रामनगर, सोडाला, जयपुर, राजस्थान- 302006
939	गुजरात जनता पंचायत पार्टी	सिटी सर्वे नं. 966, रामेश्वर मंदिर के पास, डेली फली, बोखिरा, पोरबंदर, गुजरात- 360577
940	गुजरात किसान मजदूर लोकशासन पार्टी	710/32, ग्रीन सिटी, गली नंबर 5, लालपुर रोड, जामनगर, गुजरात- 361005.
941	गुजरात क्रांतिकारी पार्टी	दुकान नंबर 1, मधुर कॉम्प्लेक्स, बडगाम, डाकघर, बडगाम, बस स्टैंड के पास, जिला-बनासकांठा गुजरात-385421
942	गुजरात लोकतंत्र पार्टी	बी-2, सहकार विकास फ्लैट्स मोना नगर के सामने, नेहरु नगर, एस एम रोड, अहमदाबाद, गुजरात-380015
943	गुजरात नव निर्माण सेना	C-19, जयराज फ्लैट, सोनी नी चली, ओधव, अहमदाबाद, गुजरात-382415
944	गुजरात सर्व समाज पार्टी	प्लॉट नंबर-20, सर्वे नंबर-133/3, निर्मल नगर, किदाना, तहसील-गांधीधाम, जिला-कच्छ, गुजरात-370205

945	गुंज सत्या नी जनता पार्टी	कार्यालय संख्या सी/442, सुमेल - 7, सोनी नी चावल क्रॉस रोड, एन एच न0 8, रबियाल, अहमदाबाद - 380023
946	गुडगाँवा रेसिडेन्ट्स पार्टी	सी-1927, सुशांत लोक-1, गुडगाँव -122 002, हरियाणा।
947	गुरु चाँद मुक्ति मोर्चा	जी-52, अरूणा नगर, मजनु का टीला, सिविल लाईन्स, दिल्ली - 110054
948	गुरुचंद सेना दल	106, पुरवा प्राचन्ना, ग्राम साउथ, पोस्ट-वी.आई.पी. नगर, पी.एस.-अनंदापुर, कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल-700100
949	हाकिम अपना पार्टी	मौहल्ला महमूद खाँ, सराय नखासा चौराहा, सम्भल, तहसील व जिला - सम्भल, उत्तर प्रदेश 244302।
950	हमर राज पार्टी	के-19, गोमती इण्डस्ट्री के सामने, लक्ष्मी नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ -492001
951	हमारा काम धन्धा और बेरोजगार पार्टी	म0न0.652, इरेगा प्रोजेक्ट, पोस्ट-रालेगन सिद्धि, स्वराज हिन्द ट्रस्ट रोड, ताल-पारनेर, डिस्ट्रिक्ट-अहमदनगर, महाराष्ट्र-414302.
952	हमारा सहारा पार्टी	सानंद भवन, ग्राम व पोस्ट - मसौडा, थाना - पालीगंज, जिला - पटना, बिहार - 801110
953	हमारा सही विकल्प पार्टी	फ्लैट नंबर 303, के.एच। क्रमांक 167, लाल डोरा, ग्राम-कापसहेडा नई दिल्ली-110034
954	हमारी अपनी पार्टी	सर्वे नंबर -75/1, इंद्रायणी विहार, संत नगर, लोहगांव पुणे, महाराष्ट्र - 411047
955	हमारी जनमंच पार्टी	1/12, नया चुक्खूवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
956	हमदर्द पार्टी	मोहल्ला- सैय्यदवाडा, पोस्ट- सट्टी मस्जिद, शहर- गाजीपुर, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233001
957	हमदर्दी जनरक्षक समाजवादी विकास पार्टी (जन सेवक)	ग्राम- उधुरा, पोस्ट ऑफिस- दल्लुपुर, थाना- ब्रह्मपुर, जिला- बक्सर, बिहार- 802130
958	हमरो सिक्किम पार्टी	ओम शांति निवास, लोवर मरचाक, रानी पूल, ईस्ट सिक्किम, सिक्किम - 737135
959	हक इंसाफ पार्टी	नं.3037, तलब खटिकान, जम्मू एवं कश्मीर-180001
960	हरदम मानवतावादी राष्ट्रीय दल	नं. 3-10-18, पट्टाभिपुरम, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश- 522006
961	हरित प्रदेश विकास पार्टी	मकान नं. 34, ग्राम- तबेलागड़ी, तहसील- बडौत, जिला- बागपत, उत्तर प्रदेश- 250622
962	हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट	नम्बर 549, मथुरा नगरी अम्बाला सिटी, हरियाणा- 134003
963	हरियाणा डेवलपमेंट पार्टी	नं0 2079, सेक्टर-4, (नियर कम्प्यूनिटी सेंटर), रेवाड़ी, हरियाणा-123401
964	हरियाणा हितकारी दल	गाँव-ब्राह्मण माजरा, पोस्ट -भदौर, तहसील-पानीपत, जिला - पानीपत हरियाणा- 132103
965	हरियाणा इंसाफ कांग्रेस	फार्म हाउस, नजदीक भगवत भक्ती आश्रम, रामपुरा, रेवाड़ी, हरियाणा - 123401
966	हरियाणा जन चेतना पार्टी (वी)	कोठी नं0 - 118ए, सर्कुलर रोड, मॉडल टाउन, अम्बाला सिटी, हरियाणा - 134003
967	हरियाणा जन सेवक पार्टी	32ए/34, आशीष कूटीर, नीयर शिव पार्क, जनता कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा- 124001
968	हरियाणा जनहित विकास पार्टी	531ए, सैक्टर-4, रोहतक, हरियाणा- 124001
969	हरियाणा जनरक्षक दल	249/3, पार्क रोड, आदर्श नगर, गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा।
970	हरियाणा जनसेना पार्टी	मकान नंबर 633, भूतल, न्यू जनता कॉलोनी, ऑपोजिट सारण थाना, फरीदाबाद, हरियाणा-121005

971	हरियाणा क्रान्ति दल	बबैन रोड, लाडवा, जिला - कुरुक्षेत्र, हरियाणा
972	हरियाणा लोकहित पार्टी	शॉप नं0-8, एस सी ओ - 2, ओल्ड जुडिशल काम्प्लेक्स, झारसा रोड, सेक्टर - 15, गुडगाँव, हरियाणा - 122001
973	हरियाणा नवनिर्माण सेना	101, गाँव- सिलोखरा, गुडगाँव - 122001. हरियाणा ।
974	हरियाणा सर्वजन पार्टी	मकान न. 236. वार्ड न. - 2 ग्राम पंचायत रादौर, जिला - यमुना नगर, हरियाणा ।
975	हरियाणा स्वतंत्र पार्टी	हाउस नं.- 154, ग्राम व पोस्ट ऑफिस-जखौदा, तहसील-बहादुरगढ़ जिला- झज्जर, हरियाणा ।
976	हेलिंग हैण्ड पार्टी	बी - 203, श्री राम हाइट्स, समोर रेजीडेंसी, टोल टैक्स मुठिया के पास, नरोदा, अहमदाबाद - 382330, गुजरात
977	हिमाचल जन क्रांति पार्टी	मकान सं.435, वार्ड नं. 10, शाम नगर, धर्मशाला, जिला- कांगडा, हिमाचल प्रदेश- 176215
978	हिमाचल जनता पार्टी	पवन कटोच C/o उर्मिला देवी, 88, महाल विहार, मं नं. 248 गाँव बण्ड विहार, डाकघर दियोग्रा, तहसील पालमपुर, जिला-काँगडा, हिमाचल प्रदेश- 176061.
979	हिमाचल लोकहित पार्टी	शास्त्री भवन, देव नगर कासुम्पटी, शिमला - 171009, हिमाचल प्रदेश ।
980	हिन्द कांग्रेस पार्टी	सी-6, साउथ साइड, जी0 टी0 रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
981	हिन्द हितैषी हिन्द मां सेना	1-विराट नगर, सावन पार्क, परशुराम चौक, फेज़-II, कनाल बाईपास, मॉडल टाउन, नियर होटल विराट पैलेस, पानीपत, हरियाणा-132103
982	हिंद जन कांग्रेस	72, प्यारेलाल कम्पाउण्ड, नगरा, झांसी, उत्तर प्रदेश ।
983	हिन्द जन स्वराज पार्टी	ग्राम-किशनपुर, पोस्ट-बेनीपुर, पुलिस स्टेशन-बहेडा, जिला-दरभंगा, बिहार- 847208
984	हिन्द समर्पित पार्टी	156, शाहबिसवा जलालपुर, रघुनाथपुर, मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201206.
985	हिन्द समदर्शी पार्टी	एफ-64, गलैक्सी अपार्टमेंट, सेक्टर-43, गुडगाँव, हरियाणा-122002
986	हिन्द साम्राज्य पार्टी	512/695क/1, वाल्दा रोड, निशातगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226007
987	हिन्द यूनाईटेड मोर्चा	नंबर जे-1, शिवालिक टावर्स, शिवालिक सिटी, सेक्टर-27, खरार, एस.ए.एस. नगर, पंजाब-140301
988	हिन्द विकास पार्टी	पो. ऑ. श्री हर भगवान नगर तापाकालान, काली मन्दिर के पास, जलेसर रोड, फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
989	हिन्दू एकता आन्दोलन पार्टी	हिन्दी एकता कार्यालय, मल्हार, खान भाग, पुलिस चौकी, मकान नं0 927/1, सांगली - 416416, जिला सांगली, महाराष्ट्र ।
990	हिन्दु समाज पार्टी	राष्ट्रवादी धर्म सत्ता, 26-ए, खुर्शिदाबाद, लखनऊ -4, उत्तर प्रदेश
991	हिन्दुस्तान एकता पार्टी	दुकान नं0 132/2, केशो राम कौम्पलैक्स, सैक्टर-45 सी0 चण्डीगढ़ - 160047
992	हिन्दुस्तान हमारा पार्टी	555ए/1, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211002
993	हिंदुस्तान इंकलाब पार्टी	महेश प्रसाद मंडल, गाँव-झिटकी, पोस्ट-हिसार, थाना नंबर-32, ब्लॉक-हरलाकी, बजरंग बाजार झिटकी, जिला-मधुबनी बिहार-847230
994	हिन्दुस्तान जनमोर्चा	मकान सं0 - 1, ग्राम व पोस्ट- टेकुआं, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश - 244182 ।
995	हिन्दुस्तान जनता पार्टी	मैसर्स सोनो सेल्स कोरपोरेशन, सब्जी मण्डी, खोकडपुरा, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) ।
996	हिन्दुस्तान जनता पार्टी सेक्युलर	ग्राम गरौना, डाकघर-सिरसविरण, थाना लालगंज, जिला वैशाली, बिहार-844123
997	हिन्दुस्तान क्रान्ति दल	गाँव- टुन्डलाका, पंचायत-गौधोला, पोस्ट व तहसील - पुन्हाना, जिला - मेवात

		(नूँह), हरियाणा ।
998	हिन्दुस्तान क्रान्तिकारी दल	ए-65, सेक्टर-34, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
999	हिन्दुस्तान पीपल्स पार्टी	एच. न. 57, (स्काई सदांम)पलॉट न. 34/392/बी/8/सी, ग्राम-पालवागन, वार्ड-4, मिहिजाम जामताडा झारखण्ड - 815354.
1000	हिंदुस्तान राष्ट्रीय पार्टी	डोर नं.64-8/1/1,रूघवनगर,पटमाता लंका,विजयवाडा,कृष्णा जिला,आन्ध्र प्रदेश-520010
1001	हिन्दुस्तान समाज पार्टी	ग्राम ब पोस्ट- जगदीशपुर,डीह- रायबरेली,उत्तर प्रदेश- 229310.
1002	हिन्दुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी	ग्राम – सेन्दूआरी पुरुषोत्तम वार्ड नं० 8,पोस्ट-बखरी, थाना+अंचल-मोतीपुर,जिला-मुजफ्फरपुर,बिहार – 843111
1003	हिन्दुस्तान शक्ति सेना	म0 नं0 – 1113/11, दर्शन सिंह नगर, अलिपुर रोड, पटियाला, पंजाब
1004	हिन्दुस्तान स्वराज कांग्रेस पार्टी	शेवर बंगला, ए. बी. नायर रोड, जूहू मुम्बई-400049, महाराष्ट्र
1005	हिन्दुस्तान तहरीक ए-इंसाफ	मकान नं. 1-12-386, राजावडी, पटवाडी नाका बहार भुज, तहसील- भुज, जिला- कच्छ, गुजरात- 370001
1006	हिन्दुस्तान उत्थान पार्टी	मकान सं. 438,ग्राम- रवानी कटीरी, पोस्ट- बुगरासी, तहसील- स्याना, जिला-बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश- 245403
1007	हिन्दुस्तान विकास दल	करमन टोला, आरा, जिला-भोजपुर-8002301 बिहार ।
1008	हिंदुस्तान जिंदाबाद पार्टी	नंबर सी-33, हरि कृष्णा पार्क, कैडिला रोड, घोडेसेयर क्रॉसिंग पास, अहमदाबाद, गुजरात -380050
1009	हिन्दुस्तानी आवाम पार्टी	मं0 नं0 – 202ए/104, जवाहर नगर, निकट हाथी पार्क, लखनऊ उत्तर प्रदेश - 226001
1010	हिन्दुस्तानी अवाम मंच (युनाईटेड)	मौ. ग्राम-दखनेर,पोस्ट- परैया,थाना-परैया,जिला-गया,बिहार- 824209
1011	हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर)	माँ शबरी कुटीर, गोदावरी, थाना – रामपुर, जिला – गया, बिहार - 823001
1012	हिन्दुस्तानवादी पार्टी (जयहिन्द)	मकान सं.102,ग्राम-रमदत्तपुर,पोस्ट- पाण्डेयपुर,थाना-कैण्ट,वाराणसी,उत्तर प्रदेश-221007
1013	हिंदुस्थान जनसेवा पक्ष	33,अण्णाभऊ साठे नगर, रमाबाई कॉलोनी, व्ही. एन. नाइक मार्ग, पूर्व दुतगति महामार्ग, घाटकोपर (पू.),मुंबई,महाराष्ट्र-400084
1014	हिन्दुस्थान निर्माण दल	मकान नंo 100, गली नo 5, कृष्णा नगर,सफदरगंज इंकलेव, नई दिल्ली ।
1015	हिन्दुस्तान प्रजा पक्ष	7/702, 'सी' विंग, शीतलधारा कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 28, सेक्टर-7,कामोठे, नवी मुंबई-410209, महाराष्ट्र ।
1016	हिन्दवी स्वराज्य दल	नं. 167,अम्बिकानगर,भचाऊ-7,तालुका-भचाऊ,जिला-कच्छ गुजरात- 370140
1017	हाईटेक पार्टी	बी-85, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010 ।
1018	हमार पिपुल्स कन्वेन्शन	द्वारा लालुवा, मकान नंo-ए/56,बावंगकाउन चिमवेंग एजल- 796014, मिजोरम ।
1019	हम भारतीय पार्टी	मकान नं. 1-3-3227, हर्षरुस, मुक्ता लॉन के पीछे, जीजऊ नगर, बार्शी रोड, बीड, महाराष्ट्र- 431122
1020	हम एक है पार्टी	मकान सं. 212,खसरा नं.15/21,रशीद नगर,नाल साहब रोड,नागपुर,महाराष्ट्र-440018
1021	हम किसान पार्टी	मकान नं0 – 1699/G-25/A1, विद्या नगर रोड न0 – 1, हरमु, राँची, झारखण्ड – 834002
1022	हम लोग पार्टी	803-बी, बेवर्ली पार्क 1, एमजी रोड 1, एमजी रोड डीएलएफ फेज़-2, सेक्टर-

		25, चकरपुर (74), गुडगांव, हरियाणा-122002
1023	हम सबकी पार्टी	ग्राम- महिमापुर (जलालपुर चौमुहानी), पोस्ट - जलालपुर, जिला - जौनपुर, उत्तरप्रदेश - 222136
1024	ह्यूमन डेमोक्रेटिक पार्टी	मकान सं.2/42, बूसिपल्ली गांव, थेनेपल्ली पोस्ट, वेपनपल्ली पंचायती, पूतलपट्टू मंडल, चित्तूर-जिला, आन्ध्र प्रदेश-517124
1025	ह्यूमैनिटी फॉर पीस पार्टी	1- ए.ए.आर.रहमन नगर, जेएमएस कंपाउंड, क.न.विल्कू, औदितपत्ति तालुक, थेनी जिला, तमिलनाडु-625512
1026	ह्यूमैनिटी यूनिवर्सल मोशन पार्टी	c/o शमिक बनर्जी, # होलडिंग नं. 84/1, इंदरा रविन्द्रापल्ली, वार्ड नं.-02, प्रातिक क्लब के पास, खडगपुर, जिला-पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल-721305
1027	इलन्तमिलर मुन्नानी कझगम	1/159, पेरीयार नगर, तिरुसुलम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600043
1028	इन्डिपेंडेंट इन्डियन कॉंग्रेस	मु0 पो0 पिंपलगांव तर्फे महालुंगे, ता0 आंबेगांव, जिला - पुणे, महाराष्ट्र - 410503
1029	इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट फ्रंट	89 सथनगडू विलेज स्ट्रीट, सथनगडू तिरुवोत्तरियुर, तमिलनाडु-606104
1030	इंडिपेंडेंट पीपुल्स पार्टी	मकान सं0 - 63, कारगिल कॉलोनी, नरवाल बाला, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
1031	इन्धिया कुडियारासु काच्ची	11, कारपगम्बल नगर, III स्ट्रीट, कोट्टीवक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।
1032	इन्धु द्रविडा मक्कल काच्ची	नं0 14, बालाजी नगर, चिक्कारायापुरम, मंगादू, जिला- चेन्नई, तमिल नाडु- 600069
1033	इण्डिया द्रविड मक्कल मुन्नेत्र काँची	द्वार सं0 15/1, वार्ड नं0 21, सरोजनी नगर, टॉवरलाइन कॉलोनी, इरोडे कॉरपोरेशन जॉन - II, इरोडे-638011, तमिलनाडु ।
1034	इंडिया ग्रीन्स पार्टी	104, वर्धमान कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, एलएससी, सविता विहार, दिल्ली-110092
1035	इंडिया जनशक्ति पार्टी	प्लॉट नं. 20, 21 एवं 22, नई बस्ती, नहर रोड, शैदपुर जागीर, भूईआ देवी मंदिर के निकट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226062
1036	इंडिया मक्कल मुन्नेत्र काँची	95, कावेरी स्ट्रीट, भवानी-638301 जिला इरोड, तमिलनाडु
1037	इंडिया मानुस पार्टी	प्लॉट नंबर 2308, खतियान नंबर 1505. विला. और पोस्ट तलबंगुरुआ। मेहर अली टोला, पी.एस.-हरिश्चंद्रपुर, जिला-मालदा, पश्चिम बंगाल-732125
1038	इंडिया प्रजा बंधु पार्टी	मकान नं. 18-1-317/ए/68/1, शिवाजी नगर, उप्पुगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500053
1039	इंडिया राइजिंग पार्टी	मकान सं. 39, फतेहपुर कपुरापुर-1, तहसील- तिरवा, जिला- कन्नौज, उत्तर प्रदेश- 209723
1040	इंडिया समाधान पार्टी	मकान नं.- 129, ग्राम व पोस्ट- चौरादेव, थाना- गागलहेडी, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247669
1041	भारत सुराज्य पार्टी	नं0 48, चोला स्ट्रीट, प्रकाश नगर, अंबाचुर, चेन्नई, तमिलनाडु-600053
1042	इंडियन पीपल एसोसियेशन पार्टी	2-74, गांव- वेंकटापुर, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, टाउन/मंडल- वेलपुर, जिला- निजामाबाद, तेलंगाना- 503311
1043	इंडियन आर्थिक सुधार पार्टी	मकान नं0 - 1, मनजीत नगर, बस्ती शेख, जालन्धर, पंजाब ।
1044	इंडियन एलाऐंस पार्टी	शॉप नं. 6, एल/1/21/6/83, अलनूर सोसायटी, अहमदाबाद रोड, बालासिनोर, जिला- महीसागर, गुजरात- 388225
1045	इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी	2/3, अम्बेडकर नगर, पोस्ट, नगीना, जिला- बिजनौर - 246762, (उत्तर प्रदेश) ।
1046	इंडियन बीलीवर पार्टी (आईबीपी)	पुराना एच.नं.केंद्रीय कार्यालय 8-3-168, फ्लैट नंबर 201, दूसरी मंजिल, भानु टावर्स, ईएसआई अस्पताल, मेट्रो स्टेशन, एस.आर.नगर, हैदराबाद, तेलंगाना-

		500038
1047	इंडियन बिजनेस पार्टी	1207, प्रगति टॉवर, 26-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
1048	इंडियन क्रिश्चियन फ्रन्ट	एल.आई.जी. 289, अन्ना नगर, वैल्लकप्पी चर्च के सामने, मदुरै - 625020, तमिलनाडु।
1049	इंडियन क्रिश्चियन सेक्युलर पार्टी	प्लॉट नं० 8, वहाब नगर, सिख गाँव, सिकंदराबाद - 500009 आंध्रप्रदेश।
1050	इण्डियन सिटिजन्स पार्टी	मरकटा नगर, सैक्टर-10, प्लॉट नं० सी-43, पोस्ट-अभिनवा विद्यानसी, कटक-753014, उड़ीसा।
1051	इंडियन डेमोक्रेटिक कांग्रेस	गांव - बाबू शंकर नगर, मौजा - भालुकुंदी, जे.एल.नं०: 22, पोस्ट - अलीगढ़, थाना - राजनगर, जिला - वीरभूम, पश्चिम बंगाल - 731130।
1052	इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी	डी-978, जन कल्याण स्कूल रोड, भजनपुरा, दिल्ली - 110054।
1053	इंडियन डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी	बाबूगाछ, पोस्ट- गेन्दागाछ, थाना- चोपड़ा, इस्लामपुर, जिला- उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल- 733207
1054	इण्डियन गौंधियन पार्टी	कुरियाकोट बिल्डिंग, थेक्कुमपदम रोड, पट्टिक्कड डाकघर श्रीसूर जनपद, केरल - 680 509
1055	इण्डियन इन्दिरा कांग्रेस (आर)	1- रूपरजत नगर, न्यू बस स्टैण्ड के पीछे, पाली, राजस्थान - 306401
1056	इंडियन जस्टिस डेमोक्रेटिक पार्टी	टीसी/25/25(3), जीवीएनआरए- 63, कलपाल्लयम लेन, गान्धारीअम्मन कोविल रोड, तिरुवन्नतपुरम, केरल- 695001
1057	इंडियन क्रांतिकारी लहर	मुहल्ला टुडी वाला, बाजीगर बस्ती, फरीदकोट, जिला -फरीदकोट, पंजाब।
1058	इंडियन लेबर पार्टी (आंबेडकर फुले)	डी० नं०- 26-28-118, 1 लाइन, नेताजी नगर, ए० टी० अग्रहारम, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश - 522004
1059	इंडियन लवर्स पार्टी	नं० - 23, बी - ब्लॉक, द्वितीय स्ट्रीट, भूपति नगर, कोडमबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600024
1060	इंडियन मक्कल कलवी मुनेत्रा कजगम	नं०-3, दीनदयालऊ स्ट्रीट, टी० नगर, चेन्नई-600017, तमिलनाडु.
1061	इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया	गोल बाजार, पोस्ट- अकोट, जिला- अकोला, महाराष्ट्र- 444101
1062	इण्डियन माइनोरिटीज पॉलिटिकल पार्टी,	डी० नं० 9-4-51/35/48, हकीमपेट (आई. ए. एस.) कॉलोनी, टॉली चौकी, पोस्ट- गोलकुण्डा फोर्ट, हैदराबाद-500008, आन्ध्र प्रदेश।
1063	इंडियन मुवमेन्ट पार्टी	65,मनतप्पाविलेज,बन्नरेगाटारोड,जिगानी हुबली,अनेकल तालुक,बेंगलोरकर्नाटक- 560083
1064	इंडियन नेशनल लीग	नं. 7, बलवन्त राय मेहता लेन, कस्तूरबा गाँधी मार्ग क्रॉस, नई दिल्ली - 110001.
1065	इंडियन नेशनल मानवाधिकार पार्टी	प्लॉट नं० - 429/(आर),राणी दुर्गावती चौक,एन. आय. टी. कॉम्प्लेक्स बिनाकी ले-आऊट,नागपुर,महाराष्ट्र- 440017.
1066	इंडियन नेशनल परिवर्तन पार्टी	सी-316ए, वाशी प्लाजा, सेक्टर- 17, वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र- 400703
1067	इंडियन नेशनल समाज पार्टी	डी-64/52,ई-1 ख,माधोपुर,सिगरा,वाराणसी,उत्तर प्रदेश 221010
1068	इंडियन नेशनल सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी (ऑफ इंडिया)	विकी फार्म,बड़ी नहर के पास,वैरोवाल रोड,जण्डियाला गुरु,जिला- अमृतसर,पंजाब-143115
1069	इंडियन नेशनल सोसलिस्टिक एक्शन फोर्सेस	अमुआ, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन- सैंथिया, जिला वीरभूम, पश्चिम बंगाल - 731234.
1070	इंडियन नेशनल यूथ पार्टी	नं.68-बी,देवासंद्रा,के.आर.पूरा,बेंगलुरु,कर्नाटक-560036
1071	इंडियन नेशनल युवा जना पार्टी	मकान नं.9-14,प्रशांत नगर,बोडउप्पल,घटकेसर मंडल,रंगारेड्डी जिला,तेलंगाना-

		500092
1072	इंडियन नेशनलिस्ट एलायंस पार्टी (इंडिया)	सी/1061/5, इन्दिरानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016
1073	इंडियन न्यू कांग्रेस पार्टी	ऑफिस नं० – 107, द्वितीय तल, 1st क्रॉस, 'ए' ब्लॉक, ए. के. कॉलोनी रोड, घौसिया नगर, मैसूर सिटी, कर्नाटक – 570 019
1074	इंडियन पीपुल्स कॉंग्रेस पार्टी	मखदूम साहिब, मकान नं० -51, रैनावारी, श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू एण्ड कश्मीर।
1075	इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी	544, नरसिंह वार्ड, मदन महल, जबलपुर, मध्य प्रदेश-482001
1076	इण्डियन पीपुल्स फारवर्ड ब्लॉक	तंगरा हाउसिंग एस्टेट, ब्लॉक-एल/1, फ्लैट-5, 40/1, तरंगरा रोड, कोलकाता-15, पश्चिम बंगाल।
1077	इण्डियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी	19, शुभम इनक्लेव, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान।
1078	इंडियन प्रजा कांग्रेस	मथुदेवोभवा, शॉप नं. 1, गाउंड फ्लोर, लिबर्टी प्लाजा, डोर नं. 3-6-365/यूजी/3-4, हिमायत नगर, हैदराबाद, तेलंगाना- 500029
1079	इंडियन पब्लिक फेडरेशन पार्टी	220, वर्धमान फोर्चून मॉल, महेन्द्र एन्क्लेव के सामने, जी.टी.करनाल रोड, दिल्ली- 110033
1080	इण्डियन पब्लिक पार्टी	बी-1, राज कम्पलेक्स, संस्कार मंडल, भवनगर – 364002, गुजरात
1081	इंडियन रक्षका नयाकुडु पार्टी	मकान नं. 4-279, बासावेशवारा कॉलोनी, मकथल, जिला- महबूब नगर, तेलंगाना स्टेट- 509208
1082	इण्डियन सर्वहित पार्टी	6-बी/138, गोपेशकुंज, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226025
1083	इण्डियन सवर्ण समाज पार्टी	मकान संख्या – 0053, दाउदपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
1084	इंडियन यूनाइटेड पीपल्स पार्टी	वार्ड नं० 18, इंदिरा चौक, सोहागपुर, शहडोल, मध्य प्रदेश-484001
1085	इंडियन युनिटि सेंटर	गाँव तथा पो.ओ.सोमरुक, पो.स.उलुबेरिया, जिला-हावड़ा-711316, पश्चिम बंगाल)
1086	इंडियन विकास पार्टी	खसरा नं. 327, खोडा हजारी, बुटेश्वर बगीची रोड, तहसील एवं जिला- हाथरस, उत्तर प्रदेश- 204101
1087	इंडियन युथ प्रोग्रेसिव पार्टी	चितरंगी मार्ग, इटार रोड, देवसर, जिला-सिंगरौली, मध्य प्रदेश-486881
1088	इंडियन्स विकट्री पार्टी	3/261-2, आन्नदन नगर, असरीपाल्लम - 629201, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु
1089	इन्डीजीनियस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्वीपरा	अभय नगर, अगरतला-799005, त्रिपुरा।
1090	इण्डिया जननायक काञ्ची	स० 9, थर्ड ऐवन्यू, 34 स्ट्रीट, अशोक नगर, चेन्नई-600083 तमिलनाडु।
1091	इंकलाबी पार्टी	बी०टी०आई० स्कूल के पीछे, महावीर नगर, भिण्ड (मध्य प्रदेश), पिन 477001.
1092	इन्साफ दी आवाज़ पार्टी	एमसी नं. 9/128डी, 9/128/ई, गली नं. 10, वार्ड नं. 9, नियर कंसल गैस एजेन्सी, रमन मण्डी, तहसील- तलवंडी साबो, जिला- भटिंडा, पंजाब- 151301
1093	इंसाफवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट-पियरी, थाना चौबेपुर, जिला – वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221104
1094	इंसानियत लोक विकास पार्टी	प्लॉट नं.1938/447/2, केयर ऑफ हिन्द स्कैप स्टोर, स्ट्रीट 0-2, जनता नगर, निकट पी.एन.बी., लुधियाना, पंजाब-141003
1095	इंसानियत पार्टी	मकान नं० – 262/1, गणनायक भवन, एट व पो. - सनाली, तालुका - महुधा, जिला- खेड़ा, गुजरात - 387330।
1096	इंटरनेशनल पार्टी	ब्लॉक बी-5, फ्लैट नं. 111, यमुना विहार, दिल्ली- 110053
1097	इस्लाम पार्टी हिंद	मौहल्ला-राजडे पुर, पो० सिटी, जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।
1098	इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल	93, सोदागरन, दरगाह आला हजरत, बरेली, उत्तर प्रदेश।

1099	जे एंड के पीपुल्स मूवमेन्ट	शेखपुरा,हम्हामा,तहसील व जिला-बडगाम,जम्मू और काश्मीर- 191111
1100	जे एंड के यूनाइटेड पीस एंड डिवैलपमेंट पार्टी	बगांदर,लासजन-बी,बंड रोड के पास,श्रीनगर-191101,जम्मू एवं कश्मीर
1101	जागो भारत फ्रन्ट	डी-185बी, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली – 110059
1102	जातीया चेती वृताला ऐक्य वेदीका पार्टी	दरवाजा नं. 12-494,सप्तगिरी कॉलोनी,9वीं लाइन बस स्टॉप, थिम्मलानैडु पालेम (पोस्ट),तिरुपति अरबन मंडल, चित्तूर जिला,आंध्र प्रदेश-517507
1103	जबरो देस म्हारो	149, कल्याण कुंज,झोटवाडा पोस्ट ऑफिस के सामने,झोटवाडा,जयपुर,राजस्थान-302012
1104	जगत कल्याण मोर्चा	गाँव-नानी,डाकघर-मतियाना,तहसील-ठियोग,जिला-शिमला,हिमाचल प्रदेश- 171212
1105	जागो भारत जागो पार्टी	14 ए/84 डब्ल्यू.ई.ए., करोलबाग, नई दिल्ली – 110005
1106	जागो हिन्दुस्तान पार्टी	मकान नं. 368, मोहल्ला- कल्यानी देवी सिविल लाईन्स, जिला- उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209801
1107	जागो पार्टी	9-1-108/1, द्वितीय फ्लोर, टाटा चैरी कम्पाऊंड, एस० डी० रोड, सिकन्दराबाद- 500026, आन्ध्र प्रदेश ।
1108	जागरूक जनता पार्टी	ग्राम- दिलावरपुर, पोस्ट व थाना- बिहटा, जिला- पटना, बिहार- 801103
1109	जागते रहो पार्टी	द्वारा मैसर्स क्षमा आर देसाई, 2, बाटिका बंगला, सबरी स्कूल के पास, वासना रोड, बड़ोदा, गुजरात ।
1110	जय आन्ध्रा पार्टी	डी. नं० -14-71, चगलनाडु स्टील्स, मोरंपुडी जंक्सन, राजमुंद्री, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश
1111	जय भारत नेशनल पार्टी	12-4-27, विजयवाड़ा नगर निगम, राजस्व वार्ड 40, विजयवाड़ा-520001, आन्ध्र प्रदेश
1112	जय भारत पार्टी	आर जैड एच-710 ई (ड/54), राज नगर-II, (देव हास्पिटल के पास), पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-45.
1113	जय भारत समानता पार्टी	ए-36/54-बी-1, समानता शक्ति भवन, कजकपुरा, कोनीया रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1114	जय भारत जेना सेना पार्टी	डी. नं. 42-64-1/1, लूना सेन्टर,एम.के. बैग मुनिसिपल कॉरपोरेशन हाई स्कूल के पीछे, सिंह नगर, विजयवाड़ा, जिला - कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश - 520015
1115	जय हिन्द कांग्रेस पार्टी	शॉप नं. 34, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी, रवाला - मण्डी, श्रीगंगानगर, राजस्थान- 335771
1116	जय हिन्द जय भारत राष्ट्रीय पार्टी	बी.के.नम्बर-1366,रूम नम्बर-10,मराठा सैक्सन-32,स्टेशन रोड,नियर उल्हास विद्यालय,प्रदीप वाडापाव सेन्टर से आगे,उल्हास नगर,थाने,महाराष्ट्रा-421004
1117	जय हिन्द नेशनल पार्टी	ए2/135,दर्शनम एंटिका,दंतेश्वर,वडोदरा,गुजरात-390004
1118	जय हिन्द पार्टी	खरैल पुर्नवास, वार्ड नं. 16, नगर परिषद, सुपौल, बिहार
1119	जय हिन्द समाज पार्टी	ग्राम-खडहरा (बिन्द वलिया), पोस्ट-दुबिहा, जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश ।
1120	जय हिन्दुस्तान पार्टी	मकान नं. 22-13-47, ब्लॉक नं. 13, अम्बेडकर कॉलोनी, तिरुपति, चित्तूर- जिला, आन्ध्र प्रदेश- 517507
1121	जय जना संगम पार्टी	म० नं.6-282,अपोजिट चन्द्रिका राईस मिल,(पोल्ममा पुट्टा),ग्राम- रायावरम,मंडल-रायावरम,जिला-बी.आर.अम्बेडकर,कोनासीमा,आन्ध्र प्रदेश- 533346
1122	जय जनसेवा पार्टी	14/43, संभाजी चौक, इचलकरंजी, तहसील-हातकणंगले, जिला-कोल्हापुर,

		महाराष्ट्र-416115।
1123	जय जनता पार्टी	वार्ड नं० - 18, होलिंग नं० - 27, भभुआ (कैमूर), अग्रवाल पेट्रोल पम्प के पास, बिहार-821101।
1124	जय जवान जय किसान पार्टी	प्रथम तल, मकान नं० - 60, गली नं० - 7, विर्क कॉलोनी, निकट डी सी डब्ल्यू, पटियाला, पंजाब - 147001
1125	जय जवान किसान नौजवान संविधान पार्टी	खसरा न.101/3, मौजा वाहनपुर, पोस्ट-कैलोरा, हाथरस जंक्सन, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश-204102
1126	जय किसान जय मजदूर पार्टी	हाउस नंबर 77, खरसा नंबर 374, गांव और पोस्ट - बालाकोट, मंदिर दरवाजा के पास, पानी टंकी के पास, तहसील - दमोह, जिला - दमोह, म.प्र. - 470672
1127	जय लोक पार्टी	एफ-2/5, मयूर विहार, अशोका गार्डन भोपाल, भोपाल, मध्य प्रदेश-462023
1128	जय महा भारत पार्टी	जय महाभारत भवन, श्री महावैकुण्ठ पुरम, गांव-बुक्कापुरम, तह० आलमपुरम, जिला-महबूब नगर, आन्ध्रा प्रदेश, पिन-509652.
1129	जय मानवता पार्टी	मकान नं०-1, समृद्धि परिसर, साहू आटा चक्की के पास, ललिता नगर, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश।
1130	जय प्रकाश जनता दल	190, प्रताप नगर, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091
1131	जय समाख्या आंध्रा पार्टी	डी० नं० 4-86, कम्मावरी विधि, माचावरम ग्राम पंचायत लिमिटेड, रायावरम मंडल, जिला - पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश - 533 214
1132	जय समता पार्टी	रकबा शेर नगर बीबीपुर, कल्लरपुर, जानसठ रोड, तहसील-सदर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश- 251001
1133	जय सेवालाल बहुजन विकास पार्टी	मकन न० 2, प्लॉट न० 31, हिमालयपुष्पा बिल्डिंग, स्वपननगरी, गारखेडा एरिया, औरंगाबाद, महाराष्ट्र- 431005.
1134	जय स्वराज पार्टी	10-105/1/बी/2, प्रथम तल, रोड नंबर- 2, नई गड्डीनाराम कॉलोनी, दिलसूक नगर, हैदराबाद, तेलंगाना - 500060
1135	जय विजय भारथी पार्टी	पो० ऑ० चिन्नागोटीगल्लू, जिला-चिचूर, आन्ध्र प्रदेश।
1136	जयभीमराव भारत पार्टी	डी.नं. 32-13-1/1, लावन्या अपार्टमेन्ट्स, फ्लैट नं. बी/3, मोंगलराजपुरम, विजयवाडा, आन्ध्र प्रदेश- 520010
1137	जामात-ए-सिरातुल मुस्ताकिम	पोस्ट - छोटा सुजापुर, थाना - कलियाचाक, जिला - मालदा, पश्चिम बंगाल - 732206
1138	जम्मू और कश्मीर आल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी	हरको हाउस मस्जिद नूर लेन, राजबाग, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर-190008
1139	जम्मू एण्ड कश्मीर अवामी नेशनल काँग्रेस	3-आर सी क्वाटरर्स, प्रेस एन्क्लेव, प्रताप पार्क, श्रीनगर - 190001. (जम्मू व कश्मीर)
1140	जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल्स काँग्रेस	जनरल ऑफिस, ओल्ड सैक्रेटेरिएट रोड, श्रीनगर 190001, (जम्मू व कश्मीर)।
1141	जम्मू एण्ड कश्मीर पीर पंजाल अवामी पार्टी	नजदीक पुलिस स्टेशन पुंछ, केयर ऑफ जिला कोर्ट पुंछ, जम्मू एण्ड कश्मीर
1142	जम्मू एण्ड कश्मीर अपनी पार्टी	कोहिनूर हाउस, 7 शेख बाग, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर-190001
1143	जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	168, रावलपोरा हाउसिंग कॉलोनी, श्रीनगर, (जम्मू व कश्मीर)।
1144	जम्मू और कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट	बादशाह फ्लैट्स 7-बी, जहांगीर चौक, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर- 190001
1145	जम्मू कश्मीर पीपुल्स पार्टी (सेक्यूलर)	96/9, नानक नगर, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर - 180004
1146	जम्मू कश्मीर सेव पार्टी	गाँव- रावलपोरा, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर

1147	जम्मू स्टेट मोर्चा (प्रोग्रेसिव) ।	8, ओल्ड ड्राई फ्रूट मार्केट, ज्वैल चौक, जम्मू - 180001, जम्मू व कश्मीर
1148	जन आवाज पार्टी	झींझिक, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश- 209302
1149	जन अभियान पार्टी	27/3, बिरहाना रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001
1150	जन आदेश अधुणी सेना	मकान सं0 - 117, पठारिया मोहल्ला, पडुआ चौराहा, जी. टी. रोड, भोगांव, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश
1151	जन अधिकार पार्टी	मकान नं. 331, सर्वोदय नगर, चण्डी रोड, पिलखुवा, उत्तर प्रदेश।
1152	जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक)	वार्ड संख्या- 05/14, बर्द्धमान हाता, अर्जुन भवन, अर्जुन नगर, पोस्ट आफिस- पूर्णियाँ, थाना- सहायक के0 हाट, जिला- पूर्णियाँ, बिहार - 854301
1153	जन आंदोलन मोर्चा	ए-8/18, प्रथम तल, ब्लॉक-ए, पॉकेट - 8, सेक्टर - 17, रोहिणी, दिल्ली - 110085
1154	जन आसरा पार्टी	सी/ओ रावल सिंह भिंडर, खसरा नं0 12/1, ग्राउण्ड फ्लॉर, कलवानु रोड के पास, अतालन, तहसील-पटरन, जिला-पटियाला पंजाब-147102
1155	जन आवाज विकास पार्टी	मकान नं0 - 631, द्वितीय तल, मेन रोड, मुखर्जी नगर, दिल्ली ।
1156	जन चेतना क्रांति मंच	खेमनीचक, जकरियापुर, कृष्णा निकेतन स्कूल के पीछे, थाना- आलमगंज, अगमकुआं, जिला-पटना बिहार-800007
1157	जन चेतना पार्टी	चेम्बर नं. 475, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली - 110054.
1158	जन कांग्रेस पार्टी	वार्ड नं0- 1, मकान नं0- 395, बोकाखाट टाउन, जिला- गोलाघाट, असम- 785612
1159	जन हित पार्टी प्रगतिशील	ग्राम-भादुरपुर, पोस्ट-मोर्टा, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, पुलिस चौकी के पास, उत्तर प्रदेश-201003
1160	जन जागरण युवा मंच	नम्बर 2528/2649, रतनदीप हॉस्पिटल, नगर रोड, जामखेड, तालुका- जामखेड, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र-413201
1161	जन जन (युनाईटेड) पार्टी	शान्तीपुरम, फाफामऊ, आपोजिट - बी.बी.एस. इंजी. कालेज, नियर नवजीवन हॉस्पिटल, जिला- प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 211013
1162	जन जन पार्टी	गली सं0- 7, ग्राम - ममूरा, सेक्टर- 66, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
1163	जन जनवादी पार्टी	गाटा नं० 88, ग्राम बडहारा, पोस्ट-तुरना, तहसील-सैदपुर, थाना-नंदगंज, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश-233306
1164	जन कल्याण पार्टी	फतेहपुर- सहाबपुर, पोस्ट ऑफिस- कसेडा, तहसील- चायल, जिला- कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।
1165	जन क्रान्ति पार्टी, अण्डमान एंड निकोबार	द्वारा हर्ष मेहरा ट्रेडर्स, सी बी आई कार्यालय के सामने, राँची बस्ती, पोर्ट ब्लेयर- 744103 ।
1166	जन मन पार्टी	डी-409, प्रतिक मौल, रायसन, गाँधीनगर, गुजरात- 382007
1167	जन मिथिला विकास पार्टी	ग्राम-सम्पिनिया, पास्ट-गर्गी, थाना-जाले, जिला-दरभंगा बिहार-847303
1168	जन प्रगति पार्टी	544/2395, मरी माता मंदिर, निकट विकास पब्लिक स्कूल, ब्लागंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226003
1169	जन राज्य पार्टी	110/F/10A/1A, गाँव-कन्हाईपुर, धूमनगंज, इलाहाबाद-211001, उत्तर प्रदेश
1170	जन रक्षा पार्टी	भिठौली, सीतापुर रोड, लखनऊ - 226020, उत्तर प्रदेश ।
1171	जन राष्ट्रवादी संगठन	356/340/1331, अशोक विहार, आलम नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017.
1172	जन साधारण पार्टी	मकान नं0 - 4, डॉ फतेहउल्लाह लेन, मेन रोड, राँची, झारखण्ड- 834001
1173	जन सहारा पार्टी	फ्लैट नं.2, युजी फ्लौर, ए-1/बी, एडवोकेट कम्पाउंड, औल्ड जसोला विलेज, दिल्ली-

		110025
1174	जन समाज एकता पार्टी	530ए,के-ब्लॉक,यशोदा नगर,माँ दूर्गा इंटर कॉलेज,कानपुर,उत्तर प्रदेश-208011
1175	जन समानता पार्टी	बी - 125, नवजीवन कैम्प,तुगलकाबाद एक्सटेंशन,नई दिल्ली - 110019.
1176	जन समर्पण पार्टी	मकान नंबर 189 I,जटेपुर उत्तर, लोहिया नगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273015
1177	जन सम्मान पार्टी	जी- 238, मेन रोड, गली नं.- 6/28, बाल ज्ञान स्कूल, पश्चिम करावल नगर, दिल्ली -110094
1178	जन समूह पार्टी	मकान न0 366/ए,ग्राउंड फ्लॉर,गली न0 12,खसरा न0 18/14,माता वाली गली,जौहरी पुर,दिल्ली-110094
1179	जन संवाद पार्टी	319, अमखेरा रोड, गोहलपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश-482004
1180	जन संदेश पार्टी	72/76/3, स्टेनली रोड, (म्योराबाद क्रॉसिंग), मम्फोर्डगंज, प्रयागराज (इलाहाबाद), उत्तर प्रदेश - 211002.
1181	जन संघ पार्टी	ए-90, सेक्टर - 21, जलवायु विहार, नौएडा, गौतम बुद्ध नगर - 201301, उत्तर प्रदेश ।
1182	जन संघर्ष दल	छोटी मस्जिद के पास,मेन रोड लौरिया,जिला पश्चिम चम्पारण,बिहार- 845453
1183	जन संघर्ष विराट पार्टी	गली न0 - 2, भूतेश्वर मन्दिर के पास, संत रविदास वार्ड, सागर, तहसील व जिला - सागर,मध्य प्रदेश ।
1184	जन संतोष पार्टी	गांव + पोस्ट, लालपुर, पुलिस चौकी-कमर, थाना-कोसकला,ब्लॉक- नंदगाव,हसील-छाता, जिला मथुरा,उत्तर प्रदेश-281403
1185	जन सत्य पथ पार्टी	प्रथम तल, माधव कॉमप्लेक्स, सिटी पल्स थिएटर के सामने,रायपुर, अहमदाबाद,गुजरात-380022
1186	जन सेवा सहायक पार्टी	ग्राम - तालमहावर, तहसील - बिलासपुर, जिला - रामपुर, उत्तर प्रदेश
1187	जन सेवा संघर्ष पार्टी	गाँव व पोस्ट - पीली मन्दोरी, तहसील- भट्ट कलाँ, जिला- फतेहाबाद, हरियाणा - 125053 ।
1188	जन सेवक पार्टी	एल0 आई0 जी0 63, शेखपुरा, अलिगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1189	जन सेवा ड्राइवर पार्टी	प्लैट एफ-201,कृष एक्सोटिका,ऑपोजिट रजीपा ग्रीट लैंड,बी/एच,श्यामवेद रेजीडेंसी,निकोल,अहमदाबाद,गुजरात- 382350
1190	जन सेवक क्रांति पार्टी	ए टी-772,भीमनगर नया रेलवे रोड,गुरुग्राम-122001
1191	जन शक्ति दल	शिवाजी नगर, गली नं0 1, निकट कैल्टन स्कूल, लाईन पार,मुरादाबाद - 244 001, उत्तर प्रदेश ।
1192	जन शक्ति एकता पार्टी	ग्राम - मंडनपुर, पोस्ट -मीरगंज, जिला - बरेली, उत्तर प्रदेश - 243504 ।
1193	जन शक्ति पार्टी ऑफ इंडिया	7107, स्ट्रीट नं0.3, न्यू विश्वकर्मा नगर, फोकल पॉइन्ट, लुधियाना, पंजाब- 141010
1194	जन सृजन पार्टी	15-डी, कौशलपुरी, खरगापुर, विकास खण्ड - चिनहट, गोमतीनगर, परगना, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1195	जन सुराज पार्टी	सूट नंबर 2,पहली मंजिल,दक्षिणेश्वर भवन,10,हेली रोड,नई दिल्ली-110001
1196	जन सुराज्य शक्ति	जन सम्पर्क कार्यालय, वारानानगर, ता0 - पनहाला, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416113.
1197	जन स्वाभाविक पार्टी	636/09, बुद्ध विहार कॉलोनी, फेज-1, तकरोही, इन्दिरा कॉलोनी, लखनऊ, उत्तर

		प्रदेश- 226016
1198	जन विकास पार्टी सेक्यूलर	1/97, विशेष खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010
1199	जन ध्वनि पार्टी	डी. नं. 3-पी सी/18, लक्ष्मी नारायण एस्टेटस्, मियापुर, हैदराबाद, तेलंगाना - 500049
1200	जना राज्यम पार्टी	मकान नं.8-217/16,धमरिडुई आर्केड,फ्लैट-टी 1,गायत्री नगर,लक्ष्मीनगर कॉलोनी,रोड नं.3,जिल्लेला गुडा म्यूनिसिपलिटी,बालापुर मण्डल,रंगारेड्डी जिला,तेलंगाना-500097
1201	जन सहायका सक्ति	दरवाजा नंबर 27-85/1,कोबाल्डपेट,4 लेन,गुंटूर,आन्ध्र प्रदेश- 522006.
1202	जना सामान्यरा पार्टी (कर्नाटक)	श्री वीरभद्रा स्वामी निलया, पहला मेन, पाँचवां क्रॉस, विजय नगर, तुमकुर, कर्नाटक – 572102
1203	जन समृद्धि पार्टी	काशीपुर-बलरामपुर, यूनिट- 18, पोस्ट ऑफिस- केंदुझरगढ़, थाना- टाउन, जिला- केन्दुझर, ओडिशा- 758001.
1204	जना शंखारावम पार्टी	मकान नं.4-1-216/54/502,कार्तिकेय नगर,नाचारम,उप्पल,मेड्चल मल्लजगिरि जिला,तेलंगाना-500076
1205	जना स्पन्दना पार्टी	नं.-60,फर्स्ट प्लोर,वीरापिल्लय स्ट्रीट,शिवाजी नगर,बैंगलोर,कर्नाटक- 560001
1206	जन स्वराज्य पार्टी	प्रधान कार्यालय - 83/ए, तृतीय वार्ड, कलम्मा बाजार, सन्दुर-583119, कर्नाटक ।
1207	जन वाहिनी पार्टी	डोर नं. 28-05-37ए, 12 रोड, शांति नगर, एलुरु, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश-534001.
1208	जनाधार नेशनल पार्टी	63,आर.आर.एवेन्यु,तुलसी नगर,महालक्ष्मी नगर रोड,इन्दौर,मध्य प्रदेश- 452010
1209	जनाधार शक्ति पार्टी	ग्राम 162512,देवरख रोड,अरेल,नैनी,तहसील करचना प्रयागराज,उत्तर प्रदेश- 211008
1210	जनाधिपथ्या केरला कांग्रेस	जवाहर बालभवन के पास, भवन सं0 – 641, वार्ड नं0 – 21, कोट्टयम म्यूनिसिपालिटी, जिला – कोट्टयम, केरल ।
1211	जनाधिपथ्या सम्रक्षणा समिती	केरल राज्य समिती कार्यालय, आयरन ब्रिज डाक घर,एलेप्पी – 688011, केरल ।
1212	जनहित पक्ष	डी0 नं0 109, सेकेंड वार्ड, कालम्मा स्ट्रीट, बेल्लारी, कर्नाटक – 583101
1213	जनम मनम पार्टी	13-24/ए, पाण्डुरंगावारीपल्ली गांव, इथेपल्ली पोस्ट, चन्द्रगिरी मंडल, चित्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 517102
1214	जनम राष्ट्रीय पार्टी	भवन संख्या 582,इवरकला वार्ड 5,कुन्नूर पंचायत,इवरकला ईस्ट पीओ,कोल्लम- 691507,केरल
1215	जननायक मक्कल रजियम	20/86ए, कृष्णा नगर वेस्ट, अम्मापेट (पी ओ), जिला - सेलम, तमिलनाडु - 636003.
1216	जनपालना पार्टी (डेमोक्रेटिक)	8-2-703/2/बी, प्लाट नं.2, रोड नं.-12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500034
1217	जनसेना पार्टी	डी.नं. 11-1903, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी कॉलोनी, मंगलगिरि, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश-522503
1218	जनता कैबिनेट पार्टी	16/ए (16/1),लिटन रोड,सुभाष रोड,देहरादून न्यू नगर निगम,नो-184/4,पिन – 248001 उत्तराखण्ड
1219	जनता कांग्रेस	278 ए, प्रथम तल, जी.के. कॉम्प्लेक्स, मेन रोड ओखला, जामिया नगर, नई

		दिल्ली - 110025
1220	जनता कांग्रेस नेशनल मोवमेंट पार्टी	नं. 8-2-293/82/जे/III, रोज न0 -79, जुबलीहिल्स, हैदराबाद तेलंगाना - 500033
1221	जनता दल (अहिंसावादी)	201, भेल एक्सटेंशन, 9 वॉ क्रॉस, स्टेज-2, राजराजेश्वरी नगर, बैंगलोर, कर्नाटक- 560098
1222	जनता पार्टी	जी/42, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली - 110091
1223	जनता उदय पार्टी	860. गली नं0-4, संजय इन्क्लेव, चाचा चौक, परवतिया कॉलोनी, एन0 आई0 टी0 फरिदाबाद, हरियाणा
1224	जनता उन्नती पार्टी	ग्राम-पाल्हीपार, पोस्ट ऑफिस-पकडी दूबे, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273413
1225	जनता विकास पार्टी	अबपेक भवन, उदयनगर कॉलोनी, सागर रोड, विदिशा, (मध्य प्रदेश)।
1226	जनहित भारत पार्टी	730, अर्ली नई बस्ती, नौबस्ता, योगेन्द्र विहार, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208021
1227	जनहित दल	आर.एम.एस. कालोनी, रोड नं0 2, कंकड बाग, पटना-20, बिहार।
1228	जनहित किसान पार्टी	वार्ड नं0 24, सक्सेना नगर, नगरपालिका परिषद - महाराजगंज, जनपथ- महाराजगंज - 273303, उत्तर प्रदेश।
1229	जनहित क्रांतिकारी पार्टी	पन्ना लाल के पुत्र शिवाजी, मकान नंबर 47/1, गांव और पोस्ट-नयाबांस, परगना- मरहेरा, थाना-मिर्हाची, तहसील-एटा, जिला-एटा, उत्तरप्रदेश-207125
1230	जनहित लोकशाही पार्टी	रूम सं0 - 41/3, गाँवदेवी रोड, पावणे गाँव, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र - 400705
1231	जनहित संकल्प पार्टी	शिव 15/52 वी-6-2-एस, उसरपुरवा, भरलाई, शिवपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221003
1232	जनहित विकास पार्टी	ग्राम- कपासी, पोस्ट- हसनपुर, ब्लॉक- बलियाखेड़ी, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247111
1233	जनक्रान्ति समाज पार्टी	मकान नं. 16, सदरपुर कॉलोनी, बी.डी.एस.मार्केट, सोम बाजार, सैक्टर-45, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
1234	जनलोक विकास पार्टी	हाउस संख्या-124, वार्ड संख्या-22, कसाई टोला, गोरया स्थान, पोस्ट ऑफिस- रसडा, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश-221712
1235	जनमंगल पक्ष	राम प्रताप, गीता नगर, मेन रोड, गुरुकुल के पास, राजकोट - 360002, (गुजरात)।
1236	जनमत पार्टी	सी2ए/107, पाकेट-16, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
1237	जनमत विकास पक्ष	पोस्ट - ससबाद, पुर्नधार, महाराष्ट्र - 412301
1238	जननायक युवा शक्ति पार्टी	म.नं.587/20, खासा चौक के पास, रामेश्वर पुरम कॉलोनी, कबीरपुर, सोनीपत, हरियाणा-131001
1239	जन-न्याय दल	301, श्री देवरहा - काम्पलैक्स, माता मढिया चौराहा विजय टाकीज रोड, मोतीनगर वार्ड, तहसील व जिला - सागर, मध्य प्रदेश।
1240	जनरल समाज पार्टी	सूरत प्रीटिंग प्रेस, दाना मंडी रोड, बठिण्डा, पंजाब।
1241	जनसमुदाय पार्टी	57, प्रथम तल, स्टेडियम हाउस, स्टेडियम क्रॉस रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात - 380009।
1242	जनसत्ता दल लोकतांत्रिक	ग्राम व पोस्ट- मझिलगाँव (बाबूगंज), तहसील- कुण्डा, जिला- प्रतापगंज, उत्तर प्रदेश- 230204
1243	जनसत्ता राष्ट्रवादी एकता पार्टी	श्री राघवेन्द्र सिंह, श्री हरिवंश सिंह, ग्राम गढी, मजरे-खसपरिया, पोस्ट- बस्ती,

		तहसील - नवाबगंज, ब्लॉक -बंकी, जिला-बाराबंकी, उत्तर प्रदेश-225003.
1244	जनसेवा गोंडवाना पार्टी	प्लॉट नं. 36, जायसवाल ले आउट, भोयर गल्स हॉस्टल के पास, नालवाडी, वर्धा, तह और जिला वर्धा महाराष्ट्र- 442001
1245	जनशक्ति जनता दल	रजनी कॉम्पलेक्स, खगौल रोड, दयानंद बालिका उच्च विद्यालय के नजदीक, मीठापुर, पटना, बिहार-800001
1246	जनशक्ति पार्टी (राष्ट्रीय)	प्लॉट नं0 – 38, भू-तल (ग्राउंड फ्लोर), के डी के पब्लिक स्कूल के सामने, मेन रोड, मंडावली, फजलपुर, दिल्ली – 110092
1247	जनशक्ति समता पार्टी	तहसील कैपस पोस्ट - सलोन, जनपद – रायबरेली, उत्तर प्रदेश – 229127
1248	जनशक्ति विकास पार्टी (डेमोक्रेटिक)	ग्राम+पो0 – नुमर, थाना-बरहट, जिला-जमुई बिहार-811313
1249	जनता ब्रिगेड पार्टी	आर.-142, ज्वालापुरी, कैम्प नं0 -5, नई दिल्ली- 110087.
1250	जनता दल हिन्दुस्तानी	खाता नं. 64 (ओल्ड), प्लॉट नं. 370 (ओल्ड), न्यू प्लॉट नं.838,839,744,745, थाना नं. 314, ग्राम- आम्बिला, थाना- मुफसिल, अंचल- मानपुर, जिला- गया, बिहार- 823003
1251	जनता दल राष्ट्रवादी	म0 न0 - 55/1, हारुन नगर कॉलोनी, सैक्टर - 1, थाना व डाकघर - फुलवारी शरीफ, पटना, बिहार – 801505
1252	जनता दरबार पार्टी	एमआईजी-II, 70/1, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पीओ/पीएस- चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, जिला-खोर्दा, ओडिशा-751016
1253	जनता कल्याण मोर्चा	खेवट सं0-184, खाता सं0 188, कीला नं0-51/16/3 खेडी दमकन, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा - 131301.
1254	जनता क्रान्ति पार्टी	भरत बिहार कॉलोनी, बड़े शिव मंदिर के सामने, मण्डावर रोड, बिजनौर, जिला – बिजनौर, उत्तर प्रदेश- 246701
1255	जनता क्रान्ति पार्टी (राष्ट्रवादी)	न. 29, कान्तीपुरम पार्ट-2, शिवपुरी बिजली हाउस के पीछे, गणेशपुर, रहमानपुर, देवा रोड, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
1256	जनता राज पार्टी	मकान नं0 43, ग्राम – तेजपुरा, पोस्ट – इन्दौर, जिला – गाजीपुर, उत्तर प्रदेश – 233226
1257	जनता राज विकास पार्टी	ग्राम- चकफैज, पोस्ट- सुक्की, थाना- पातेपुर, जिला- वैशाली, बिहार-843114
1258	जनता रक्षक पार्टी	वार्ड नंबर 1, मोहल्ला कमलापुर, डॉ भीम राव अम्बेडकर इंटर कॉलेज के पास, पोस्ट- उदयपुर महेवा, जिला-लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश-262701
1259	जनता समाजवादी पार्टी (विवेक राज)	72, रतन नगर, प्रदर्शनी पंडाल मार्ग, शहर व जनपद-इटावा, उत्तर प्रदेश-206001
1260	जनता समता पार्टी	ग्राम-डुमरी एखलास, पोस्ट-हेतिमपुर, थाना-रामपुर कारखाना, तहसील एवं जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश- 274206.
1261	जनता सरकार पार्टी	I-4/39, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर – 16, रोहिणी, दिल्ली- 110089
1262	जनता सेना राजस्थान	मुकाम पोस्ट: वल्लभनगर, जिला – उदयपुर, राजस्थान – 313601
1263	जनता शासन पार्टी	4ए / केशव पार्क, सरस्वतीपुरम रायबरेली रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश – 226014
1264	जनता स्वाभिमान पार्टी	कटघरा देहाती, हवेली, सदर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222002
1265	जनतंत्र आवाज पार्टी	पूर्वी गुमटी लख नं0 11, पोस्ट-आरा, जिला-भोजपुर, बिहार-802301
1266	जनतंत्र पार्टी	तीसरी मंजिल, टकसाल थियेटर्स बिल्डिंग, नदेसर, वाराणसी – 221002, उत्तर प्रदेश ।
1267	जनतांत्रिक लोकहित पार्टी	सुषमा नवल कुंज, एन०टी०पी०सी० कॉलोनी, आर०के०नगर, वार्ड नंबर 32, सर्कल नं० 8, पो०ओ० नाऊ जगनपुरा, पी०एस०-राक नगर, जिला - पटना, बिहार – 800027

1268	जनतांत्रिक समता पार्टी	मकान नं. 100, वार्ड नं. 4, लुधुपारा, जसवंत नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश-206245
1269	जनतांत्रिक विकास पार्टी	201, पी.मॉल, दूसरा तल, एक्जिबिशन रोड, जिला- पटना, बिहार- 801503
1270	जनतावादी कांग्रेस पार्टी	161/बी, शिवाजी मैदान के सामने, स्वदेशी मिल रोड, चुनाभट्टी (पूर्व), मुंबई-400037, महाराष्ट्र
1271	जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट)	बी-32/2, जैन मन्दिर के पीछे, नरिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1272	जातिया समा समाजम पार्टी	1-24, दिग्गदेवारापडू गांव, कुरनूल मण्डल, कुरनूल जिला, आन्ध्र प्रदेश-518002
1273	जातिया जना सेना पार्टी	डोर नं. 1-9-290/बी/ए, अदिकमेट, रामनगर गुंडू, ललिता नगर, न्यू नल्लाकुंता, हैदराबाद, तेलंगाना- 500044.
1274	जातिय महिला पार्टी	6-3-बी-922, एन.जी.ओ. कॉलोनी, बनास्थालिपुरम, हैदराबाद, तेलंगाना-500070
1275	जवान किसान आवागम पार्टी	नई बस्ती, बहादुरपुर, मांझेलपुर, थाना-थाना-जहंगीराबाद, पोस्ट-सोमैया नगर, बाराबनाकी, उत्तर प्रदेश-225002
1276	जवान किसान मोर्चा	क्वाटर नं0 एल0 आई0 जी0, एच0 – 1/7, हाउसिंग कॉलोनी, दलपत पूर्व (चन्दवा), आरा, बिहार – 802312.
1277	जय हिन्द जय भारत पार्टी	एन—106, एच. आई. जी. फ्लैट, संजय नगर, सैक्टर—23, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1278	जय विदर्भ पार्टी	302, कोलबास्वामी रेजीडेंसी, विठ्ठल नगर, न्यू इरा इंग्लिश स्कूल, उदय नगर स्कवायर, मानेवाडा रिंग रोड, नागपुर, महाराष्ट्र- 440034
1279	जेबामणि जनता	नं0 33, सैकंड स्ट्रीट, पूर्व अबिरामपुरम, माइलापोर, चेन्नई-600004, तमिलनाडु ।
1280	झारखण्ड अनुशीलन पार्टी	ग्रा0 व पो0 आफिस झिलीमिली थाना – बरीकुल, जिला – बाकुंडा पश्चिम बंगाल – 722135
1281	झारखण्ड आजाद पार्टी	झलेश्वर करमली मकान संख्या- 153 ए, खाता संख्या 40, प्लॉट संख्या 293, मौज होम्बई, विलेज-होम्बई पोस्ट-निवरी विकास, थाना-सदर राँची, जिला - राँची, झारखण्ड - 835217.
1282	झारखंड दिशोम पार्टी	12, मार्ग सं0 21, कदमा फार्म एरिया, जमशेदपुर – 831005, झारखण्ड ।
1283	झारखण्ड जन क्रांति मोर्चा	मकान सं0 – 36, दिनकर नगर, पो0 – हटिया रेलवे कॉलोनी, थाना – जगरनाथपुर, राँची, झारखण्ड ।
1284	झारखण्ड जनाधिकार पार्टी	हॉली क्रॉस स्कूल के सामने, लालपुर पीस रोड, राँची – 834001, झारखण्ड ।
1285	झारखण्ड की क्रान्तिकारी पार्टी	23, पूर्वी जेल रोड, राँची – 1 (झारखण्ड) ।
1286	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (उलगुलान)	द्वारा श्री ओम प्रकाश सिंह, ग्राम एवं पो. - मधुकम, रोड नं.4, थाना - सुखदेव नगर, जिला - राँची, झारखण्ड - 834001
1287	झारखण्ड पार्टी	आनन्द सुवानी निवास, एयरपोर्ट रोड, हिनू, राँची, झारखण्ड – 834002.
1288	झारखण्ड पार्टी (नरेन)	स्थान – रधुनाथपुर, पो. ऑ. – झाड़ग्राम, जिला – मिदनापुर – 721507, (पश्चिम बंगाल) ।
1289	झारखण्ड पार्टी (सेकुलर)	ग्राम - उनीडीह, पोस्ट – राजा उलातु, थाना - नामकुम, जिला - राँची, झारखण्ड ।
1290	झारखण्ड पीपुल्स पार्टी	पो. ऑ. लौबासा, जमशेदपुर, पु0 स्टे0 – गोविन्दपुर, जिला – सिंहभूम (पूर्व) झारखण्ड ।
1291	झारखण्ड विकास दल	273, लेक एवेन्यू, स काँके रोड, राँची, झारखण्ड

1292	जिन्दाबाद क्रान्ति पार्टी	31/38ए, तृतीय तल, गली नं. 5, भीकम सिंह कॉलोनी, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032
1293	जोहार पार्टी	ग्राम- दड़हाटांड, पोस्ट एवं थाना- ईटकी, जिला- रांची, झारखण्ड- 835301
1294	जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी	10, दूसरा माला, शहीद वीरनारायण सिंह परिसर, नगर घडी चौक, जी ई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001।
1295	जस्टिस अण्ड डेवलपमेंट पार्टी	गाँव+पोस्ट-ऑफिस अहिरन, पी.एस.-सुति, जिला-मुर्शिदाबाद, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 742223.
1296	जस्टिस पार्टी	ग्राम- दिकतन खेड़ा, पोस्ट- हरचन्दपुर, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश -229303।
1297	ज्वाला दल	मकान संख्या – 247 बी, मु0 – जंगल तुलसीराम, पो0 – बिछिया पी.ए.सी. कैम्प, थाना – शाहपुर, जिला – गोरखपुर – 273014 उत्तर प्रदेश।
1298	कलींग नेसनल फ्रंट	स्थान – परबील, पो0 ऑ0 —कन्दरपुर, जिला – कटक – 754100, ओडिशा।
1299	कलिंगा सेना	19ए, मधुसूदन नगर, यूनिट – 4, भूवनेश्वर – 751001, खुर्दा, उड़ीसा।
1300	कल्याण कर्नाटक पार्टी	सीटीएस नं. 4589/ए, पहली मंजिल, शेटी गल्ली, बेलगावी, कर्नाटक- 590002
1301	कल्याण क्रान्ति पार्टी	# 57, दूसरा तल, 3 मेन अदित्यानगर, 8 फेज, जेपी नगर, बैंगलुरु, कर्नाटक - 560062
1302	कल्याण राज्य प्रगती पक्ष	49/48, कायालासनाहल्ली, कोठानूर पोस्ट, बैंगलोर, कर्नाटक – 560077.
1303	कल्याणकारी जनतांत्रिक पार्टी	बी-4/260ए, केशवपुरम, नई दिल्ली - 110035।
1304	कल्याणवादी पार्टी	16, पाण्डेय टोला, पैंतेपुर, महमूदाबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश – 261203
1305	कामराजार देसीया कॉंग्रेस	7-वेलायुधा, राजा स्ट्रीट, राजा अन्नामलाईपुरम, मंडावेली, चेन्नई – 600028 (तमिलनाडु)।
1306	कामराजार मक्कल काची	52/6, गांधी सलाई, चेन्नई – 600042
1307	कामतापुर पीपुल्स पार्टी (यूनाईटेड)	गांव एवं पोस्ट- भंदांनी, पुलिस स्टेशन- धुपगुडी, जिला- जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल- 735210.
1308	कमेरा समाज पार्टी	वार्ड नं. -3, लाला का पुरवा शंकरगढ़ (पन्ती देवी स्कूल के पास), पो0- शंकरगढ़, जिला-प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 212108.
1309	कामगार किसान पार्टी	राहुल भवन, मकान नं० 51, मानस नगर, जियामऊ, हजरतगंज, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
1310	कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी	चिल्ला रॉय भवन, गाँव – बिधानपल्ली, डाक घर – कदमताला, जिला – दार्जिलिंग – 734433, पश्चिम बंगाल।
1311	कन्नड़ चालवाली वाटल पक्ष	154, रंगास्वामी टेम्पल स्ट्रीट, बंगलौर - 560053, (कर्नाटक)।
1312	कन्नडा देशदा पक्षा	नं. 20, बन्दारलाहल्ली विलेज, कामसमुद्रम होबली, बंगारपेट तालुक, जिला- कोलार कर्नाटक- 563129
1313	कन्नड़ पक्ष	नं० 259/1, फर्स्ट फ्लोर, रंगास्वामी टेम्पल स्ट्रीट (जैन टेम्पल के सामने), बंगलौर - 560053 (कर्नाटक)।
1314	कानून राज पार्टी	डी-1/1045, गली नं. 27, हर्ष विहार, शाहदरा, दिल्ली-110093
1315	कांशीराम बहुजन दल	खाता नं. 208, का अराजी नं.- 159एम/0.0810, गांव- अली खानपुर, पी.एस.- लाईन बाजार, तहसील- सदर, परगना- हवेली, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222132
1316	काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी	मकान नं० ए-62/1-153, ओ ब्लॉक ओमेक्स सिटी, औरंगाबाद खालसा

		जनपद, लखनऊ उत्तर प्रदेश - 226025
1317	कर्मा पार्टी	शॉप नं0 -1, हुडा मार्केट, लैज़र वैली पार्क, किंगडम ऑफ ड्रीम्स के सामने, सेक्टर - 29, गुडगांव, हरियाणा - 122002
1318	कर्नाटक जनसेवा पार्टी	ओल्ड पीआईडी नं.36, खाता नं.151, सर्वे नं.42, कावेरीपुरा मेन रोड, नं.587, नियर महादेशवरा मंदिर रोड, रंगनाथापुरा, कामाक्षीपलया, बैंगलुरु, कर्नाटक-560079
1319	कर्नाटक जनता पक्ष	#11, 12 मेन, 17 क्रास, मालेश्वरम, बैंगलुरु-560055, कर्नाटक
1320	कर्नाटक कार्मिकर पक्ष	नं. 120, प्रथम तल, सेन्ट जोन्स चर्च रोड, नियर कोल्स पार्क, बैंगलोर, कर्नाटक - 560005
1321	कर्नाटका मक्कला पक्शा	एच0 ओ0 नं0 09, ब्लॉक - 4जेएसएस इम्प्लायस लेआउट, साथागली नजाराबाद मोहल्ला, मैसूर, कर्नाटक- 570011
1322	कर्नाटक प्रगन्यावन्ता जनता पार्टी	नं0 -23, दूसरी "ए" मेन रोड, 7 वां क्रॉस, मुनेश्वर लेआउट, श्रीगंदनगर, बैंगलुरु, कर्नाटक - 560091
1323	कर्नाटक प्रजा पार्टी (रैयथा पर्व)	फ्लैट नं. 104, अदित अपार्टमेंट, एस.जे.सी.ई कालेज रोड, टेलिकॉम ले आउट, वाग्देविनगर, मैसूर, कर्नाटक- 570009.
1324	कर्नाटक प्रजा विकास पार्टी	नं0 15, सम्पंगीमै लेआउट, सिदेदाहल्ली, यशवंतपुर हौबी, नागासन्द्रा पोस्ट, बैंगलुरु नॉर्थ ता0, बैंगलुरु डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक- 560073
1325	कर्नाटक राज्य रयोता संघ	636, आईडल होम्स ले आउट, राजाराजेश्वरी नगर, बंगलौर - 560098 (कर्नाटक)
1326	कर्नाटक राष्ट्र समिति	नं.31/2, 8वा इ मेन, चतुर्थ ब्लॉक, जयनगर, बैंगलुरु, कर्नाटक-560011
1327	कर्नाटक समता पक्ष	नं. 718, एस. कलेदार प्लॉट, तिरुपुर, नवलगुंड, जिला- धारवाड़, कर्नाटक- 582208
1328	कर्नाटका स्वाभिमानी रैथरा कर्मिकारा पार्टी	खाता ऐसेसमेंट नं. 565/7782/6536, सी.के.पूरा मेन रोड, चित्रादुर्गा, कर्नाटक- 577501
1329	कर्नाटक स्वराज्य पार्टी	सं0 2082, चिदाम्बर कृपा, साई नगर, रायबाग, जिला बेलगाम, कर्नाटक - 591317
1330	कर्पूरी जनता दल	राजीव नगर, रोड नंबर 15ए, पोस्ट केशरी नगर, पटना, बिहार-800024
1331	कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी	मकान सं0 - 46, लाला मोहम्मदपुर, कंकर खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
1332	करुनाडु पार्टी	सा. 13/2, नं0 7 मल्लाथाहली, नंजप्पा गार्डन, बैंगलौर-560056 कर्नाटक ।
1333	करुनाडा सेवाकरा पार्टी	डोर न. 2-6, करोडी हाउस, केन्जर विलेज एवं पोस्ट, मंगलोर तालुक, डी. के डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक- 574142
1334	करुणाडगा तमिझार काची	नं.15, निदरसनम, जेवी.शेट्टी, रामासामी पाल्या, एम.एस नगर पोस्ट, बैंगलुरु, कर्नाटक-560033
1335	काश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट (जे एंड के)	म0 नं0 - 254 - मेन रोड, पोस्ट ऑफिस के पास, जवाहर नगर, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
1336	कठोर शासन पार्टी	75, बी-3, जाटन, भगवती भवन, पी. ओ. व जिला - बिजनौर, उत्तर प्रदेश - 246701 ।
1337	केंद्रीय जनविकास पार्टी	प्लॉट नं0 - 179, आयुर्वेदिक लेआउट, भांडे प्लॉट, उमरेर रोड, सक्करदरा, जिला - नागपूर, महाराष्ट्र-440024 ।
1338	केरल काँग्रेस	67. कुमारानसन नगर, कादवानथारा, पो0 ऑ0 एरनाकुलम, केरल ।
1339	केरल काँग्रेस (बी)	पी.टी. चाको स्मारक, मन्दिरम्, एस.एस. कोबिल रोड, थाम्पनूर, तिरुवनन्तपुरम

		- 695001, (केरल)।
1340	केरल काँग्रेस (जेकब)	वार्ड 13, बिल्डिंग 346, टी. बी. रोड, कोट्टायम, (केरल) - 686001
1341	केरला कांग्रेस (स्कारिया थॉमस)	चिंगवन, बिल्डिंग नं. 711, वार्ड नं. 6, कोट्टयम मुनिसिपलिटि, कोट्टयम, जिला-कोट्टयम, केरल
1342	केरल काँग्रेस सेक्यूलर	केरल काँग्रेस सेक्यूलर स्टेट कमेटी कार्यालय, भारत बिल्डिंग, पुलीमूड जंक्शन, कोट्टायम - 1, केरल।
1343	केरला डेमोक्रेटिक पार्टी	6/341, पिनाकट्टूर, भारनागरम, चुन्दाचेरी, पोस्ट पाला, कोट्टयम जिला, कोट्टयम-686579, केरला
1344	केरला जनापक्षम (सेक्युलर)	टी.सी. 16/882(13), श्रीकृष्ण नगर, जगती- पोस्ट, तिरुवनन्तपुरम, केरल-695014
1345	केरला जनता पार्टी	मुलाकुलम पंचायत, वार्ड नं. 12, बिल्डिंग नं. 2, पूझीकोल पो.ऑ, कडुथुरुती केरल-686604
1346	केरला कामराज कांग्रेस	बिल्डिंग नं.- एन.एम.सी. XII/342डी, नेय्याट्टिकारा, तिरुवनन्तपुरम, केरल-695121.
1347	केरला प्रवासी एसोसिएशन	कांजीरामात्तिल (हाउस), नंबर 11/585पी, मलोथ, डार्कहास कासरगोड, केरल-671533
1348	केरला रिवोल्यूशनरी सोसलिस्ट पार्टी - (लेनिनिस्ट- मार्क्सिस्ट)	नं. 19/1347, सासथाकोटा ग्राम पंचायत, कोल्लम, केरल- 690521
1349	केरला विकास काँग्रेस	ई.पी- III/468, इखवेस्सी, पी.ओ.- चेम्परी, तालीपरम्बा, जिला- कन्नूर, केरल, पिन- 670632
1350	खानदेश विकास काँग्रेस पार्टी	बिल्डिंग नं0 2, 15/16, प्रथम तल, खानदेश, मिल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जलगांव - 425001.
1351	खत्यानी झारखंडी पार्टी	गांव-होम्बाई पोस्ट-नियोरी विकास, पी.एस.सदर, ओपी-मेसरी, राँची, झारखण्ड-835217
1352	खुन हिन्यूटिप नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट	जियाव लोअर लैसोनालेन, हाउस नं. 32 एवं वार्ड नं. 14 एवं होलिंग नं. 65, शिलांग, पूर्व खासी हिल्स जिला, मेघालय - 793002
1353	खुशहाल किसान पार्टी	मकान नं.- 125, अनाज मण्डी के पास, नागर रोड दीग, तहसील- दीग, जिला-भरतपुर, राजस्थान- 321203
1354	खुसरो सेना पार्टी	आई-4/95, शास्त्री नगर, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश।
1355	किसान अधिकार पार्टी	ए/1-104, प्रथम तल, सूर्यान्जली रेसिडेन्सी, संस्कार रेसिडेन्सी के सामने, क्रास रोड, अमरोली, सूरत, गुजरात- 394107
1356	किसान क्रान्ति दल	नांगला सुखदेव, नीमखेरा - जलेंसर, जिला - एटा (उत्तर प्रदेश)।
1357	किसान मजदूर बेरोजगार संघ	गांव - जेतपुर, पोस्ट - फफुन्द, ओरइया, उत्तर प्रदेश।
1358	किसान मजदूर प्रजा पार्टी	ए एक्स - 223/224, राजहर्ष कॉलोनी, नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश।
1359	किसान मजदूर सुरक्षा पार्टी	मकान नं. 45, ग्राम- खेडिया-हैबतखाँ, पोस्ट- कुलना, तहसील- गथाना, जिला-अलीगढ़ उत्तर प्रदेश- 202001
1360	किसान मजदूर संघर्ष पार्टी	भरोसा सिटी, ग्राम- सरोसा भरोसा, पोस्ट- मौंदा, ब्लॉक- काकोरी, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226008
1361	किसान पार्टी (लोकतान्त्रिक)	श्रीकृष्णा चिकित्सालय, सीडा, सतहरिया, पोस्ट-पवाँरा, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222202.

1362	किसान पार्टी ऑफ इण्डिया	वार्ड नं. 01, जनकपुर रोड, नागेश्वर स्थान, थाना- पुपरी जिला- सीतामढ़ी बिहार -843320
1363	किसान राज पार्टी	जूनियर एल.आई.जी. 358, विंध्य विहार कॉलोनी (पडरा), जिला- रीवा, मध्य प्रदेश- 486001
1364	किसान रक्षा पार्टी	529/ए व नया मकान संख्या- 807, पठौरियां दतिया गेट के बाहर, तहसील व जिला- झांसी, उत्तर प्रदेश- 284001
1365	किसान समाज मोर्चा	बिचौला भूड, पो0 - पतरिया, तह0 - गुन्नौर, बदायूँ, उत्तर प्रदेश।
1366	किसान समाज पार्टी (एस)	झिन्नापूर्वा, पोस्ट -धाखेरवा नानकर, तहसील - निघासन, जिला -लखीमपुर (खीरी), उत्तर प्रदेश।
1367	किसान संघर्ष समिति	छरियारी, मखदुसपुर, जहानाबाद, जिला-जहानाबाद बिहार-804422
1368	किसान सेना	101, कोलियान, विशुनगढ़ रोड, छिब्रामऊ, कन्नौज, उत्तर प्रदेश।
1369	किसान शक्ति जनतांत्रिक पार्टी	मकान नं0 - 12/445, मझौला आवास विकास, तहसील - सदर, जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
1370	किसान विश्व पार्टी	ग्राम व पोस्ट-सफिपुर, थाना-देवां, जिला-बाराबंकी, उत्तर प्रदेश-225301
1371	किशोर राज पार्टी	एल - 2/601, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1372	कोन्गु देसा मारुमलरची मक्कल काँची	नं0 - 301/14, अलगर नगर, गांव - पचनपालयम, पोस्ट - अंतियर, ईरोड, तमिलनाडु- 638501
1373	कोगुनाडू इलैगनर पडाई काची	डो.नं.2/38, जननी गार्डन, अल्लीकुलम, नागम्मा पुत्तूर (डाकघर), साथी रोड, अन्नूर, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु-641653
1374	कौगुनाडु मक्कल देसीय कच्ची	5/54, ईस्ट स्ट्रीट, पोस्ट - दृ कोंकरायपेट्टै, तालुक - तिरुचंगोड, जिला - नामकल्लक, तमिल नाडु - 638007
1375	कोसल जनता दल	प्लॉट नं. जे.सी-02, फेज-01, छेद कॉलोनी, राउरकेला, जिला- सुन्दरगढ़, ओडिशा-769015
1376	कोसल क्रान्ति दल	टेलिफोन एक्सचेंज रोड, रुगुदी पाडा, बालेनगिर - 767001, उड़ीसा।
1377	कोशल मुक्ति मोर्चा	रेलवे स्टेशन रोड, तितिलागढ़, जिला - बोलांगिर, ओडिसा।
1378	क्रान्ति जनशक्ति पार्टी	1058, यादव पुरा, पुरानी विधान सभा के सामने, वार्ड नं0 - 34, जोन नं0 - 8, तहसील - हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश।
1379	क्रान्तिकारी जयहिन्द सेना	द्वारा एडवोकेट आर० एन० काचवे, देवी प्रसाद होटल के पास, एम आई डी सी सेन्ट्रल रोड, अन्धेरी पूर्व, मुम्बई-400093, महाराष्ट्र।
1380	क्रान्तिकारी किसान सेना	सी-221, ओल्ड मीनल रेसीडेन्सी, राज होम्स, जे० के० रोड, भोपाल-462023, मध्य प्रदेश।
1381	क्रांतिकारी परिवर्तन पार्टी	देवयानी मार्ग, निकट सिक्सवे बाईपास, अशोक नगर(पूर्वी), इटावा, उत्तर प्रदेश- 206001
1382	क्रान्तिकारी साम्यवादी पार्टी	एम एल ए फ्लैट नं० 26, वीर चन्द पटेल पथ, पटना (बिहार)।
1383	क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी	शॉप नं.20, तिरुपती कॉम्प्लेक्स, सोनई-राहुरी रोड, सोनई, तालुका- नेवासा, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र- 414105
1384	क्रांतिकारी स्वराज दल	ग्राम मवैया कलां, पोस्ट नारीबारी, थाना शंकरगढ़, तहसील बार, जिला प्रयागराज, पिन कोड नं0 212106 (उ०प्र०)
1385	क्रान्तिकारी विकास दल	78/09 सी., मौ० - बिरसा आदिवासी कॉलोनी, पोस्ट - गुलजार बाग, थाना - आलमगंज, जिला - पटना - 800007, बिहार।

1386	क्रान्तिकारी युवा पार्टी	मकान नं. 318, ओल्ड रोहतक रोड, गुर्जर गली, शाहजादा बाग, दया बस्ती, दिल्ली-110035
1387	कृषक भारती पार्टी	दुकान नं. 841, गली नं. 11, हरिपुर सैक्टर-4, पंचकूला, हरियाणा-134112
1388	कृपा पार्टी	प्लॉट नं. 452, खाता सं. 69, शांति भवन, ग्राम- पहाना, पो. ऑ.- तिकनपुर, जी. पी.- रामचन्द्रपुर, पी. एस.- पाटकुरा, जिला- केन्द्रपाड़ा, ओडिशा-754153
1389	कूकी नेशनल असेम्बली	ग्रेस कॉटेज, पेटेवेंग, कवाकेलथेल, पो. ऑ. - इम्फाल, पिन - 795001, (मणिपुर)
1390	कूकी पीपुल्स एलायंस	लीटल बुड्स, रेंगाई रोड, जेनहांग लामका, चुराचंदपुर, मणिपुर भारत- 795128
1391	कुनबी बहुजन सवराज्य पार्टी	एच. नं. 114, ए-2, गाँव और पोस्ट खादी लोलवन, तातुका-संगमेश्वर, जिला- रत्नागिरी, महाराष्ट्र- 415801
1392	कुशल जनता पार्टी	पुपरी, वार्ड नं0-2, पोस्ट- जनकपुर रोड, जिला- सीतामढ़ी, बिहार- 843320
1393	लेबर पार्टी (सेक्यूलर)	382/4, गली हरदेव, संत निरंकारी कॉलोनी, दिल्ली-110009.
1394	लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया	म.न.ए-63, न्यू गोपाल नगर एक्सटेंशन, नानक प्याऊ, रामा पब्लिक स्कूल रोड, गली न.4, नज़फगढ़, नई दिल्ली-110043
1395	लक्ष्यधर गणतांत्रिक पार्टी	पुरानी बस्ती, चौकीदारपाड़ा, पो0 ओ0 के0 एम0 रोड, झारसुगुड़ा-2, जिला - झारसुगुड़ा, ओडिशा।
1396	लचिया जननायक काची(लजक)	नं0 - 18, अरविन्द बिल्स, अमन कोविल, फस्ट क्रॉस स्ट्रीट, श्रीनिवास नगर, पेरूगालाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600063
1397	लौकिक समाज पार्टी	द्वारा-चित्रा कॉनवेंट स्कूल, ग्राम - देवपार (वीरसिंहपुर), पोस्ट - मदनपुर, तहसील - बरहज, जिला - देवरिया, उत्तर प्रदेश- 274205
1398	लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी	ग्राम- शान्तिपुर (मिर्जा), पोस्ट ऑफिस- मिर्जा, पुलिस स्टेशन- पलाशबरी, जिला- कामरूप, असम-781125
1399	लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया	6/12, सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली- 110016.
1400	लिबरल सोशलिस्ट पार्टी	विपक्ष गुरुद्वारा साहिब, H. No. 82, एमआईटीसी कॉलोनी, बाय पास रोड, सिरसा, हरियाणा - 125055
1401	लिबरेशन कांग्रेस पार्टी	प्रथुर(v), गुंडीमेडा गांव, ताडेपल्ली मंडल, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश-522501
1402	लोग जन पार्टी - सेक्यूलर	शिनपुरी, नवचोतना पथ, अनिसाबाद, पटना, बिहार- 800002
1403	लोग पार्टी	मकान सं0 33/2, स्टेनले रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211001
1404	लोहिया संयुक्त समाजवादी पार्टी	एच-ब्लाक, हाउस नं.- 359, सैक्टर - 9, ओल्ड विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1405	लोहिया जनता दल	वार्ड क्रमांक स.04, एन.एच. 31, स्कूल गुलाबबाग, बाढ़, पटना, बिहार-803213
1406	लोक अधिकार लहर पंजाब पार्टी	ऑपोजिट सिविल हॉस्पिटल, तलवंडी साबो, जिला बठिंडा, पंजाब-151302
1407	लोक आवाज दल	होलिडिंग नं0 20/11, सर्किल नं0 264, अम्बेडकर चौक, विष्णुपुरी, पटना - 800002, बिहार।
1408	लोक बन्धु पार्टी	1/4908 खसरा नं0.192/193/179, गली नं0-6, बलवीर नगर एक्स, शाहदरा, दिल्ली-110032
1409	लोक भलाई पार्टी	5-एफ एफ, राजगुरु नगर, फिरोजपुर रोड, लुधियाना, (पंजाब)।
1410	लोक भारती	ए/702, वेदन्त उन्नत नगर नं. 2, गोरेगांव (पश्चिम) मुंबई- 400062.
1411	लोक चेतना दल	ग्राम - पकड़ी जलाल, पोस्ट - शुभंकरपुर, जिला - मुजफ्फरपुर, बिहार - 843113

1412	लोक दल	केन्द्रीय कार्यालय, 8, माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1413	लोक एकता पार्टी	एस-8/188, सुधाकर रोड, खजुरी कैण्ट, वाराणसी-221 002, उत्तर प्रदेश।
1414	लोक गठबंधन पार्टी	नं0 - बी - 16-ए, बेसमेंट ऑफ अलिशा अपार्टमेंट (अतरौला हाउस, 27/6, राम मोहन राय मार्ग) मदन मोहन मार्ग, कृषि भवन के नज़दीक, 3 वे रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001
1415	लोक हित राष्ट्रीय विकास पार्टी	ग्रेन मार्केट, लोंगोवाल, जिला - संगरूर, पंजाब।
1416	लोक इंसाफ पार्टी	बी -XXVII/208/403- डी/5, गुरु रामदास कॉम्प्लेक्स, दुगरी रोड, लुधियाना, पंजाब - 141001।
1417	लोक जन समाज पार्टी (भारत)	ग्राम रेहरा, पो० निपनियां, थाना परसा मलिक, तह० नौतनवां, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश - 273164
1418	लोक जन संघर्ष पार्टी	ग्राम- जमुनहा, विकास खण्ड बांकेगंज, पोस्ट- सौंखिया, जिला- लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश- 262802
1419	लोक जन विकास मोर्चा	कचहरी रोड, थाना-कोतवाली, पोस्ट-राँची-834001, झारखण्ड।
1420	लोक कल्याण पार्टी	नंबर 4 एफ / 403, अकाशरथ बी / एच रत्नम ऑप। सी.जी.रोड, अहमदाबाद, गुजरात - 380009
1421	लोक मानवाधिकार पार्टी	सी. 32/27-16ए, विद्याविहार कॉलोनी, छित्तपुर, वाराणसी-221002, उत्तर प्रदेश।
1422	लोक निर्माण दल	2, अराधना इन्क्लेव, सुरखपुर मार्ग, फेस-II, दिल्ली।
1423	लोक परिवर्तन पार्टी (डी.सी.)	भापरा रोड, पुलिस चौकी के सामने, जी.टी. रोड, समालखा, जिला-पानीपत हरियाणा।
1424	लोक रक्षा पार्टी	ग्राम व पोस्ट ऑफिस - सिरसा, जिला - इटावा उत्तर प्रदेश।
1425	लोक राष्ट्रीय पार्टी सेकुलर(एस)	अबन्तीबाई नगर, भोगांव, जिला-मैनपुरी, उत्तर प्रदेश- 205262
1426	लोक साहस पक्ष	एच. नं. 6307. कटारे कॉम्प्लेस, मुख्य रास्ता, जितुर, जितुर पुलिस स्टेशन जवल्ल, जितुर, हनुमान मंदिराजल्ल. जितुर, परभणी महाराष्ट्र-431509
1427	लोक समाज पार्टी	बी-1756, गली नं. 25, प्रथम पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली- 110090
1428	लोक साम्यां पार्टी	प्लॉट नं0 179, रामचंद्रपुर आर.सी. ठकुरानी, पोस्ट -हरिदेवपुर, कोलकाता- 700104
1429	लोक संघर्षशील पार्टी	प्रीमिर्सज नं0 100Z0864894, शास्त्रीमगर, चोटिला, ता0 चोटिला, जिला- सुरेन्द्रनगर गुजरात- 363520
1430	लोक सत्ता पार्टी	फ्लैट नं.801, श्रीनिवास टावर्स, आईटीसी काकतीय होटल के पास, बेगमपेट, हैदराबाद-500016, तेलंगाना।
1431	लोक सेना पार्टी	अहमद नगर रोड, मकान नं.-1-4-2956, गुलशन नगर, बालेपीर, बीड, महाराष्ट्र- 431122
1432	लोक सेवा दल	पोस्ट बधिया, तहसील लखीसराय, बिहार-811302.
1433	लोक शाही पार्टी (सेकुलर),	187-एच, 6/2, जीवन नगर, आश्रम चौक के नजदीक, महारानी बाग बस स्टैंड के सामने, नई दिल्ली - 110014
1434	लोक शक्ति पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं.2, तृतीय तल, शकरपुर खास दिल्ली-110092
1435	लोक स्वराज्य पार्टी	प्रेमलता गोबिंदराव ब्राम्हंकर, वार्ड नं.-5, गाँव एवं पोस्ट -संगाडी, तहसील- सकोली, जिला-भंडारा महाराष्ट्र- 441802.
1436	लोक विकास मंच	शॉप नं0 - 159, दूसरी मंजिल, शॉपिंग सेंटर, आर-वर्ल्ड सिनेमा के पास, सेक्टर -

		21, गाँधीनगर, गुजरात ।
1437	लोकतांत्रिक जनाधार पार्टी	टी-43, ग्राउंड फ्लोर, पंजाबी बस्ती, बलजीत नगर, नई दिल्ली-110008
1438	लोकहित अधिकार पार्टी	94, एच.आई.जी. ब्रिज विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011
1439	लोकजागर पार्टी	प्लॉट नं. 17, मैफिल, सन्मार्ग नगर, हुडकेश्वर रोड, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र-440034
1440	लोकजन सोशलिस्ट पार्टी	द्वारा वर्षा नेत्रालय, ग्राम व पोस्ट- फूलपुर बाजार, तहसील - पिंडरा, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221205.
1441	लोकप्रिय राष्ट्रवादी पार्टी	ग्राम- मढायना, पोस्ट - सिकरारा, पीपल चौकी, आगरा रोड, तहसील - फतेहाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश-283111
1442	लोकप्रिय समाज पार्टी	प्रजापति धर्मशाला मंदिर, श्री कालका जी, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली-110019.
1443	लोकप्रिय समता पार्टी	अल्फा ट्योरियल, सुधा डेयरी के पीछे, कटारी हिल रोड शांतिबाग, न्यू करीमगंज, पी.एस-सिविल लाइन, पी.ओ.-करीमगंज, जिला-गया, बिहार-823001
1444	लोकराज्य जनता पार्टी	कार्यालय नं० 1001ए/1बी, प्लॉट नं० 58, ए.वार्ड, लक्ष्मीटेक कॉलोनी साने गुरुजी वसाहत, कोल्हापूर, जिला-कोल्हापूर, महाराष्ट्र- 416012
1445	लोकराज्य पार्टी	ए-115/35/1, एन-9, शिवनेरी कॉलोनी, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर चौक, सिडको, औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431001
1446	लोकसंग्राम	एच० नं० 1321, लेन नं० 4, धुले-424001.
1447	लोकशाही एकता पार्टी	202, वाई वर्धमान गैलेक्सी, नवीवाड आई, बंदा दादी सेठ अगियारीलेन, जे.एस.एस. सड़क, मुंबई 400002, महाराष्ट्र
1448	लोकशाही निर्माण पार्टी	नं. 6, प्राईम रोज, क्रीन पार्क, दीपक हॉस्पिटल के पीछे, मीरा भयंदर रोड, मीरा रोड, जिला- थाने, महाराष्ट्र- 401107
1449	लोकशाही पार्टी	नंबर बी-705, ओमकार वेदा सीएचएस, नियर अंबेडकर कॉलोनी, एकनाथ घडी मार्ग, परेल पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र - 400012.
1450	लोकशाही सत्ता पार्टी	“पंचवटी” बोराडीपा, रामजी मंदिर के पास, बावला, तहसील – बावला, जिला – अहमदाबाद, गुजरात -382220 ।
1451	लोकशक्ति विकास पार्टी	उदंतपुरी (किलापर), बिहारशरीफ, नालंदा, बिहार-803101
1452	लोकशासन आन्दोलन पार्टी	259, गुहा गांव, तालुक – रहुरी, जिला – अहमदनगर महाराष्ट्र – 413705
1453	लोकशासन पार्टी ऑफ इंडिया	सं० नं० 67, प्लॉट सं० 25, प्रतिक बिल्डिंग, फ्लैट नं० 3, विद्यानगर, पुणे-411032, महाराष्ट्र।
1454	लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी	म.स. 568, सैक्टर-3, अर्बन एस्टेट, कुरुक्षेत्र-136118, हरियाणा
1455	लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी	इ-1, 21/7, न्यू राजेन्द्र नगर, डाकघर-रविग्राम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
1456	लोकतंत्र जागृत पार्टी	सी-410, सुमेल बिजनेस पार्क 7, निकट सोनी नी चली राखियाल, अहमदाबाद, गुजरात – 380023
1457	लोकतंत्र कल्याण पार्टी	ग्राम-खिरीकोन, पोस्ट-तार, थाना-अगीआवँ बाजार, प्रखंड-पीरो, जिला- भोजपुर, बिहार-802207.
1458	लोकतंत्र विकास पार्टी	ग्राम व पोस्ट शहपुर बम्हैटा, थाना कविनगर, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009
1459	लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी	सविता सदन, धूमनगर (कचहरी टोला), पोस्ट- बेलबाग (बेतिया), थाना-नौतन, जिला- पश्चिम चंपारण, बिहार- 845438
1460	लोकतांत्रिक जनता पार्टी (सेक्यूलर)	मेन रोड, फिरोजपुर, पोस्ट-ऑफिस आन्देर, जिला-सिवान, बिहार-841231,

1461	लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी	मकान सं० - 107, केशर कालोनी हल्दौनी, ग्रेटर नोएडा, जिला- गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश- 201306 ।
1462	लोकतांत्रिक जनता दल	मकान नं. 861 पी, सेक्टर-15, पार्ट- II, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001
1463	लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी	एस- 25/51ए-9बी-1, गौतम बिहार कॉलोनी, सरसौली, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221002
1464	लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी	बैंकर्स कॉलोनी, लक्ष्मीसागर, वार्ड नंबर 01, विजन स्कूल के पास दरभंगा, बिहार – 846009
1465	लोकतांत्रिक मानवतावादी पार्टी	दुकान नं० 5, एस० डी० 366, शास्त्री नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1466	लोकतान्त्रिक पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	न० 103, (सर्किल न० 189, होलिंग न० 101/1, 94/86), भीतरी बेगमपुर, पटना सिटी, पटना, बिहार-800009
1467	लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी पार्टी	ई-2, ओल्ड सोसाइटी, सैजपुर रेलवे स्टेशन के पास, सैजपुर बोधा, अहमदाबाद, गुजरात- 382245
1468	लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी	सी - 32, आनंद निकेतन, नई दिल्ली – 110021
1469	लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	27-ए, डी.डी.ए. फ्लैट्स, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली-110002.
1470	लोकतांत्रिक समता दल	डी०-104, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना-800001, बिहार।
1471	लोकतांत्रिक सरकार पार्टी	द्वारा पी० के० खरिया, एडवोकेट, शताब्दी चैम्बर, नं०-1, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मांडला- 481 661, मध्य प्रदेश।
1472	लोकतांत्रिक सर्वजन समाज पार्टी	बी-103, सपना अपार्टमेंट, रामनगरी, आशियाना नगर, पटना-800025 बिहार।
1473	लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी	नं० – 5, एच० आई० जी०-160, 100 फीट रोड, नेहरू एन्कलेव, आगरा, उत्तर प्रदेश - 282001
1474	मा तेलंगाना पार्टी	8-2-540/4, रोड नं० 4, बंजारा हिल्स, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।
1475	माँ थरम पार्टी	302, दूसरी मंजिल, इनोवेटिव सान्वी एलीट, डोड्डाथोगौर, ऑप. कृष्णा मिस्ट, अपार्टमेंट प्रगति नगर, चिक्का थोगुरु, डोड्डाथोगौर, बेंगलुरु, कर्नाटक – 560100.
1476	मानववादी जनता पार्टी	ग्राम- दोगी, पोस्ट- गोरौर, थाना – छबिलापुर, बाया – राजगीर, जिला- नालन्दा, बिहार- 803116
1477	मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी	नया वार्ड क्र.- 72, मकान नं० -4872, प्लॉट नं.- 123, फेस- 2, स्टार सिटी, कटंगी रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश ।
1478	मध्य प्रदेश नव निर्माण सेना	2983, प्रिंस कालोनी, न्यूकंचनपुर, आधारतल, जबलपुर-482004, मध्य प्रदेश।
1479	महाभारत राष्ट्र पार्टी	330, ट्रेड स्क्वेर, सफल परिष्कर, खोखरा सर्कल, मणिनगर पूर्व, अहमदाबाद, गुजरात-380026
1480	महाभारत महाजन सभा	प्लॉट नं० 10, विवेकानंद नगर, इनर रिंग रोड, कोलाथुर, चेन्नई-600099, (तमिलनाडु)।
1481	महाजन मंडली पार्टी	मं० नं० - 1-8-27/20, जी०एच०एम०सी० - 1483, स्ट्रीट नं०-12, चिक्काडपल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश – 500020
1482	महाजन राज्यम पार्टी	#7/347-2 पी० – ए० – 3. सिम्हापुरी कालोनी, चौथी रोड, आर० टी० सी० बस स्टेण्ड के पास, कडपा – 516002, कडपा जिला, आन्ध्र प्रदेश ।
1483	महाजना सोशलिस्ट पार्टी	द्वार नं० 1-14-297/1, बालामराई, रसूलपुरा, सिकन्द्राबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
1484	महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी	जायसवाल कॉलोनी, छपरा, जिला-सिवनी, मध्य प्रदेश-480884
1485	महाक्रान्ति दल	ग्राम-83 अवहदपुर, पोस्ट- कोइलारी, तहसील व परगना- केराकत, जिला-

		जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222148 ।
1486	महामुक्ति दल	ग्राम – उसरांव, डाक घर – इटार्ये, तहसील - मड़ियाहूँ, जिला – जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
1487	महान भारतीय संगठन पार्टी	ग्राम व पोस्ट- जंगराल, थाना- वागडोद, तहसील- सरस्वती, जिला- पाटन, गुजरात।
1488	महान दल	ए-218 डी, धीरज नगर एक्सटेंशन, एतमादपुर, निकट फौजी ढाबा, सैक्टर-30, फरीदाबाद, हरियाणा।
1489	महान समतावादी पार्टी	म. न. 571, गली न. 10, आदर्श कॉलोनी बिहारीपुरा, निकट खिल्लूराम एकेडमी, विजयनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201009
1490	महानवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट - कुतुबपुर चनोरा, जिला - फिरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1491	महाराणा क्रांति पार्टी	म. नं0 – 698, बार्ड नं0 – 14, बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, राजस्थान
1492	महाराष्ट्र बहुजन सन्मान पार्टी	केसकरवाडी, पो. भालवणी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर महाराष्ट्र- 413310.
1493	महाराष्ट्र बहुजन वंचित अघाडी	10 बी, करंजे तर्फ, प्लॉट नं. 7, सातारा, महाराष्ट्र-415002
1494	महाराष्ट्र जनकल्याण पार्टी	शॉप नं. 9, पुंजानी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, कन्नौजिन, करान्जा (लाड), जिला- वाशिम, महाराष्ट्र- 444105.
1495	महाराष्ट्र क्रान्ति सेना	बार्ड नं. 20, मकान नं. 920, प्लॉट नं. 58, महावीर हाउसिंग सोसाईटी, नियर गुजराती भवन, इचलकरंजी, तहसील- हातकणंगले, जिला- कोल्हपुर, महाराष्ट्र- 416115
1496	महाराष्ट्र लोकहितवादी पार्टी	मौजा लेंडवे चितळे, तहसील-मंगळवेढा, जिला - सोलापूर, महाराष्ट्र - 413305
1497	महाराष्ट्र परिवर्तन सेना (टी)	ग्राम – मांगवडगांव, तालुका – केज, जिला – बीड, महाराष्ट्र ।
1498	महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष	सुखसागर रिएल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, 101, साई पूजा, प्रथम तल, 16वां रोड, मिनी पंजाब होटल के पास, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र- 400050
1499	महाराष्ट्र विकास आघाडी	गोविंदग्रज सदन, श्याम नगर, लातूर, महाराष्ट्र।
1500	महासंकल्प जनता पार्टी	शॉप नं. 22, सन साइन काम्प्लेक्स, रिफाइनरी रोड, पंचवटी गोरवा, बडोदरा, गुजरात- 390016
1501	महात्मा मङ्कल मुनेत्र कझकम	पुराना नं. 56/11-एन, नया नं. 24, डॉ. अम्बेडकर नगर, रेलवे रोड, जिला- कांचीपुरम, तमिलनाडु- 631502
1502	महात्मा गांधी नेशनल लेबर पार्टी	3/366 जी, कुथुकल स्ट्रीट, पारामाकुडी, रामानाथपुरम जिला, तमिलनाडु- 623707.
1503	महात्मा मङ्कल सेवै पेरियक्कम	कार्यालय नं0 – 45, सुभा अधिला नगर, हवाई अड्डा – पी.ओ., तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु - 620007
1504	महिला & युवा शक्ति पार्टी	मकान नं. 45, न्यू आबादी, सेक्टर- 23, तहसील- सोनीपत, जिला- सोनीपत, हरियाणा -131001
1505	महिला मजदूर किसान पार्टी	गाव-रुकानपुर, पोस्ट-माधोगंज, तहसील-बिलग्राम, जिला-हरदोई, उत्तर प्रदेश- 241302
1506	महिला प्रधान पक्ष	1261, 16 मेन, 20 क्रास, ए ब्लॉक, सहकारा नगरा, बैंगलौर – 560092 कर्नाटक ।
1507	महिला सशक्तिकरण पार्टी	यू0जी0एफ0 – 63, उद्यान प्लाजा, उतरठिया, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226025
1508	महिला स्वाभिमान पार्टी	ग्राम - गुमटी नं0 - 5, सरायं करोरा, गोसाईगंज, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश -

		227125
1509	मै ही भारत	2 ए "रायल", हेस्टिंग्स पार्क रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
1510	मैदानी क्रान्ति दल	मुख्यालय – मस्जिद वाली गली, माजरा, देहरादून उत्तराखण्ड।
1511	मजदूर किसान अकाली दल	गाँव-75 जी बी, डाकघर-72 जी बी, वाया-रामसिंहपुर, तहसील-अनूपगढ़, जिला-गंगानगर, राजस्थान।
1512	मजदूर किसान यूनियन पार्टी	459/1, मो०-सरवट (वसन्त विहार), पो०-खास, जिला व शहर-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश – 251001
1513	मजलिस बचाओ तहरीक	16-4-593/ए चेनेहलगुडा, हैदराबाद-500024, (आन्ध्र प्रदेश)।
1514	मजलिस मर्कज़-ए-सियासी पार्टी	10-5-391/54/182/ए, भूतल, कशां-ई-घौसिया अलीम, सैयद नगर, 95ए, विधायक कॉलोनी के सामने, रोड नं० -12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
1515	मजलूम समाज पार्टी	ग्राम – मौदुखुर्द, तहसील - मवाना, जिला – मेरठ, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 250404
1516	मक्कल आलुम अरसियल	नं० 2, एन.एस.के. फर्स्ट स्ट्रीट, पेरम्बूर, नेलवायल नगर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600011
1517	मक्कल अरसियल काची	3/463, पालकार दुरैसामी बट्टम, जी.पी. पालिटेकनिक नियर, जी.पी. नगर, पालनांगकुप्पम गांव, इलागिरी पोस्ट, तीरुपथुर तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु - 635601
1518	मक्कल देसिय काची	137, कक्कन कॉलोनी, नंगमवाक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु – 600034
1519	मक्कल कूटामैपु काची	न. 348ए, केप रोड, एट्टूकडै बाजार, टी.एम.बी. बैंक के पास, एडालकुडी, कोट्टार पोस्ट, वैवीस्वरम गाँव, अगस्तीस्वरम तालुक, नागरकोईल, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु-629002.
1520	मक्कल मसोथा काँची	नं. 480, आर.के.वी. कॉम्पाउन्ड, थैथाकुडी, कथीरुप्पु पोस्ट, सिरकली तालुक, नागापट्टीनम- जिला, तमिलनाडु- 609109
1521	मक्कल मेम्पत्तु कझगम	कार्यालय 2/4ए, नार्थ स्ट्रीट, वीरारेड्डेकुप्पम, पझायपट्टीनम पोस्ट, कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु- 606104
1522	मक्कल मुन्नेत्र कांग्रेस	नं. 12, प्रथम क्रॉस स्ट्रीट, बालाजी नगर, पुदुचेरी- 605013.
1523	मक्कल मुन्नेटरा काचि	62/77, पेरुमल पुरम, कामाराज नगर, 2 nd स्ट्रीट भवानी, जिला-इरोड, तमिल नाडु- 638301
1524	मक्कल मुन्नेत्रा पेरावाइ	डोर नंबर 61E, पोंडी रोड, कोलियानुर गाँव, जिला – विलुपुरम, तमिलनाडु – 605103.
1525	मक्कल नाला काजगम	नं० 30, वार्ड-2, नेताजी नगर, तातनावलासड, कोडुम्पली पोस्ट, तिरुपत्तूर, तालूक, जिला तिरुपत्तूर, तमिलनाडु- 635653.
1526	मक्कल नलवाजहवुक काँची	फ्लैट नं० – जी3, वेटरी फ्लैट्स, नं०-7 (पुराना नं० 3ए), कावेरी स्ट्रीट, गाँधी नगर, शालीग्रामम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600093
1527	मक्कल नीधि मय्यम	#नया 04 # पुराना 172, एल्डमस रोड, अलवरपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600018
1528	मक्कल नीति काँची-इंडिया	नं० 112ए3, वड्डाक्कु थिरु (प्रवीन कॉम्प्लैक्स), ग्राउंड फ्लोर, त्रिची मेन रोड, थुराईमंगलम पोस्ट, तालुक व जिला – पेराम्बलुर, तमिलनाडु -621220
1529	मक्कल राज्यम काचि	नम्बर 1/427, कादुर मेन रोड, पोस्ट- पुदुवेटाकुडी, तालुक -कुन्नम, जिला- पेरमबलुर तमिलनाडु- 621716
1530	मक्कल शक्ति काची	न्यू नं० 41, पुराना नं० 15, बाजार लेन, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600 015, तमिलनाडु।

1531	मक्कल सनानायगा कडियार्सु काँची	नं. 3/123, गंगाई अम्मन कोइल स्ट्रीट, साउथ मलायमबक्कम गांव, कुनराथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600069
1532	मक्कल सेवई काची	नं. 10, बालाजी नगर, ऐर्नाउर, चेन्नई, तमिलनाडु- 6000057
1533	मक्कल तिलागम मुन्नेत्र कलगम	डी. नं. 6/431, पुन्नायपुरम, कडायानल्लूर तालुक, टेन्कासी, जिला-तिरुनेलवेली, तमिलनाडु- 627855.
1534	मक्कलाच्ची कच्ची	नं. 57, जगजीवनराम स्ट्रीट, पारुम्बू, अलवारकुरीची, अम्बासुमुतीरम तालुक, तिरुनेलवेली- जिला, तमिलनाडु-627412
1535	मक्कलाच्ची मुनेत्र कलगम	5/187, डॉ. जे.जे.स्ट्रीट, कास्पापुरम, अग्रमथेन, चेन्नई, तमिल नाडु - 600126
1536	मालवा कांग्रेस	133, खेह नगर, सपना-संगीता रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452001
1537	मना देशम पार्टी	ए-1, प्रथम तल, अनंता साई अपार्टमेन्ट, विवेकानन्द नगर कॉलोनी, कुकाटपली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश- 72
1538	मन तेलंगाना राष्ट्र समायिका पार्टी	मिग ओग ब्लॉक प्रथम तल नंबर 6, बागलिंगमपल्ली, अपोलो फार्मसी के ऊपर, टीएसएसपीडीसीआई, कार्यालय और इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, सुंदराया विज्ञान भवन और पार्क के पास, हैदराबाद, तेलंगाना-500044
1539	मानव अधिकार रक्षा पार्टी	36, दरियास्थान स्ट्रीट, ग्राऊंड फ्लोर, ऑफिस नं0 - 3, काटावाला बिल्डिंग (गोपमणि चेम्बर), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400003
1540	मानव आवाज पार्टी	मोहल्ला - नलापुर, वार्ड नं0 - 6, नारनौल, जिला - महेन्द्रगढ़, हरियाणा- 123001
1541	मानव एकता पार्टी	दादुसिंह कालोनी, प्लॉट नं0 53, सिरपुर, जिला-धुलिया (धुले), महाराष्ट्र।
1542	मानव हित पार्टी	भवन संख्या-575/1, सेक्टर-24, ट्यूवैल कालोनी, आगर रोड. एटा, उत्तर प्रदेश- 207001
1543	मानव जागृति मंच	552, बैंक कॉलोनी, देवली गांव, नई दिल्ली-110062.
1544	मानव कल्याण मंच	सा0 6/186, एम0 एक्स - 1, अकथा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1545	मानव क्रान्ति पार्टी	न्यू सर्राफा बाजार, वार्ड नं. 11, नगर पंचायत खागा, जिला- फतेहपुर, उत्तर प्रदेश- 212655
1546	मानव मुक्ति मोर्चा	हमीदगंज वार्ड नं0-13, पत्थर मिल के सामने, डाक घर-मैदिनी नगर-822101, जिला-पालामू (झारखण्ड)
1547	मानव समाधान पार्टी	21, सूखी सेवनियां, पोस्ट-सूखी सेवनियां, तहसील-हुजूर जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश-462010
1548	मानव संघर्ष पार्टी	हाउस संख्या-54, ग्राम और पोस्ट-मनियां, ब्लॉक-भदौरा, जिला - गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233001
1549	मानव पार्टी	जी-23, यूरेका टावर्स, किट्टूर चेन्नम्मा सर्किल, हुबली-580029, (कर्नाटक)।
1550	मानवाधिकार कांग्रेस पार्टी	एच. नं.26, जोशी टोला खीरी टाउन-1, पी.एस.खीरी, तहसील-लखीमपुर, जिला-खीरी, उत्तर प्रदेश-262702
1551	मानवाधिकार जनशक्ति पार्टी	जे-6/7-बी-डी, पुलिस स्टेशन के समीप, जैतपुरा वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221001
1552	मानवतावादी क्रान्ति दल	मानव भवन, कुल्लीखेड़ा, अहमामऊ, पोस्ट - अर्जुनगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
1553	मानवतावादी समाज पार्टी	638/307, ग्राम-जरहरा, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1554	मांग समाज पार्टी	ग्राम-पहदुल्लम (पहदेवाजीत), पोस्ट-रतनपुर, थाना हलधरपुर, सदर मऊ, जिला-मऊ, उत्तर प्रदेश-221706
1555	मणिपुर डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट	लैरिक येगबाम लैकई (साऊथ), 33 के0 वी0 इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन के सामने, के0

		एम० टावर के पास, तिरुपति लेन, पूर्व इम्फाल – 795010 मणिपुर।
1556	मणिपुर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	कोइजम अपार्टमेन्ट, वीआईपी कॉलोनी, 107/109 बाबूपारा, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर- 795001
1557	मणिपुर पीपुल्स पार्टी	पीपुल्स रोड इम्फाल- 795001, मणिपुर।
1558	मनिथा उरिमईगल कलागम	14/41, गुड्स शैड स्ट्रीट, मदुरै – 625 001 तमिल नाडु।
1559	मनीथनेया जनान्यागा काँची	124, कामराजार रोड, मौला कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, इलायंगुडी, जिला – शिवगंगई, तमिलनाडु - 630702
1560	मनीथनेया मककल काची	तीसरी मंजिल, सं० 6, वडा मराइकोयेर गली, चेन्नई-600001, तमिलनाडु।
1561	मन्निरन मैथरगल कडागम	नंम्बर-62, वार्ड-4, संथानमपेट्टु, कामराज स्ट्रीट, मनमथी (पी.ओ.) तिरुपोरूर (टीके), चेंगलपेट्टु जिला, तमिलनाडु-603103
1562	मनुवादी पार्टी	201, बिरहाना, पांडेगंज, सुभाषमार्ग, लखनऊ-226004, (उत्तर प्रदेश)।
1563	मानवाधिकार नेशनल पार्टी	12, द्वितीय तल, स्वागत काम्पलेक्स, रामबाग रोड, मणीनगर, अहमदाबाद, गुजरात – 382443
1564	मानवीय भारतपार्टी	ग्राम व पोस्ट- रामपुर नदी, तहसील- मड़ियाहु, जनपद - जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222105
1565	मारालैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट	सेहा-796901, छिमतुईपुई जिला, (मिजोरम)।
1566	मराठवाडा जनता पक्ष	मौजे पाखर सांगवी, गट नं० – 39, संत तुकाराम विद्यालय के पास, तालुक व जिला – लातूर, महाराष्ट्र - 413512
1567	मरूमलार्ची द्रविड मुन्नेत्र कडगम	'त्यागम,' नं० 141, रूक्मणि लक्ष्मी पति सलाई, इगमोरे, चेन्नई-600008, (तमिलनाडु)।
1568	मरूमलार्ची जनता काची	62/5, पिल्लैयार कोविल स्ट्रीट, पप्पिरेट्टीपट्टी- पोस्ट व तहसील, धर्मापुरी जिला, तमिल नाडु- 636905
1569	मार्क्सिस्ट कमयुनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूनाईटेड)	# 1-8-742/2/3, बाग लिंगमपल्ली, अचाय नगर, हैदराबाद-500044, तेलंगाना
1570	मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रेड फ्लैग)	डूर नं.- 828, द्वितीय तल, एरोमा बिल्डिंग, पुडुक्कड- पोस्ट ऑफिस, थिथूर - जिला, केरल- 680301.
1571	मार्क्सवादी जनता पार्टी	33, कुन्दन पुरा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश – 251002
1572	मातृ भूमि विकास पार्टी	मार्फत श्री काशीनाथ त्रिपाठी, अस्पताल रोड, मऊ चिबी, बांदा-210209, (उत्तर प्रदेश)।
1573	मातृभूमि सेवा पार्टी	ए- 118, दुर्गा विहार, देवली के पास, नई दिल्ली-110062.
1574	मौलिक अधिकार क्रांति पार्टी	एच. नंबर-402, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 2-3, गली नंबर-3, फ्रेंड्स एन्क्लेव, शाहबेरी, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201009
1575	मजदूर दलित किसान महिला गरीब पार्टी (हिन्दुस्तानी)	गद्दी अशरफ खान, जसमई रोड, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश
1576	मजदूर एकता पार्टी	नं. बी-2/208, नन्द नगरी, शहादरा, दिल्ली- 110093
1577	मजदूर किरायेदार विकास पार्टी	प्लॉट नं. 116, म्युनिसिपल नं. 500/3ई/4, ब्लॉक नं. 30, गली नं. 6, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली- 110032
1578	मजदूर विकास दल	क्वाटर नं. प्लाट-ई/124, फेज-I, छिन्द, राउरकेला, जिला- सुन्दरगढ़, ओडिसा- 769015
1579	मीनवर मक्कल मुन्नानी	नं० – 51, ओल्ड नं० – 24, तम्बु लेन, रॉयपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु – 600013
1580	मेघ देशम पार्टी	मेघवंश भवन, ई-70 बी, बजरंग विहार तृतीय, हरमाडा घाटी, जयपुर, राजस्थान

		I
1581	मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी	मिशन कम्पाउंड, मावखार, शिलांग-793001 (मेघालय)।
1582	मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल	मकान सं. 531/62, भिण्डिया टोला, बड़ा चांदगंज, प्रताप सिंह मार्ग, थाना-अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226024
1583	मेरा भारत महान पार्टी	इन्दरा नगर, ब्लॉक-3, पानिहाटी, पोस्ट-सोदपुर, जिला-24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700110
1584	मेरा गाँव मेरा देश पार्टी	मकान नं0 – 142, गाँव – इस्लामपुर, पोस्ट – साऊथ सिटी-II, गुडगाँव, हरियाणा – 122018
1585	मेरा वतन पार्टी	डी. न. 23-4-227/5, अशोक स्तंभ के पास, सुल्तान शाही, हैदराबाद, तेलंगाना - 500065.
1586	मेरकु तमिलागम काची	डी.नं.4/387, संजय गार्डन, थयमपलयम, मुथियानेरिचल(पीओ), कंगायम वाया तिरुप्पुर(टीके), तिरुप्पुर जिला, तमिलनाडु – 638701
1587	मेधा पार्टी	13 ई/10ए, राजीव नगर (सुतुरखाना), डाकखाना-तेलियरगंज, जनपद – इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
1588	एम.जी.आर. मक्कल काची	नं. 6,4 क्रॉस स्ट्रीट, पहली मुख्य सड़क, गोपालपुरम पूर्व, पट्टाभिराम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600072.
1589	मिहिर सेना	नागर्स च्वाइस, एस-47, साउथ साइड, जी0टी0 रोड, जी.टी. रोड, लाल कुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1590	माइनोरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी	13, हाइड्रे रोड काम्प्लेक्स, मोमिनपुरा, नागपुर – 440018, महाराष्ट्र।
1591	माइनोरिटी पीपल्स पार्टी	पीपी न.-55,56, दाग न.22,23, ग्राम-ढिंगारति, मौजा-लहारिधाट, पोस्ट-लहारिधाट, थाना- लहारिधाट, जिला-मोरिगाव, असम- 782127
1592	मिशन ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट जस्टिस पार्टी	रूम नं० -2, जीवदानी चाल, कुंभार पाड़ा, विरार (ईस्ट), विरार, महाराष्ट्र-401305
1593	मिशन एकता पार्टी	म0 नं0 790/12, सलारा मोहल्ला, रोहतक, हरियाणा- 124001
1594	मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी	आर-7, साइड-5, (यूपीएसआईडीसी) कासना, इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201308
1595	मिशन नया दिगंत पार्टी	होलडंग न0 1275, खंडोघोष, पुरश्च-खंडघष, जिला-पूर्व बर्धमान पश्चिम बंगाल- 713142
1596	मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा	सुपौल बाजार, कालेज रोड, वनदेवी नगर, बिरौल, दरभंगा, बिहार-847203
1597	मिथिलांचल विकास मोर्चा	महुआर, गौड़ा बौराम, पोस्ट – आसी, जिला – दरभंगा, बिहार – 847203
1598	मिथिलावादी पार्टी	ग्राम-पलिवार, पोस्ट-रांटी, थाना-राजनगर, वार्ड नंबर-08, हनुमान मंदिर के समीप, मधुबनी बिहार-847211
1599	मिजोरम पिपुल्स काँफ्रेंस	जनरल हेडक्वार्टर्स, ट्रेजरी स्कायर, आइजॉल-796001, (मिजोरम)
1600	मो दल	कार्यालय - मुकुर प्रेस प्रेमाईजेज, भाषाकोस लेन, नीम चौरी, पोस्ट- चांदनी चौक, पी.एस.- लाल बाग, जिला - कटक, ओडिशा - 753002.
1601	मोडरेट पार्टी	ग्राम-खखड़ी (मगहरा चौराहा).पोस्ट-बालेपुर कलां, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश ।
1602	मॉडर्न सिटीजन पार्टी	ग्राम-रानीचक, थाना-गढपुरा, जिला-वेगूसराय, बिहार-848204
1603	मॉडर्न पीपल पार्टी	मकान नम्बर 5-109-3/बी/1, तीसरी मंजिल, जुबली हिल्स रोड, अपोजिट, जे.आर.सी., राय दुर्गा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500033

1604	मूल भारती (एस) पार्टी	मं० नं० 25, खूनी मसित के पास, मोगा, मेहला सिंह मोगा-142001, जिला-फरीदकोट, (पंजाब)।
1605	मूलजन शक्ति पार्टी	मकान नं.394, गली नं.18, विश्वकर्मा मंदिर के पास, करन विहार, करनाल, हरियाणा-132001
1606	मूलनिवासी समाज पार्टी	गाँव-मघईपुर, डाकखाना-महाराजगंज, जनपद-आजमगढ़-276137, उत्तर प्रदेश।
1607	मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज ऑफ इण्डिया	परसपुर-कुड़वार, सुल्तानपुर-228155, उत्तर प्रदेश।
1608	मदर इंडिया पार्टी	खसरा नं० - 143, कुर्रे के बाद बना नं० - 143/3, ग्राम- जौन समाना, परगना व तहसील - दादरी, जिला - गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
1609	मदर लैंड नेशनल पार्टी	सर्वे नं. 20+21, डुप्लेक्स नं. 05, नोमान डुप्लेक्स, इकबाल एवेन्यु के पास, नियर कैनल, फतेहवादी, अहमदाबाद, गुजरात- 380055
1610	मौलिक अधिकार पार्टी	बिरोली-मोतीनगर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224201.
1611	मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम व डाक- बसन्तपुर, जिला- मुर्शिदाबाद, एस.डी. व पी.एस. धुमकल, पश्चिम बंगाल- 742406.
1612	मूलनिवासी अधिकार पार्टी	एस.-96, यू.पी.एस.आई.डी.सी., सेक्टर-5, जगदीशपुर, जिला-अमेठी उत्तर प्रदेश-227817
1613	माई इंडिया पार्टी	447/265, द्वितीय तल, पूनामल्ली हाई रोड, अंमजीकरै, चेन्नई, तमिलनाडु-600029
1614	नाडालुम मक्कल कल्छी	7/330, भू तल, दुवारगा नगर, मनाली न्यू टाउन, चेन्नै, तमिलनाडु- 600103.
1615	नाम इन्दियर पार्टी	73एफ/1ए, पोलपेट्टई, थूथुकुडी, तमिलनाडु- 628002
1616	नाम तमिलार काँची	द्वार नं० 7, प्लॉट नं० 8, हॉस्पिटल रोड, सैन्थिल नगर सिन्ना पोरुर, , चेन्नै- 600 116 तमिल नाडु।
1617	नारी नर रक्षक पार्टी	राज लक्ष्मी निवास, ककराली रोड, ग्राम-अनेग, बेहटा, अब्दुल पुर, प्राथमिक पाठशाला के पीछे, तहसील-हरदोई, जिला-हरदोई, उत्तर प्रदेश-241001
1618	नव भारत निर्माण सेवा पार्टी	प्लॉट नं.145/245/1141/1356, खाता नं.50/4873, हाथी पथर लेन, त्रिनाथ मंदिर के पास, रानीगुडा फार्म, थाना, ज़िला-रायगडा, ओडिशा-765001
1619	नागालैंड कांग्रेस	मकान नं० - 202, फैलोशिप कॉलोनी, आई एम सी हॉल के पास, दीमापुर, नागालैंड - 797112
1620	नागरिक अधिकार पार्टी	नंदलालपुर, पोस्ट - नंदलालपुर, बाया - मथुरापुर, जिला - भागलपुर, बिहार-813222
1621	नागरिक अधिकारशक्ति सेवा पार्टी	ए-63, जनता जीवन कैम्प, तिगरी, खानपुर, दिल्ली-110062
1622	नागरिक चेतना पार्टी	सर्वोदय नगर, टीचर्स कॉलोनी पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
1623	नागरिक एकता पार्टी	3/305, विशाल खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश
1624	नागरिक सेवा पार्टी(आर)	4, तायल विहार कॉलोनी, गेट नं० - 2, ऐशबाग रोड, हैदरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226004
1625	नागरिक विकास पार्टी	728, एबीसी, एकता नगर, प्रोफेशनल कोरियर के सामने, मोदी हुण्डाई शो-रूम के पास, सातिवली, वसई रोड, वसई (पूर्व),
1626	नई क्रान्ति पार्टी	बाब मृत्युंजयनाथ मंदिर, कुम्हारन टोला प्रथम, गोला गोकर्णनाथ, जिला-लखीमपुर- खीरी, उत्तर प्रदेश- 262802
1627	नैतिक पार्टी	314, सिटी सेन्टर निकट प्रेस क्लब, हजरतगंज लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

1628	नकी भारतीय एकता पार्टी	वार्ड नं०-1, मोहल्ला-हरिजन वाला, किठौर मेरठ, उत्तर प्रदेश।
1629	नलवजहिककडगम	कथिरवन इल्लम, 94/2, कलवै चेट्टी स्ट्रीट, चिन्तदृपत, चेन्नई, तमिलनाडु-600002
1630	नम इंडिया नाम इंडियार काँची	मकान सं० 9/8, फ्लैट सं० -3, स्वागता अपार्टमेंट, चेलप्पा स्ट्रीट, ओट्टेरी, चेन्नई तमिल नाडु- 600012
1631	नमाधू मक्कल काँची	नं० 3, पिल्लायर कैल स्ट्रीट, कस्बा, वेल्लोर-632001, तामिलनाडु।
1632	नमदु कोन्गु मुनेत्र कलगम	5एफ संजीत प्लाजा, तिरु वी.का. स्ट्रीट, तिरुपुर रोड काँगेयम, तिरुपुर जिला, तमिलनाडु- 638701.
1633	नम्मा कांग्रेस	नं० 98, वर्तूर मेन रोड, बैंगलोर पूर्व, बैंगलोर-560087 कर्नाटक।
1634	नारायणी सेना	निवास-ग्राम, पोस्ट-मालीपुर, जिला-अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश।
1635	नारी पंचायत पार्टी	प्लॉट नंबर-79, पॉकेट-4, सेक्टर-23बी, द्वारका, नई दिल्ली-110 077
1636	नर्मदाखण्ड नवनिर्माण सेना	मकान नंबर 20, गांव-लाखों, पोस्ट-छांटा, तहसील और जिला-डिंडौरी, मध्य प्रदेश-481880
1637	नशा मुक्त भारत पार्टी	तेजस्वी हाउस, विवेक विहार कॉलोनी, फरुखाबाद रोड, नई मंडी, इटावा, उत्तर प्रदेश- 206001
1638	नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी	हाउस नं. 99, वार्ड नं. 39, गंगोत्री, गंगा विहार, आर.पी.एस. रोड, दानापुर, जिला- पटना, बिहार- 801503
1639	नैशनल अधिकार इंसाफ पार्टी	मकान नं. - 230, गली नं० - 7, एस० ए० एस० नगर, अबोहर रोड, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब
1640	नेशनल अमन पार्टी	मो० - पंजाबिया, नगीना, जिला - बिजनौर, उत्तर प्रदेश - 246762
1641	नेशनल अपनी पार्टी	डी-1, 242/9, मेन सर्कुलर रोड, सोनिया विहार, दिल्ली - 110094
1642	नेशनल आवामी यूनाइटेड पार्टी	मकान नं.- 62, प्रियदर्शनी लेन, पाटा बोहड़ी, जम्मू एवं कश्मीर- 180002
1643	नेशनल बैकवर्ड (मूल), दलित, माइनोंरिटीज़ क्रांति दल	1st ई-17, जय नारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान - 334003
1644	नेशनल भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी	576/2, पंजाबिया-5, खुर्जा, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश- 203131
1645	नेशनल ब्लैक पैन्थर पार्टी	दुकान क्र.1, हिल पार्क, तिरुपति अपार्ट., कोकणीपाडा, कुरार गांव, मुम्बई, महाराष्ट्र - 400097
1646	नेशनल कन्फेड्रसी ऑफ इंडिया	63, साउथर्न एवेन्यू, फ्लैट नं० - 9, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700029
1647	नेशनल दलित दल पार्टी	7/398-8, बालिजापल्ली (एचसी), रेवेन्यू वार्ड नं. 7, मनौर (एसओ), राजामपेट मण्डल, कडापा - जिला, आन्ध्र प्रदेश- 516126
1648	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	जंग बहादुर यादव का मकान, गांव - मौलानीपुर बाजार, पोस्ट - तरवाँ, तहसील - लालगंज, जिला - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
1649	नेशनल डेमोक्रेटिक मिशन	सी-63, प्रताप नगर, हरि नगर, नई दिल्ली- 110064
1650	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी	सेन्ट्रल ऑफिस-चंगानाचेरी-2 कोट्टायम जिला, (केरल)।
1651	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (भारतीय)	83, मुहल्ला- उस्ताद, जम्मू, जम्मूलोचन कम्यूनिटी हॉल के निकट, जम्मू एण्ड कश्मीर- 180001
1652	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (सेक्युलर)	टीसी 28/1628, पुल्लामाडॉम कम्पाउन्ड, श्रीकण्ठेश्वरम, तिरुवन्नतपुरम, केरल- 695023
1653	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ साउथ इंडिया	21/7, नवीन फ्लैट्स, मीनाक्षी स्ट्रीट, पेराम्बुर, चेन्नई तमिलनाडु- 600011
1654	नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट	सी-4डी, 42बी, जनकपुरी, नई दिल्ली।

1655	नेशनल डेवलपमेन्ट पार्टी	हाऊस नं०-ए-8-2, मुल्तानी कॉलोनी, बीदर-585 401, कर्नाटक।
1656	नेशनल इक्वल पार्टी	एस एच 15/83, 3डी, विवेकपुरम भरलाई, शिवपुर वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221003.
1657	नेशनल एक्स सर्विसमैन पार्टी	ए-4, विश्वा प्रइज अपार्टमेंट, तुक्कमलयम मेंन रोड, पेरुम्बक्कम, चेन्नई-600100
1658	नेशनल फेडरल पार्टी	म. नं० 80/3ए, ग्राउंड फ्लोर, वसंत गाँव, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057
1659	नेशनल फिफ्टी फिफ्टी फ्रंट	मकान संख्या- 77, गार्डन सिटी कॉलोनी, पोस्ट- शहामात गंज, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश- 243005
1660	नेशनल फ्यूचर पार्टी	देवरिया हाउस, जी.पी.ओ.के पीछे पुरानी मण्डी, अजमेर, राजस्थान।
1661	नेशनल इंकलाब पार्टी	E1/576, गली नंबर-12, (मजार के पास), 33 फूटा रोड, नेहरू विहार, मुस्तफाबाद, दिल्ली- 110094.
1662	नेशनल जागरण पार्टी	मकान संख्या-14, मॉटेथरी स्कूल लेन, निकट वाले मारुति ऑटो मोबाईल्स, बोरिंग रोड, पटना, बिहार-800001.
1663	नेशनेल जन दल	एच.नं. 1/19, हौसिलनगर, एम.एच. कुदूसी, थाना-कोतवाली नगर, फैजाबाद, जिला-फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224001
1664	नेशनल जनहित कांग्रेस (ए बी)	043ए/ 5 प्यारे लाल बिल्डिंग, सरकारी कालेज के पास, महारौली रोड, गुडगांव, हरियाणा।
1665	नेशनल जनमंडल पार्टी	प्लॉट नं० - एफ-2, (फस्ट फ्लॉर) प्लॉट नं० 105-106, अलकापुरी योजना, गाँव निवारू, निवारू रोड, जयपुर, राजस्थान-302012
1666	नेशनल जनसत्ता पार्टी	तेजाजी चैंच्या वाली ढाणी मु० पो० -खोरी, तहसील-शाहपुरा, जिला-जयपुर- 303103 राजस्थान।
1667	नेशनल जनता पार्टी (इंडियन)	प्लॉट नं० -385, खाता नं० - 105, ग्राम - मोहम्मदपुर हरी, पोस्ट व थाना - भगवानपुर, जिला - वैशाली, बिहार - 844114
1668	नेशनल लेबर पार्टी	डी-22, ऑफिस नं० 11, डी-ब्लॉक, पांडव नगर, दिल्ली-110092।
1669	नेशनल लोकमत पार्टी	ग्राम - जिसौरी, डाकखाना - मुंडाली, जिला - मेरठ, उत्तर प्रदेश।
1670	नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी	46, गुलिस्ता कॉलोनी, लखनऊ-226001, (उत्तर प्रदेश)।
1671	नेशनल महा सभा पार्टी	माँ कृपा, अमरदीप सोसाइटी, अबिका चौक, दीसा, बनावसकांठा - 385535, गुजरात.
1672	नेशनल नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	596-ई-डी/एस, आजाद कुटिया, बारा-2, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश - 208027
1673	नेशनल नव क्रान्ति पार्टी	डी. नं० - 1-236, गाँव - गंगावरम, मंडल - गुरजाल, जिला - गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश- 522415।
1674	नेशनल ऑरगनाइजेशन काँग्रेस	नं० 1, जीवनानन्दम, सलिया, के. के. नगर, चेन्नई-6000 78, (तमिलनाडु)।
1675	नेशनल पार्टी	रूदेन बदायू-202524, (उत्तर प्रदेश)।
1676	नेशनल पीस पार्टी सेक्यूलर	रसूलपुर ब्युर, पोस्ट अवधन, तहसील चायल, जनपद-कौशाम्बी, -उत्तर प्रदेश - 212218
1677	नेशनल पीपुल्स काँग्रेस	मकान नं. 3-6-200, फ्लैट नं. 105, अरुणोदया अपार्टमेन्ट, स्ट्रीट नं. 15, हिमायतनगर, हैदराबाद- 500029 आन्ध्र प्रदेश
1678	नेशनल प्रजा शक्ति (जनता) पार्टी	म.न.16-1-159, चिन्नादरपल्ली (वी), हनवाडा (एम), महबूबनगर (जिला) तेलंगाना राज्य, पिन-509334
1679	नेशनल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया	एन-51/1, फ्लैट नं. 2, अपर ग्राउण्ड फ्लौर, राजपुर खुर्द, हरगोविन्द एन्क्लेव, तहसील- हौज खास मेहरौली, नई दिल्ली- 110068

1680	नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेस	होलिडिंग नं. 223, हाउस नं. 6, वार्ड नं. 26, प्रगति पथ पर स्थित, राजधानी मस्जिद के पास, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006.
1681	नेशनल समाजवादी कांग्रेस	नं.42, नायडू लेआउट, कुवेम्पु नगर, बेंगलोर, कर्नाटक-560014
1682	नेशनल सेक्यूलर कान्फ्रेंस	एम०आई०एस०एफ०ए, कोडुवली (पी० ओ०), कोझिकोड डी टी., केरल-673572.
1683	नेशनल सोशलिस्ट पार्टी (युनाइटेड)	फ्लैट नं. 6, प्रथम तल, साई कृपा हाउसिंग सोसाइटी, 45/6, हॉस्पिटल कॉलोनी, तालेगांव, डभाडे, तालुका- मावल, जिला- पुणे, महाराष्ट्र- 410507
1684	नेशनल टारगेट पार्टी	नं. 158/ए, तेहखण्ड ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020.
1685	नेशनल टाइगर पार्टी	सेन्ट्रल हेड आफिस-सरोजनगर, पोस्ट आफिस-कालगीगंज, वाया/थाना-कहैलगांव, जिला-भागलपुर, बिहार- 812303.
1686	नेशनल युनियनिस्ट जमींदारा पार्टी	129, नई धान मण्डी, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335001
1687	नेशनल वोमेन्स पार्टी	एच.नं.2-247, श्री साई नगर, (वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल के पास), जीलेगूडा सरूर नगर, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश – 500097
1688	नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी	दूसरी मंजिल, एटीएम के सामने, नवी भाग, बेरासिया रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462038.
1689	नेशनल वर्ल्ड लाईफ पंचतत्व पार्टी	पाटीदार कॉलानी, भीलखेड़ी रोड, शुजालपुर मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश ।
1690	नेशनल यूथ पार्टी	फ्लैट नं० ए-202, यूरो अपार्टमेन्ट, सैक्टर-5, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।
1691	नेशनलिस्ट चेरिटी काँग्रेस	बिशोप हॉउस, गात्रियल कम्पाउन्ड, पानाविलाइ थक्काले-629175, जिला-कन्याकुमारी, तामिलनाडु ।
1692	नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया	जागो बिस्वा, होलिंग नं. -4719, ग्राम- हत्गाचा, डाकघर- बानीपुर, थाना संकरैल, जिला-हावड़ा, पिन-711304
1693	नेशनलिस्ट जनशक्ति पार्टी	अभिनव निवास, रापतपुर, बेलघाट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश – 273404 ।
1694	नेशनलिस्ट जस्टिस पार्टी	नं. 1525/1, गली नं. 33, प्रीत नगर, न्यू शिमला पुरी, लुधियाना, पंजाब-141003
1695	नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रन्ट	एस-8, दिव्या मॉल, टोंक राड, लाल कोठी, जयपुर (राजस्थान) ।
1696	नेशनलिस्ट पावर पार्टी	एल. -1 1100/2, गली नं० 25, संगम विहार, नई दिल्ली- 110062.
1697	नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस पार्टी	ए9/124, कल्याणी थाना तथा पोस्ट ऑफिस-कल्याणी, जिला-नाडिया, पश्चिम बंगाल-741235.
1698	नेचर मेनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी	वार्ड नं. 1, कथुआ (जम्मू और कश्मीर) ।
1699	नव भारत डेमोक्रेटिक पार्टी	चिरावाल एवं एसोसिएट, एफ 6/35, यूनाईटेड अपार्टमेन्ट्स, ईस्ट स्ट्रीट, पुणे-411001 महाराष्ट्र ।
1700	नव भारत जागरण पार्टी	गोलेच्छा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन के सामने, फलौदी, जिला- जोधपुर, राजस्थान-342301
1701	नव भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	बी- 100, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली- 110096
1702	नव चेतना पार्टी	मोहल्ला – जगतनगर, कस्बा व पोस्ट – भोगाँव, जिला – मेनपुरी, उत्तर प्रदेश – 205262 ।
1703	नव हिन्द पार्टी	130, गाँव-दरबारपुर, पोस्ट-अजरका, तहसील-मुंडावर, अलवर, राजस्थान-301401
1704	नव जनक्रान्ति पार्टी	बी – 11/42, अहाता रोहिला, गौरीगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश – 221001
1705	नव भारत नेशनल पार्टी	सर्वे सं०-627, भैरव गुट्टा, ग्राम-रवाल्कोले, मंडल-मेदचल, जिला-रंगा रेड्डी. आन्ध्र प्रदेश ।

1706	नव प्रजा राज्यम पार्टी	पुराना म0 नं0 10-30 नया म0 नं0 11-54, हरिजन-वाडा (पी व एम) यूतूनूर, जिला - आदिलाबाद, आन्ध्र प्रदेश - 504311
1707	नवा समाज पार्टी	मकान नं. 5-7, बुद्धाराम ग्राम, गोपालपेटा मण्डल, वनापथी जिला, तेलंगाना स्टेट।
1708	नवा सोशलज्म पार्टी	डोर नं0 18-6-35बी, फ़ैस्ट फ़लोर, सुन्दरैय नगर, तिरुपति आंध्र प्रदेश-517501
1709	नवभारत सेना	नंबर 14/15, चामुंडेश्वरी बिल्डिंग, तीसरा क्रॉस, चौथा मेन रोड, चमराजपेट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560018
1710	नवम दिशा दल	4/684, विभव खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010
1711	नवरंग कांग्रेस पार्टी	डी.सं. 866/1, पेडवड्लापुडी गाँव, मंगलगिरी मंडल, गुंटूर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 522302
1712	नवतारम पार्टी	डोर नं0 26-37, सुब्बैयाथोटा, चिलकलुरीपेट, जिला – गुंटूर, आंध्र प्रदेश – 522616
1713	नवबहुजन समाजपरिवर्तन पार्टी	185, सह्याद्रीनगर, जी - वार्ड, लोनावला, तहसील - मावल, जिला - पुणे, महाराष्ट्र – 410401
1714	नवभारत एकता दल	धीमान भवन, नगरोटा सूरियां, तहसील- ज्वाली, जिला- कांगडा, हिमाचल प्रदेश- 176027
1715	नवभारत पार्टी	538क/409आदर्शपुरम, त्रिवेनीनगर-3, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226020
1716	नवभारत समाज पार्टी	ग्राम-परसपुर, पो.-बुढनपुर, थाना-भुदकुड्डा, तहसील-जखनिया, जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड-275203
1717	नवीन समाजवादी दल	133/4सी/1सी, तेलियरगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1718	नवीन भारत निर्माण मंच	पीपलवाडी खाड़की, गाँव व डाकघर—कसोर जिला—आनंद, गुजरात ।
1719	नवजवान संघर्ष मोर्चा	डी/711, टाउनशिप, भवनाथपुर, गढ़वा, झारखण्ड—822112
1720	नवलोक समाज पार्टी	24बी, रेणुका बाग, नयी अवधेशपुरी कर्मयोगी, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282010.
1721	नवनिर्माण पार्टी	प्लॉट नं. 1588-पी, सेक्टर- 5, अर्बन एस्टेट, तहसील- थानेसर, केडीबी रोड, जिला- कुरुक्षेत्र, हरियाणा- 136118
1722	नवोदय जनतांत्रिक पार्टी	खसरा नंबर 31/23 और 49/3/81, गुप्ता निवास, गली नंबर-45, बी-ब्लॉक, कौशिक एन्क्लेव, पुरारिक, दिल्ली-110084
1723	नवोदयम पार्टी	डी० नं० 4-96/2, राम मन्दिर के पास, नल्लाकावरी स्ट्रीट, इटुकरु गाँव, गुन्दुर रुरल मण्डल, जिला—गुन्दुर आन्ध्र प्रदेश ।
1724	नवसर्जन भारत पार्टी	मकान सं.- 492, फलफलिया, कृष्णा पेट्रोल पंप के सामने, वाघधरा रोड, दादरा, दादरा एवं नागर हवेली- 396193
1725	नवयुग निर्माण पार्टी	सी - 2, रुम नं० 401, शगुन रेसिडेंसी, माह्यावंशी फलिया, दादरा, दादरा नगर हवेली- 396193
1726	नवयुग पार्टी	1-ग्राउंड फ़्लोर, बेगमपुर, मालवीय नगर नई दिल्ली-110017
1727	नवयुग प्रगतिशील मोर्चा	आदर्श नगर, पोस्ट-पाकुड, जिला-पाकुड, झारखण्ड-816107
1728	नवयुवक आत्मनिर्भर पार्टी	एट-सी/ओ बबीता कंवर, 213 रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी, विपरीत कनकपुरा, जयपुर, राजस्थान- 302012
1729	नवा पंजाब पार्टी	52-ई, हीरा नगर, पटियाला, पंजाब- 147001
1730	नया भारत पार्टी	8- बापु सब्जी मण्डी, नगर पालिका रोड, सुमेरपुर, राजस्थान – 306902
1731	नया दौर पार्टी	ए-406 डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024

1732	नया सवेरा पार्टी	प्लॉच नं.0 जे-2-530/8, जे-2 ब्लॉक, गुप्ता कॉलोनी, संगम विहार, नई दिल्ली-110062.
1733	नीथी निजयाथी पार्टी	डोर नं0 36-178ए, पदमावति नगर, कल्याणापूरम, नारायणावनम मंडल, जिला-चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश- 517581
1734	नेहरू जनहित काँग्रेस	सैनीपुरा मोहल्ला, बाद शाहपुर, तहसील व जिला-गुडगाँव, हरियाणा ।
1735	नेताजी आदर्श पार्टी	298, कुट्टीयानी, 28- थोडुपुझा, इडुकी जिला, केरल- 685584
1736	नेताजी काँग्रेस सेना	रंगा प्लेस, ग्राउंड फ्लोर, एस० नं० 48/2/10, वाघजल नगर, अम्बेगाँव खुर्द, कटराज-पो० ओ०, पुणे-411046, महाराष्ट्र
1737	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राष्ट्रीय आजाद पार्टी	मो० गायत्री नगर, कस्बा व पोस्ट-बांदा, जिला-शाहजंहापुर, पिन कोड-242402, उत्तर प्रदेश ।
1738	नेताजी मक्कल कटिच	नंबर 6/33, रामकृष्ण गली, गांधी नगर, सलिग्रामम्, चेन्नई, तमिलनाडु-600093
1739	न्यू भारतीय क्रान्ति पार्टी	ग्राम- सुंगुलपुर, पोस्ट व थाना- खेतासराय, तहसील-शाहगंज, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222139.
1740	न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी	नं. 30-सी1, अंबु नगर, ईडरपलायम, पोस्ट, कोयम्बटूर, तमिलनाडु- 641025
1741	न्यू इण्डिया पार्टी	म० नं० 20-3-314, विधानगर गोदावरीखानी-505209, जिला-करीमनगर, (आन्ध्र प्रदेश) ।
1742	न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी	दुकान नंबर बी/6, उर्वी कॉम्प्लेक्स, नरोदा बेथक, नरोदा अहमदाबाद-382350, गुजरात
1743	न्यू लेबर पार्टी	रूम न०. 8/249, पेरुम्बिल्लिशशेरी, पी.ओ - चेर्पु, जिला - तृस्सूर, केरल- 680561.
1744	न्यू लाइफ पीपुल्स पार्टी	नं० 15 /16, जूडी फ्लैट्स, नं० 13 रोसरी चर्च रोड, संथोम, चेन्नई-600004 तमिलनाडु ।
1745	न्यू मदर लैंड पार्टी	एफ-111, साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226025
1746	न्यू राष्ट्रीय समाज पार्टी	मकान नं. 167/2/5/एफ/4, पहली मंजिल, ब्रम्हानन्द नगर, ताडाली रोड, कामतघर, भिवंडी, जिला- ठाणे, महाराष्ट्र - 421305
1747	न्यु सोशलिस्ट मूवमेंट	104, महाराणा प्रताप कॉम्प्लैक्स, अपोजिट एल्लीसब्रिज पो० ओ०-एल्लीसब्रिज, अहमदाबाद-380 006, गुजरात ।
1748	निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल	मकान नं. 105टी, मोहल्ला- जंगल सालिकराम, बाइपास रोड, संग्राम चौक, पादरी बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273014
1749	निर्भय भारतीय पार्टी	27, सहजानन्द बंगलो, मोटेरा, अहमदाबाद, गुजरात- 380058
1750	निर्धन समाज पार्टी आफ इण्डिया	11 ए राजीव विहार (बन्दीबाबा मन्दिर के पास), मछरिया, नौबस्ता, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश - 208011 ।
1751	निर्जातिता समाज बिप्लबी पार्टी	गाँव-दुर्गापुर पो०-हरीताला (बगुला), पी०एस०-हंसखली जिला-नदिया-741502 पश्चिम बंगाल ।
1752	निर्मल इण्डिया पार्टी	सा० 6 /8 एच -15, सत्संग नगर, बेनीपुर, पहाडिया, वाराणसी - 221007 उत्तर प्रदेश
1753	निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी	मकान नं. 56, इन्दलपुर, नैनी, पोस्ट- डन्डी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211008
1754	निज गोयन्कर रिवुलेशन फ्रंट	मकान नं. 9/222, पेट्रोंग, बायना वास्को-डा-गामा, गोवा ।
1755	नूरी पार्टी	102, कदोदरा-बरदोली रोड, सूरत, गुजरात ।
1756	नार्थ बंगाल पीपल्स पार्टी	ग्राम-रबिन्दापल्ली, पोस्ट-मोहनबत्ती, थाना-रायगंज, जिला-उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल- 733134

1757	नार्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी	सागोलबंड टेरालाउक्राकपाम लेइकाई, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर- 795001
1758	नार्थ ईस्ट सोशियल डेमोक्रेटिक पार्टी	मावली मावदतबाकी, डांग नाँगपाथा, शिलाँग- 793008 जिला ईस्ट खासी हिल्स मेघालय ।
1759	न्याय पार्टी	नं.319,स्वामीपाडा,बुढाना गेट,मेरठ सिटी,उत्तर प्रदेश-250002
1760	न्याय सत्ता पार्टी	ग्राउंड फ्लोर,मकान नंबर 303,गली नंबर 12,चंदन बिहार,वेस्ट संत नगर,बुराडी रोड,दिल्ली-110084
1761	न्यायधर्मसभा	प्रगति बिहार,जगजीतपुर,कनखल,हरिद्वार,उत्तराखण्ड- 249408
1762	न्यायवादी जनता पार्टी	कंचनपुर चौराहा (बागी रोड), ग्राम सकरामउ, पोस्ट-मऊ आइमा,जिला- प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-212507
1763	ओडिशा जन मोर्चा	प्लॉट सं0 -17, ग्राम नखोर, डाकघर गोपीनाथपुर, जिला-खुर्द, भुवनेश्वर- 751002, ओडिशा
1764	ओडिशा जनता पार्टी	एटी-छधरिया,पीओ-बगडा,पीस/जिला-केंद्रपाडा,भुवनेश्वर,ओडिशा-754212
1765	ओडिशा कल्याण पार्टी	प्लॉट नं.44 (प्रथम मंजिल),सत्यनगर,पो.ऑ.-सत्यनगर,थाना-खारवेल नगर,नगर-भुवनेश्वर,जिला-खुर्दा,ओडिशा-7510007
1766	ओडिशा प्रगति दल	खतियान नं.- 99/180, प्लॉट नं.- 420/1360, ब्रुनदामल, पोस्ट ऑफिस- बढमाल, थाना- कटरबाग तहसील- झारसूगुडा, जिला- झारसूगुडा, ओडिशा- 768202.
1767	ओडिशा प्रजा दल	नवीन भवन छडासिंह,पोस्ट-बडानागाना, वाया-महिमागडी,जिला- देनकानल,ओडिशा-759014
1768	ओजस्वी पार्टी	फ्लैट संख्या-38, प्लॉट संख्या-36, अंजता अपार्टमेंट, पटपड़गंज, दिल्ली- 110092 ।
1769	वन इंडिया वन पीपल पार्टी	14/916,वडक्कनचेरी अंगडी,सीटि लाईट शोपिंग कोम्पलेक्स,सेकन्ड फ्लोर,वडक्कनचेरी, केरल-678683
1770	वन इंडिया वन पॉलिसी पार्टी	अरक्कल टॉवर,क्रिस्टोफर नगर,ओल्लुर गांव,त्रिशूर तालुक,त्रिशूर जिला,केरल - 680306
1771	वन इंडिया पार्टी	डी-46 ए, कृष्ण बिहार, दिल्ली- 110086
1772	ऑपेन पीपल्स पार्टी	पवार हाउस, साईबाबा मंदिर के पास,मंगल रघो नगर, टिसगाँव रोड,कल्याण (ई),जिला-ठाणे,महाराष्ट्र-421306
1773	उड़ीसा कम्युनिस्ट पार्टी	एम. एल. ए. कॉलोनी, यूनिट-4 भुवनेश्वर, (उड़ीसा) ।
1774	उड़ीसा सोशलिस्ट पार्टी	म्यूनिसिपल कम्पाउण्ड, चौधरी बाजार, कटक-753009 (उड़ीसा) ।
1775	आवर महात्मा नेशनल पार्टी	नं. 62(द्वितीय तल),पिलैईयर कोईल स्ट्रीट,कामराज स्ट्रीट,गांधीनगर,के.के. नगर पोस्ट,तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु - 620021
1776	पचाई तमिझागम काँची	12/143, इदिंथाकरई, हरिजन कॉलोनी, विजयापति, राधापुरम(तालुक), तिरुनेलवेली (जिला), तमिलनाडु- 627104
1777	पञ्चासी परिवर्तन समाज पार्टी	गाँव एवं पोस्ट-मोहारी खुर्द,मोहनलालगंज,लखनऊ,उत्तर प्रदेश-226305
1778	पहाड़ी पार्टी	ग्राम-तल्ली बागी,पट्टी-सारज्यूला,पोस्ट-भागीरथपुरम,विकास खण्ड-चम्बा,जिला- टिहरी गढ़वाल,उत्तराखण्ड-249145
1779	पंच पार्टी	कैलाश चन्द्र मीना खोदकी धानी गांव, ग्राम व पोस्ट- रैसना, तहसील- नदोती, जिला- करूली, राजस्थान- 322215
1780	पंचपौनिया समाज पार्टी	गांव और पोस्ट -आँटामुजीब नगर,वाई नंबर 8,पी0एस0 - हाथीदा,जिला-

		पटना,बिहार-803303
1781	पंथर्स रिपब्लिकन पार्टी	'आनंदवन', महात्मा फुले नगर, पीर बाज़ार, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431005
1782	पारडाइज पार्टी	कबिता अपार्टमेंट,श्रीनिकेतन रोड,पोस्ट-बोलपुर,जिला-बीरभूम,पश्चिम बंगाल-731204
1783	परम दिग्विजय दल	मकान न० – 7/297/7, विकास नगर, सेक्टर-7, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
1784	पर्वतीय प्रजातांत्रिक पार्टी	39/ए, लेबौंग कार्ट रोड, नियर माहेश्वरी पेट्रोल पम्प, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल-734301.
1785	परचम पार्टी ऑफ इण्डिया	1-रहमत बानो मार्केट, मेडिकल कॉलेज रोड, सिविल लाइन्स, अलीगढ़ - 202002, उत्तर प्रदेश ।
1786	परिसरा बंधु पार्टी	नम्बर 281,जनानी,बी.सी.सी.लेआऊट दुसरा स्टेज बस स्टेड के सामने,विजयनगर,बेंगलूरु,कर्नाटक-560040
1787	परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया	मोनु रावत, पोहरी बाईपास, इंटरसिटी बस वालों के पीछे वाली गली, राजपुरा, सर्कुलर रोड सर्किट हाउसिंग तिराहा, तहसील व जिला- शिवपुरी, मध्य प्रदेश-473551
1788	परिवर्तन राजनीति पार्टी	डी-41/28/जी. एफ.गली नम्बर-2,डी-ब्लाक, ईस्ट विनोद नगर वार्ड मयूर बिहार फेज-2,दिल्ली-110091
1789	परिवर्तन समाज पार्टी	गंडे वाली सड़क, लश्कर, ग्वालियर-474001, (मध्य प्रदेश) ।
1790	पार्टी फार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म	183, जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068, (पश्चिम बंगाल)।
1791	पश्चिम बंगा राज्य मुस्लिम लीग	129, कोल्लिन स्ट्रीट कोलकाता-700016, (पश्चिम बंगाल)
1792	पश्चिमांचल विकास पार्टी	क्वार्टर नं० 10 ई, सेंट जोसफ स्कूल के सामने, साखीपारा, जिला-सम्बलपुर, उड़ीसा-768001
1793	पश्चिमांचल निर्माण पार्टी	श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर,द्वारकाधाम शहर के पीछे,ग्राम - शिवया जनपद मेरठ,जिला - मेरठ,यू.पी.-250110
1794	पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास पार्टी	म० सं० – 1, कसाना निवास, ग्राम - मोरना, सेक्टर – 35, नोएडा, जिला - गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश - 201308
1795	पाशुमपोन मक्कल कडगम	नं० – 102, एल. बी. रोड, अडयार, चेन्नई, तमिलनाडु- 600020.
1796	पथिक जनशक्ति पार्टी	सी/ओ राजकुमार,पी.ओ.-सिधानी,तहसील-टोहाना,जिला-फतेहाबाद,हरियाणा-125133
1797	पथिक स्वराज पार्टी	सी/ओ रविन्दर सिंह देवधर, पुत्र श. बलबीर सिंह देवधर, गांव और पोस्ट-बिहटा, सील-अंबाला कैंट. जिला-अंबाला, हरियाणा-133101
1798	पटरी व्यापारी पार्टी	गीडा-गोरखपुर, सेक्टर-22, भूखंड संख्या सी-5/23, गीडा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273209.
1799	पैट्रियाटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	4/28 विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश।
1800	पट्टालि मक्कल कौंची	नंबर 10, तिलक स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई-17
1801	पीस अण्ड फ्रिडम पार्टी	सीटीएस नंबर 5214,फ्लॉट नंबर 180,नगर परिषद कॉलोनी,कोथलज रोड,परिवल मॉलजवळ,महाराष्ट्र- 431124
1802	पीस पार्टी	जोहरा काम्पलैक्स, बड़हलगंज, पो०- बड़हलगंज, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
1803	पीजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी ऑफ इण्डिया	हरि खारुडे निवास, महात्मा फुले रोड, नयगांव दादर, मुम्बई (महाराष्ट्र)।
1804	पैदल पार्टी	डी नं० 18-131 (ए), ग्राम - काटुरि वारी पालेम, पोदिलि मंडल, जिला -

		प्रकाशम, आन्ध्र प्रदेश - 523240
1805	पेडारीकम निरुमुलना पार्टी	डी. नं० 66-1-3/ए. एस. अचूथापुरम, काकीनाडा-533004, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
1806	पहचान पीपलस पार्टी	हनीफ मंजिल, चंदन चौक, रानी खेड़ा दरवाजा, निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ राजस्थान- 312601
1807	पीपुल लिबरेशन पार्टी	4/611, पुधजेंधी रोड, चौथा ब्लॉक, मोगप्पैर ईस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600037
1808	पीपल प्रोटेक्शन पार्टी	डी.न. 7-97/2, श्रीनगर कॉलोनी, सन रेज़ स्कूल, पसुममुला रोड, कुंतलूर, हयातनगर, रंगारेड्डी जिला तेलंगाना - 501505
1809	पीपुल्स एक्शन पार्टी	363, नैनागढ़, प्रेम नगर, झांसी, उत्तर प्रदेश-284003।
1810	पीपल्स जस्टिस पार्टी	मकान संख्या 120/209, (120/096बी), वार्ड - हजरतगंज, रामतीर्थ, बेलदारिलेन, लोकभवन के पीछे, लालबाग, लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226001.
1811	पीपल्स लिबरल पार्टी	104/01, ग्राम गंगाणा, ग्राम पंचायत बोरानाडा, तहसील - लूणी, जिला - जोधपुर, राजस्थान - 342012
1812	पीपुल्स पार्टी	ए-23, सुभाष नगर, रूड़की, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड
1813	पीपल्स पार्टी ऑफ लिबर्टी	ए.पी 12/129, एम.एम.भवन, मदाधिलचीरा, अनद -पी.ऑ. नेदुमंगाडु, तिरुवनंतपुरम, केरल- 690521
1814	पीपल्स पार्टी ऑफ इण्डिया (सेक्यूलर)	डुप्लेक्स-38, सलेश्री विहार, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751021, उड़ीसा ।
1815	पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब	7112, वार्ड नं० 2, मलोट रोड, गीदरबाहा (मुक्तसर), पंजाब-152101.
1816	पीपल्स युनियन पार्टी	धर्मावत हाउस, हाउस नं० 1015, शुक्रावर पेठ, तिलक रोड, सवरगेट, पुणे- 411002, महाराष्ट्र
1817	पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलाइन्स	रागैलांग, इम्फाल-795001, मणिपुर
1818	पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	मास बिलिंग, अरनाकुलम उत्तर, पो०-कोचीन-18, (केरल) ।
1819	पीपुल्स ग्रीन पार्टी	19सी/1, जीवन ज्योति अपार्टमेंट्स, वार्ड नं० 1, महरौली, नई दिल्ली-110030 ।
1820	पीपुल्स गार्जियन	डी-302, ब्लू हिल्स, नगर रोड, पुणे (महाराष्ट्र) - 411006
1821	पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	111, आस्था कॉम्प्लेक्स, दहेज बाईपास रोड, नंदेवाल, तालुका एवं जिला- भरूच, गुजरात- 392001
1822	पीपल्स रिप्रेजेंटेशन फॉर आईडेंटिटी एंड स्टेटस ऑफ मिजोरम (प्रिज्म) पार्टी	16- अपर रिपब्लिक, आइजोल, मिजोरम- 796001
1823	पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी	साप्ताहिक जयभीम, आनंद टाकिज के सामने, सीताबादी, नागपुर-440012 (महाराष्ट्र) ।
1824	पीपुल्स रिसर्जेंन्स एन्ड जस्टिस अलायन्स	मकान नं. 156, खोम्रम सेलुंगबम लेयकई, थांगमेईबंद, पी.ऑ/पी.एस-लांफेल, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर- 795004
1825	पीपुल्स रूलिंग पार्टी	फ्लैट नं०-74, गांधी नगर, चकाली गुन्टा, एटुकुरु रोड, कम्मा सैशशाह ग्राउण्ड, रेवेन्यु वार्ड-32, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश-522003
1826	पेरियार अम्बेडकर मुनेत्र कडगम (पी.ए.एम्.के.)	एमआईजी नंबर-8, डॉ.बी.आर.अम्बेडकर हाउस, टीएनएचबी, बरगुर, पी.आर और तालुक, कृष्णागिरी जिला, तमिल नाडु-635104
1827	पेरुन्थालाईवर मक्कल कॉची	एन आर डी टॉवरस, प्रथम एवेन्यू, अशोक नगर, चेन्नई-600083 तमिलनाडु ।
1828	फूलन जनता पार्टी	ग्राम- मोहम्मदपुर कंध, पोस्ट - इमलो, विकास खण्ड धर्मापुर, तहसील - सदर, जिला - जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222180

1829	फूले भारती लोक पार्टी	मेन गुरुद्वारा रोड, बाबा बकाला, जिला-अमृतसर, पंजाब-143201.
1830	पिछड़ा सामान्य अल्पसंख्यक व्यापारी किसान पार्टी	मकान नं. 402 ख, नगला खंदारी, अलीपुर पट्टी, थाना व तहसील- भोगाँव, जिला- मैनपुरी, उत्तर प्रदेश ।
1831	पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड	महूरिया काम्पलेक्स, मुक्त नगर, पुलगाँव रोड, पद्मनाभपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 491001
1832	पिछड़ा समाज पार्टी	मोहल्ला जती, नगीना, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।
1833	पिछड़ावर्ग महापंचायत पार्टी	मो. जामालपुर, (करहाँ रोड), पोस्ट- मोहम्मदाबाद गोहना, जिला- मऊ, उत्तर प्रदेश- 276403
1834	पॉलिटिकल ऐसंशियल और ऐक्यूरेट कौंसिल ऑफ़ ऐक्सपर्ट्स पार्टी	डोर नं0 24-21, वैस्या स्ट्रीट, पॉच रोड जंक्शन, अमेरिकन हॉस्पिटल रोड, नरसीपट्टणम, जिला – विज़ाग, आन्ध्र प्रदेश – 531116
1835	पोलिटिकल जस्टिस पार्टी	म. न.796,जी-3,शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1,साहिबाबाद,थाना साहिबाबाद,गाजियाबाद उत्तर प्रदेश- 201005
1836	पोलिटिकल शोषित मानवतावादी नेशनल दल	4-सी, ए.आई. आपर्टमेन्ट, वजीरहसन रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
1837	पॉलिटिकल टीम इंडिया	मकान नं.182,असल कोर्टयार्ड,दहतोरा शास्त्रीपुरम,आगरा,उत्तर प्रदेश- 282007
1838	पॉन्डिचेरी पीपुल्स राइट्स पार्टी	#1,सुब्रमनियर कोइल स्ट्रीट,कुवायारपालयम,पंडीचेरी-605013
1839	पूरबिहा लोग पार्टी	ग्राम-पिपरा तिवारी,पोस्ट-सखवनिया,जिला-खुशीनगर,उत्तर प्रदेश-274402
1840	पूर्ण स्वराज मंच	मकान नं. 1/328, ग्वाल टोली, फतेहगढ़, जिला- फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश- 209601
1841	पूर्व सैनिक आल इंडिया दलित एवं निर्बल वर्ग विकास पार्टी	प्लॉट संख्या-96,ग्राम हांसा पुर निकट झुनझुनवाला डिग्री कॉलेज,द्वारिकापुरी,डाभासेमर,जनपद अयोध्या,उत्तर प्रदेश-224001
1842	पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी	12/391, गली नं0 – 12, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
1843	पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस	प्लॉट नं0 157-158, पॉकेट ई-20, सैक्टर-3, प्रथम तल, रोहणी, दिल्ली- 110085.
1844	पूर्वांचल शोषित समाज अपना दल पार्टी	मकान न:739,देवरिया ख़ास,ओल्ड वार्ड न:6,न्यू वार्ड न:11/749,सी.सी.रोड,हनुमान मंदिर की पश्चिमी और,भगवान चौराहा की पश्चिमी और,पोस्ट & तहसील-देवरिया,जिला-देवरिया,उत्तर प्रदेश-274001
1845	पोदुवुडमै कटचि	नंबर 1259, पेरुमाल कोविल स्ट्रीट, कृष्णापुरम, कांडिगै, कन्निरैपेर पोस्ट, उथुकोट्टई तालुका, तिरुवल्लुर जिला, तमिलनाडु - 601102
1846	प्रबल भारत पार्टी	ग्राम- अण्डहरा,पोस्ट+थाना- परसौनी,जिला-सीतामढ़ी,बिहार- 843325
1847	प्रबुद्ध भारत प्रजासत्तक पार्टी	ए/101, पंचशील नगर, सेवा संघ नं0 – 3, नियर अनिक डिपोट, सायन(पूर्व), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400022 ।
1848	प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी	एम0डी0-26-17/6, एस0आर0टी0आर0एम0सी0एच0 चेन्नई रोड, अम्बाजोगई, जिला-बीड-431517, महाराष्ट्र ।
1849	प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा	मकान नं. - 130ए/3ए, तेलियरगंज, भूसावाली गली, पोस्ट - तेलियरगंज, जिला - प्रयागराज, यू.पी. - 211004
1850	प्रगतिशील जनता अधिकार पार्टी	4 - का,गांव और पोस्ट - भुवल चक, पी.एस. - जमानिया, जिला - गाजीपुर,उत्तर प्रदेश - 232336.
1851	प्रगतिशील जनता पार्टी	बजरंग विहार कॉलोनी, दीघा आशियाना रोड,थाना-राजीव नगर,पोस्ट- आशियाना नगर,पटना-800025,बिहार
1852	प्रगतिशील लेबर पार्टी	एस. 21/127-के, सुभाषनगर कॉलोनी, मलदहिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-

		221002
1853	प्रगतिशील लोक मंच	ईश्वर सदन, सोनकर फार्म, धौलाखेड़ा, पो0 ओ0 - अर्जुनपुर (हल्द्वानी), जिला - नैनीताल, उत्तराखण्ड।
1854	प्रगतिशील मगही समाज	मकान नं०-605/334, वार्ड नं०-44, मोहल्ला-माइनपुर (अक्षयवट), थाना - सिविल लाईन्स, जिला -गया, बिहार।
1855	प्रगतिशील मानव समाज पार्टी	गांव-वारी (नईपुरवा) पो० दशरथपुर-221304. जिला-भदोही, (उत्तर प्रदेश)।
1856	प्रगतिशील समाज पार्टी	58/12/1 डी, नवादा, सरकुलर रोड, राजापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
1857	प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया)	सीपी.- 1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010.
1858	प्रहर जनशक्ती पक्ष	मकान सं.- 1634, ग्रामपंचायत- बेलोरा, तहसील- चांदुरबाजार, जिला- अमरावती, महाराष्ट्र- 444704
1859	प्रजा अधिकार पार्टी	डोर नं.4-107-1, एस.सी.कॉलोनी, पंचलिंगाला ग्राम, कर्नूल मण्डल, कर्नूल जिला, आन्ध्र प्रदेश-518004
1860	प्रजा कांग्रेस पार्टी	डी-6/6154/6, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070
1861	प्रजा एकता पार्टी	मकान नं. 15-9-86 से 88, श्रीनिवासा निलयम, महाराजगंज, लोकालिटी- गौलीगुडा चमन, जिला-हैदराबाद, तेलंगाना - 500012
1862	प्रजा क्रिपा पार्टी	शॉप नम्बर -2, हरी ओम अपार्टमेंट, ब्लॉक सी-33/124-125, ओपीपी चोपडा कोर्ट, उल्हासमगर महाराष्ट्र-21003
1863	प्रजा पालना पार्टी	मकान सं. 64-1डी-8ए/1, ट्रेजरी कॉलोनी, काकीनाडा, ईस्ट गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश- 533004
1864	प्रजा परिवर्तन पार्टी	नं. 9/228, पहला मेन, तीसरा क्रॉस, (जयभीम पेट्रोल बंक के पीछे) ननजप्पा लेआउट, अनेकल टाऊन, बैंगलोर शहरी जिला, कर्नाटक- 562106
1865	प्रजा प्रस्थानम पार्टी	श्री बालाजी रेजीडेंसी, डोर नं० 1-116-3, प्लॉट नं. एमआईजी-48/12, जीएफ-1, एमवीपी कॉलोनी, विशाखापट्टणम-530017.
1866	प्रजा राज पार्टी	287/264/1, मेरठ बुलन्दशहर रोड, हापुड - 245101 उत्तर प्रदेश।
1867	प्रजा सत्ता पार्टी	1-91/24, राघवेन्द्रा नगर, पार्वतापुर (ग्राम), ग्रा.पं. - घटकेसर मण्डल, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500098
1868	प्रजा सेना पार्टी	एच. नंबर 4-3-167 गजुलपेट, मंटपल्ली टाउन और मंडल, जिला- जगितल, तेलंगाना- 505325
1869	प्रजा सेवा अंकित पार्टी	2-2-16ए/1, आरटीसी कॉम्प्लेक्स के बगल में, पीठापुरम, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश-533450
1870	प्रजा सेवा पार्टी	डी.नं. 3 -1सी, रामचन्द्रापुरम ग्राम, ताडा (पी), साथयावेदु (एम), चित्तूर-जिला, आन्ध्र प्रदेश- 524401
1871	प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी	सर्वे नं.-1073, वसंत वाडगो, निकट के-7 सर्किल, गाँधीनगर, रंधेजा रोड, गाँधीनगर, गुजरात- 382026
1872	प्रजा शान्ति पार्टी	382, अपराजिता कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद, आन्ध्रा प्रदेश।
1873	प्रजा वेलुगु पार्टी	म.नंबर 5-21, पुल्लामिदी (विलेज), नवाबपेट, विकाराबाद जिला, तेलंगाना- 501111
1874	प्रजा विजय पक्ष	प्रथम माला, एच एच आई-08, अभीनव ऐवेन्यु, झाडेश्वर चौकड़ी, झाडेश्वर, तहसील भरूच, जिला-भरूच, गुजरात-392011

1875	प्रजा रैयता राज्य पक्ष	मकान सं० - 937, मंजूनाथा नगर, केन्गेरी रोड, तवाराकेरे, बेंगलुरु साउथ, कर्नाटक - 562130
1876	प्रजा स्वराज पार्टी	मकान नं. 7-2-104/11, प्लॉट नं.11, श्रीकृष्ण नगर, चिंतलकुंटा चेक पोस्ट, एल.बी.नगर, हैदराबाद, तेलंगाना राज्य - 500003
1877	प्रजामहाराष्ट्र पक्ष	निकट परीजात भवन, तीसरी मंजिल, माथुर नगर, तुलिंग रोड नालासोपारा (पूर्व), ता० - वसई, जिला - पालघर, महाराष्ट्र- 401209
1878	प्रजामंडल पार्टी	बर्थवाल निवास, शीतला माता मंदिर मार्ग, लोअर भक्तियाना, श्रीनगर, गढवाल, उत्तराखण्ड - 246174
1879	प्रजाराज्या समिथी	6-3-143, दुर्गाभागडडा, करीमनगर, तेलंगाना-505001
1880	प्रजासत्तक भारत पक्ष	मु०-शिलेश्वर, पो०-भादस, ता०-मुलशी, जिला - पूणे - 412108, महाराष्ट्र
1881	प्रजासत्तक लोकराज्य पार्टी	ग्राम व पोस्ट - परासी, तहसील - मनगवा, जिला - रीवा मध्य प्रदेश - 486111
1882	प्रजासत्ताक समाजवादी भारत पार्टी	मकान नं० - 1-7-281, यादव निवास, राजनगर, पोस्ट - यशवंत नगर, पावडेवाडी नाका, जिला - नांदेड, महाराष्ट्र - 431602
1883	प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी	श्री राम सदन - 40, सरॉयपित्थू ऑशिक, नयागाँव (केशरुआ), सीतापुर रोड, हरगाँव, जनपद - सीतापुर, उत्तर प्रदेश।
1884	प्रजातन्त्र आधार पार्टी	46, पुरानी फौजदार की चाली, मेम्को चार रास्ते के पास, नरोडा रोड, अहमदाबाद-382345 गुजरात।
1885	प्रजातंत्र कांग्रेस पार्टी	स्टेशन चौक, मुख्य डाकघर के सामने, रायगढ, छत्तीसगढ
1886	प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 33, मोहल्ला- बम्बाघेरा, टाउन व थाना- रामनगर, जिला- नैनीताल, उत्तराखण्ड
1887	प्रजातांत्रिक जनसेवक दल	मुजफ्फरा बागडपुर, तहसील एंव जिला - हापुड, उत्तर प्रदेश- 245101.
1888	प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी	मकान सं.- 88, निवहारा-इकहारा, तहसील- करहल, पोस्ट- वरनाहल, जिला-मैनपुरी, उत्तर प्रदेश- 205264
1889	प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी	गाँव- हकीमाबाद, तहसील - आस्टा, जिला - सिहोर, मध्य प्रदेश।
1890	प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी	सी-17, यादव नगर, ग्राम - समयपुर, दिल्ली - 110042।
1891	प्रजावाणी पार्टी	मकान नं.11-83-लिंगडीवरी भावनाअमु, विनायक नगर, कुजाकुजा रोड, सूर्यपेट, तेलंगाना - 508214
1892	प्रपंच तेलुगु भाषा परिरक्षण पार्टी	मं० सं० 5-19, चिमनगुटपल्ली गाँव, वनपर्थी मंडल, वनपर्थी जिला, तेलंगाना- 500089
1893	प्रवासी निवासी पार्टी	महा महल बिल्डींग, टी.सी-1/1502/7, पजहाया रोड, मेडिकल कालेज पी.ओ. जिला- तिरुवनंतपुरम, केरला-695011
1894	प्रवृत्ति पार्टी	980, प्रकाश पब्लिक स्कूल के पास, पालम गांव, नई दिल्ली-110045
1895	प्रेम जनता दल	म. नं० - 1-4-524/ए/7/1, भोलकपुर, बादी मस्जिद के पास, मुशीराबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
1896	प्रेम वाहिनी दल	ग्राम व पोस्ट- अंतरपाड़ा, वाया- बालीपदर, जिला- गंजाम, ओडिशा।
1897	प्रिज्म	टॉप फ्लोर, 4-सी.एच.एच.ए.-30, विज्ञान नगर, कोटा- 324005 (राजस्थान)।
1898	पृथक बस्तर राज्य पार्टी	8, सीनियर एच० आई० जी०, सेक्टर-3, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
1899	पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी	मकान नं. 45-ए, ग्राम- किरतपुर, पोस्ट- पिंडरा, तहसील- पिंडरा, थाना- फुलपुर, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
1900	प्रोफेशनल पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 91, ब्लॉक- डी-1, श्याम विहार, नज़फगढ़, नई दिल्ली- 110043

1901	प्राउटिस्ट ब्लॉक, इंडिया	द्वारा श्री रमेश कुमार, एच.एन.ए-37 (खसरा न.2167/845), हर्षरूप कॉलोनी, फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली- 110074
1902	प्राउटिस्ट सर्व समाज	सेवा निकेतन कम्पाउण्ड, आगरा रोड, एटा, उत्तर प्रदेश
1903	पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी	5/200, सेक्टर-एच, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226021
1904	पब्लिक मिशन पार्टी	सीता कुंज, गोदावरी अपार्टमेंट के सामने, आशियाना दीघा रोड, पटना, बिहार- 800014
1905	पब्लिक पार्टी	“इकबाल महल”, 234ए, अटाला, इलाहाबाद – 211003 उत्तर प्रदेश।
1906	पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी	14ए/57, पहला तल, डब्ल्यू.ई.ए., करोलबाग, नई दिल्ली- 110005
1907	पब्लिक उत्थान पार्टी	म.स. 236, फतेहगढ़, फतेहगढ़, पी.स.- खरगूपुर, तहसील-गोंडा, पावर हाउस के पास, जिला - गोंडा, उत्तर प्रदेश – 271204
1908	पुडुचेरी डेवलपमेंट पार्टी	नं0 – 51, सेकण्ड क्रॉस, सेल्वा नगर, उरुवाईयार, पुडुचेरी - 605110 ।
1909	पंजाब डेमोक्रेटिक पार्टी	958-मटौर सेक्टर-70, एस.ए.एस नगर, सिंडिकेट बैंक से सटा हुआ, पंजाब- 160070
1910	पंजाब एकता पार्टी	बी- XII/46, ग्राम – फरीदकोट, वार्ड नं0 – 10, पार्ट-2, तहसील - फरीदकोट, हरिन्दर नगर, जिला - फरीदकोट, पंजाब- 151203
1911	पंजाब किसान दल	H.No.47, ग्राम - सराय मुगल, तहसील-राजपुरा, जिला-पटियाला, पंजाब- 140417
1912	पंजाब लेबर पार्टी	ग्राम और डाकखाना-आधनियों, तहसील-मलोत, जिला-मुक्तसर, पंजाब ।
1913	पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी	मोहिंदर बाग गांव सिसवान में स्थित है, गुरुद्वारा शीश महल साहिब के पास, डाकघर मुल्लालपुर गरीबदास, तहसील खरड, जिला मोहाली, पंजाब- 140901
1914	पंजाब लोकहित पार्टी (बिर्मी)	भगवानपुरा, देहलोन रोड, लुधियाना, पंजाब-141120
1915	पंजाब नैशनल पार्टी	157, युनीवरसिटी ऐनकलेव फेज-1, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परिसर के पास, लाधेवली, जालंधर, पंजाब- 144009
1916	पुन्नगई देशम पार्टी	3/58B, मुख्य बाजार, पेयकुलम, अशिर्वाथपुरम - पोस्ट, साथ्यान्कुलम - तालुक, थूथुकुडी - जिला, तमिलनाडु – 628 613
1917	पुराची भारतम	नं. 54, नेशनल हाईवे, पूनामल्ला, चेन्नई-56 (तमिलनाडु) ।
1918	पुरातचिकारा थोझिललार कांची	नं0 3, करिकालन ईस्ट, प्रथम गली, (एस. पी. हॉस्पिटल के पीछे, अंजाप्पर होटल), अदमबक्कम, चेन्नई, तमिल नाडु ।
1919	पूर्वांचल नवनिर्माण पार्टी	ग्राम- सिरिहिरा, पोस्ट- सेवापुरी, थाना- कपसेठी, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221403
1920	पूर्वांचल जनता दल	ग्राम व पोस्ट - जनाड़ी, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश।
1921	पूर्वांचल जनता पार्टी (सेक्युलर)	फ्लैट नं. 2, डी.डी.ए. फ्लैट्स, पॉकेट-I, फेस- I, सेक्टर- 12, द्वारका नई दिल्ली- 110078
1922	पूर्वांचल क्रान्ति पार्टी	यादवगंज, पोस्ट – सिकरारा, जनपद – जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
1923	पूर्वांचल महापंचायत	नं0 - 601 डी, शिप्रा सन सिटी, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1924	पूर्वांचल राज्य जनांदोलन	एसपी टावर, बुद्धपुरम, बडेबन, ग्राम सभा- मड़वा नगर, बारीपास चौराहे के पास, जनपद- बस्ती, उत्तर प्रदेश - 272001.
1925	पुथिया मक्कल तमिल देशम काञ्चि	डी.नं.-6/58 साउथ स्ट्रीट, मुत्थुलक्ष्मीपुरम, मेगूहिणापुरम, तालुक-तिरुचेंदूर, जिला-

		थुथूकुडी, तमिलनाडु-628210
1926	पुथिया तमिलागम	132, न्यू एम.एल.ए. होस्टल, गवर्नमेंट एस्टेट, चेन्नई – 600 002 (तमिलनाडू)।
1927	पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया	2-1-83, कोला स्ट्रीट, तिरुपति- 517501, (आन्ध्र प्रदेश)।
1928	कौमी एकता दल	भवन सं० – 228, मो० – अस्तुपुरा, तहसील – सदर, जनपद – मऊ, उत्तर प्रदेश।
1929	कौमि इत्तेहाद रिपब्लिकन पार्टी	47/1, चेमुनियपेटा, रेवन्यु वार्ड न० 47, (विसाईड हरि टावर), नागाराजउपेटा कडापा, आन्ध्र प्रदेश- 516001
1930	रचनात्मक जन मोर्चा	मकान संख्या – 752, खसरा नं० – 146, ग्राउंड फ्लोर, निकट कन्या विद्यालय, बुराडी गांव, नई दिल्ली- 110084
1931	रैडिकल डेमोक्रेट्स	घर क्रमांक 4-9-771/पी70, पवनागिरि कॉलोनी, हयातनगर, हैदराबाद, तेलंगाना -501505
1932	रेडिकल पार्टी ऑफ इंडिया (अम्बेडकरिस्ट)	मकान नंबर 7-1371, कमरा नंबर 2, मदनपुर (गांव), कोठापट्टनम (मंडल), प्रकाशम (जिला), आंध्र प्रदेश-523280
1933	रहबर पार्टी	वार्ड नं० 2, मोहल्ला कच्ची मस्जिद, रायसेन, तहसील व जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।
1934	रायजोर दल	हाउस नंबर 1, चिडियाघर-नरंगी रोड, मॉडर्न स्कूल के पास, मथघरिया, पी.एस.- नूनमती, जिला कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-781020, असम
1935	रायता भारत पार्टी	सेक्टर नं. 31, फ्लैट नं. 31/ए, नवानगर, बागलकोट, कर्नाटक - 587101
1936	राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट	नम्बर 761, मात्मा गाँधी दस्तकर नगर, नायला, जयपुर, राजस्थान- 303012
1937	राजस्थान जन सत्ता	ग्रामीण कन्या छात्रावास, वाटर वर्क्स के पास, सादुलपुर, चुरू-331023, राजस्थान।
1938	राजस्थान जनता पार्टी	ग्राम- नैथला, पोस्ट- निठारी, तहसील- मालाखेड़ा, जिला- अलवर, राजस्थान- 301001
1939	राजस्थान नवनिर्माण पार्टी	मकान नं. 4एफ, प्रथम तल, रामलाल सदन, सिविल एयरपोर्ट रोड, पाबूपुरा, जोद्धपुर, राजस्थान- 342001
1940	राजस्थान राज पार्टी	जैन नसियाँ रोड, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान-302029
1941	राजस्थान विकास पार्टी	43, चाँद बिहारी नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर-302012 (राजस्थान)।
1942	राजलोक पार्टी	बी-123, स्ट्रीट नं. 8, कमल विहार, बुरारी, दिल्ली-110084.
1943	राजनैतिक चेतना दल	प्लॉट नं. 78, खाता संख्या- 93, ग्राम- सिकरिया, पोस्ट- सुघड़ी, थाना- गोविन्दपुर, जिला- नवादा, बिहार- 805126
1944	राजनैतिक क्रान्ति दल	मकान नं. 55, बाडुजई द्वितीय, निकट पुराना ओवर ब्रिज, जिला- शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश- 242001
1945	राजनैतिक विकल्प पार्टी	204 - शाही भवन, डाक बंगला, पटना – 800001, बिहार।
1946	राज्य स्वराज पार्टी	931, इंदिरा नगर, देहरादून, उत्तराखंड-248006
1947	राज्याधिकार पार्टी	एच-नं. 10-4-ए /390, एडुगोट्टा, ईस्ट मैरीडपल्ली, सिकन्दराबाद-17, आन्ध्र प्रदेश।
1948	रक्षक जन मोर्चा पार्टी	अराजी नं - 813/म.न. - 180ए, गिरजा नगर, नई पी ए सी लाइन, देहली सुजानपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश – 208015
1949	रक्षका सेना	नं. 604, वायुनन्दा लेआऊट, हैब्ल, केम्पापुरा, बंगलोर – 560024, कर्नाटक।
1950	रानी चेन्नमा पार्टी	वक्कलागेरी दयामवनकट्टी, गडग-582101, कर्नाटक।
1951	रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी पार्टी	शॉप नं. 06, राहुल बाजार, कमिश्नियल काम्प्लेक्स, प्रथम तल, सीताबर्डी, नागपुर, महाराष्ट्र- 440012

1952	राष्ट्र भक्त दल	बाबा बजरंगदास जी की बगीची खाटीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर – 302012, राजस्थान।
1953	राष्ट्र धारक दल	90(4) वजीरबाग,चौरसिया काम्प्लेक्स के बगल में,बहराईज,जिला-बहराईच,उत्तर प्रदेश-278101
1954	राष्ट्र हित्य पार्टी	706/707 एम.के हाईट्स सीएचएस, बी विंग, सी.टी.एस.नं. 621, एल.वार्ड आफिस के सामने, एस.जी. बावें मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुम्बई-400070 महाराष्ट्र ।
1955	राष्ट्र मंगल मिशन पार्टी	कामधेनु कृपा, काचो माढ, पिलाजी गंज, श्रीराम चौक, मेहसाना, गुजरात-384001
1956	राष्ट्र निर्माण पार्टी	डी 25 डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली-110024 ।
1957	राष्ट्र सामान्य प्रजा पार्टी	डोर नं0-3-44,अथवेली,मेडचल,तेलंगाना-501401
1958	राष्ट्र समर्पण पार्टी	वार्ड संख्या-4,प्रोपर्टी संख्या-040000225,ओल्ड प्रोपर्टी संख्या डब्लू 4-448(ओल्ड 225),सावनेर,तालुक-सावनेर,जिला-नागपुर,महाराष्ट्र- 441107.
1959	राष्ट्र सेवा दल	85/40, ऑफिसर फ्लैट, बेली रोड, पटना-800001.बिहार ।
1960	राष्ट्र शक्ति	1112, एस /5, टैगोर गार्डन बस स्टैंड के पास, यमुना नगर-135001, जिला यमुना नगर, हरियाणा ।
1961	राष्ट्र उदय पार्टी	खसरा नं. 10, आतिफ बिहार कॉलोनी, नजदीक सिटी आई.टी.आई., उत्तरधौना, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
1962	राष्ट्र वाहिनी पार्टी	412, एस.के.श्याम हाईट्स, संपत हिल्स, बिचौली मर्दाना, इंदौर, मध्य प्रदेश-452016
1963	राष्ट्र विकास भुंवेश पार्टी	दूसरी मंजिल, अपोलो एन्क्लेव, जैन देरासर के सामने, मोडेरा क्रॉस रोड, महेसाणा, गुजरात - 384002
1964	राष्ट्रहित चिन्तक विपक्ष पार्टी	प्लॉट नं0 - 177-ई/2, वार्ड नं0 -2, महारौली, नई दिल्ली-110030
1965	राष्ट्रवादी भारत पार्टी	एटी-511/5, अनंतपुर, वार्ड नंबर-10, गायत्री नगर,हुजूर रीवा, रीवा,मध्य प्रदेश-486001
1966	राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी	बेगारिया का खेड़ा, पो0आ0-बरवान कलां, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1967	राष्ट्रवादी जनता पार्टी	अनील भारती भवन, 43-ए, सुखबीर नगर, कराला, नई दिल्ली-110081.
1968	राष्ट्रवादी क्रान्ति दल	इन्दु निवास, गाँव देवी रोड, पोयसर, कांदिवली (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र-400101.
1969	राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी (इंडिया)	35बी, सैनिक एन्क्लेव, सेक्टर- 1, मोहन गार्डन, नई दिल्ली- 110059
1970	राष्ट्रवादी पार्टी (भारत)	ग्राम- ककराना, पोस्ट- धौलाना, जिला- हापुड, उत्तर प्रदेश- 245301
1971	राष्ट्रवादी प्रताप सेना	ग्राम-नारायणपुर बासका पो0ऑ0-धौलाना, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1972	राष्ट्रवादी विकास पार्टी	217,2 फ्लोर,देवकी टावर,चन्द्र नगर,गाज़ियाबाद,उत्तर प्रदेश-201 011
1973	राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी	एम.एम.एस., 1/84, सेक्टर – ए, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
1974	राष्ट्रवादी चेतना पार्टी	रा, मकान सं. 16एफ/एफ, के.एच.सं0 28/10, रियाल गार्डन, नागलोई, नई दिल्ली-110041
1975	राष्ट्रवादी इंसान पार्टी	18/84/6सी, पुरा दलेल, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
1976	राष्ट्रवादी जन चेतना पार्टी	ए-69, त्रिकम नगर सेक्शन-1, चौपाटी गार्डन के पास, एल.एच. रोड, सूरत, गुजरात-395010
1977	राष्ट्रवादी जन कांग्रेस	संतोष भवन, रोड नं0 – 1 एक्स्टेंशन, राजवंशी नगर, पटना, बिहार - 800023
1978	राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी	158/33ए-1,गंगा प्रसाद रोड,अंसार कॉम्प्लेक्स,मौलवीगंज,लखनऊ उत्तर प्रदेश-

		226018
1979	राष्ट्रवादी जनताराज पार्टी	ए-404,अबजिबापा लेक व्यू,अपोजिट आर ए एफ गेट,निरंत चोकदी,वस्तराल,अहमदाबाद,गुजरात - 382418
1980	राष्ट्रवादी जनलोक दल	934/1, नियर वड़ी, मोटामाढ़, एट व पो.ऑ- बालम, टी.ए- विसनगर, जिला- मेहसाणा, गुजरात- 384310
1981	राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्य)	हरसरू,शिव मंदिर के पास,तहसील-हरसरू,जिला-गुडगाँव हरियाणा- 122505
1982	राष्ट्रवादी जनसंघ	पकड़ी गांधीनगर मोड,(कतीरा रोड),जैन कॉलेज पूर्वी गेट के पास,कतीरा,आरा,नवादा,जिला-भोजपुर,बिहार-802301
1983	राष्ट्रवादी जनविकास पार्टी	मकान सं. 7-जी-27, जवाहर नगर, श्री गंगानगर, राजस्थान- 335001
1984	राष्ट्रवादी जनवादी मंच	मकान नं-160, जोधी का पूरा, आजमगढ़ नगर, आजमगढ़,उत्तर प्रदेश ।
1985	राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल	H.No. 73, मोहल्ला - रायसाहब,तहसील - सिरौली, गौसपुर,जिला - बाराबंकी, उत्तर प्रदेश - 225415.
1986	राष्ट्रवादी माइनोरिटी पार्टी	ग्राम-कदमपुरा,वार्ड-9,पोस्ट ऑफिस-कदमपुरा,जिला-सुपौल बिहार-852134
1987	राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी (एल. बी.)	एम. सी. यूनिट नं0 4 - 467, नूनसर जोहड़, पतराम गेट, भिवानी, जिला - भिवानी, हरियाणा - 127021
1988	राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम- कल्याणपुर, पोस्ट- बड़हलगंज, तप्पा कस्बा, परगना - चिल्लूपार, जनपद- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273402
1989	राष्ट्रवादी प्रजा दल	सी-2/60, राम पार्क-1 लोनी, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102
1990	राष्ट्रवादी समाज पार्टी	16/17, सिविल लाईन्स, पदम अपार्टमेंट के पास, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
1991	राष्ट्रवादी श्रमजीवी दल	512/695न, पहली गली, निशातगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश।-226007
1992	राष्ट्रवादी युवा पार्टी	आरसी हाउस, प्रगति नगर, चकमोहब्बत, पो.ओ- भीखनपुर, थाना-अहियापुर, जिला- मुज़फ्फरपुर, बिहार- 842004
1993	राष्ट्रीय बहुजन पार्टी	729/4,अंबेडकर चौक,ग्राम - नलेगांव,तालुक - चाकूर,ज़िला - लातूर,महाराष्ट्र- 413524
1994	राष्ट्रीय आदर्श मैम्बर पार्टी	ग्राम व पोस्ट- उदयपुरा बीच का मुहल्ला, तहसील- राजनगर, थाना- खजुराहो, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश- 472339
1995	राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी	प्लाट नं0-4, पुष्पक नगर, जुनवानी रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) पिन नं0- 490 020
1996	राष्ट्रीय आम पार्टी	पार्टी कार्यालय 19ए, दूसरी मंजिल, ओम हीरा पन्ना मॉल, न्यू लिंक रोड, ओसिवरा, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400053
1997	राष्ट्रीय आमजन पार्टी	बी-225, ओल्ड मिनाल, जे.के.रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462023.
1998	राष्ट्रीय आदर्श पार्टी	पित्थूवाला खुर्द, चन्दरबनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
1999	राष्ट्रीय अहिंसा मंच	132/1, महात्मा गाँधी रोड, कोलकाता - 700 007
2000	राष्ट्रीय एकता मंच पार्टी	डी-197, कुँवर सिंह नगर, नांगलोई, दिल्ली - 110041
2001	राष्ट्रीय अम्बेडकर दल	अम्बेडकर भवन, बुद्ध विहार, सेन्ट्रल जेल रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
2002	राष्ट्रीय अंत्योदय काँग्रेस	एस.एस. III/800, सैक्टर - 1, कोपरखैरणे, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र - 400709
2003	राष्ट्रीय अन्याय निवारण सेना	138,जहागिरदारवाडी,पोस्ट- शिंगोली,तहसील व जिला- उस्मानाबाद महाराष्ट्र- 413501
2004	राष्ट्रीय अपना दल	मकान नं0 232/81/4डी, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
2005	राष्ट्रीय आरक्षक मंच	4586, विजयनगर, 2 nd स्टेज, देवराज मोहल्ला, मैसूर, कर्नाटक- 570017.

2006	राष्ट्रीय आर्य राज सभा	769/2, विजय पार्क, झांग कॉलोनी, रोहतक - 124001, हरियाणा।
2007	राष्ट्रीय अतुल्य युवा पार्टी	प्लॉट नं. 291, फ्लैट नं. 301, शिवनगर- 1, मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान-303328
2008	राष्ट्रीय आज़ाद मंच	गाँव व पोस्ट - शाहजादपुर, तहसील- नारायणगढ़, जिला- अम्बाला, हरियाणा।
2009	राष्ट्रीय बैकवर्ड पार्टी	1/44, शान्ति नगर, एटा-207001, उत्तर प्रदेश।
2010	राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी	टी ए - 137/3 तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110019.
2011	राष्ट्रीय बहुजन हिताय पार्टी	सी.-158, कैप्टन सतीश मार्ग, ऋषि नगर, रानी बाग, नई दिल्ली -110034.
2012	राष्ट्रीय बहुजन क्रान्ति दल	ग्राम - दतावली गेसूपुर, जय भीम नगर, गढ़ रोड, निकट मैडिकल कॉलेज, तहसील - मेरठ, जिला - मेरठ, उत्तर प्रदेश।
2013	राष्ट्रीय बाल्मिकी सेना पक्ष	जगद्गुरु महर्षि बाल्मिकी स्वामी मंदिर मार्ग, सी.एम.ई. राम नगर बोपखेल, पुणे - 411031 (महाराष्ट्र)।
2014	राष्ट्रीय बन्धुत्व पार्टी	554, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
2015	राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी	श्रीशिपमा बिल्डिंग, एमिटी विश्वविद्यालय गेट नं.1 के सामने, निजामपुर, मल्हौर, पी.एस-चिनहट, तहसील-सदर लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226028
2016	राष्ट्रीय भागीदारी समाज पार्टी	गाँव-गढ़ी (मेहन्दा मोड़), तहसील-हाँसी, जिला-हिसार, हरियाणा-125033
2017	राष्ट्रीय भाईचारा विकास पार्टी	सीपी - 15, रिको झुंझुनू, राजस्थान - 333001
2018	राष्ट्रीय भारतीय अखण्ड पार्टी	मकान नं0 - 14, ग्राम व पोस्ट - बेहटा, विकास खण्ड - मसौली, थाना - सफदरगंज, जिला - बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
2019	राष्ट्रीय भारतीय जन जन पार्टी	नियर ए.पी.एस, बिसाहडा, दादरी (गौतम बुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश - 203207।
2020	राष्ट्रीय बुजुर्ग शक्ति पार्टी	मकान नं0 - 144, गांव-मांगावास, डाकखाना-पलडा, तहसील-बैरी, जिला- झज्जर, हरियाणा
2021	राष्ट्रीय बुन्देलखंड विकास पार्टी	1/965, मानसरोवर पार्क, रामजी लाल की बगीची, नियर रेलवे लाइन फाटक, जी.टी.रोड, जी.टी.रोड, शाहदरा, दिल्ली- 110032
2022	राष्ट्रीय चाणक्य पार्टी	फ्लैट नं. 726एफएफ, ब्लॉक-ए, सेक्टर- म्यू-II, ग्रेटर नोएडा, जिला- गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201310
2023	राष्ट्रीय कांग्रेस (बाबू जगजीवनराम)	वार्ड सं0 45, मोहल्ला - बलदेवपुरी, जनपद - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
2024	राष्ट्रीय कांग्रेस (जे0) पार्टी	सैंधरी, पोस्ट - हरथला, वाया-पाकवड़ा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
2025	राष्ट्रीय दल युनाइटेड	जी- 3/792, वार्ड नं.- 69, दुर्गा अपार्टमेंट, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन- 1, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201005
2026	राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रंट	मकान नं0 - 397, ग्राम- सोनारी, पोस्ट - सोनारी(रामगंज), थाना - पीपरपुर, तहसील- अमेठी, जनपद- अमेठी, उत्तर प्रदेश - 228159
2027	राष्ट्रीय देशज पार्टी	टुंगरी टोली, अरगोडा, सेन्ट फ्रांसिस स्कूल, पोस्ट-हारमू, जिला-रांची, झारखण्ड, पिन - 834012
2028	राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी	मकान नं0-330/6, नया बाजार, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश-173001
2029	राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष नव भारत पार्टी	108, शंकर शाह नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।
2030	राष्ट्रीय एकता पार्टी	हाउस नं.83, ग्राउंड फ्लोर, गली नं.4, चांद मस्जिद की पास, जाफराबाद, दिल्ली - 110053
2031	राष्ट्रीय एकता पार्टी (सैक्यूलर)	भवन नं0 543, मोहल्ला- उपादियान, वार्ड नं0 14,

		किठौर, जिला- मेरठ, उत्तर प्रदेश।
2032	राष्ट्रीय गण संघ	एटी-68/1, खुदीराम सारणी, नामबोंगी, बालुरघाट, पोस्ट -बालुरघाट, थाना- बालुरघाट, जिला-दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल – 733101
2033	राष्ट्रीय गरीब दल	110, रामनगर, पानीपत, हरियाणा।
2034	राष्ट्रीय गरीब उत्थान पार्टी	ग्राम- नसोपुर, पो.- नगपुर, तहसील- जलालपुर, थाना- जलालपुर, जनपद- अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश- 224149।
2035	राष्ट्रीय गरिमा पार्टी	बी-14, कस्तूरबा नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – 462001, मध्य प्रदेश।
2036	राष्ट्रीय जनरल पार्टी	वार्ड नं0 11, आदर्श नगर, कलेक्ट्रीएट रोड, बक्सर, बिहार – 802101।
2037	राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी	सारखेल हाऊस, तिफरा, बिलासपुर – 495223, छत्तीसगढ़।
2038	राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी	62, सिविल लाईन्स, रूडकी, जनपद – हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
2039	राष्ट्रीय हिन्द एकता दल	गांव- नगला भाजा, पोस्ट- मिधौली, थाना-विष्णुगढ़, तहसील-छिवरामऊ, जिला- कन्नौज, उत्तर प्रदेश- 209721
2040	राष्ट्रीय हिन्दुस्तान शक्ति दल	आई- 26/1, गली नं. 10, ब्रह्मापुरी, दिल्ली- 110053
2041	राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी	गाँव-मुमताज नगर, पोस्ट-मुमताज नगर, तहसील सोहावल, नजदीक सम्राट मेडिकल सेटोर, थाना-कैंट, जिला-अयोध्या, उत्तर प्रदेश- 224001.
2042	राष्ट्रीय इन्डीपेन्डेंट मोर्चा	माईनिंग रोड, किंओझार (ओ.एस.एम. ई. लेडीज़ हॉस्टल के सामने), पोस्ट/द्वारा : किंओझारगढ़, जिला : किंओझार – 758001 ओडिसा।
2043	राष्ट्रीय जागृती पार्टी	रीषभ इंस्टीट्यूट, चिरैयाटॉड पुल, चौधरी पेट्रोल पम्प, कंकरबाग, पटना, बिहार - 800020
2044	राष्ट्रीय जागरूक पार्टी	मकान संख्या- बी- 7/209, सट्टा बाजार, कोट कपूरा, जिला- फरीदकोट, पंजाब – 151204
2045	राष्ट्रीय जयहिन्द पार्टी	आदर्श नगर, कोकर, थाना-सदर, जिला-रांची, झारखण्ड-8340041
2046	राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी (यूनाईटेड)	मकान नं0 – 710, नया पूर्वा, डिग्री कॉलेज चौराहा, कचहरी रोड, लिबर्टी शोरूम के सामने, जिला – रायबरेली, उत्तर प्रदेश।
2047	राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी	एम.आई.जी.-23, त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स, टीटी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462003
2048	राष्ट्रीय जन गौरव पार्टी	470, परमानतपुर, (सपना आइस फैक्ट्री के पीछे), पोस्ट- कचहरी, तहसील- सदर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222002
2049	राष्ट्रीय जन जन पार्टी	C/O परशुराम सिंह, नैली निवास, शिव नगर, रोड नंबर-1, फोर्ड हॉस्पिटल के पीछे, थाना-राम कृष्णा नगर, पो-राम कृष्णा नगर, खेमनीचक, जिला पटना, बिहार - 800027
2050	राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी	जी – 290, ओल्ड सीमा पुरी, दिल्ली – 110095.
2051	राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी सेक्युलर	खाता-187, खसरा-869, थाना-150, तौजी न.-525, ग्राम व पोस्ट- चौंढली, थाना- बेलदौर, जिला-खगडिया, बिहार- 852161
2052	राष्ट्रीय जन कर्मठ पार्टी	II-F-110, नेहरू नगर, निकट गणेश हॉस्पिटल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201001
2053	राष्ट्रीय जन मंच	ग्राम व पोस्ट- गुढा, जिला- जालौन, उत्तर प्रदेश- 285122.
2054	राष्ट्रीय जन सागर पार्टी	वॉटर बॉक्स के पीछे, नारेडा रोड, तहसील व जिला- बारां, राजस्थान- 325205
2055	राष्ट्रीय जन सहाय दल	112, न्यू कनॉट प्लेस, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2056	राष्ट्रीय जन सहयोग पार्टी	प्लॉट नं. ए-40, गायत्री पुरम, शोभित यूनिवर्सिटी, पल्लवपुरम, फेस-2, मोदी पुरम, सिटी- मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250110

2057	राष्ट्रीय जन समर्थन पार्टी	ए-122बी, ग्राउन्ड फ्लोर, हरि नगर, नई दिल्ली- 110064
2058	राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी	खसरा नं.-3250, पुलिस लाइन मेन गेट के सामने, अजमेर, राजस्थान-305001
2059	राष्ट्रीय जन उत्कर्ष पार्टी	हट सर्वे नं. ए/ईई-126, गझधर बांध, लांड्री गली, रत्नाबाई चॉल, एस.बी.पाटील मार्ग, साताकूझ (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र-400054
2060	राष्ट्रीय जन विकास पार्टी	मुहल्ला-सुन्दरपुर छट्टी पोखर, पोस्ट-लालबाग, जिला-दरभंगा, बिहार- 846004
2061	राष्ट्रीय जनाधार पार्टी	596 एस. के.- 04/01/01, सुमिरन खेड़ा, आदर्श विहार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2062	राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी	61, मंगला पुरी फेस- 1, पालम, नई दिल्ली – 45.
2063	राष्ट्रीय जनाधिकार सुरक्षा पार्टी	गाँव – कृष्णापुर, पोस्ट – धोपाहाट कृष्णापुर, जिला – 24, परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल।
2064	राष्ट्रीय जनाहिता पार्टी	न0 140, विद्यारन्यापुरा, नर्सिपुरा, मेन रोड, बैंगलोर, कर्नाटक- 560097
2065	राष्ट्रीय जननायक जनता पार्टी	आर. जैड-3284/37, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110019
2066	राष्ट्रीय जनसचेतन पार्टी	सेनारपुर, सुकान्ता नगर (मिलानपाली) (शिव मन्दिर के पास) पो० आफिस व पुलिस स्टेशन – सोनारपुर, कोलकाता – 700150, पश्चिम बंगाल।
2067	राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी	109- एफ, नजीम पुरा, भूड, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश – 203001
2068	राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी	वी.पी.ओ. - खनक, मकान नं० – 627बी, निकट पंचायत घर, आदर्श कॉलोनी, तहसील – तोशाम, जिला – भिवानी, हरियाणा- 127040
2069	राष्ट्रीय जन-जागरण मोर्चा	राज मंजिल, वार्ड नं० 12, गोपालगंज, पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट – गोपालगंज, बिहार।
2070	राष्ट्रीय जनक्रान्ति मोर्चा	ग्राम – बभने आलमनगर, पोस्ट – प्रतापपुर, जिला – चतरा, झारखण्ड।
2071	राष्ट्रीय जनक्रान्ति पार्टी	5/24 एच – 10 (आर०), आई०टी०आई० रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001
2072	राष्ट्रीय जनमंच (सेकुलर)	गांव बेलापुर, तालुक-श्रीरामपुर, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र-413715
2073	राष्ट्रीय जनमत पार्टी	ग्राम – फतुहा, पोस्ट-हनुमानगंज, जिला-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
2074	राष्ट्रीय जनमोर्चा	सी-69/10, गली नं०- 10, सी ब्लॉक, मुस्तफाबाद, दिल्ली - 110094
2075	राष्ट्रीय जनप्रिय पार्टी	एच –II – 76/डी, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ – 226012, उत्तर प्रदेश।
2076	राष्ट्रीय जनराज पार्टी	28-ए, विशाल कुंज, दहतोरा रोड, बोदला, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282007
2077	राष्ट्रीय जनसभा पार्टी	कोण्डागांव, फारेस्ट कॉलोनी वार्ड, जिला- कोण्डागांव, छत्तीसगढ़- 494226.
2078	राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी	यू.के. साहनी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कमरा नं-101, प्रथम तल, ग्राम- राजोपट्टी, जिला- सीतामढ़ी, बिहार-843302
2079	राष्ट्रीय जनसंचार दल	600/279/031एन, सुमित नगर, फरीदीपुर, रिंग रोड दुबगा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226101
2080	राष्ट्रीय जनसंघर्ष स्वराज पार्टी	अपर चुटिया, रांची, झारखण्ड – 834001
2081	राष्ट्रीय जनसरदार पार्टी	ग्राम-जिगिना खुर्द, पो.-कुरिया, पी.एस.बांसी, जनपद-सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश- 27215
2082	राष्ट्रीय जनसेना पार्टी	दुकान नं. 101, मदीना कॉम्प्लेक्स, कुंभारटेक, शिरपुर, जिला- धुले, महाराष्ट्र।
2083	राष्ट्रीय जनसेवा – सेकुलर पार्टी	428, ब्राह्मण वाडा, पुराना वार्ड नं०- 23, बल्लभगढ़ – 121004, जिला – फरीदाबाद, हरियाणा।
2084	राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी (एकलव्य)	पोस्ट व गांव – बिंजहोल, तहसील और जिला – पानीपत, हरियाणा – 132103.
2085	राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी (सेक्युलर)	417-ए, जैना टावर-111, ए-1 ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली- 110058
2086	राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी	मुहल्ला- थोक, वार्ड नं. 4, पुरानागंज, निकट रेलवे स्टेशन, मिथिख, जिला- सीतापुर, उत्तर प्रदेश- 261001

2087	राष्ट्रीय जनशांति पार्टी	52/2, स्कूल वार्ड चौक, जी.जी.आई.सी. के पीछे, प्रतापगढ़ – 230001, उत्तर प्रदेश।
2088	राष्ट्रीय जनसुराज्य पार्टी	मकान नं. 953/सी, गरोबा मैदान, भंडारा रोड, बगडगंज, नागपुर (पूर्व), महाराष्ट्र-440008
2089	राष्ट्रीय जन-स्वाभिमान पार्टी	नं.1 बी,223,एमआईजी,आवास विकास कॉलोनी,रुकुनपुर,शिकोहाबाद,जिला-फिरोजाबाद,उत्तर प्रदेश-283135
2090	राष्ट्रीय जनता पार्टी	निकट शिव मन्दिर कालोनी, सौरखा, जाहिदाबाद, सैक्टर – 115, नोएडा, जिला – गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश।
2091	राष्ट्रीय जनता सेना	27,ज्ञान विहार,निर्माण नगर डीसीएम,अजमेर रोड,जयपुर,राजस्थान-302019
2092	राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी	गोविन्द चिकित्सालय, परसिया मोड़, रसूलपुर, रसड़ा – बलिया, उत्तर प्रदेश।
2093	राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा	ग्राम-राजपुर,पोस्ट-धर्मशाला थाना-परैया,जिला-गया,बिहार-824236
2094	राष्ट्रीय जनउत्थान पार्टी	ए-655-56, आवास विकास, हंसपुरम (कैनाल रोड), नौबस्ता, कानपुर नगर – 208021, उत्तर प्रदेश।
2095	राष्ट्रीय जनविकास पार्टी (डेमोक्रेटिक)	मनोरमा सदन, इन्द्रपुरी सिपारा, पोस्ट आफिस- डेलवाँ, थाना- बेऊर, जिला- पटना, बिहार- 800020.
2096	राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (क्रांतिकारी)	9/168, इन्द्रानगर, पानी टंकी के पास लखनऊ – 226016.
2097	राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट)	1/73, शिव कटरा, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208007
2098	राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी	788- ई/24, यूनियन बैंक के सामने, नजदीक पुरानी कचहरी, रोहतक रोड, सोनीपत - 131001, हरियाणा।
2099	राष्ट्रीय कल्याण पक्ष	904, अटलान्टा टावर, इन्कलाब सोसायटी गुलबाई टेकरा, अहमदाबाद – 380006, गुजरात।
2100	राष्ट्रीय कर्मयोग पार्टी	गाँव व पोस्ट – सुल्तानपुर, तहसील – नीलोखेड़ी, हरियाणा – 132116.
2101	राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी	मक्कान नंबर 54के,वार्ड नंबर 4 (नया),वार्ड नंबर 8 (पुराना),मालवीय नगर,चितबड़गांव,मिडिल स्कूल के पास,तहसील और जिला-बलिया,उत्तर प्रदेश-221713
2102	राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी	अजिंक्य राजवाड़ा भवन, शासकिय तंत्रनिकेतन के सामने, तुलजापूर रोड, निटुरे नगर, उस्मानाबाद, तालुक और जिला - उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – 413501
2103	राष्ट्रीय किसान काँग्रेस पार्टी	मकान नंo 1-11-602 रमामाता आंबेडकर नगर, गुरु गोविंद सिंघजी स्टेडियम के पास, ता. जि. नांदेड, महाराष्ट्र।
2104	राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी	डब्लू-127, पहला तल, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048
2105	राष्ट्रीय किसान पार्टी	गांव व पोo-धानौधा, तहसील व जिला – महेन्द्रगढ़, (हरियाणा)।
2106	राष्ट्रीय किसान समाज पार्टी (यूनाईटेड)	मौहल्ला – पटेगंज कांठ, पोस्ट – कांठ, तहलील- कांठ, जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश - 244501
2107	राष्ट्रीय किसान श्रमिक पार्टी	ग्राम- तखत खेड़ा, पोस्ट- आकमपुर (बिहार), भगवन्त नगर, जनपद- उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209864
2108	राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी	लिमडा लेन, मकरानी पाडा, जामनगर – 361001, (गुजरात)।
2109	राष्ट्रीय क्रान्ति पार्टी	लोधी प्रजापीठ, लौह पुरुष डा. साक्षी नगर, शिकोहाबाद रोड, जिला एटा – 207001, उत्तर प्रदेश।
2110	राष्ट्रीय क्रान्तिकारी दल	गोपाल नगर, मेन सुरखपुर रोड, नजफगढ़, नई दिल्ली – 110043.
2111	राष्ट्रीय क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी	मकान संo-65/25 के, छितवापुर रोड, लाल कुँआ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

2112	राष्ट्रीय कृषक दल	प्लॉट नंबर 177, मकान नंबर-एसए-4/ए-5बी, दौलतपुर, पोस्ट खजूरी (पांडेपुर), जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221002
2113	राष्ट्रीय लोक दल	406, बी.पी.हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
2114	राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी	मकान नं. 31, ग्राम- कमसडी, पोस्ट ऑफिस - असावर, तहसील- मुहम्मदाबाद, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233225
2115	राष्ट्रीय लोक मोर्चा	आशीर्वाद भवन, मोहल्ला मजार गली, शेखपुरा, पो.बी.वी कॉलेज, पी.एस.शास्त्री नगर, पटना, बिहार-800014
2116	राष्ट्रीय लोक प्रजा राज्य पार्टी	बरकाती अपार्टमेन्ट, नार्मल चौक, बिजली ऑफिस के सामने, खुर्रमपुर, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273001
2117	राष्ट्रीय लोक सर्वाधिकार पार्टी	म. नं0 -630, ग्राम- पसौंडा, बौद्ध विहार मंदिर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
2118	राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी	सम्पत्ति स.39/34 ए.निकट साहबा बस अड्डा, जिला हनुमंगढ़, राजस्थान-335501
2119	राष्ट्रीय लोक तन्त्र दल	ग्राम मोहल्ला - नगला काशी तहसील - धौलाना, जिला - हापुड़, उत्तर प्रदेश - 245301
2120	राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी	जे-1201, आदित्य मेगा सीटी, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201014
2121	राष्ट्रीय लोकराज पार्टी	भवन सं0 - 73/382, मोहल्ला - वनखण्डी टीला, (सहकारी बैंक के पीछे), मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281001
2122	राष्ट्रीय लोकसत्ता पार्टी	नं.-287/3, मंगलपांडे नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250001
2123	राष्ट्रीय लोकशक्ति पार्टी	अर्जुन नगर कालोनी, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश - 262802
2124	राष्ट्रीय लोकस्वराज पार्टी	पद्मा फॉर्म, गाँव - छप्परा खेड़ा, नजदीक बालाजी मंदिर फूसगढ़, करनाल, हरियाणा
2125	राष्ट्रीय लोकवादी पार्टी	ए/6ए, ग्राउण्ड फ्लोर, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली - 110015
2126	राष्ट्रीय महा जनशक्ति दल	कमरा नं0 -17, एम. नरेश मुन्ना चॉल, जयहिन्द नगर, पाईप लाइन, खार पूर्व, मुम्बई - 400 051, महाराष्ट्र ।
2127	राष्ट्रीय महाजन शक्ति पार्टी	मकान नं. 843/39, शिव उत्सव वाटिका, न्यू रेलवे स्टेशन मार्ग, अटर रोड, भिण्ड, मध्य प्रदेश- 477001
2128	राष्ट्रीय महान दल	108/60, आवास विकास कॉलोनी, ग्राम तैमूरपुर, पोस्ट-बिजनौर, जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।
2129	राष्ट्रीय महान गणतन्त्र पार्टी	गाँव - अड्डा छिनपारई, पोस्ट - छिनपारई, नौझील, मथुरा, उत्तर प्रदेश - 281203
2130	राष्ट्रीय महाशक्ति पार्टी	5, रुपायातन एस. बी. रोड । विले पार्ले पश्चिम, मुम्बई-400056, महाराष्ट्र ।
2131	राष्ट्रीय महास्वराज भूमि पार्टी	एटी-3ए, प्रथम तल, धारावी विवेकानंद को.ओपी.हाउसिंग सोसाईटी एल.टी.डी., प्रभाकर कुंटे नगर, 90 फीट रोड, कुंबारवाड, धारावी, महाराष्ट्र, मुंबई- 400017
2132	राष्ट्रीय महिला जनशक्ति पार्टी	ग्राम सभा-सैता जिगिनीयाँ, पोस्ट-काँटा गुलजारपुर, ब्लॉक-फतेहपुर, जिला- उन्नाव, पिन-909801, उत्तर प्रदेश ।
2133	राष्ट्रीय महिला पार्टी	340, स्वाले नगर, रामपुर रोड, सी.बी.गंज, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश-243502
2134	राष्ट्रीय मजदूर कृषक पार्टी	एटी-एनएच-28, तेनुआ, हरैया, बस्ती, उत्तर प्रदेश-272155
2135	राष्ट्रीय मजदूर विकास पार्टी	मकान सं. 502, यमुना रोड, प्रथम तल, ग्राम- मेहंदीपुर, तहसील व जिला- सोनीपत, हरियाणा- 131001

2136	राष्ट्रीय मानव एकता काँग्रेस पार्टी	गुरुद्वारा के सामने, स्टेशन रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2137	राष्ट्रीय मानव पार्टी	मकान नं.29/124, पहली मजिल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, दिल्ली-110008
2138	राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी	मकान नं0-1485, किदवई नगर, भारद्वाजपुरम, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश – 211006.
2139	राष्ट्रीय मानव सेवा पार्टी	खाता नं.60, खसरा नं.03, मौजा नं.82, श्रीनगर हाऊस, समूखिया मोड, नियर न्यू पुलिस लाईन बांका, जिला-बांका, बिहार-813102
2140	राष्ट्रीय मानव विकास पार्टी	मकान नं. 249, ग्राम- साथलपुर, पो.ऑ- ढवारसी, तहसील- हसनपुर, ब्लॉक- गंगेश्वरी, जिला- अमरोहा, उत्तर प्रदेश- 244242।
2141	राष्ट्रीय मंगलम पार्टी	19/23, वेस्ट मोती बाग, स्ट्रीट नं – 3, सराय रोहिल्ला, दिल्ली – 110 035.
2142	राष्ट्रीय मराठा पार्टी	शिवनेरी सिंहगड बिल्डिंग, श्रीनगर (शिवनगर) कॉलोनी, बिदर रोड, उदगीर, जिला – लातूर, महाराष्ट्र – 413517
2143	राष्ट्रीय मार्क्सवादी दलित लहर पार्टी	ग्राम- छौंकरवाडा, तहसील- वैर, जिला- भरतपुर, राजस्थान।
2144	राष्ट्रीय मताधिकार पार्टी	ग्राम+पो0 – अरेराज, वार्ड नंबर 11, शिव मंदिर से पूर्व, गायत्री ट्रेडर, जिला-पूर्वी चंपारण, बिहार-845411
2145	राष्ट्रीय मतदाता पार्टी	मोहल्ला – सैय्यदवाडा, कस्बा – मलिहाबाद, जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2146	राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी	ब्लॉक बी, संत नगर, गली नं0 57, बुरारी रोड, दिल्ली – 110009.
2147	राष्ट्रीय मजदूर किसान पार्टी	आकाश भवन, आई0डी0बी0आई0 बैंक के सामने, मेन रोड दादरी, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, विकास खण्ड- विसरख, तहसील- सदर, जनपद-गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
2148	राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी	अशोक ऐवन्यू, गांव – लालगंज, थाना – सदर, जिला – राँची, झारखण्ड।
2149	राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी	मकान नं0 – 57, ग्राम-मानेसर, मोहल्ला – मोहन पट्टी, जिला – गुडगाँव, हरियाणा – 122050.
2150	राष्ट्रीय नागरिक पार्टी	मकान नं. 725, खसरा नं. 40, गाँव- मैदानगढी, नई दिल्ली- 110068
2151	राष्ट्रीय नारायणवादी विकास पार्टी	नारायण भवन, पिकौराभट्ट, नन्द नगर, जनपद-बस्ती, उत्तर प्रदेश-272129
2152	राष्ट्रीय नौजवान दल	20/575, डी0डी0ए0 फ्लैट, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली - 110062
2153	राष्ट्रीय नव निर्माण भारत पार्टी	के-33, एफ/एफ, ए.बी., लाजपत नगर - II, नई दिल्ली- 110024
2154	राष्ट्रीय नव प्रभात पार्टी	110/2, लक्ष्मीपुरम, निकट आर.बी.एम्.स्कूल, गांधीनगर, मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश- 251 001
2155	राष्ट्रीय नवजागरण पार्टी	सीनियर एम.आई.जी-2, सह्याद्री परिसर, भदभदा रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462003.
2156	राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी	प्लॉट नं.145, पैगम्बरपुर, पोस्ट-रसूलगढ़, थाना-सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221007
2157	राष्ट्रीय पाँवर पार्टी	101, आश्रम एवन्यू, बी/एच, कोचरब आश्रम, पालडी क्रॉस रोड, ऐलीसब्रीज, अहमदाबाद, गुजरात - 380006
2158	राष्ट्रीय प्रगति पार्टी	गढ़ पर, नारदीगंज रोड, नवादा, पोस्ट व जिला – नवादा – 805 110, बिहार।
2159	राष्ट्रीय प्रजा काँग्रेस (सेक्यूलर)	12-11-113, ए. बी. नागेश्वर राव स्ट्रीट, आर्य पुरम राजमुन्दरी (आन्ध्र प्रदेश)
2160	राष्ट्रीय प्रतिभा पार्टी	मकान नं0 119, श्री राम कॉलोनी, होशंगाबाद रोड, मिसरोद, भोपाल, मध्य प्रदेश-462047
2161	राष्ट्रीय रक्षा दल	मार्फत, होटल पंकज, सैक्टर – 22ए, चंडीगढ़।
2162	राष्ट्रीय रक्षक मोर्चा	31, अलकापुरी, न्यू हाईकोर्ट के पीछे, सिटी सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश -

		474011
2163	राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी	2/36, रुचि खण्ड-1, शारदा नगर योजना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226012
2164	राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी	डी- 26, मीरदर रोड, नई दिल्ली- 110002
2165	राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी	रूतनचक नया टोला, पोस्ट-हथुआ, जिला-गोपालगंज बिहार-841436
2166	राष्ट्रीय सदभावना पार्टी	ग्राम- राघोपुर नरसंडा, पोस्ट- बाजितपुर, थाना- पातेपुर, जिला- वैशाली, बिहार- 843110
2167	राष्ट्रीय साफ नीति पार्टी	ग्राम व पोस्ट- मनोहरपुरा, तहसील- बस्ती, जिला- जयपुर, राजस्थान- 303301
2168	राष्ट्रीय सहारा पार्टी	जंगरा मार्केट दुन्दहारा, गुडगाँव – 122016, हरियाणा।
2169	राष्ट्रीय सहयोग पार्टी	एफ- 130/4, ग्राउंड फ्लोर, गौतम नगर, नई दिल्ली- 110049
2170	राष्ट्रीय समाधान जनमोर्चा	11, प्रकाश नगर, एमपीईवी अधिकारी कॉलोनी, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462023.
2171	राष्ट्रीय समाज दल (आर)	मकान सं.193, वार्ड सं.7, शास्त्री नगर, कोरांव, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-212306
2172	राष्ट्रीय समाज पक्ष	द्वारा एल. डब्ल्यू. काले, 17 – रघुनाथ दादोजी स्ट्रीट, चौथी मंजिल, हैन्डलूम हाउस के पास, फोर्ट, मुम्बई – 400001, महाराष्ट्र।
2173	राष्ट्रीय समाजहित दल	मुहल्ला-देवी मंदिर कॉलोनी (डीएम कॉलोनी), पेट्रोल पम्प के बगल में, दीघा, पटना, बिहार-800011
2174	राष्ट्रीय समाजवादी अपना दल	ग्राम – बासूपार (बनकट) निकट शिवा नरसिंह होम, पो – जीयनपुर, जनपद – आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
2175	राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रान्ति पार्टी	बी-37/162, के. पी. गिरी कॉलोनी, बिरदोपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
2176	राष्ट्रीय समाजवादी लोक अधिकार पार्टी	ए.टी.-ग्राम सिलाट, पोखरिया पोस्ट, वाया बिरौली (आर.ई), जिला- समस्तीपुर, बिहार-848113
2177	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (सेक्यूलर)	ए /104, राजश्री एवेन्यू, बी./एच., इन्कम टैक्स के पीछे, दिनेश हाल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद – 380009, गुजरात।
2178	राष्ट्रीय समाजवादी स्वाभिमान मंच	प्लॉट नं. 33/34, लक्ष्मी नगर, रिसाली, भिलाई, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490006
2179	राष्ट्रीय समानता दल	8/440, त्रिलोक पुरी, दिल्ली – 110091.
2180	राष्ट्रीय समरसता पार्टी	सी- 133, डी.डी.ए फ्लैट्स, न्यू रणजीत नगर, पटेल नगर, नई दिल्ली- 110008
2181	राष्ट्रीय सम्राट सेना पार्टी	हाऊस नं0 3115, एस. जी. नगर, दीघा, ऐरोली, नई मुंबई, महाराष्ट्र- 400708.
2182	राष्ट्रीय समता पार्टी (सेकुलर)	मकान नं0 – 27, ग्राम – वीरपुर सिंघाड़ा, पोस्ट – सिंघाड़ा, जिला – वैशाली, बिहार- 800011
2183	राष्ट्रीय समता विकास पार्टी	मकान सं. 227/111, विष्णुपुरी भूतेश्वर, पोस्ट- कृष्णनगर, जिला- मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281004
2184	राष्ट्रीय संविधानवादी पार्टी	ग्राम-रमपुरा, पोस्ट-हैदरपुर, जनपद-औरैया, उत्तर प्रदेश- 206129
2185	राष्ट्रीय सनातन पार्टी	एच.एन. 108-ए, जी/एफ के.एच.नं. 60, 30 फुटा रोड, न्यू सभापुर गुजरात, करावल नगर, दिल्ली-110092
2186	राष्ट्रीय सेंगेल पार्टी	सिमडेगा भवन, डंगराटोली चौक के नजदीक, ऑपोजिट तनवीर पेट्रोल पम्प, पुरुलिया रोड, रांची, झारखण्ड- 834001
2187	राष्ट्रीय संगम दल	7बी, ख्योरा, नवाबगंज, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208002
2188	राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी	24 डी-1, गडरियन पुरवा, रतनपुर पनकी, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208017
2189	राष्ट्रीय संत संदेश पार्टी	263, बनारसे निवास, मित्रनगर, लातूर, तालुक व जिला-लातूर-413512,

		महाराष्ट्र।
2190	राष्ट्रीय संयुक्त पार्टी	5/36, रेलवे रोड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, जनपद – फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश -209625।
2191	राष्ट्रीय संयुक्त समाज पार्टी	एन 8/236-आर-53-1, गणेश धाम कॉलोनी, नेवादा, सुन्दरपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221004.
2192	राष्ट्रीय सर्व मंच संगठन	1-क्यू-13, तिलक नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान- 311011
2193	राष्ट्रीय सर्वजन पार्टी	124/3, मदक खाना खुशीपुरा, झांसी-284001, उत्तर प्रदेश।
2194	राष्ट्रीय सर्वांगीन विकास पार्टी	खसरा नं. 608, ग्राम - पसौंदा, मेन वजीराबाद रोड, नियर गैरीमांजलि पब्लिक स्कूल, विपक्ष राजेंद्र नगर, गरिमा गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201005.
2195	राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी	खसरा नं. 496/1, मेन वजीराबाद रोड, ग्राम- पसौंदा, तहसील- लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
2196	राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी	ए – 412, ए0जी0 कॉलोनी, थाना – शास्त्री नगर, जिला - पटना, बिहार – 800025
2197	राष्ट्रीय सवर्ण समाज पार्टी	ग्राम- सखैला, पोस्ट - गौराबादशाहपुर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222133.
2198	राष्ट्रीय सवर्ण दल	दुबे का पड़ाव, अलीगढ़ - 202001,(उत्तर प्रदेश)।
2199	राष्ट्रीय सैक्युलर कांग्रेस	आशीर्वाद अपार्टमेन्ट, मथुरा द्वारका रोड, सकुन्तला पथ, 5 वीं बयई लेन, दीसपुर, गुवाहाटी-6, असम।
2200	राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी	वार्ड नं.36,गांव-बिहार शरीफ,बड़ी दरगाह,नालंदा,बिहार-803101
2201	राष्ट्रीय शहरी विकास पार्टी	म0 नं0 8/69(40,40ए) पुराना किला, बाबू बनारसी दास नगर, कैण्ट रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226001
2202	राष्ट्रीय शक्ति पार्टी (इण्डिया)	80-ए, मुनिरका गाँव, नई दिल्ली-110067
2203	राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी	गांव – लोहवन, पोस्ट - लोहवन, लक्ष्मी नगर – बलदेव रोड, जिला – मथुरा, उत्तर प्रदेश
2204	राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी	थर्ड.एच.-2,नेहरु नगर,राकेश मार्ग,गाजियाबाद,उत्तर प्रदेश - 201001
2205	राष्ट्रीय सूर्य प्रकाश पार्टी	द्वारा श्री पन्ना लाल, पुत्र श्री भोले शंकर, थाना-अवागढ़, जलेसर रोड, कस्बा व डाकखाना-अवागढ़, जिला-एटा, उत्तर प्रदेश।
2206	राष्ट्रीय स्वाभिमान संघ पार्टी	A - 104, सांघवी टॉवर, सामने हल्केश, मीरा-भायंदर रोड, मीरा रोड ईस्ट, महाराष्ट्र - 401107.
2207	राष्ट्रीय स्वराज्य सेना	03,दहिसर संकेत बिल्डिंग,शिव वल्लभ क्रॉस रोड,रावलपाड़ा,दहिसर (पू),मुंबई,महाराष्ट्र- 400068
2208	राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी	ग्राम व पो0 – पिपरिया,वार्ड नं0 नं0- 3,थाना – मोहनियाँ,बिहार- 821105
2209	राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी	1372/12,न्यू गडौरा,बेहसा,कानपुर रोड,लखनऊ,उत्तर प्रदेश - 226002
2210	राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल	3, रशद नगर, गोरखपुर रोड, आजमगढ़ - 276001, उत्तर प्रदेश।
2211	राष्ट्रीय उन्नती पार्टी	प्रस्ताव संख्या 12-ए,ब्लॉक-के 4,मोहन गार्डन,उत्तम नगर,प्रथम पुस्ता,सोनिया विहार,दिल्ली- 110059
2212	राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी	कैलाश इंडस्ट्रीयल इस्टेट के सामने,एस.आर.ए. बिल्डिंग नं0 1,रूम नं0 207,90 फीट रोड,विक्रोली,मुंबई-400079
2213	राष्ट्रीय उत्तराखण्ड पार्टी	124/98, हरिद्वार रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2214	राष्ट्रीय वंचित पार्टी	मकान नं0 – 525(नया), 204(पुराना), पल्टन बाजार सदर, मकन्दुगंज, जिला – प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - 230001।

2215	राष्ट्रीय विकल्प पार्टी	ग्राम-पिपरौली, पोस्ट-जहाँगीराबाद, जनपद-बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
2216	राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी	प्लॉट सं० 58, न्यू कालोनी, तिलमापुर, आशापुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
2217	राष्ट्रीय विकास मोर्चा	557, पाना उद्यान, नरेला, दिल्ली-40 ।
2218	राष्ट्रीय विकास पार्टी	195, मेन अशोका इन्क्लेव, फरीदाबाद, हरियाणा
2219	राष्ट्रीय विकासवादी जनता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- हरिहरपुर रैकवारी, जिला- बहराइच, उत्तर प्रदेश- 271870
2220	राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी	एफ-25, प्रोफेसर कालोनी, कमलानगर, आगरा-282005, उत्तर प्रदेश ।
2221	राष्ट्रीय युवा जनअधिकार पार्टी	दुकान नंबर-1, भीमनाथ शॉपिंग सेंटर, बड़े स्वामीनारायण मंदिर के बगल में, बोरिसाना, टीए -कलोल, जिला-गांधीनगर-382721
2222	राष्ट्रीय युवा अधिकार दल	एटी- जी-67, राजीव नगर, बेगमपुर, पाल अस्पताल के पास, नई दिल्ली-110086
2223	राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल	ग्राम-बलेजी, पोस्ट-फेफना, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश-277503
2224	राष्ट्रीय युवा समाज पार्टी	18- मुस्कान मंजिल, रसुलाबाद, रहमत डुप्लेक्ष के सामने, शाह-ए-आलम, अहमदाबाद, गुजरात- 380028
2225	राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी	कात्रे टाऊनशिप, सावता मैदान के सामने, जुनीवस्ती मेन रोड, बडनेरा जिला- अमरावती महाराष्ट्र- 444701.
2226	राष्ट्रीय आम जन सेवा पार्टी	सी-90, खसरा नं. 770, मदनपुर, खादर एक्सटेंशन, तहसील- महारौली, नई दिल्ली- 110076.
2227	राष्ट्रीय अटल जनता पार्टी	नियर रिंग रोड क्रासिंग, 7, साकेत विहार, खुरम नगर साई गेस्ट हाउस, पहली मंजिल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226022
2228	राष्ट्रीय हिन्द समाज पार्टी	हाउस नं. नया जुगौर आशिक, तेह.-लखनऊ जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226028.
2229	राष्ट्रीय इन्साफ पार्टी	604, अनुभव ईलेडको, उद्यान-2, रायबरेली रोड, लखनऊ - 226025, उत्तर प्रदेश
2230	राष्ट्रीय नव निर्माण पार्टी	जयमांदेवी पेंथो स्ट्रीट, ओल्ड ब्रह्मपुर, पोस्ट - ब्रह्मपुर, थाना - बडा बाजार, जिला - गंजम, ओडिसा-760009
2231	राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी	72- तुलसी मंडी, होटल महारानी, महारानी चौक, पोस्ट- गुलजारबाग, थाना- आलमगंज, पटना सिटी, जिला- पटना, बिहार- 800007.
2232	रायलसीमा कॉंग्रेस पार्टी	5/62, पेड्डुरु रोड, गालीवीडु कास्पा, गालीवीडु पोस्ट एवं मण्डल, वाई.एस.आर. कडपा जिला, आन्ध्र प्रदेश - 516267
2233	रायलसीमा परिरक्षण समिति	डोर नं. 70-125-बी-71, हाईवे के निकट, कल्लुर, कर्नूल टाउन, आन्ध्र प्रदेश - 518003
2234	रायलसीमा प्रजा समिति	मकान नं.5-54, चौदेश्वरी बाजार, पोस्ट एवं मंडल-कोडुमूर, कर्नूल जिला, आन्ध्र प्रदेश-518464
2235	रायलसीमा राष्ट्र समिति	डोर नं. 22/160, वसन्थपेटा, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, प्रोद्दातुर - 516 360, आन्ध्र प्रदेश ।
2236	रीयल डेमोक्रेसी पार्टी	37, अक्षर डायमंड मार्केट, सरदार चौक, मिनी बाजार, वराछा रोड, सूरत, गुजरात - 395006 ।
2237	रिफार्मस पार्टी ऑफ इंडिया	1-10-50, बैप्टिस पेटा, एलुरु- 534001, आंध्र प्रदेश
2238	रिजनल डेमोक्रेटिक सेकुलर कांग्रेस	लोअर लम्पेयरिंग, पोस्ट - लाबन, जिला - ईस्ट खासी हिल्स, शिलॉंग - 793004, मेघालय ।

2239	रिपब्लिकन बैकवर्ड काँग्रेस	प्लॉट सं० - 04, गली सं०-1, वार्ड सं०-1, एम. सी. - कालोनी, चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाण।
2240	रिपब्लिकन बहुजन सेना	305, शाहू स्मृति बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, महात्मा फुले नगर, मीनाताई ठाकरे उद्यान के पीछे, ठाणे (वेस्ट), महाराष्ट्र - 400606
2241	रिपब्लिकन पक्ष (खोरिपा)	ईसा हटमेंट्स, 8-9, आजाद मैदान, मुम्बई महा नगर पालिका के सामने, किला, मुम्बई-400001, (महाराष्ट्र)।
2242	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया	सतनाम मैनसन, तीसरा मंजिल, बिल्डिंग नं.245, पी डिमैलो रोड, रोल नं.1393, म्यूनिसीपल को-आपरेटिव बैंक के उपर, जीपीओ के अपोजिट, मुंबई - 400001
2243	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)	नं.3/4, ईसा हटमेंट, आजाद मैदान, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र-400001
2244	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रैटिक)	मुकुन्द निवास, इंडिया नगर, लाटूर-413512(महाराष्ट्र)।
2245	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (कर्नाटक)	कार्यालय नं.- 49/1, बी. नागासंद्र, यमलूर पोस्ट, बैंगलूर, कर्नाटक- 560037.
2246	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोन्नगडे)	गीता विला, ईस्ट मारेड पल्ली, सिकन्दराबाद, (आन्ध्र प्रदेश)।
2247	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (राष्ट्रीय)	मकान नं० - 67, 68, गली नं० - 15, ब्लॉक - 28, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली - 110032
2248	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रिफॉर्मिस्ट)	बी-12/704, विजय पार्क, कासारवडावली, जी.बी. रोड, ठाणे (पश्चिम), महाराष्ट्र - 400615
2249	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (शिवराज)	10, सोलई स्ट्रीट, अयानावरम, चेन्नई-600023, (तमिलनाडु)।
2250	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सोशल)	प्रोपर्टी नं. 2618, वार्ड नं. टुकुम-2, (पुराना वार्ड 1 सी), समता कॉलोनी, एसटी वर्कशॉप के सामने, ताडोवे रोड, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र- 442401
2251	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भारत	नं. 2001, पहली ए-मेन रोड आठवां क्रॉस, जैमुनी राव सर्किल (ओटागेयर) एम.सी. लेआउट, विजयनगर, बैंगलूर, कर्नाटक- 560040.
2252	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी	बी-9/667, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005
2253	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)	1/16, संजय काम्पलैक्स, टी. टी. नगर, भोपाल-462003, (मध्य प्रदेश)।
2254	रिपब्लिकन सेना	शॉप नं० -6, न्यू निर्मल सोसाइटी, 189, ढोले पाटील रोड, अक्षय कॉम्प्लेक्स समोर, पुणे, महाराष्ट्र - 411001
2255	रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रसिक भट्ट)	84-आशुतोष मुखर्जी रोड, कोलकाता-700025, पश्चिम बंगाल।
2256	रेवोलुशनरी गोवन्स पार्टी	घ.क्र.2385/ए, नागझरवाडा, बिचोलिम, उत्तर गोवा, गोवा- 403504
2257	रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	शहीद सरवण सिंह चीमा मेमोरियल ट्रस्ट भवन, 352/1, फगवाड़ी मोहल्ला, गढ़ा, जालंधर, पंजाब - 144022।
2258	रेवोलुशनरी पार्टी	एस एच-3/40, आर.एस., विश्वनाथपुरी कालोनी, नवलपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221003
2259	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	टीसी 24/113, पनविला, थाईकाडु पो. आ., तिरुवनन्थापुरम, पिन कोड- 695014
2260	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ केरल (बोल्शेविक) आर. एस. पी. बी	केरला स्टेट कमिटी कार्यालय, फ्यूचर सेंटर, शाहोदरा, समाजम रोड, चेट्टाकुलंगरा, तिरुवनंतपुरम (केरल)

2261	राइट इंडिया मूवमेंट पार्टी	सेंट्रल मेल बॉक्स, श्री दी एम के हाइट्स, फ्लौट नंद 402, नंद 32-10-32, वेंकटेश्वरा कॉलोनी, वार्ड नं० 65, शीला नगर, विश्वपट्टणम, आन्ध्र प्रदेश- 530012
2262	राईट पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम व पोस्ट - उत्तर बहीरगाछी, पी.एस. - नाकाशीपाड़ा, जिला - नदिया, पश्चिम बंगाल - 741126
2263	राइट टु रिकॉल पार्टी	एफ-001-ए, सुपथ-2 कॉम्प्लेक्स, जुना वाडज बस स्टेन्ड के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात- 380013
2264	ऋषिवादी कर्म शील युवा परमार्थी पार्टी	237/2, गली न.-23, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश-251002
2265	राइजिंग पीपल्स पार्टी	मकान नं०-202, भूतल, फैलोशिप कॉलोनी, दीमापुर, नागालैंड-797112
2266	रोटी कपडा और मकान पार्टी	ब्लॉक डी, बाबा कॉम्प्लेक्स, हर्ष नगर इटावा, उत्तर प्रदेश- 206001.
2267	रॉयल इंडिया पीपल्स पार्टी	कमरा न. 35/549 (10/37/153), आदम बाजार बिल्डिंग, श्रीसूर, केरला - 680001.
2268	रायथु बिद्वा पार्टी	8-16-93/1, सौभाग्य कॉलोनी, श्रीराम नगर, चिंतालकुन्टा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500074
2269	रेतु राजयम पार्टी (ए. पी.)	D. No. 32/86-7-8, गद्दामीडा गंगम्मा स्ट्रीट, देवुनी कडपा, कडपा शहर, कडप्पा जिला, ए.पी. - 516002
2270	साफ पार्टी	547/229, जलालपुर, राजाजी पुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226017
2271	साथ साहाकार विकास पार्टी	483, धानापुर रोड, देव बरियाड-7, देवगढ़, बारिया दाहोड, ता. देवगढ़, जिला- दाहोड, गुजरात-389380
2272	सब जन विकास राष्ट्रीय पार्टी	शॉप/हाउस ऑफ नवी रसूल अंसारी पुत्र मोहम्मद हुसैन, गांव व पोस्ट- बारागाँव, वाया खरासारा, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश-277302
2273	सब्बाथ पार्टी	दुकान नं. - 3, लक्ष्मी निवास बिल्डिंग, एम. एन. रोड, कुरला (पश्चिम), मुंबई - 400070, महाराष्ट्र ।
2274	सभी जन पार्टी	ई-1/32, दीनदयालपुरम, तौधकपुर रोड, नौबस्ता, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208021.
2275	सबका दल यूनाइटेड	ग्राम व पोस्ट- सैरपुर, रायथा रोड, ब्लॉक- चिनहट, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226201 ।
2276	सबकी पार्टी	बी-1/1, सेक्टर-जी, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2277	सबसे अच्छी पार्टी	मकान संख्या- 222, अमीपुर नंगौला, माजरा- हैदरनगर, तहसील व जिला- हापुड, उत्तर प्रदेश।
2278	सबसे बडी पार्टी	41/48, पॉकेट- 2, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली- 110091
2279	सचो सच पार्टी	डी-2/2406, एकता नगर, पी.ओ जवाला आटा मिल्स, अमृतसार, पंजाब 143003
2280	साडा हक पार्टी	मकान सं. 29/9/3, 29/8/2/3, वीपीओ महीलपुर, तहसील- गढ़शंकर, जिला- होशियारपुर, पंजाब- 144527
2281	साडा पंजाब पार्टी	शांति नगर, ढंडारी कलां, लुधियाना, पंजाब - 141001 ।
2282	सदान विकास पार्टी	नॉर्थ ऑफिस पारा, गौरी शंकर नगर, मकान नं.-276, दोरन्डा, राँची, झारखण्ड ।
2283	साहेब जन पार्टी	गैलेक्सी होटल के सामने, गली नं०5, कांचन नगर, हाथरस, उत्तर प्रदेश-204101
2284	सैनिक जनकल्याण विकास पार्टी	दुकान नं. 4/5/6/7, भूतल, बिल्डिंग को 'सरस्वती प्रसाद अपार्टमेंट' रोड परांका, गजानन महाजन मंदिर, कल्याण पश्चिम-421301, महाराष्ट्र
2285	सैनिक समाज पार्टी	317, शिवा डिस्पोजल कौम्प्लेक्स, संयुक्त यात्रा बस अड्डा रोड, चन्द्रभागा, आदर्श

		ग्राम, ऋषिकेश, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड-249201
2286	सजग समाज पार्टी	मोहल्ला- नासही, पोस्ट- जफराबाद, तहसील/सदर/जिला- जौनपुर उत्तर प्रदेश- 222180
2287	सकाला जनुला पार्टी	नं.7-23/1,एम.बेंकटायापलेम,खम्मम ग्रामीण,खम्मम जिला,तेलंगाना-507003
2288	सामान्य प्रजा पार्टी	डी0 नं0 48-11-10/4, अशोक नगर, एम.वी.एस. ज्वैलर्स के सामने, असीलामेट्टा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश - 530016
2289	समग्र उत्थान पार्टी	मकान नं. बी/9, विवेकानन्द पार्क मार्ग, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना, बिहार- 800013
2290	समग्र विकास पार्टी	1147/8 (157), पी0 एल0 शर्मा रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250001
2291	समैक्या तेलुगु राज्यम	डी. नं. 1-39-बी (क्रम सं. 1026ए), चायापुरम गाँव, वज्राकरुर मंडल, अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश - 515842
2292	समैक्यांध्र परिरक्षणा समिति	मकान नं. 8-3-580/1, येल्लारडुडुगुडा,अमीरपेट - 500073, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
2293	समाज अधिकार कल्याण पार्टी	ऑफिस नं.822-823, आठ बाँ तल, मैसर्स बाजवा डेवलपमेंट लिमिटेड, सच्ची बिजनेस सेन्टर, न्यू सच्ची एन्कलेव, सेक्टर – 125, मोहाली, पंजाब
2294	समाज भलाई मोर्चा	134/17-सी, मिलाप नगर, होशियारपुर, पंजाब – 146001
2295	समाज परिवर्तन पार्टी	ग्राम-सलारपुर, पोस्ट-करोरा, तहसील-मछलीशहर, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
2296	समाज रक्षक पार्टी (भारतीय क्रांती)	ग्राम-केन,पोस्ट-कनवार,तहसील-सिराथु,जनपद-कौशाम्बी,उत्तर प्रदेश- 212217
2297	समाज सत्ता दल	मकान सं. -74, पडारा कांगल (बौलिया), निकट प्राइमरी स्कूल, पडारा कांगल, तहसील-सदर, जिला – मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश - 231001.
2298	समाज सेवा पार्टी	मकान नं. 27, बहरामगढ़, तहसील- बुढाना,जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश.
2299	समाज सेवक पार्टी	568ख/223 सेक्टर-7, नियर पुराना भारत गैस गोदाम, गीतापल्ली, आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2300	समाज शक्ति पार्टी	मकान नं0 सी-5/382,न्यू रिसेटलमेंट कॉलोनी,भलसवा,दिल्ली-110042
2301	समाज सुधारक पार्टी	मकान सं.723/2,मंगल पाण्डेय नगर,सेक्टर-2,विश्वविद्यालय रोड,मेरठ,उत्तर प्रदेश-250004
2302	समाज विकास क्रांति पार्टी	विद्धांलय निवास, खिंडीपाडा, दर्गा रोड,मुलुंड कॉलनी,मुलुंड (पश्चिम),मुंबई,महाराष्ट्र-400082
2303	समझदार पार्टी	ग्राम – माहरी(बडौली),पी.ओ. – माहरी,जिला - बलिया,उत्तर प्रदेश – 221716
2304	सामाजिक नवनिर्माण पार्टी	6,फरीदीनगर,पिकनिक स्पॉट रोड,घनश्यामकुंज,इंदिरानगर,लखनऊ,उत्तर प्रदेश –226016
2305	सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी	बी -172, टी.डी.आई. सिटी, फतेहाबाद रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश -282006.
2306	सामाजिक प्रगतिशील पार्टी	भगत सिटी कॉलोनी,बिलंदरपुर रोड,खेजरोली,तहसील-चोमू,जिला- जयपुर,राजस्थान-303803
2307	सामाजिक संघर्ष पार्टी	मकान नं0 59,गली नं0 2,गुरू अर्जुन देव नगर,तरन तारन रोड,अमृतसर,पंजाब- 143002
2308	समाजतांत्रिक पार्टी ऑफ इण्डिया	40/1, बी0 रोड0, बामनगाछी, हावड़ा-711006, पश्चिम बंगाल ।
2309	समाजवादी आम जनता दल	बेलातल रोड,लाया पैलेस के पीछे,वार्ड नं.-2,नौगोंव,जिला-छत्तरपुर,मध्य प्रदेश- 471201
2310	समाजवादी आन्दोलन पार्टी	ग्राम+पोस्ट-दौलतपुर गौहावर बिल्लौच,तहसील-चांदपुर,ज़िला-बिजनौर,ज़िला-

		वाराणसी,उत्तर प्रदेश-246734
2311	समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक	7-5-14/बी, वेंकटेश्वर कॉलोनी, महबूब नगर, तेलंगाना - 509001
2312	समाजवादी जन परिषद	जय माल्हा प्रसाद, रेती बुन्देर रोड, महागिरि,ठाणे (पश्चिम) - 400601, (महाराष्ट्र)।
2313	समाजवादी जनता पार्टी (चन्द्र शेखर)	L एक्सटेंशन 358,मोहन गार्डन,रामा पार्क रोड,उत्तम नगर,नई दिल्ली - 110 059
2314	समाजवादी जनता पार्टी (कर्नाटक)	कमरा संख्या-21, द्वितीय तल,हमीद शाह कॉम्प्लेक्स, नं.-2,कब्बनपेट, मेन रोड, उल्सूर गेट,पुलिस स्टेशन के पीछे, बंगलौर-560002, कर्नाटक।
2315	समाजवादी जनक्रान्ति पार्टी	ए-454,शास्त्री नगर,दिल्ली- 110052.
2316	समाजवादी लोक परिषद	कुसुमपुरम कॉलोनी, नल्थुपुर रोड,पोस्ट - कुरथौल, थाना - परसा बाजार,पटना बिहार-804453
2317	समाजवादी समाज पार्टी	वार्ड नं. - 13, लोहिया नगर, नगर पंचायत - सलेमपुर, जनपद - देवरिया, उत्तर प्रदेश - 274001
2318	समान आदमी समान पार्टी	ग्राम- अमिलवान, पोस्ट ऑफिस- खुटार, थाना माड़ा, जिला- सिंगरौली, मध्य प्रदेश- 486886.
2319	समान अधिकार पार्टी	62/271, नगला काछियान, (मुस्तफा क्वार्टर कॉलोनी) आगरा कैन्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश।
2320	समान भागीदारी पार्टी	538ख/404, दीनदयाल नगर, खदरा, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226020
2321	समान्या मक्कल नाला काची	एस०एफ०न०1172/12 ए,करूर बाईपास रोड,इन्दिरा नगर,इरोड,तमिलनाडू- 638002
2322	सामान्य जनता पार्टी (लोकतांत्रिक)	नं० - 17, मकान नं० - 29, बसावना दुर्गा (कोरम्मा कैम्प), गंगावती, जिला - कोप्पल, कर्नाटक - 583227
2323	समर्थ भारतवर्ष पार्टी	39ए- डी.डी.ए फ्लैट्स (पुराना), चिल्ला, मयुर विहार, फेस-I, दिल्ली- 110091
2324	समर्थ किसान पार्टी	प्रबंधक- मदर टेरेसा कान्वेंट स्कूल, ग्राम व पोस्ट - मनौरी, तहसील - चायल, जनपद - कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।
2325	समता क्रान्ति दल	प्लॉट नं. 3547/3875, मौजा गौतम नगर, नगर, गार्गे छाका, टेम्पल रोड, ओल्ड उन, भुवनेश्वर-751002, ओडिसा।
2326	समता पार्टी	220, विठ्ठलभाई पटेल हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
2327	समता समाधान पार्टी	ई-1/150, अरेरा कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश।
2328	समता संघर्ष पार्टी	55बी, राधेपुरी एक्सटेंशन-1, दिल्ली - 110051
2329	समतामूलक समाज पार्टी	194,कांशी सदन,ए.बी.रोड,ग्राम व पोस्ट- रेन्हट,लैण्ड सर्वे नं.- 299/01/1(एस),पटवारी रेन्हट,तहसील-घाटीगाँव,जिला-गवालियर,मध्य प्रदेश- 475330
2330	समाथुवा मक्कल कझगम	139- टी.एच. रोड, कलादीपेट, थिरुवोतियूर, चेन्नई तमिल नाडु-600019
2331	संभाजी त्रिगेड पार्टी	साई कॉम्प्लेक्स,गाला नं.7,नवा मोंढा,हिंंगोली,तालुका एवं जिला- हिंंगोली,महाराष्ट्र-431513
2332	संविधान बचाओ पार्टी	24/ए/2,एस.डी.मुखर्जी लेन,डाकघर-रिसडा,थाना-रिसडा,जिला-हुगली,पश्चिम बंगाल-712248
2333	समदर्शी समाज पार्टी	ग्राम- मानिकापुर मजरे सराय पाण्डेय, पोस्ट- जौरास, परगना व तहसील-

		हैदरगढ़, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश ।
2334	समनक जनता पार्टी	सर्वे नंबर 120, प्लॉट नंबर 9, भावसार चौक के पास, अनिकेतनगर, तरोडा, (केडी.), मालेनगांव रोड, नांदेड़, टी.के. और जिला - नांदेड़, महाराष्ट्र - 431605.
2335	सामूहिक एकता पार्टी	13/51, परमट, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208001
2336	सम्पर्क विकास पार्टी	शाप न.3, नंदकिशोर अपार्टमेंट, निकट चंद्रनगर बस स्टॉप, नारायणनगर, पालदी, अहमदाबाद, गुजरात-380007
2337	सम्पूर्ण समर्पण पार्टी	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर, भुजौली कॉलोनी, प्लाट नं. ई.डब्ल्यू.एस- 209-210, देवरिया, उत्तर प्रदेश-27400
2338	सम्पूर्ण भारत क्रांति पार्टी	डब्ल्यू जैड- 150, ग्राम- बुढेला, विकासपुरी, नई दिल्ली- 110018
2339	सम्पूर्ण समाज पार्टी	म.न. 464, ग्राम व पोस्ट- गैरवाह, थाना- सरपतहाँ, तहसील- शाहगंज, जनपद- जौनपुर, उत्तर प्रदेश-223103
2340	समरस समाज पार्टी	राजी जरई, मौजा - घामडौज, तहसील - सोहना, जिला - गुडगाँव, हरियाणा ।
2341	सम्राट अशोक सेना पार्टी	मकान नं. 1546, ग्राम व पोस्ट- बेलसर, तहसील- तरबगंज, जिला- गोण्डा, उत्तर प्रदेश-271401
2342	सम्राट मिहिर भोज समाज पार्टी	एफ-64/सी9/197, सेक्टर-40, नोएडा, (नियर साईनाथ मंदिर), जिला-गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201303
2343	समृद्धा ओडिशा	201, सीतलकुंज अपार्टमेंट, प्लाट नं0 एम 63, मधुसूदन नगर, भुवनेश्वर- 751001, उड़ीसा।
2344	समस्त समाज पार्टी	70, ए आर मैकेनिकल वर्क्स, शिवनगर-2, मौजा गद्दीवाला, निकट बी एस वूलन मिल, पानीपत, हरियाणा-132103
2345	समता दल (प्रगतिशील)	मकान सं0 - 480, गाँव - लिसाड़ी, तहसील व जिला - मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250002
2346	समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी	के - 56/114-7 (रानीफाटक), असनगंज, वाराणसी, 221 001, उत्तर प्रदेश
2347	समता विकास पार्टी	मकान हरभजन जांगडे, बार्ड न0 17, मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश ।
2348	समतावादी रिपब्लिकन पार्टी	108, रामपुरम, पी.ए.सी. रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
2349	समुगा मक्कल काची	नं. 3, मुदालियर गली, वलाम गाँव, काँचीपूरम जिला, तमिल नाडु - 602105
2350	सम्यक् परिवर्तन पार्टी	ग्राम - जानकी नगर, रानीपुरवा स्कूल के पीछे, विकास खण्ड - झंझरी, निकट मण्डे नाला पुल, पोस्ट - बस स्टाप, जनपद - गोण्डा, उत्तर प्रदेश
2351	सम्यक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- माण्डा, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-212104
2352	सनातन संस्कृति रक्षा दल	ग्राम - तराँव, पो. थाना एवं तहसील - कोराँव, जिला - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2353	संगठित जनता पार्टी	नं.177, शिवा खण्ड, विश्वकर्मा नगर, दिल्ली-110095
2354	संघर्ष पार्टी ऑफ इंडिया	मकान सं. 314, शान्ति निकेतन, डी0 एम0 रोड, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश - 203001
2355	संघर्ष समाज पार्टी	मकान नं0 - 44, ग्राम - ढुका, पोस्ट - अखा, तहसील - आँवला, जिला - बरेली, उत्तर प्रदेश - 243001
2356	संघर्ष सेना	11, साईराज कॉम्पलेक्स, पंडित नाका, शाहपुर, ता. शाहपुर, जिला. ठाणे, महाराष्ट्र - 421601
2357	साँझी विरासत पार्टी	506, चन्द्रलोक कॉलोनी, गली नंबर- 3, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली- 110093

2358	संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी	नए विग्रहपुर, मीठापुर, (बस स्टैंड) पटना-800001, बिहार
2359	सन्मान राजकीय पक्ष	56, तिरुपति नगर, लोहारा, तालुक व जिला – यवतमाल महाराष्ट्र - 445002
2360	संयोगवादी पार्टी	मकान नं.3, पहली मंजिल, कमर्शियल 1, परस तिएरिया, सेक्टर 137, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201304.
2361	संयुक्त भारत पक्ष	रत्नम बंगलो, नजदीक मीनताई ठाकरे गार्डन, एम्.आई.डी.सी.रोड, बदलापुर (पूर्व), तालुका-अम्बरनाथ, ठाणे, महाराष्ट्र-421503
2362	संयुक्त जनादेश पार्टी	356/225/257, अशोक नगर, काले पहाड, आलमनगर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017.
2363	संयुक्त किसान विकास पार्टी	ग्राम- सुरौन्धा, पोस्ट- बड़की बसौली, थाना- डुमरांव, जिला- बक्सर, बिहार- 802119
2364	संयुक्त क्रांति पार्टी	वार्ड नं.-3, लांजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश - 481222
2365	संयुक्त समाज मोर्चा	92-सी, वार्ड नंबर 13, भगवानपूरा रोड, समराला, लुधियाना, पंजाब-141114
2366	संयुक्त समाजवादी दल	11, जोन्स लाइन्स, आगरा-282004, उत्तर प्रदेश।
2367	संयुक्त संघर्ष पार्टी	शोरूम नंबर 10, निचला भूतल, हाई ग्राउंड रोड, नाभा, उप-तहसील- जीरकपुर, मोहाली, जिला-एस.ए.एस. नगर-140603 (पंजाब)
2368	संयुक्त विकास पार्टी	ग्राम – सारसौल, पोस्ट ऑफिस – मुनी, थाना – अरनियों, तहसील – खुर्जा, जिला – बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।
2369	सपाक्स पार्टी	144, विद्यानगर, होशंगाबाद रोड भोपाल, मध्य प्रदेश- 462004
2370	सर्व सौंझी पार्टी	सागर हास्पिटल, नियर पीर बाबा मादी शाह जी, बस्सी ख्वाजू, होशियारपुर, पंजाब- 146001
2371	सरदार पटेल सिद्धान्त पार्टी	ग्राम- नेवादा, पोस्ट- बहुता, तहसील- पट्टी, जिला- प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश- 230135।
2372	सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टी	1, ओलेकर हाऊस, दत्तापेडा रोड, बोरीवली पूर्व, मुम्बई - 400 066
2373	सर्व आदि दल	फर्स्ट हाउस, वार्ड 14, गोवर्धन, रावतभाटा, अपोजिट पंजाबी ढाबा, बिरगांव, रायपुर बिलासपुर राजमार्ग, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़-492001
2374	सर्व जन पार्टी (भारत)	ई-734, कृष्णा मंदिर के पीछे, शकरपुर, दिल्ली- 110092
2375	सर्व जन सर्व समाज पार्टी	2/248, टी एफ, सुभाष नगर, नई दिल्ली - 110027
2376	सर्व राज्य पार्टी	548घ/17, तेजी खेड, तालकटोरा रोड, मानक नगर, जे.आर.पी.एफ. के पास, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226011.
2377	सर्व समाज पार्टी	46, राजीव नगर, मण्डी चौक, गढमुक्तेश्वर, हापुड, उत्तर प्रदेश- 245101
2378	सर्व सम्भाव पार्टी	यादव भवन, पुवायों रोड, ग्राम व ब्लॉक- बान्दा, तहसील- पुवायों, जिला- शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।
2379	सर्व विकास पार्टी	गाँव – प्रतीत नगर, एन0 एच0 – 58, पोस्ट ऑफिस के नजदीक, रैवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड -249205
2380	सर्व हित पार्टी	602-बी, खसरा सं0 298/199, 298/207, 298/209, मौहल्ला बाँस, सुनार वाली गली, ग्राम – धिठोरनी, नई दिल्ली - 110030
2381	सर्व जन समाज पार्टी (नन्द किशोर चावला)	चावला प्रोपर्टीज, लक्ष्मी विहार, कैमरी रोड, हिसार, हरियाणा।
2382	सर्व जनता पार्टी	सेन्ट्रल पार्टी ऑफिस #17, जावाली (ग्राम), पिलंगिरी (पोस्ट), शिमोगा (तालुक), जिला- शिमोगा-577 227, कर्नाटक।

2383	सर्व समाज जनता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- ओरिल (खपडियाचक), तहसील- फूलपुर, जिला- आजमगढ़ उत्तर प्रदेश- 223222
2384	सर्व समाज जनहित पार्टी	धूरीपुर (जखौँव) म ज्ञानपुर रोड गोपीगंज, तहसील-ज्ञानपुर, जिला-भदोही, उत्तर प्रदेश- 221304
2385	सर्व समाज कल्याण पार्टी	विजराज भवन, ग्राम – सिंधारपुर, पो. - अहमदपुर, मथुरा रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
2386	सर्व सुरक्षा पार्टी	ग्राम व पोस्ट- तिलखवार, जिला - करछना, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
2387	सर्वधर्म पार्टी (मध्य प्रदेश)	120/1, अशोका गार्डन, तहसील – नजूल, जिला – भापाल – 462023, मध्य प्रदेश
2388	सर्वजन हिताय पार्टी	70/59, लीडर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211003
2389	सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी	कॉफेड, मीन भवन, तृतीय तल, न्यू पुनाईचक, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना, बिहार – 800023
2390	सर्वजन समाज पार्टी (डी)	ग्राम व पोस्ट आफिस - वाडला बांगर, तहसील-गुरुदासपुर, जिला- गुरुदासपुर, - 143511 पंजाब।
2391	सार्वजनिक आदर्श सेना	20/1, दूसरा मेन, 8 क्रॉस, चामुंडी ले आउट, विद्यारणयापूरा, बेंगलुरु-560097
2392	सरवर पार्टी	ग्राम व पोस्ट-बसंतपुर, कैम्पियरगंज, जनपद- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273158
2393	सर्वे भवन्ति सुखिनः पार्टी	ग्राम व पोस्ट - ममदर, तहसील व थाना - रामपुर नैकिन, जिला - सीधी, मध्य प्रदेश।
2394	सर्वहारा दल	केवला फरियट्टा, बाया – गिधौर, जिला – जमुई, (बिहार)।
2395	सर्वहारा विकास पार्टी	मकान नं० 102, जंगल मातादीन, आर्यपुरम कॉलोनी, पोस्ट - पदारी बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश – 273014
2396	सर्वहित समाज सेवा पार्टी	मकान नं० – 177, ग्राम व पोस्ट – शाहजहाँपुर बैजना, थाना – दादों, जिला – अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202133।
2397	सर्वजन आवाज पार्टी	नं.528, ब्लॉक-बी, प्लैटिनम हाइट्स, सेक्टर-18बी, द्वारका, नई दिल्ली-110078
2398	सर्वजन लोक शक्ति पार्टी	टी.ए.184/2, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110019
2399	सर्वजन नवयुग विकास पार्टी	ग्राम+पो0 – बिसुनपुर, बेदौलिया, थाना-जन्दाहा, जिला-वैशाली, बिहार-844505
2400	सर्वजन समता पार्टी	774, गीतांजलि विहार, वार्ड नंबर 28, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201102
2401	सर्वजन सनातन पार्टी	म. नं.-बी-1/148, ए-1ए, अस्सी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221005
2402	सर्वजन सेवा पार्टी	163/200/1, सलारी का हाता, चिकमण्डी, मौलवीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-18
2403	सर्वजन सुखाय पार्टी	अड्डा निहाल, मानिकपुर विसु, तहसील इटावा, ,मैन रोड, एन.एच.-2, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश-206001
2404	सर्वलोकहित समाज पार्टी	16/94, ए-ब्लॉक, बाबा कॉलोनी, बुराडी, दिल्ली-110084
2405	सर्वोदय भारत पार्टी	बी – 19, सेक्टर – 'O', अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2406	सर्वोदय कर्नाटक पक्ष	“अनिकेतना”, प्रथम तल, एस.जे.एम. समुदाय भवन, कालीदास रोड, गाँधीनगर, बेंगलोर – 560 009, (कर्नाटक)।
2407	सर्वोदय प्रभात पार्टी	बी-3/231, नंद नगरी, दिल्ली-110093
2408	सर्वप्रिये समाज पार्टी	मोहल्ला- अशोक नगर शहरिया, विष्णुपुरम कॉलोनी, जिला- इटावा, उत्तर प्रदेश- 206001
2409	सर्वसमाज न्याय पार्टी	ओशन टावर पर नंबर 101, कॉर्मिशनल कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 1152/53, झोटवाडा रोड, जयपुर, राजस्थान- 302012.

2410	सर्वशक्ति दल	डी-60, देव नगर, मुरलीपुरा, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान- 302039
2411	सर्वश्रेष्ठ दल	ग्राम – शाहदाऊदपुर उर्फ ककोरगहना,पो. एवं तहसील – सदर, जिला – जौनपुर,उत्तर प्रदेश ।
2412	सशक्त भारत पार्टी	मकान न0 345,पराशर भवन,जाटों का मोहल्ला,पोस्ट-कन्नौज,तहसील-भदेसर,जिला-चितौड़गढ़ राजस्थान- 312613
2413	साथी और आपका फैसला पार्टी	प्लॉट नं0 - 2005, ग्राम - चमरहरा, महनार रोड, जिला - वैशाली, बिहार - 844507
2414	सत्ता कल्याण पार्टी	न० डी-144,परस प्रभु सोसाइटी,निकट सोनल पार्क,इसानपुर,जिला-अहमदाबाद,गुजरात-382443
2415	सत्तरी युवा मोर्चा	एच नं0 – 48, कनकिरे, गुलेली, सत्तरी, गोवा ।
2416	सत्तातगम मक्कल कच्ची	1-3/1020 बी,ग्रीन गार्डन,यूइयोरियल पुन्ना रोड,विनायगम्पट्टी,जिला-सेलम,तमिल नाडु- 636008.
2417	सत्य बहुमत पार्टी	ए-112, प्रताप नगर, गली नं. 15, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-110091
2418	सत्य क्रान्ति पार्टी	म0 नं0 – 176 ई, शिवपुर, सहबाजगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
2419	सत्य शिखर पार्टी	मकान सं0 - 70-ए, ग्राम – नरहरपुर (शंकरपुर), पोस्ट ऑफिस – मियागंज, जिला – फैजाबाद, उत्तर प्रदेश - 224208
2420	सत्या विकास पार्टी	बी-7,सैलजा अपार्टमेंट,निकट सुगम फ्लैट,वासना अहमदाबाद,जिला-अहमदाबाद,गुजरात-380007
2421	सत्यनिष्ठ जन सेवक पार्टी	मकान नं.128,वार्ड नं.5,ललित नगर,एसडीएम निवास के सामने,तहसील व पोस्ट-सुन्दर नगर,जिला-मण्डी,हिमाचल प्रदेश-175019
2422	सत्यावादी रक्षक पार्टी	बी/501,योगी पूजन अपार्टमेंट, अक्षर फार्म रोड. विधा नगर, गुजरात-388120
2423	सौराष्ट्र जनता पक्ष	मकान संख्या- 6/3/116, हिम्मत लाल परमार रोड, वादिपारा, सुरेन्द्र नगर, गुजरात- 363001
2424	सवर्ण समाज पार्टी	ईस्ट ऑफ स्टेडियम, नन्द हार्डवेयर, सिरमौर रोड, रीवा-486001, (मध्य प्रदेश) ।
2425	सेक्यूलर एलाइंस ऑफ इण्डिया	केशवानी कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, नवजीवन कॉर्पोरेटिव बैंक लि0, चोपडा कोर्ट ब्रांच, उल्हास नगर, 421003, महाराष्ट्र ।
2426	सेक्यूलर डेमोक्रेटिक कांग्रेस	नं. 958/डी, वार्ड नं. 13, (पुराना नं. 722/डी, वार्ड नं. 10), (केलाकम पुलिस स्टेशन के पास), पी.ऑ- केलाकम ग्राम पंचायत, जिला- कन्नूर, केरल- 670674
2427	सेकुलर इंकलाब पार्टी	मकान नं.202,राजीव गार्डन,लोनी,गाज़ियाबाद,उत्तर प्रदेश-201102
2428	सेक्युलर नेशनल द्रविड़ पार्टी	काडक्कावूर बिल्डिंग, थुमपारा नगर,मुन्डाक्कल, कोल्लम शहर, कोल्लम-691001, करेल ।
2429	सेक्यूलर पार्टी ऑफ इंडिया	मं. नं. 122-ए, रामविहार, ओल्ड जानीपुर,जम्मू-180007, (जम्मू व कश्मीर) ।
2430	सेक्युलर रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी	एडम स्टार कॉम्प्लेक्स, कमरा नं. 132, पहली मंजील, द्वितीय ब्लॉक, थोडुपुझा, इडुक्की जिला, केरल।
2431	सहजधारी सिख पार्टी	622/9, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, रायकोट, जिला लुधियाना, पंजाब ।
2432	सर्व भलाई पार्टी	मकान सं. 625, नया आजाद नगर, सुल्तान विंड रोड,अमृतसर पंजाब- 143001
2433	सर्विस अढहेयार्ड विथ इंटीग्रिटी देसम पार्टी	प्लॉट नं-29,फेज-1,मेन रोड,नियर पुलिस स्टेशन,वनास्थालिपुरम,हैदराबाद तेलंगाना - 500070
2434	सर्विस क्लास पार्टी	एचआईजी, 4/305, विनीत खंड गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
2435	सेवा दल	532,(ऑपोज़िट 126-आर),सी॰आर॰कॉलेज रोड,माडल टाउन,रोहतक-

		124001, हरियाणा
2436	सेवा साम्राज्य पार्टी	ढबुनाईक तांडा, आनंदवाडी, ता0 – पालम, जि0 – परभणी, महाराष्ट्र – 431536
2437	शक्ति सेना (भारत देश)	सिमि भवन, नेशनल हाईवे 43, कास लेन तिराहा, देवपुरी, रायपुर छत्तीसगढ़-492015
2438	शक्तिमान समाज पार्टी	फ्लाट नं.-133, कौशलपुरी फेस-II, ग्रामर स्कूल के पास, पोस्ट-खोजपुर, जिला-अयोध्या (फैजाबाद), उत्तर प्रदेश- 224001.
2439	शाने हिन्द फोरम	बी-111/1, बी- ब्लॉक, अशोक बिहार फेज-1, नई दिल्ली- 110024
2440	शंकनाद पार्टी	चैंबर नंबर-6, चुनाव कार्यालय रोड, सिविल कोर्ट, कंपाउंड कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208001
2441	शान्ति मोर्चा	एक्स-919, चाँद मौहल्ला, गाँधी नगर, दिल्ली - 110031.
2442	शाइनिंग इंडिया पार्टी	वार्ड नं. - 6, पोस्ट - देशनोक, जिला - बीकानेर, राजस्थान - 334801
2443	शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) (सिमरनजीत सिंह मान)	ग्राम-किला, यस हरणाम सिंह-पो. आ. तेल्लानिमा, जिला-फतेहगढ़ साहब, पंजाब-140406.
2444	शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त)	प्लाट न.92, सेक्टर-82, एयरपोर्ट रोड, साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली), पंजाब-140308.
2445	शिरोमणि अकाली दल (टकसाली)	नं. 30, गुरु हर राय अवेन्यु, खालसा कॉलेज के सामने, अमृतसर, पंजाब-143001
2446	शिरोमणि लोक दल पार्टी	भवन संख्या – 108, कृष्ण मंदिर के निकट, दाना मंडी के सामने, जी.टी. रोड, अमृतसर, पंजाब ।
2447	शिवराज्य पार्टी	फ्लैट नं. बी/102, डेक्कन अपार्टमेंट, यूनियन पार्क, पाली हिल, खार (पश्चिम)-400052
2448	शोषित इंकलाब पार्टी	मुरलीचक, जगदेव पथ, नजदीक जगदेव स्मृति अपार्टमेंट्स, डाकघर - बी.बी. कॉलेज, पटना, बिहार- 800014
2449	शोषित समाज दल	सैंटर ऑफिस:- दक्षिणी मंदिरी, पटना-800001, (बिहार) ।
2450	शोषित संदेश पार्टी	गिर्द बड़गाँव, संद रविदास नगर, भदोही, उत्तर प्रदेश ।
2451	श्रम शक्ति पार्टी	जे-1749, जे- ब्लॉक, जहाँगिरपुरी, दिल्ली- 110033
2452	श्रमजीवी पार्टी	1-6-48, ओल्ड अलवाल, पोस्ट बोल्लाराम, सिकन्द्राबाद - 500010, आन्ध्र प्रदेश ।
2453	श्री जनता पार्टी	मान्डा सदन, द्वारिका नगर, रीवा, मध्य प्रदेश-486001
2454	शुभा कर्नाटक	'हाउस नं. 1262, कुस्तगी रोड, फस्ट क्रास, गजेन्द्रगढ़, जिला-गडग- 512114, कर्नाटक ।
2455	सिक्किम नेशनल पीपल्स पार्टी	द जोंग, एम.जी.मार्ग, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम-737101
2456	सिक्किम राज्य मंच पार्टी	यंगॉग बाजार, पी.टी.सी. रोड, पोस्ट ऑफिस- यंगॉग, थाना - रवाँगला, दक्षिण सिक्किम, सिक्किम- 737134
2457	सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी	सेन्ट्रल पेन्डम, सजोंग वार्ड नं.- 3, पोस्ट ऑफिस- अपर पेन्डम, थाना- रोंगपो, पूर्व सिक्किम- 737132
2458	सिक्किम यूनाईटेड फ्रंट	सापकोटा बिल्डींग, असम लिंग्जे सोराने, पो.ऑ- असम लिंग्जे, पी.एस- रानीपूल, पूर्व सिक्किम- 737135
2459	सिरुप्पानमई मक्कल नाला काँची	नं. 16ए, 9वी क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, पामल, काँचीपुरम जिला, चेन्नई तमिलनाडु-600075

2460	स्मार्ट इंडियंस पार्टी	ग्राम पंचायत- घाना खमरिया, जैन बिल्डिंग के सामने, जबलपुर, मध्य प्रदेश-482005
2461	समस्त भारतीय पार्टी	डब्ल्यू-6/5, डीएलएफ सिटी, फेज-III, गुडगाँव-122002, हरियाणा।
2462	सोशल एक्शन पार्टी	मइलाकल हाऊस, रात्री, पठानामट्टा जिला,पिन-689072, (केरल)।
2463	सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	सी-4,हज़रत निजामुद्दीन वेस्ट,नई दिल्ली-110013
2464	सोशल जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 2-97, चिनाराविराला गाँव, हयातनगर- मंडल, रंगा रेड्डी- जिला, तेलंगाना स्टेट- 501505
2465	सोशल मूवमेंट पार्टी	प्रधान कार्यालय- 539, लेन नं. 29, राजपुरा मंगोत्रियां, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर-180001
2466	सोशलिस्ट जनता पार्टी	एक्स. बी-1, साह विकास अपार्टमेंट, पटपडगंज, दिल्ली-110092
2467	सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)	लोहिया मजदूर भवन मकान सं0 41/557, डॉ. तुफेल अहमद मार्ग, नरही, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2468	सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी	स्टेट कमेटी ऑफिस, ट्यूटर्स, लेन, स्टेच्यू, त्रिवेन्द्रम-695001, (केरल)।
2469	सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट)	48- लेनिन सरानी (पहली मंजिल), कोलकाता-700013, पश्चिम बंगाल.
2470	सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी	प्लॉट नं. 218, विनायक एनक्लेव के पीछे, ग्राम - कोलथिया, पोस्ट - आईगिनिया,जिला-खोर्दा, भुवनेश्वर, ओडिसा - 751019
2471	सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी	पोस्ट बाक्स नं. 1089, जनरल पोस्ट ऑफिस, श्रीनगर-190001, जम्मू व काश्मीर।
2472	सोनांचल संघर्ष वाहिनी	भूमि सं0 597,विकास नगर,राबर्ट्सगंज वार्ड नं0 12,पुराना वार्ड-6 जिला- सोनभद्र,उत्तर प्रदेश- 231216.
2473	साउथ इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक	63, मुनिसीपलायम रोड, (42/4-68सी), अरापालयम, कनमईकरई मेन रोड, मदुरई, तमिलनाडु - 625016
2474	स्पष्टवादी जन आधार पार्टी	एमआई-344, डबल स्टोरी, पहली मंजिल, बर्रा-2, कानपुर शहर, उत्तर प्रदेश-208027
2475	स्टार अल्ट्रिस्टिक हामेनेटेरियन यूनिटी पार्टी	तहसील रोड,गौरीगंज,जिला-अमेठी,उत्तर प्रदेश-227409
2476	स्टेट समविभाजन पार्टी	मकान संख्या - 56, गाँव - सोनखास, ता. - नेर, जिला - यवतमाल, महाराष्ट्र - 445102।
2477	स्टेट्समैन इंडिया पार्टी (इन्टलेक्चुअल)	33,अण्णाभऊ साठे नगर, रमाबाई कॉलोनी, व्ही. एन. नाइक मार्ग, पूर्व दुतगति महामार्ग, घाटकोपर (पू.),सुंबई,महाराष्ट्र-400084
2478	स्टुडेंट्स युनाइटेड फार नेशन पार्टी	डी.नं. 12-464/4, बी- ब्लॉक, टाडेपल्ली, जिला- गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश -522501
2479	सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी (सुभास पार्टी)	एफ-10, पटेल नगर-111, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201003
2480	सुदेशी मक्कल नीधि काची	नं. 24/38, एफएफ2, कुट्टी ग्रामिणी स्ट्रीट, राजा अन्नामलैपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600028
2481	सुधारवादी पार्टी	मो. पिऊनी बाग, वार्ड नं.-32, बेतिया, पोस्ट-बेतिया, थाना- बेतिया-नगर, जिला- पश्चिम चम्पारण, बिहार- 845438.
2482	सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी	ग्राम: मीरन गंज, पो - रामपुर रसडा, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश - 221712.
2483	सुहेलदेव पार्टी	ग्राम व पोस्ट - फुलेश, जिला - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, पिन - 223224
2484	सुमिति मुक्ति मोर्चा	प्लॉट नं. 347(एलआर) 391(आरएस), खेतान नं. 2194(एलआर), मोजा-पंचनई, एरिया 5 डिसमिल, पोस्ट- माटीगारा, जिला- दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल-

		734010
2485	सुनहरा भारत पार्टी	बिल्डिंग नंबर #बी-17,2173/2ए/1ए,जम्मू कॉलोनी,अब्दुल्लापुर रोड,लुधियाना,पंजाब-141003.
2486	सुन्दर समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट – नांगोई, तहसील-खारसिया, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़-496 665 ।
2487	सुनहरा पंजाब पार्टी	319,सेक्टर-9,चंडीगढ़-160009
2488	सुपर नेशन पार्टी	57/1, थाथावल्ली गांव, कुरुमभगेरी पोस्ट, तिरुपचुर तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु- 635653
2489	सुपर पॉवर इण्डिया पार्टी	78,ऊपरी भूतल,ब्लॉक-ए,एनआरआई सिटी सेंटर,परी चौक,ग्रेटर नोएडा,जिला,गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201310
2490	सुपर रेंजर्स पार्टी	शांप नं0. 51, थर्ड फ्लोर, स्कन्दा शॉपिंग मॉल, बिहाइंड कोल्स मेमोरियल चर्च के, कर्नूल, आंध्र प्रदेश-518001
2491	सुपर स्टार्स मक्कल कलगम	डी. नं0 26, एवीपी ले आउट, द्वितीय गली, गांधी नगर, तिरुपुर, तमिल नाडु- 641603
2492	सुप्रीम जीरो पार्टी ऑफ भारत	वार्ड नं.6,होलिडिंग नं.222,उपरी शाही,खोरधा म्यूनिसिपलिटि,पोस्ट/थाना/जिला-खोरधा,ओडिशा-752056
2493	सुराज सेवा दल	ग्राम – रामड़ी जसुवा, पो0 – फतेहपुर, तहसील – हल्द्वानी, जिला - नैनीताल, उत्तराखण्ड
2494	सुरक्षा समाज पार्टी	मोहल्ला – तरकापुर (सोनकर बस्ती), भवन संख्या – 1102/1, वार्ड संख्या – 7, पो0 व तहसील – सदर, जनपद – मीर्जापुर, उत्तर प्रदेश – 231001
2495	सूर्या जनसेवा पार्टी	#2,सेकेंड फ्लोर,5 क्रॉस,अंजना नगरा,बेंगलोर कर्नाटक- 560091
2496	सूर्या रेवती प्रजा पार्टी	मकान नं0 54, ए.पी.आर. प्रणव एनटीलिया, बाचुपल्लया, हैदराबाद, तेलंगाना- 500090
2497	सुशासन पार्टी	हाउस नं0-558, गाँव व पोस्ट-बडसी, तहसील-बवानीखेड़, जिला-भिवानी- 127032, हरियाणा ।
2498	स्वतंत्र भारत सत्याग्रह पार्टी	शॉप नं0 – 7 व 8, अपर ग्राउन्ड फ्लोर, भगवती आर्केड, जवाहर रोड नं0 – 5, उधना उद्योग नगर, उधना, सूरत, गुजरात – 394210 ।
2499	स्वाभिमान जनता दल	निर्भय कोल्ड स्टोर, खलवाईनगर, डुमराँव, बक्सर, बिहार- 802119
2500	स्वाभिमान पार्टी	31/666 न्यू शान्ति नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़.-492001
2501	स्वाभिमानि पक्ष	जयसिंगपूर, जिला – कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416 101
2502	स्वच्छ भारत पार्टी	साँई बाबा मंदिर भोज्यावास, भोंकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान ।
2503	स्वच्छ स्वस्थ स्वावलम्बीजन पार्टी	मकान संख्या 108, पयागीपुर, निकट आई.टी.आई. के सामने, सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश- 228001
2504	स्वदेश जन सेवक पार्टी	जे.पी.नगर, नई बस्ती, प्रेमचक उर्फ उमरगंज, बलिया, उत्तर प्रदेश- 277001
2505	स्वदेशी एकता मंच	बी-3/253,विनय खण्ड-3,गोमती नगर,गोमती नगर रेलवे स्टेशन के सामने,लखनउ,उत्तर प्रदेश- 226010
2506	स्वदेशी हिन्द पार्टी	ग्राम व पोस्ट-हृतिसा,मथुरा रोड क्रासिंग के पास,तहसील एवं जिला-हाथरस,उत्तर प्रदेश- 204101
2507	स्वाधीन स्वराज पार्टी	213/63,महात्मा गांधी मार्ग,सिविल लाइंस,प्रयागराज,उत्तर प्रदेश-200001
2508	स्वाधीनता पार्टी	भूतल, स्वर्गीय सुरेश प्रसाद, कॉलेज गेट के पास, पूरब बाजार, वार्ड संख्या 30, सहरसा, बिहार-852201

2509	स्वराज (जे)	जंगल सुहास कुंवारी (महावीर छपरा).पोस्ट आफिस-महावीर छपरा, पुलिस स्टेशन-बेलीपर, तह0-सदर, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
2510	स्वराज भारतीय न्याय पार्टी	एच.नं.सी-50,मेन 20 फुटा रोड,मीत नगर,शाहदरा,दिल्ली-110094
2511	स्वराज इंडिया	यूनिट 109, प्रथम तल, एम.एम. हाउस, 59 रानी झांसी रोड, नई दिल्ली - 110055
2512	स्वराज जनता पार्टी	बी-79-बी, गली नं.7, फेज-1, शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली- 110094
2513	स्वराज क्रांति पार्टी	बी-31,दूसरा तल,टेजेन्द्रा कॉम्प्लेक्स,सी.एम.सी. के सामने,ओढव रोड,ओढव,अहमदाबाद,गुजरात-382415
2514	स्वराज पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं0 – 17, ग्राम – मोगलपुरा, ग्राम पंचायत – मोगलपुरा, पो0 ऑ0 – बख्तियारपुर, जिला – पटना, बिहार – 803212
2515	स्वराज्य लोकशाही पार्टी	स्वराज्य भवन, 301, 302 कुदेरा, चेम्बर्स, संचेती अस्पताल के बगल में, शिवाजी नगर, पुणे, महाराष्ट्र-411005
2516	स्वराज्य निर्माण सेना	मकान नं0 396/1, इंदिरा वसाहत, उत्तम नगर, पुणे, महाराष्ट्र – 411023
2517	स्वराज्य पार्टी ऑफ इंडिया	बी-33, सैक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ-226024, उत्तर प्रदेश।
2518	स्वराज्य राष्ट्र निर्माण सेना	एच. नंबर 797, वार्ड नंबर. 01, पोस्ट- कोरेगाँव, भीमा, तालुक- शिरूर, जिला पुणे, महाराष्ट्र- 412216
2519	स्वराज्य सेना (महाराष्ट्र)	नं. 586, मुहल्ला- मासुर्डी, पोस्ट- टाका, तहसील- औसा, जिला- लातूर, महाराष्ट्र- 413520
2520	स्वराज्य शक्ति सेना	एटी-64, ग्रीन्स, 101, बी विंग, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के बगल में, टैगोर रोड, सांताक्रूज पश्चिम मुंबई-400054
2521	स्वर्ण भारत पार्टी	जी-249 पालम विहार, गुडगाँव, हरियाणा – 122017
2522	स्वर्णिम भारत इन्कलाब	एल.जी. - 22, सनराईज टावर, 579, एम. जी. रोड, इन्दौर, मध्य प्रदेश।
2523	स्वतंत्र भारत पक्ष	“राही”, खोकादपुरा, औरंगाबाद-431001, (महाराष्ट्र)।
2524	स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी	खसरा नं०916, गाँव – धिलावल, गहिया, पो० - भोपल पट्टी, पी.एस० - मऊ दर्वाजा, जिला– फर्रुखाबाद, उत्तरप्रदेश – 209625
2525	स्वतंत्र जनताराज पार्टी	811/1, सिविल लाइन आंशिक, वार्ड नं0 – 52, झांसी, उत्तर प्रदेश- 284001
2526	स्वतंत्रता पार्टी (जन)	195, सेंट मेरीस रोड, आलवारपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600018
2527	स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी	12-एच, ट्रैफिक कोतवाली के सामने, दरियागंज, नई दिल्ली-110 002.
2528	स्वतंत्र समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट – लेभरी, थाना-दरौली, प्रखण्ड/अंचल-मैरवा, सिवान-841239, बिहार।
2529	स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी	नं0-2, महावीरनगर, अपोजिट कल्याण मिल, नियर चेतना होटल, नरोदा रोड, सैजपुरा-भोगा, अहमदाबाद, गुजरात-382345
2530	स्वयम कृशी पार्टी	नं.-17/बी, नन्जप्पा काम्प्लेक्स, ग्राउण्ड फ्लोर, कनकपुरमेन रोड, बनावशंकर, शकाम्बरी नगर, बैंगलुरु कर्नाटक- 560070
2531	स्वय शासन पार्टी	चैबर नंबर 10, राव तुला राम ब्लॉक, कोर्ट नंबर 21, गेट नंबर 2, जिला-गुडगांव हरियाणा-122018
2532	तमिल मनीला काँग्रेस (मूपनार)	नं0-4, अशोक रोड, अलवरपेट, चेन्नई – 600018.
2533	तमिल मानिला काची	नं0 - 74, जरमियाह रोड, वेपेरी, चेन्नई, तमिलनाडु - 600007
2534	तमिल मानिल मुरपोक्कु द्रविड कन्नगम	नं. 27, प्रथम तल, गुडीयात्तम रोड, रेलवे काल्याण मण्डम के समाने, काटपाडी, वेल्लूर-जिला, तमिलनाडु- 632007

2535	तमिल नाडु इलैंगयर काची	नं.- 23, गणेश एवेन्यु, शक्ति नगर, पोरुर, चेन्नई, तमिल नाडु- 600116
2536	तमिलनाडु पीजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी	नं0 1, जयाम्मल रोड, तेनामपेट, चेन्नई-600018, (तमिलनाडु)।
2537	तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी	पुराना नं. 4/51, नया नं. 197, पेरुमाल कोइल स्ट्रीट, टी.इडैयार पोस्ट, तिरुकोइलुर तालुक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु- 607203
2538	तमिल थायग मक्कल मुन्नेत्र कच्ची	नंबर 61/2, दूसरी मंजिल, 5 वीं मेन रोड, सी.आई.टी. नगर, नंदनम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600035
2539	तमिलागा मक्कल द्रविड मुन्नेत्र कजगम	3-196, पोस्ट - वेम्बरपट्टी, वेम्बरपट्टी, तालुक व जिला - डिंडिगुल, तमिलनाडु - 624008
2540	तमिलागा मक्कल मुन्नेत्र कजगम	563-शान्ति कॉलोनी, एन.के.बी. नगर, पलायमकोटाई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु।
2541	तमिलगा मक्कल नाला काची	2/272, ए राजपालयम मेन रोड, कुवलैकन्नी (पीओ), तेनकासी जिला, तमिलनाडु- 627753
2542	तमिलगा मक्कल तन्तुरीमई काची	मकान नं. 4ए, महालक्ष्मी नगर, कोर्ट के निकट, कटनाचमपट्टी गांव, रासीपुरम तालुका, नामक्कल जिला, तमिलनाडु- 637408
2543	तमिलह स्ताभन कांग्रेस	26/1. 33इ, हेनरी रोड, नीसामोनी नगर, नागरकोईल, तमिल नाडु- 629001
2544	तमिलार देशीय मुन्नई	119/ए, डिपोलाईन, सी.पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु -600043
2545	तमिलार मक्कल काँची	ग्राम - दुमबलाअल्लीडेम, पोस्ट ऑफिस - गेंडीगानहल्ली, तालुक - पालकोड, जिला - धर्मापुरी, तमिलनाडु - 635205
2546	तमिलनाडु महात्मा गांधी मक्कल काँची	9-2/1 सी, तेद्वीविलय वीडू, श्री देवीकुमारी महिला कॉलेज के पास, कुलीतुरै, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु - 629163.
2547	तमिलनाडु मक्कल नालवडुवु पेरीयक्कम	नंबर 6 ए, 10 वीं क्रॉस स्ट्रीट, थिरुवेंगदा नगर, थिरुनिन्नवुर, थिरुवल्लूर जिला, अवधी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तिरुवल्लुर संसद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु- 602024.
2548	तमिलनाडु मक्कल उरीमई काँची	43, वी.ओ.सी. नगर, किचीपलायम, सलेम, तमिलनाडु- 636015
2549	तमिलनाडु तेलुंगु मक्कल काची	मकान नं0 - 1/803, करपगम विश्वविद्यालय के सामने, पोलाची मेन रोड, कोयमबटूर, तमिल नाडु - 641021
2550	तामिज़ागा मूरपोक्कू मक्कल काच्चि	82/1, 5वीं स्ट्रीट, पदमानाभा नगर, अडयार, चेन्नई -600 020 तमिलनाडु।
2551	तमिज़ग वाडवुरीमई काँची	13-6-54, पिलैयार कोयल स्ट्रीट, समराजापेट्टई पोस्ट, मेचेरी मेत्तुर तालुक, सलेम जिला, तमिल नाडु - 636451
2552	तमिज़र देसम काच्चि	27/44, कुडी स्ट्रीट पेरिया, कोठमंगलम रामजी नगर, तिरुचि पश्चिम तालुक, पिराटियुर पश्चिम गांव, तिरुचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु-620009
2553	तरंग पार्टी	के.एच.पी./55/26, योगेन्द्र विहार नौवस्ता, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208021
2554	ताराराणी पक्ष	वार्ड नं. 6, मकान नं.2067, धानगर माल (शिवनगर), कोरोची, तहसील- हातकणंगले, जिला- कोल्हापुर महाराष्ट्र- 416109
2555	तीन एक पार्टी	कार्यालय - पोडलगुडा, पी.ओ. माझीगुडा, जिला - नबरंगपुर, ओडिशा - 764059.
2556	तहरिक इंकलाब पार्टी	अनसर नगर, अब्दुल राशीद मंजिल, ताजोद्दीन बाबा नगर, नियर इलाही मस्जिद, लातुर, महाराष्ट्र- 413520
2557	तेजस जनकल्याण पार्टी	26ए, सेंट्रल रोड (गोल्फ ग्रीन), जादवपुर, कोलकाता, (केएमसी वार्ड नंबर- 095) पश्चिम बंगाल - 700032.

2558	तेलंगाना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	म0 नं0 – 3-4-760/19, नारायणगुडा फलाईओवर ब्रिज के बाजू में, बरकतपुरा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश – 500027
2559	तेलंगाना द्रविड़ प्रजला पार्टी	डी.नं.-1-158/1, ग्राम-सीथमपेट मंडल-हसनपर्थी, जिला-हनमकोंडा, तेलंगाना-506371
2560	तेलंगाना इंटि पार्टी	14-70, बी.टी. कॉलोनी, पोस्ट व मंडल- नकरेकल, जिला- नलगोंडा, तेलंगाना - 508211
2561	तेलंगाना जागीर पार्टी	मकान नं. 4-32/1, मुनुगानूर -गाँव, अब्दुलापुरमेट- मण्डल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना स्टेट- 501511
2562	तेलंगाना जन समिति	मकान नं. 7-1-215/ई, बलकमपेट, नेचर केयर हॉस्पिटल के पास, हैदराबाद, तेलंगाना- 500016
2563	तेलंगाना कार्मिका रैतु राज्यम पार्टी	गाँव – बैरानपल्ली, पोस्ट – सिद्धापुर, मंडल – हसनपर्थी, जिला – वरंगल, तेलंगाना ।
2564	तेलंगाना लेबर पार्टी	म. न. 8-2-293/82/बी.जे.आर./ए/1, बी.जे.आर. नगर, फिल्म नगर, जुबिली हिल्स, मंडल - शेखपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500096
2565	तेलंगाना लोकसत्ता पार्टी	प्लॉट संख्या-46, फ्लैट संख्या-201, गनरौक टीचर्स कॉलोनी, त्रिमुलघेरी, सिकन्दराबाद-500015 आन्ध्र प्रदेश ।
2566	तेलंगाना माइनोंरिटीज ओबीसी राज्यम	17-3-4, रियान बाज़ार, याकूतपुरा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500 023
2567	तेलंगाना प्रगति समिति	एडीआर एस्टेट हाउस नं0-2-22-295, दूसरी मंजिल, भाग्यनगर कॉलोनी, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, केपीएचबी मेन रोड, कुकतपल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500072
2568	तेलंगाना प्रजा समिति (किशोर, राव और किशन)	मकान नं0 10-4-108, गिरमाजीपेठ, वारंगल-506002 आन्ध्र प्रदेश ।
2569	तेलंगाना प्रजा शक्ति पार्टी	मकान नं.- 3-5-233, प्रथम तल, कोटा गली, शिवाजी नगर, अपोजिट आंध्र बैंक, आर.आर.चौब्रास्था, निजामाबाद, तेलंगाना – 503001
2570	तेलंगाना प्रजा जीवन रैतु पार्टी	मकान नंम्बर 10-157/1, मलकाजगिरी, मेडचल-मलकाजगिरी जिला, हैदराबाद, तेलंगाना-500047
2571	तेलंगाना प्रजला पार्टी	मकान नं.- 12-13-830/15, गोकुलनगर, स्ट्रीट नं. 1, तारनाका, सिकन्दराबाद, तेलंगाना- 500017
2572	तेलंगाना राज्य समिति	डोर नं0 1-4-177/148 एंड 149/201, ओल्ड अलवाल सिकंदराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना- 500010.
2573	तेलंगाना राष्ट्र पुनःनिर्माण समिति	म. नं0 1-3-186/ए, विद्यानगर, भोनगीर, जिला – नलगोंडा, आन्ध्र प्रदेश – 508116
2574	तेलंगाना रिपब्लिकन पार्टी	मकान सं.- 2-134, तानेदारपल्ली गांव, मरिगूडा मंडल, नलगोंडा जिला, तेलंगाना- 508245
2575	तेलंगाना सकलाजनुला पार्टी	म0 नं0 4-2-99, एन एफ सी (न्यूक्लियर फ्यूल कारपोरेशन कॉलोनी), बंदलागुडा जागीर (गांव) व (पोस्ट), राजेन्द्र नगर मण्डल, रंगा रेड्डी, जिला-500086, आन्ध्र प्रदेश।
2576	तेलंगाना स्टुडेंट्स यूनाईटेड फॉर नेशन पार्टी	मकान संख्या 3-85, बोरमपेट ग्राम, कुतुबुल्लापुर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना-500043
2577	तेलंगाना युवा शक्ति	फ्लैट नं. 404, मकान संख्या- 2-2-25/ए/1, जीलानी मिडोस अपार्टमेंट्स,

		अंबेरपेट, हैदराबाद, तेलंगाना- 500013
2578	तेलंगाना इंडिपेंडेंट पार्टी	मकान नं. 5-2-13, तिरूमाला नगर, मौलाली, आर.आर. डिस्ट्रिक्ट, कपरा सर्कल, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश- 500040
2579	तेलुगु बहुजन पार्टी	8/160-ए, मित्तपालेम स्ट्रीट, गुडूर, एसपीएसआर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश – 524101
2580	तेलुगु कांग्रेस पार्टी	8-2-38, अपोजिट जी.पी. ऑफिस, भवानीनगर, वेमुलावाडा, करीम नगर जिला, आन्ध्र प्रदेश-505302
2581	तेलुगु जनता पार्टी	नं.70-7/16/2ए, रामाययापेटा, टी.एस.आर.नगर, रोड नं.2, काकीनाडा अर्बन मंडल, जिला-इ.जी., आन्ध्र प्रदेश-533003
2582	तेलुगु प्रजा पथम पार्टी	4-96/25/3, जीएफ – 103, चिनामुसिदिवाडा, रेवेन्यु वार्ड 70, विशाखापटनम् जिला, आन्ध्र प्रदेश- 530051
2583	तेलुगु राज्याधिकार समिती पार्टी	13-56, संजीव नगर, कांचिकचेरला, एनटीआर जिला, आंध्र प्रदेश-520018
2584	तेलुगु राष्ट्र शक्ति पार्टी	302, जीवीआर, रेसिडेन्सी, जीवीआर टावर के साथ में, गन्नावरम, जिला- कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश-521101
2585	तेनगु सेना पार्टी	3-6, पाठा अगंदी बाजार, देवापुर, बेलमपेल्ली कासीपेटा, जिला मंचेर्याल, तेलंगाना- 504218
2586	तेलुगु विजयम पार्टी	फ्लैट नं.306, श्रीनिवासा टॉवर्स, केरला होटल के समीप, इब्राहिमपटनम, विजयवाडा, कृष्णा जिला, आन्ध्र प्रदेश- 521456.
2587	थक्कम कच्ची	1/2755, नेहरु स्ट्रीट, (ओल्ड आने थेरेसा स्ट्रीट), वी.पी.सिंह नगर, पंमाथुकुलम, चेन्नई, तमिल नाडु-600052
2588	तमिलागा मक्कल सुथथिरा कलगम	19/1, सेलप्पा काउंडर स्ट्रीट, वेलयावुथमपलायम, पी. पुगालुर तालुक, करुर – जिला, तमिलनाडु – 639117
2589	तमिज़ देसिया मुनेत्र कल्लगम	नंबर 143-ए, मेला वीठी, मेन रोड, तिरुप्पन्दल-पोस्ट, थिरुविदैमरुथुर- तालुक, तंजावुर जिला, तमिलनाडु, पिन-612504
2590	तमिज़ पेरासरू कच्ची	3/6, पारी स्ट्रीट (एक्स.), चूलैमेडू, चेन्नई, तमिलनाडु- 607203
2591	यमिजगा द्रविड काची	नंबर 32/217, गांधी रोड, पश्चिम तांबरम, तांबरम (टीके), चेंगलपट्टूर जिला, चेन्नई, तमिलनाडु-600045
2592	थमिज़ग मुनेत्र कांग्रेस	नं0 91, पुन्नूसामी नगर, तृतीय गली, पेराम्बर, डिविजन 68, चेन्नै - 600011, तमिलनाडु।
2593	तमिलग पैंप्पालर मक्कल कट्ची	नम्बर-72, नेवेली मेन रोज, पार्वतीपुरम, वडलूर पोस्ट, कुरिन्विपाडि तालुक, कडलूर जिला, तमिलनाडु- 607303
2594	तमिज़ार मुन्नेत्रक कल्लगम	2/5, तिरुवाल्लूर सलाए, पेरुमाल नगर, मोगापेयूर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600037.
2595	दि अग्रणी पार्टी	अनमोल हाउस, लीची बगान, पंखातोली, पो.- रमना, जिला-मुजफ्फरपुर बिहार- 842002
2596	दि फ्यूचर इंडिया पार्टी	सं0 – 2/191 बी, नेताजी स्ट्रीट, एलीट स्कूल के सामने, एम0 ए0 नगर, रेडहिल्स, चेन्नई, तमिलनाडु – 600052
2597	द इम्पेरियल पार्टी ऑफ इण्डिया	190, श्रीनगर मेन, इन्दौर – 452001, मध्य प्रदेश।
2598	द इंडियन एस्पिरेशन पार्टी	ऑफिस यूनिट नं.- 205, पेनिन्सुला प्लाजा, ए/16, वीरा इंडस्ट्रियल एस्टेट, वीरा देसाई रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र- 400053

2599	दि लोक पार्टी ऑफ इंडिया	कमरा नं0 7, बिल्डिंग नं0 61, प्रथम तल, द्वितीय लेन, एम. आर रोड, कामाथिपुरा, मुम्बई - 400 008 महाराष्ट्र
2600	दि नेशनल रोडमैप पार्टी ऑफ इण्डिया	बी-145, न्यू अशोक नगर, दिल्ली- 110096.
2601	द प्लुरल्स पार्टी	सुखबासो कॉम्पलेक्स, तीसरी मंजिल, वेस्टर्न होटल के सामने, प्लॉट नं-130, दानापुर-खगौल रोड, पोस्ट-दानापुर, जिला-पटना बिहार-801503
2602	दि पब्लिक वेलफेअर पार्टी	सोनापुर कॉम्पलेक्स, आल्हाद नगर, वार्ड नं0 - 14, जिला कॉम्पलेक्स हाई स्कूल के पूर्व में, गडचिरोली, महाराष्ट्र- 442605
2603	दि रिलीजन ऑफ मैन रिवाल्विंग पोलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया	कवितीर्थ, कवितानगर, पो0-बोंगाव, जिला-24-परगनास (उत्तर)-743235, (पश्चिम बंगाल)।
2604	थर्ड व्यू पार्टी	203, हिल व्यू, प्लॉट नं0-85, लूलानगर, माऊट कार्मेल कोनवेंट स्कूल के नजदीक, पुणे-411040 (महाराष्ट्र)।
2605	थोझीललार पार्टी	नं0 28 ए, मेटु स्ट्रीट, नेमलीचेरी, क्रोमपेट, चेन्नई-600044 तमिलनाडु।
2606	तृणमूल तमिल नाडु कांग्रेस	189/1, अमरावती स्ट्रीट (नियर फाइव रोड्स), रेड्डीयार गांव, जिला - सलेम - 636004 तमिल नाडु।
2607	टिपरा मोथा पार्टी	खतियान नं. 1201, मौजा-जिरानिया, रेवेन्यू सर्कल-जिरानिया, आर.एस. प्लॉट नंबर। 1493/7543, सी.एस. प्लॉट नंबर। 471,468/पी, खुमुलवंग, त्रिपुरा-7
2608	तिपरालैण्ड स्टेट पार्टी	ओल्ड कालीबाडी रोड, कृष्णानगर, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा- 799001.
2609	टीपू सुल्तान पार्टी	56/2, आत्तार हाउस, नियर कर्बला बेस, रेविवार पेठ, अंबाजोगाई, जिला-बीड, महाराष्ट्र- 431517
2610	टोला पार्टी	मकान सं0 - 56, वार्ड सं0 - 14, अंधुवा पट्टी, होडल (पलवल), हरियाणा।
2611	टोटल विकास पार्टी	सी-95ए-1, आर डी सिटी, सेक्टर - 52, गुडगांव, हरियाणा - 122011
2612	त्रिपुरा पीपुल्स पार्टी	8/9, जेल आश्रम रोड, धलेश्वर, अगरतला, त्रिपुरा- 799007
2613	ट्रुथ, इक्विलिटी, जस्टिस अप्लाएंग सर्विस दल	बी-35 आनंदलोक, श्रीजी बाबा विद्यालय के पास, पोस्ट - कृष्णा नगर, गोवर्धन मार्ग मथुरा, तह0 व जिला - मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004.
2614	तुलुवेर पक्ष	डोर नं0 - 2-139(5), कोयोरु क्रॉस लैला गांव, बेलथांगडी, दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक- 574214.
2615	ट्वेंटी 20 पार्टी	बिल्डिंग नम्बर IV/172, ऐकरनाडु पंचायत, कदायिरूपू पी.ओ. कुनाथुनाडु तालुक, एरनाकुलम जिला, केरल- 682311
2616	उदारवादी समरसता पार्टी	मकान नं0 133/1, हरिजन बस्ती, गाँव समयपुर, दिल्ली- 110042
2617	उदय भारतम पार्टी	ए-13, सेक्टर 44, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
2618	उदय चन्द्रा देशम पार्टी	नं0-27, कामराज नेदुचलाई, ओल्ड पेरूंगलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु-600063
2619	उदीयमान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	4/3C, ओरिएंट रो, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता-700017
2620	उजाला पार्टी	ई-26, गली नं.9, नियर वाटर टैंक, सुभाष विहार, भजनपुरा, दिल्ली- 53
2621	ऊलागा मक्कल काची	नं. 15/24ए, मेथुकुम्मल जंक्शन, मेथुकुम्मल पोस्ट, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु- 629172
2622	उलजयपाली मक्कल काची	74, शान्ति नगर, प्रथम गली, एस0 एस0 नगर पोस्ट, चेन्नई-600062, तमिलनाडु।
2623	उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम- शिशु, गाँव / पी.ओ. - शिशु, वार्ड - 12, तहसील - दान्तेरामगढ़, पी.एस. - रानोली, जिला- सीकर, राजस्थान - 332405.
2624	युनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट सेकुलर	539/13 शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश

2625	युनाइटेड गोअंस डेमोक्रेटिक पार्टी	पहली मंजिल, कासा डोस अलिया, डोस, गोमंत विद्या निकेतन के पीछे, एक्सडे फारिया रोड, माडगांव (गोवा) — 403601 ।
2626	यूनाइटेड गोअन्स पार्टी	शॉप नं0 – 7, म0 नं0 – 18/5/6, ग्रामीलो अपार्टमेंट, डोन्ड्रीम, तेलिगो, तिसवाड़ी, गोवा ।
2627	युनाइटेड इंडिया पार्टी	4-2-256/के/1, भीमूनिपट्टनम एन.टी.पी.सी, रामागुन्दम (मण्डल), करीमनगर, तेलंगाना – 505215
2628	युनाइटेड नागा डेमोक्रेटिक पार्टी, नागालैण्ड	वाडे नं. 7, एगापे स्कूल के पास, चुमुकोडिमा — 797103, दीमापुर—797112 (नागालैण्ड)
2629	युनाइटेड नेशनल पार्टी	गांव - शांतीनगर, मौजा - सन्नपुरा, पोस्ट - गोंसली, तहसील - बाह, जिला - आगरा, उत्तर प्रदेश ।
2630	यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट	सिटी रेजेंसी बिल्डिंग, आर. के. बी. रोड, डिब्रुगढ़, असम—786001
2631	यूनैटेड रिपब्लिक ऑफ भारत पार्टी	डोर नं. 6-9-1373ए डिफेंस कॉलोनी, ए.पी.एच.बी. पोस्ट ऑफिस के निकट, तिरुपती कंचीमातम हॉस्पिटल के बगल में, आन्ध्र प्रदेश- 517501
2632	यूनाइटेड रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया	80/81, सी.ए.एच. कॉलेज बाय-पास रोड, मेलवीशरम, वालाजा तालुक, जिला- वेल्लोर, तमिलनाडु- 632509.
2633	यूनाइटेड सेक्यूलर काँग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया	2 / 104 बी, कुर्ला जयहिंद बुद्धविकास, एस0 आर0 ए0 गृहनिर्माण संस्था मर्यादित नेहरू नगर, कुर्ला (पूर्व), मुंबई — 400024, महाराष्ट्र ।
2634	युनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी	बी 41-एच/6, ब्राइट स्ट्रीट, दूसरा तल, पोस्ट- सर्कस एवेन्यू, थाना- कराया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700017
2635	यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया पार्टी	नं. 10/116, मथागनेरी, साउथ स्ट्रीट, सेम्बीकुलम(पोस्ट), वडाकनकुलम (वाया), तालुक - राधापुरम, जिला - तिरुनेलवेली, तमिलनाडु - 627116
2636	यूनिवर्सल ब्रदरहुड मूवमेंट	57-डी, साथुर मेन रोड, कोविलपट्टी, जिला – तुत्तुकुडी, तमिलनाडु - 628501
2637	यूनिवर्सल फैमिली पार्टी	टाओबुंगखोक, पुलिस स्टेशन-पटसोई, पोस्ट ऑफिस-लांगजिंग, मणिपुर, इम्फाल वेस्ट-795113
2638	यूनिवर्स सिटीजन पार्टी	15-5-122, वनय निलाया, अपोजिट कर्नाटका लॉ एंड फार्मसी कॉलोज, ध्यान्मंदिर राज, रामपुरे कॉलोनी, बीदर कर्नाटक- 585401
2639	अर्बन एवं रूरल पार्टी	मकान संख्या 660/7/पी.003, गौरा बांग, कुर्सी रोड, (फूल बाग), लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226026
2640	उरिमई मीटप्पू कडगम	न्यू नं0 —10ए, कृष्णा स्ट्रीट. ईरमबुलियुर, वेस्ट तम्बारम, चेन्नई—600045, जिला—कांची, तमिलनाडु ।
2641	उत्कल भारत	प्लॉट नं0 296/2624, स्थान — गोविन्दा प्रसाद, ईस्ट कनाल रोड, टविन ब्रिज के सामने, पो0 ऑ0 — जी. जी. पी. कॉलोनी, भुवनेश्वर — 751010, उड़ीसा ।
2642	उत्कल समाज	आनन्दायन, प्लॉट नं0 567/2 कानन विहार, फेस — 2 , भुवनेश्वर — 751031 उड़ीसा ।
2643	उत्कृष्ट पार्टी	प्रथम तल, राकेश क्लाय हाऊस, मेन बाजार, ग्राम- नारौत मेहरा, तहसील व जिला- पठानकोट, पंजाब
2644	उत्तमा प्रजाकिया पार्टी	7/ए, 1st क्रॉस, 3rd स्टेज, 3rd फेस, 6th ब्लॉक बीएसके, बीएसके 3rd स्टेज, कथिरिगुप्पे, बैंगलुरु, कर्नाटक- 560085
2645	उत्तर भारतीय विकास सेना	201/202, द्वितीय तल, सुकुमार कॉर्नर, 127- जे.पी. रोड, दाऊद बाग लेन, अंधेरी

		(पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र- 400058
2646	उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना	मकान नं. 3, सेक्टर 15-ए, जिला- गौतमबुद्धनगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201301
2647	उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी	552/2, राजेन्द्र नगर, सेकेंड स्ट्रीट, लखनऊ — 226004, (उत्तर प्रदेश)।
2648	उत्तर जनशक्ति सेना	म0 न0 66, 67, शिवपुर कॉलोनी, (अनचटगेरी लेआउट), नियर राजधनी कॉलोनी, गोकुल रोड, हुबली कर्नाटक- 580028
2649	उत्तर कर्नाटक पार्टी	नं.25,4 क्रॉस, एम.एस.आर.नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक- 560054
2650	उत्तर राष्ट्र तेलंगाना पार्टी	मं० नं0 4-32/बी, गांधीनगर, ब्रह्मानपल्ली, जक्रानपल्ली, जिला - निजामाबाद, तेलंगाना- 503224.
2651	उत्तराखंड जन समर्थन पार्टी	अमृत कौर रोड सिविल 17, न्यू रोड देहरादून, उत्तराखंड-248001
2652	उत्तराखंड जनता पार्टी	प्लॉट न.6, प्रकाश एन्क्लेव, शिमला रोड, सेवलाकलां जिला देहरादून उत्तराखंड- 248001
2653	उत्तराखण्ड जनएकता पार्टी	18 एफ, सेक्टर-3 बी, निकट सी ब्लॉक, टाईप-II, नई टिहरी उत्तराखण्ड- 249001
2654	उत्तराखण्ड जनशक्ति पार्टी	सुशीला बर्थवाल निवास, निकट दूरदर्शन प्रसार भारती कार्यालय, हरिद्वार बाई-पास रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248001
2655	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल	रोचिपुरा, पो0 ऑ0 माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2656	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक)	85/ 12 — बी, नाश विला रोड, देहरादून — 248001, (उत्तराखण्ड)।
2657	उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी	साह भवन, वीर चन्द्रा सिंह, गढ़वाली मार्ग, गैरसेन, जिला — चमोली, उत्तराखण्ड।
2658	उत्तराखण्ड प्रगतिशील पार्टी	13, सुभाष रोड, (सेन्ट जोसेफ स्कूल के पिछले गेट के सामने), देहरादून - 248001, उत्तराखण्ड।
2659	उत्तराखण्ड रक्षा मोर्चा	मकान नं0 1. ग्राम-नौका (दौडावाला), पोस्ट—मोथरोंवाला, विकासखण्ड— रायपुर, जिला—देहरादून, (उत्तराखण्ड)
2660	उत्तराखंड समानता पार्टी	33, गंगोत्री विहार, लेन न० - 1, नेहरूग्राम रोड, देहरादून, उत्तराखंड - 248005
2661	उत्थान राष्ट्रीय विकास पार्टी	गणपति स्मार्ट सिटी, फ्लैट नं.507, सतलज टॉवर-4, बाईपुर सिकंदर, आगरा, उत्तर प्रदेश-282001
2662	उज्जैपालर मुन्नेत्रा कज्जहम	18, एम.जी.आर नगर, वेंकटरमण, सलैय, चोल्लई, पल्लम, के.के.नगर, चेन्नई, तमिलनाडु-600078
2663	वडा तमिलनाडु मुन्नेत्रा कज्जि	नंबर 209/42, श्री अय्यप्पा नगर, कालिअम्मन कोइल स्ट्रीट, विरुगम्बाक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु-600092
2664	वैचारिक क्रान्ति पार्टी	एफ-11, 12, 13, ईश्वरी दयाल कॉम्प्लेक्स- 92, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2665	वैदिक समाजवादी पार्टी	आर्य शिव नगर, जयंतीपुर रोड बर्फ खाने के बिहाइंड मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244001
2666	वालामाना तमिझागम कौंची	एच-982, 23rd स्ट्रीट, 13 मेन रोड, अन्नानगर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600040
2667	वलीमई वलरची इंडियन्स पार्टी	411डी, गौंदची पालायम, वादामुगम वेलूड, ईरोड जिला, तमिलनाडु- 638112.
2668	वाल्लारासु पार्टी	एच. नंबर-6(23), मोसक्कू स्ट्रीट, मायलापोरे, मायलापोरे, चेन्नई, तमिलनाडु- 600004.
2669	वंचित ऑल इंडिया शोषित यथार्थवादी पार्टी	मकान नंबर 42ए वार्ड नंबर-46, इंदिरा नगर, नियर पैदलीगंज, नाला रोड, थाना- झतारामंडल, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273009

2670	वंचित बहुजन अघाडी	सर्वे नं. 858ब/2 'आकाश' भिगवण रोड, रानडे पेट्रोल पम्प के पीछे, अशोक नगर, बारामती, जिला - पुणे, महाराष्ट्र - 413102
2671	वंचित समाज पार्टी	सर्किल- बाँकीपुर, राजस्व सर्किल- 13, बार्ड- 36, मोहल्ला- पम्प हाउस गली तालाब पार, लालजी टोला, थाना- गाँधी मैदान- पटना, जिला- पटना, बिहार- 800003
2672	वंचितसमाज इंसाफ पार्टी	39, आदर्श नगर, द्वारा — डॉ0 शेख महोली रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश ।
2673	वन्दे भारत पार्टी	गद्दोपुर मथिया, निकट आईटीआई विद्यालय, पोस्ट-गद्दोपुर मझावा, जिला- अयोध्या, उत्तर प्रदेश-224001
2674	वन्दे रिपब्लिक पार्टी	555, नीती खण्ड-3, निकट पीपल चौक, इंदिरापुरम, जिला-गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014
2675	वास्तविक भारत पार्टी	प्लॉट नं.-16, चाणक्यपुरी, मिनाल रेजीडेंसी, गेट नं.-1 के पास, जे.के.रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश-462041
2676	वसुधैव कुटुम्बकम् पार्टी	वार्ड नं.-07, होलिंग नं. 1050 नया, मोहल्ला- साहेबदादगंज, जिला- दरभंगा, बिहार ।
2677	वसुंधरा जन विकास दल	खाता नं0 – 39, 59, प्लॉट नं0 – 32, 35 तथा 36, मौजा तथा थाना नं0 – 371, न्यू थाना नं0 – 27, एन.एच – 2, शिव सागर, जिला – रोहतास, बिहार - 821111 ।
2678	वीरथ थियागी विश्वन्थदास थोझिलालकर काची	मणिकावसागर आरंगम, नंबर 1/9, चेंगम से तिरुवन्नमलाई मुख्य सड़क, करियामंगलम गाँव और पोस्ट, चेंगम तालुक, तिरुवन्नमलाई जिला, तमिलनाडु- 606709
2679	वेनुकाबदिनावर्गाला महिला रायतू पार्टी	डोर नं.- 3-110ए, चक्रयापालेम गांव, कोलिपारा मंडलम, गुंटूर जिला, आन्ध्र प्रदेश।
2680	विचार जाग्रति कांग्रेस पक्ष	डोर नं0 — 275, हेबालु गांव व पोस्ट, देवांगिरी तालुक व जिला कर्नाटक ।
2681	विदर्भ माझा पार्टी	237, पोस्ट- उबली, तहसील- कलमेश्वर , जिला- नागपुर, महाराष्ट्र ।
2682	विदर्भ राज्य अघाडी	ब्लॉक नं. 4, दफ्तरी कॉम्पलेक्स, दादाजी धुनीवाले मठ के विपरीत, नागपुर रोड, ग्रामपंचायत नलवाडी, जिला- वर्धा, महाराष्ट्र
2683	विद्यार्थुला महिलाला रैतुला महासेना पार्टी	डोर नं. 74-6/1-1ए, वीएसआर रोड, अयाप्पानगर, पाटामाता, विजयवाडा, आन्ध्र प्रदेश।
2684	विद्यार्थुल राजाकिया पार्टी	मकान नं.- 11-13-624/4, फ्लैट- 402, आई.बी.नगर, सरूरनगर (एम), कॉलोनी, रोड नं. 3, रंगारेड्डी- जिला, आन्ध्र प्रदेश- 501505
2685	विडियल वलरची पेरनि	37-बी, कीलतेरू, इच्चीकामालैपट्टी, के. सातानूर (पोस्ट), तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु- 620021.
2686	विडियलै तेडुम इंदियरगल पार्टी	10/2032, साउथ तिरुपाचेट्टी, पोस्ट – तिरुपाचेट्टी, तालुक – तिरुपुवनम, जिला – शिवगंगै, तमिलनाडु - 630610
2687	विदुथलाई चिरूथईगल काची	नं0 — 16, चिन्नईया गली, टी — नगर, चेन्नई —17, तमिलनाडु ।
2688	विदुथलाई कलाम काची	डी. नं. 2-48, बोदीनाईकेनपट्टी ओरपुरम वार्ड-2, बोदीनाईकेनपट्टी (पी), सिंगलंडापुरम वाया, रासीपुरम (टीके), नामक्कल जिला, तमिलनाडु- 637412
2689	विदुथलाई मक्कल मुन्नेत्र कजगम	नं0 —11, कबिलार स्ट्रीट, देवानामपट्टीनम, कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु ।
2690	विजय भारत पार्टी	मकान नं. 402, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 2-3, गली नं. 3, फ्रेन्ड्स एन्क्लेव, शाहबेरी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201009
2691	विजय भारत मक्कल (पीपुल) पार्टी	70, द्वितीय तल, ब्रोड बाजार स्ट्रीट, अम्बूर — 635802, जिला — वेल्लोर,

		तमिलनाडु
2692	विजया जनता पार्टी	नं0 9,ओम साई शक्ति निलाया,भारथिनागरा,हुनासामारानाहल्ली पोस्ट,जाला हुबाली,बैंगलुरु नार्थ तालुक,बैंगलुरु कर्नाटक- 560058
2693	विकास इंडिया पार्टी	टी-192, गली नं0-2, गौतमपुरी, दिल्ली- 110053
2694	विकास इंसाफ पार्टी	मकान नं. 23, वार्ड नं. 10, महमूदपुर परगना, पी.सी.एफ. गोदाम के पास, तहसील-सदर, जिला- फतेहपुर उत्तर प्रदेश- 212601
2695	विकास मंच	भूरा चौक, पोस्ट ऑफिस&तहसील- नोखा, जिला- बीकानेर, राजस्थान- 334803
2696	विकास पार्टी	सत्याग्रह मार्ग, दारूल सफा कम्पाउंड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
2697	विकासशील इंसान पार्टी	घर अपना अपार्टमेंट, वार्ड नं. 38, फ्लैट नं. 604, फेज - 03, अभियंता नगर, रंजन पथ, पो.ऑ.- दानापुर कैन्ट, पी.एस-रूपासपुर, जिला-पटना, बिहार- 801503
2698	विकासशील जनता पार्टी	फस्ट फ्लोर,(ग्रउण्ड फ्लोर आर्युवेदिक चिकित्सालय),चौहान मार्केट,बेहटा चौराहा,लालगंज,नियर हनुमान मंदिर,वैशवारा,राय बरेली,जिला-बरेली,उत्तर प्रदेश- 229206
2699	विलेजर्स इंडिया पार्टी	तलपाली पाडा (दुर्गामंदप चौक के पास) जिला-बोलनगीर ओडिशा- 767001
2700	विंध्य जनता पार्टी	मकान नं०एम.आई.जी.-1-86,पदमघर कॉलोनी,रीवा इन हुजूर,तहसील ऑफ रीवा,जिला-रीवा,मध्य प्रदेश-486001
2701	विराज जन पार्टी	मकान नंबर 21, शिव विहार, मीनावाला, जयपुर, राजस्थान- 302034
2702	वीर के वीर इंजियन पार्टी	प्रथम तल्ला, बी-2, सारथी कम्पलेक्स-2, मनेकपुरा, लिलियारोड, अमरेली, गुजरात- 365601.
2703	विशाल जनता पार्टी	नं.1/4649/183,बुद्ध बाजार गली,सब गली नं.8,मंडोली रोड,न्यू मार्डन शाहदरा,दिल्ली-110092
2704	विशाल पार्टी ऑफ इंडिया	गांव – चौहडा, डाकघर – डगाम, तहसील – गढशंकर, जिला – होशियारपुर, पंजाब – 144527
2705	विश्व शक्ति पार्टी	बी -10/144, प्रदीप विहार, नथ्यूपुरा मोड़, दिल्ली — 110084
2706	विश्व आदर्श भारत पार्टी	मकान नं. 251, मेगा पैथोलॉजी, कोर्ट के पीछे, सूख विलास कॉलोनी बड़वानी, तहसील- बड़वानी, जिला- बड़वानी, मध्य प्रदेश- 451551
2707	विश्व बंधुत्व पार्टी	ग्राम-धूरीपुर, पोस्ट-बदौनाडीह, थाना-कादीपुर, जिला-सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश- 228175.
2708	विश्व भारत पार्टी	एच.नं0-5-6-160-बी,कृष्ण नगर एनटीपीसी,ज्योतिनगर,रामागुंडम,पेद्दापल्ली-जिला,तेलंगाना-505215
2709	विश्व हिन्दुस्तानी संगठन	3/105, आनन्दनगर, 100 फुट रिंग रोड, सटेलाईट वेजलपुर, अहमदाबाद, गुजरात ।
2710	विश्व जागृति पार्टी	74/16ए,परमहंस मार्ग,शिपरा पथ,मानसरोवर,जयपुर,राजस्थान- 302020
2711	विश्व जना पार्टी	डोर नं. 4-122, पद्मावती नगर, थोगाटावरी स्ट्रीट, पोदालाकुर, जिला- एसपीएसआर नैलोर, आन्ध्र प्रदेश।
2712	विश्व जन साम्राज्यम पार्टी	एम.आइ.जी.-74,म.नं015-13-VII-एम-74,फेज-VII,केपीएचबी कॉलोनी,कुक्कटपल्ली,हैदराबाद,तेलंगाना- 500085.
2713	विश्व मानव समाज कल्याण परिषद	ग्राम व पोस्ट – चन्दापुर, वजीरगंज, जनपद - गोण्डा, उत्तर प्रदेश।
2714	विश्व शांति पार्टी	प्लॉट नंबर III-एफ/621,सेक्टर-III-एफ,वैशाली,गाज़ियाबाद,उत्तर प्रदेश- 201010

2715	विश्व तमिल कझागम	डोर नं0 70/2, ब्लॉक नं0 1, राजीव नगर, कंधमपट्टी, सलेम वेस्ट (टीके), जिला-सलेम, तमिलनाडु – 636005
2716	विश्वनाथ प्रताप जनता दल	वार्ड नं0 – 02, मालवीय नगर, भारतीय स्टेट बैंक के सामने मेन रोड, माधौगढ़, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश- 2285123
2717	विजन इंडिया पार्टी	16-216, शिव गिरी कॉलोनी, मुलापेट, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश-524003
2718	विश्व भारथ पीपल्स पार्टी	18/9, पूंगा नगर, इरूपुर, कोयमबटूर, तमिलनाडु- 641103
2719	विवासायीगल मक्कल मुन्नेत्र कौची	403, एसआरपीके कॉम्प्लेक्स, उदयपुरपलयम, थालावडपट्टी- पोस्ट, अतुर-तालुक, सिलम-जिला, तमिलनाडु- 630102
2720	वोआईस ऑफ लेबर पार्टी (जम्मू और काश्मीर)	खसरा नं. 539, गांव- आत्ति, पोस्ट- फतेहपुर, तहसील व जिला- राजौरी, जम्मू और काश्मीर- 185131
2721	वोटर्स इंडिपेन्डेंट पार्टी	नं. 903, प्रथम तल, छठा ब्लॉक, 80 फीट रोड, कोरामंगला, इजीपुरा, वार्ड नं. 148, बेंगलोर, कर्नाटक- 560095
2722	वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल	मकान नं0 385, गली नं0 12/3, वज़ीराबाद गांव, दिल्ली-110084
2723	व्यवसायी किसान अल्पसंख्यक मोर्चा	गृह संख्या - 12, महाराजगंज, जमुई, जिला - जमुई, बिहार - 811307
2724	व्यवस्था परिवर्तन पार्टी	बौद्ध डायमण्ड, तालुक पंचायत रोड, कोर्ट के सामने, पोस्ट व तालुक- घोघा, जिला- भावनगर, गुजरात।
2725	वतन जनता पार्टी	3/4/7 ए, मुगलपुरा, अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।
2726	वाजिब अधिकार पार्टी	ग्राम व पोस्ट – पोहद्दी बेला, ब्लॉक – घनश्यामपुर, जिला- दरभंगा, बिहार - 847427।
2727	वैल्फेयर पार्टी ऑफ इण्डिया	ई – 57/1, अबूल फजल एनक्लेव-1, जामिया नगर, नई दिल्ली – 110025.
2728	वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी	42 – आनन्द पलित रोड, कोलकाता – 700014, पश्चिम बंगाल।
2729	वाई. एस. आर. तेलंगाना पार्टी	401-ए, तीसरी मंजिल, सिद्धार्थ श्रावती अपार्टमेंट, नंबर 8-3-169/35, प्लॉट नंबर 35, सिद्धार्थ नगर, युसूफगुडा, तेलंगाना, हैदराबाद-500038
2730	येकिकुथा संकशेमा राष्ट्रीय प्रजा पार्टी	डी नं0 7-1-500, एन जी ओ कॉलोनी, वाए एस आर स्टीट, सिद्धावातम रोड, बडवेल – 516227, वाए एस आर जिला, आन्ध्र प्रदेश।
2731	यंग इंडिया पार्टी	सर्किल नं. 28, होलिडिंग सं. 128/113, आर्य कुमार रोड, मछुआटोली, थाना-कदमकुआं, जिला- पटना, बिहार -800004
2732	यंग इंडिया टेंग्रेस पार्टी	येलम गल्ली, तुगाव (एच), ता0 भालकी, जि0 विदर, कर्नाटक।
2733	यंग इंडिया युनाइटेड पार्टी	हाऊस ऑफ मदन मोहन मिश्रा, गांव- मंगलपुरवा, पोस्ट- पारसा, गोंदारी, ब्लॉक- हलधारमउ, तहसील- कनल गंज, जिला- गोण्डा, उत्तर प्रदेश- 271126
2734	यंग सीनियर रिच कॉमन पीपुल किंग्स पार्टी	फ्लैट नंबर 403, (दरवाजा नंबर 54-9-2398), चौथी मंजिल, सवीर टावर्स, वेंकटेश्वर कॉलोनी, मेन रोड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश-522001
2735	यंग स्टार इम्पावरमेंट पार्टी	34, ग्राउंड फ्लोर, दूसरा मेन रोड, 11वीं क्रॉस रोड, सिंगासंदरा, सुभाष नगर, बी - ब्लॉक, बेगुर गांव, होबली, बेंगलोर-560068, कर्नाटक.
2736	यूथ एण्ड स्टूडेन्ट्स पार्टी	आर. पी. एस्टेट्स, 4/1, पूनामाली हाई रोड, कोयमबेदू, चेन्नई –600107.
2737	यूथ इंडिया पीस पार्टी	असेसमेंट नं.- 18, ग्राम- काठा नं.- 215, यशवंतपुर हुबली, बेंगलोर नार्थ तालुक, बेंगलोर, कर्नाटक- 560022
2738	यूथ सोसलिस्ट पार्टी	मकान नं0 – 248, सिहोरा गोविन्द (गोविन्द नगर), पोस्ट व थाना - कटघर, तहसील व जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244001।
2739	वाई. एस. आर. बहुजन पार्टी	28/434, रामेश्वरम, प्रोद्दातुर –516360, जिला-कडपा, आन्ध्र प्रदेश।

2740	युग क्रांति दल	मकान नं.192, गली नं.1, वार्ड नं.1, पंजाबी कॉलोनी (धर्मपुर), समस्तीपुर टाऊन, बिहार-848101
2741	युग निर्माण पार्टी	बी-84, द्वितीय तल, घड़ोली डेयरी फार्म, मयूर विहार फेज-III, दिल्ली-110096.
2742	युग परिवर्तन पार्टी	म. नंबर -2179, मोतीराम कॉलोनी, नियर मोहित पब्लिक स्कूल, नूरवाला, पानीपत, हरियाणा- 132103
2743	युग तुलसी पार्टी	मकान नं. 5-9-296, फ्लैट नं. 310, प्रसाद अपार्टमेंट, गनफाउन्डरी, एबीडस, हैदराबाद, तेलंगाना- 500001.
2744	युवा आम दल आदमी विकास	अप्रा सिटी, फेज-2, सेक्टर-सी, ग्राम-मिशरौलिया स्टेट, पोस्ट-मिश्रौली, निकट-जेल रोड, जिला-बस्ती उत्तर प्रदेश- 272001
2745	युवा अनुभव पार्टी	मकान नं0 – 393- आई, हरितिमा, राजीव नगर, पश्चिमी बशरतपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
2746	युवा भारत आत्मनिर्भल दल	एफ/49/1ए, अयोध्या नगर, शिव मंदिर के पास, एन-7, सिडको, औरंगाबाद, महाराष्ट्र- 431003
2747	युवा भारत राष्ट्रसेवा पार्टी	एलजीएफ-138, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049
2748	युवा भारत सेव मेरिट सेव नेशन दल	मकान नंबर-33, ग्राम-उचेठा, परगना-भदोही, जिला-संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश-221301
2749	युवा बिहार सेना	मकान नं0 17, बटुकेश्वर दत्ता लेन, न्यू जक्कनपुर, पटना बिहार-800001
2750	युवा जनकल्याण पार्टी	दुकान नं. 6, लक्ष्मी आशीर्वाद को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, प्लॉट नं.- 23, सेक्टर- 25, कामोठे, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र - 410209
2751	युवा जनक्रान्ति पार्टी	कस्बा-केराकत, मो0 – शेखजादा द्वितीय, जनपद – जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
2752	युवा जनता पार्टी	भवन सं0 – 91/1, ग्रान्ट गंज, मैन मार्केट महोबा, जिला - महोबा, उत्तर प्रदेश - 210427
2753	युवा कर्नाटक पक्षा	# 66, आनेपुरा - गांव, निधारमंगला -पोस्ट, मालूर- तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक- 563137
2754	युवा क्रांतिकारी पार्टी	आर्दश नगर, रोड नं. 1ई, समस्तीपुर, बिहार- 848101
2755	युवा पार्टी	1-8-1-83, गैरेज नं0 - 83, ग्राउंड फ्लोर, बागलिंगम्पल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
2756	युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक)	प्लॉट नं0 - 63, गुरुकृपा सोसाइटी, पंच फलिया, दाभोलिगम, कटरगम, सूरत, गुजरात- 395004
2757	युवा समृद्धि दल	फ्लैट न.101 अनिल रेसेडिक्, भगवत नगर में रोड, पटना-800026, बिहार
2758	युवा सरकार	161, वनमाली पार्क सोसायटी, हरीकृष्णा चौक, धर्माकुल आश्रित रोड, पुना – सिमाडा, सूरत-394211, गुजरात ।
2759	युवा शक्ति संगठना	भांगडिया वाडा, तिलक वार्ड, चिमूर, तहसील - चिमूर, जिला - चन्द्रपूर, महाराष्ट्र ।
2760	युवा स्टार पार्टी	ग्राम-अकहा, पोस्ट-जयंती ग्राम ईसापुर, थाना-भगवानपुर, जिला-बेगूसराय, बिहार-851112
2761	युवा तरम पार्टी	8-1-32/4, नजदीक हनुमान मंदिर के पीछे, वार्ड नं0-1, गतैगुदेम, गाँव-पलवांचा-मंडल, बद्रादरी कोठगुदेम- जिला, तेलंगाना-507115
2762	युवा तेलंगाना पार्टी	प्लॉट नं. 143 & 144, रॉक टाऊन कालोनी, अलकापुरी, मनसूराबाद, एल.बी. नगर, हैदराबाद-500068, तेलंगाना ।

2763	युवा बाहिनी पार्टी	डी- 95, एल डी ए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226012
2764	युवा विकास पार्टी	सेरावां, अतरामपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।

सारणी-I (ख)**असूचीबद्ध पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.)***

क्रम सं०	पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के नाम	मुख्यालय का पता
1.	आर्थिक समानता पार्टी	189, बी ब्लॉक, गली नं० 4/6, करावल नगर, दिल्ली-110094.
2.	अ-चिक नैशनल काँग्रेस (डेमोक्रेटिक)।	डाकोपगरे (ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के सामने) तुरा, वेसूअ गारो हिल्स, मेघालय-794101
3.	अजेय भारत पार्टी	ए-14, मोहन एस्टेट्स, मथुरा रोड, नई दिल्ली ।
4.	अखंड भारत महासंघ सर्वहारा क्रांतिकारी पार्टी	सनफूल, कोटा-1, (राजस्थान) ।
5.	अखिल भारतीय आजाद लोकहित काँग्रेस पार्टी	खाडी मौहल्ला, खटीकों का चौक, भिवानी, हरियाणा ।
6.	अखिल भारतीय दलित उत्थान पार्टी	ए-201/2, गली नं० 1, विकास मार्ग, शक्करपुर, दिल्ली-110092.
7.	अखिल भारतीय क्रान्ति दल	7 प्रेम कॉलनी, प्रगति पथ, प्रथम तल, कल्याण नगर, हनुमान मन्दिर के पीछे, टोंक रोड, जयपुर-302011, राजस्थान ।
8.	अखिल भारतीय रिवाल्युशनरी शोषित समाज दल	वैशाली नगर, सिद्धेश्वर वेस, स्था० और० पो०-लादुर, जिला-लादुर - 413512 (महाराष्ट्र) ।
9.	अखिल भारतीय नागरिक सेवा संघ	प्लॉट नं० 98, रतन लाल नगर, कानपुर - 208022, उत्तर प्रदेश ।
10.	अखिल जन विकास दल	50 ए / 1ए, नाहरपुर, राव एस. के. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सैक्टर - 7, रोहिणी, दिल्ली-85.
11.	ऑल इंडिया अम्बेडकर मक्कल मुन्नेत्र कडगम	104, वालाजा रोड, तीसरी मंजिल, अरीवु मनी आरंगम, ट्रिप्लीकेन, चेन्नई, तमिलनाडु.-600002
12.	ऑल इंडिया बाबू जगजीवन राम बाबा साहेब नेशनल काँग्रेस	सी-22, बेसमेंट, चिराग एनक्लेव, नई दिल्ली-110048
13.	ऑल इंडिया क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक एण्ड बैकवर्ड पीपुल्स पार्टी	ब्लाक ए-1, फ्लैट-2, कोलकत्ता - 700054, (पश्चिम बंगाल)
14.	ऑल इण्डिया दलित वेलफेयर काँग्रेस	फ्लैट नं० 44, सेक्टर बी-4, नरेला, दिल्ली
15.	ऑल इंडिया लोकराज पार्टी	गांव-मेहरबान, तहसील और जिला- लुधियाना (पंजाब)
16.	ऑल इण्डिया महिला डेमोक्रेटिक फ्रंट (ए०आई०एम०डी०एफ०)	मकान नं० 6-1-57/62, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद-500004, आंध्र प्रदेश
17.	ऑल इंडिया मुत्ताहिदा कौमी मूहज	मकान नं० 19-2-23/एम/जे/5/ई, प्रथम तल, बहादुरपुरा, मक्का कॉलोनी, हैदराबाद-500053 आन्ध्र प्रदेश ।
18.	ऑल इंडिया रक्षा पार्टी	पोस्ट बॉक्स सं०- 136, मुख्य डाक घर, करनाल-132001, हरियाणा ।
19.	ऑल इंडिया ट्राइब्स एण्ड माइनॉरिटीज फ्रंट	विंडरूथ हिल एनेक्सी, शिमला-2, (हिमाचल प्रदेश) ।
20.	ऑल जे एण्ड के पीपुल्स पैट्रियाटिक फ्रंट	जवाहर नगर, हाऊस नं०-97, पुलिस स्टेशन, राघ-बाघ, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) ।
21.	अल्पजन समाज पार्टी	डाक बंगला मार्केट परिसर, प्रथम तल, दुकान सं०-28, डाक बंगला मार्केट, पो. ऑ. - सासाराम, थाना-सासाराम, जिला - रोहतास, बिहार - 821115.

22.	अम्बेडकर क्रान्ति दल	शान्ति होम्योपैथिक स्टोर, आर्य समाज चौक, बदायूँ, उत्तर प्रदेश ।
23.	अम्बेडकर प्रगतिशील रिपब्लिकन दल	डॉलोहिया कॉलोनी, शाहजहाँपुर, पिन-242001, (उत्तर प्रदेश) ।
24.	एंटी रिजेक्शन पार्टी ऑफ इंडिया	हाऊस नं० 1184, सैक्टर-21-बी, चण्डीगढ़ ।
25.	आर्य सभा	7, जन्तर-मन्तर रोड, नई दिल्ली-110001.
26.	असम गण परिषद् प्रगतिशील	प्रधान कार्यालय-जी. एस. रोड, उलूबारी, गुवाहाटी-781 007, असम ।
27.	अति पिछड़ा जन दल	ग्राम: रामपुर बाकली, पो० एवं जिला-बिजनोर, उत्तर प्रदेश ।
28.	आवामी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया	बुखारा, बख्शीवाला रोड, बिजनौर-246701, (उत्तर प्रदेश) ।
29.	बारथा समुथाया मुनेत्र मुन्नानी	400/12, प्रथम तल, टाऊनशिप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कामराजर नगर, मेन रोड, अवाड़ी, चेन्नई-600 071, तमिलनाडु ।
30.	बहुजन एकता पार्टी (आर)	सूराज भवन, आर.डी.-136ए, धर्मपूरा एक्स. नजफगढ़, नई दिल्ली- 110043
31.	बहुजन किसान दल	किसान भवन, ऋषम विहार, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ।
32.	बहुजन लोकतांत्रिक पार्टी	जी-161, जे. जे. कॉलोनी, वजीरपुर, दिल्ली -110052.
33.	बहुजन शक्ति	माइन्स रेस्क्यू स्टेशन कैम्पस, पोस्ट-धनसार, जिला-धनबाद, झारखण्ड ।
34.	बाम पार्टी	538के/780, त्रिवेणी नगर-II, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
35.	बारक वैली टेरीटोरी डिमांड कमेटी	स्वराज भवन, सिलेहर रोड, पो० ऑ०, थाना और जिला-करीमगंज, पिन-788711, असम ।
36.	बेगमपुरा सांझा फ्रंट	193, न्यू रसीला नगर, बस्ती दनिश्मंदन जालंधर, पंजाब ।
37.	भारत महाशक्ति पार्टी	11ए, डी.डी.ए फ्लैट्स, प्रियदर्शिनी विहार, लक्ष्मी नगर दिल्ली 110092.
38.	भारत बचाओ पार्टी ऑफ इण्डिया	एस-528, ग्रेटर कैलाश पार्टी-1, नई दिल्ली -110048.
39.	भारत देशम् पार्टी	मकान सं. 8-3-270/1, नेहरू नगर, नवीं लाइन, मेन रोड, गुंटुर-522 001, आन्ध्र प्रदेश ।
40.	भारत जन पार्टी	324, कैलाश नगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
41.	भारत विकास पार्टी (सेकूलर)	खसरा नं० - 21/25, नजदीक एच. पी. पेट्रोल पम्प, उपकार प्रोपर्टीज, ए-ब्लाक, हिमगिरी इन्क्लेव, बुराड़ी, दिल्ली - 110084
42.	भारतीय द्रविड़ मक्कल काची	2036, 15वीं मेन रोड, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई-600 040, तमिलनाडु ।
43.	भारतीय जन शब्द	331 (311), वार्ड नं. - 1, कालरा हाउस, मण्डेला, पोस्ट ऑफिस, वेला नाडु तिरुवनन्तापुरम - 695 543, केरल ।
44.	भारतीय युवथा, समथा, राष्ट्रीयथा कांग्रेस पार्टी	फ्लैट नं. जी-1, भूतल, ए. आर. के. रेजिडेन्सी प्लॉट नं. 304, सर्वे नं. 153, 154, 163 व 143, बोदूपल, ग्राम एवं ग्राम पंचायत - घटकेसर (मंडल), जिला- रंगारेड्डी, हैदराबाद - 500038, आन्ध्र प्रदेश ।

45.	भारतीय अष्ट जन पार्टी	151, सी. सेक्टर, दूसरी मंजिल, कमरा नं० 203, इन्दरपुरी, भोपाल – 462022 (मध्य प्रदेश)।
46.	भारतीय आवाज पार्टी	मिलन कमेटी सेवा संघ, संतोष नगर बेहराम बाग, जोगेश्वरी पश्चिम, मुम्बई – 440102, महाराष्ट्र।
47.	भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल	बंसल गांव, पो. ऑ. – धेघाट, पट्टी-मल्ला, चौकौट, जिला – अल्मोडा (उत्तराखण्ड)।
48.	भारतीय बौद्धिक विचार पार्टी	गाँव-बल्लानगला पट्टी, पो० शाहपुर खेडी, तह० – धामपुर, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश।
49.	भारतीय काँग्रेस (एम)	16, बतरा कालोनी, एम. टी. एक्स सोनीपत, हरियाणा।
50.	भारतीय जन किसान पार्टी	1080C, बाबाजी का बाग, तिलक रोड, बलुआ घाट, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
51.	भारतीय जन समाजवादी पार्टी,	ए – 62, जे० जे० कॉलोनी, खानपुर, नई दिल्ली – 110062.
52.	भारतीय लोक कल्याण दल	एरिया/पोस्ट/तहसील-बिकाबुर, जिला-फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)।
53.	भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी (गांधी-लोहियावादी)	सत्यवती निवास, राम दास पथ, मीठापुर बी. ऐरिया, पटना-800001, बिहार।
54.	भारतीय मानवता विकास पार्टी	133/4, कुतब एन्कलेव, फेस-II, नई दिल्ली- 110016.
55.	भारतीय परिवर्तन पार्टी	70-ए, डी.डी.ए, फ्लैट्स, पाण्डव नगर, मैट्रो स्टेशन शादीपुर के पास, नई दिल्ली- 110008.
56.	भारतीय पूर्वांचल पार्टी	ई-68, प्रेमचन्द कॉलोनी, पांडेयपुर (1), वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
57.	भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी	सी-2968, सपना कॉलोनी, लखनऊ-226017, (उत्तर प्रदेश)।
58.	भारतीय राष्ट्रीय स्वदेशी काँग्रेस पक्ष	308, रामनगरी, 2/सी, तीसरा तल, अलन्दी रोड, भोसरी, पुणे-411039, महाराष्ट्र।
59.	भारतीय समाज कल्याण पार्टी भारत	रवेन्द्र इलैक्ट्रॉनिक्स, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, हाथरस, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)।
60.	भारतीय सर्वकल्याण क्रान्ति दल	2/643/सी, रामाबाग कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़-202 001 (उत्तर प्रदेश)।
61.	भारतीय शक्ति सेना	शक्ति सेना भवन, बैरियर नं० 6, औद्योगिक क्षेत्र बहादुराबाद, हरिद्वार – 249 402 उत्तराखण्ड।
62.	भारतीय श्रमिक दल	एल-238, विकास प्राधिकरण कॉलोनी, इंदिरा नगर, राय बरेली (उत्तर प्रदेश)।
63.	भारती समाजवादी मोर्चा	3/1108, देहरादून चौक, सहारनपुर-247001. (उत्तर प्रदेश)।
64.	भारती लोक लहर पार्टी	136, अजीत नगर, अमृतसर (पंजाब)।
65.	भारतीय देशभक्त संघ (ब्रजेश)	शॉप नं० -1, खसरा नं० 1494, नेहरू इन्कलेव, बैंक वाली गली, अलीपुर, दिल्ली- 110036.
66.	भारतीय गणतंत्र पार्टी	मकान नं. 5, गंगाधाम, कुन्दन नगर, बाग मुगालिया, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश।
67.	भारतीय गोरखा जनशक्ति	26/2, एच.डी. लामा रोड दार्जिलिंग-734101, (पश्चिम बंगाल)।
68.	भारतीय हरित क्रान्ति दल	गांव व पो० सोन्टा, वायां – अलीपुर, खेरी, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।

69.	भारतीय हिन्द एकता दल	डिफेन्स कालोनी, अनिल शहीद नगर, इज्जतनगर, नैनीताल रोड, बरेली - 243122 उत्तर प्रदेश।
70.	भारतीय जन सनमति पार्टी	ग्राम- हरौला, सेक्टर -5, नोएडा, उत्तर प्रदेश।
71.	भारतीय जन काँग्रेस (राष्ट्रीय)	113/70 बी, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना -800023, (बिहार)।
72.	भारतीय जनता की एकता पार्टी	प्लॉट संख्या 29-ए एण्ड 30ए, खसरा नं० 20/1/1, गांव राजापुरा खुर्द दिल्ली, कालोनी मोहन गार्डन, आर-III, ए-2, नई दिल्ली -110059
73.	भारतीय स्वर्ण समता पार्टी	201-सी, गोयल एन्कलेव, फैजाबाद रोड, चिनहट लखनऊ उ. प्र.
74.	बुद्धिविवेकी विकास पार्टी	आर(यू)- 9, द्वितीय तल, पीतमपुरा, दिल्ली - 110088.
75.	चंडीगढ़ विकास पार्टी	मकान नं० 230, सेक्टर 9-सी, चंडीगढ़ - 160009.
76.	छत्तीसगढ़ नव निर्माण सेन	सी0 आर0 12, आर0 डी0 ए0 बिल्डिंग, गुरुनानक मार्किट, शारदा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।
77.	चिल्ड्रन फर्स्ट पार्टी ऑफ इंडिया	703-704, देवथा प्लाजा, 132, रेजीडेंसी रोड, बैंगलुरु - 560025, कर्नाटक।
78.	डेमोक्रेटिक इन्साफ पार्टी	डी-62, जी. टी. बी. नगर (करेली), इलाहाबाद, (उत्तर प्रदेश)।
79.	डेमोक्रेटिक जनता दल (जे. एण्ड के.)	344 ई. पी. किस्टेन कॉलोनी (शहीदी चौक), जोगी गेट, जम्मू (जम्मू व कश्मीर)।
80.	देसिया फारवर्ड ब्लाक	नं० 5, एम० पी० एवेन्यू मजेस्टिक कॉलोनी, शालीग्रामम, चेन्नई - 600093, तमिलनाडु।
81.	एकता क्रान्ति दल यू. पी.	मार्फत-सत्यपाल सागर, अमनजय, जलाल नगर, छोटी लाइन के सामने, शाहजहांपुर, (उत्तर प्रदेश)।
82.	फेडरल काँग्रेस ऑफ इण्डिया	होलम्बी खुर्द, गाँव व पो० - होलम्बी कलां, दिल्ली - 110082.
83.	फार्वर्ड ब्लॉक (सोशलिस्ट)	टेम्पल स्ट्रीट, पो. ऑ. व जिला - जलपाईगुडी - 735101 (पश्चिम बंगाल)।
84.	गरीब जनता पार्टी	राजिन्दर नगर, मेन बाजार, पो. ऑ. - विजय नगर, बटाला रोड, अमृतसर (पंजाब)।
85.	ग्रामांचल पार्टी	3/ए, सत्य नगर, सेन्ट्रल स्कूलके सामने, भुवनेश्वर- 7, उड़ीसा।
86.	गुजरात युवा विकास पार्टी	मार्फत दरबार कूबा ट्रान्सपोर्ट, बस स्टेशन के पास, वाइनगर- 384355, जिला-मेहसाना (गुजरात)।
87.	हरित प्रदेश पार्टी	मकान नं० - 349, ग्राम व पोस्ट बिलसूरी, जिला - बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश - 203205
88.	हरियाणा जनता पार्टी	गांव व पोस्ट - रीसालु, तहसील व जिला - पानीपत, हरियाणा - 132103
89.	हरियाणा सामाजिक न्याय पार्टी	कोठी. नं०-239, सेक्टर -7, अर्बन एस्टेट, कुरुक्षेत्र- 136118, हरियाणा।
90.	हिन्द एकता मिशन	ग्राम-लेडूवावर, पोस्ट-कौवरागहनी, तहसील-फूलपुर, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
91.	हिन्द मोर्चा	समाज सुधार आश्रम, सिरसपुर, दिल्ली

92.	हिन्द रक्षा सेना	डब्ल्यू जैड-13 बी, प्रथम तल, मुखराम पार्क एक्सटेंशन, तिलक नगर, नई दिल्ली - 110018
93.	हिन्द राष्ट्रीय एकता पार्टी	प्लॉट. नं० 104, अंगुरी पैलेस, वजीराबाद रोड, पासुन्डा गरिमा गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी०-201005
94.	हिन्द स्वराज्य गणतन्त्र पार्टी	एस-41, पंचशील पार्क, नई दिल्ली - 110017.
95.	हिन्दुस्तान ऐक्शन पार्टी	156, खन्ना नगर, लोनी, गाजियाबाद-201102 उत्तर प्रदेश ।
96.	हिन्दुस्तान पीपुल्स पार्टी (राजपाल)	85ए-मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
97.	हिन्दुस्तानी गरीबवादी पार्टी	61, अग्रवाल चैम्बर्स, विकास मार्ग, वीर सावरकर ब्लॉक शकरपुर, दिल्ली - 110092
98.	हिन्दुस्तान सुरक्षा पार्टी	नार्थ-इस्ट जोन, बरपेटा रोड, टूरिस्ट लोज के पास वार्ड नं० 6, जिला बरपेटा, (आसाम) ।
99.	इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी	1, बलवन्त राय मेहता लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001.
100.	इंडियन सेक्युलर काँग्रेस	202, पाकेट-बी, एस.एफ.एस. (डी.डी.ए. फ्लैट्स), सुखदेव विहार, नई दिल्ली - 110025.
101.	इण्डियन वोटर्स वेलफेयर पार्टी	नं०-608, 14वीं मेन, गोकुल प्रथम स्टेज, बैंगलोर-560054, कर्नाटक ।
102.	इंडियनस फ्रंट	37-12-62, एन०जी०जी०ओ०एस० कॉलोनी, पी० आर० गार्डन्स, विशाखापट्टनम-530007, आन्ध्र प्रदेश ।
103.	इष्टतन्त्र परिषद	ग्राम-दिब्यसिंहपुर, खाता संख्या - 638, प्लॉट नं. 1343, पोस्ट-रायगुरुपुर, थाना - गदिसागोडा, जिला - पुरी, ओडिसा
104.	जे०एण्ड०के० सिटीजन्स पार्टी	हीरा बिल्डिंग, अबी गुजर, लाल चौक, श्रीनगर(जम्मू और कश्मीर) ।
105.	जगत तेलुगु मुन्नेत्र कडगम	नं० 33, हाल्स रोड, पी. ए. टावर, एफ-9 ओर 10, एगमोरे, चेन्नई-600008, तमिलनाडु ।
106.	जय जनता जनार्दन पार्टी	मोहल्ला-मनोहरीगंज, मर्दन नाका शहर बाँदा, परगना व जिला-बादा, उत्तर प्रदेश ।
107.	जय समाज भारतीय समाज पार्टी	टाउन एरिया सादात, पोस्ट - सादात, जिला - गाजीपुर, उत्तर प्रदेश ।
108.	जम्मू एण्ड कश्मीर नैशनल युनाइटेड फ्रंट	पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, अम्फला चौक, करन नगर, जम्मू तवी - 180005, जम्मू व कश्मीर ।
109.	जम्मू और कश्मीर सेव श्रीनगर फ्रंट	नायब मुफ्ती आजम मंजिल, तेलबल रोड, हाबक क्रॉसिंग, श्रीनगर - 190006 जम्मू और कश्मीर ।
110.	जम्मू एण्ड कश्मीर अवामी लीग	बी - 24, इन्द्रानगर, श्रीनगर - 190001 (जम्मू व कश्मीर) ।
111.	जम्मू एण्ड कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट	कुरू राजबाग, श्रीनगर - 190008, कश्मीर ।
112.	जम्मू एण्ड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (सेक्युलर) ।	राजबाग, लिटिल एन्जल्स स्कूल के पास, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर ।
113.	जन एकता पार्टी	147/5, आई० टी० आई० के पीछे, शमशेरपुर, पौंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश ।
114.	जन लोकमत पार्टी	2, हसरत बिल्डिंग, आध्यात्मिक नगर, रेलवे फ्लाई ओवर के नीचे, डासना, गाजियाबाद - 201302 उत्तर प्रदेश ।

115.	जन शान्ति संगठन	एए - 14, चंदन वन, फेज - 1, मथुरा उत्तर प्रदेश - 281001.
116.	जन हितकारी पार्टी	ए/13 - 14, इंडस्ट्रियल एस्टेट, रसूलगढ़, भुवनेश्वर - 751010, उड़ीसा।
117.	जन उन्नयन मंच	मार्फत डोलफिन इंजिनियरिंग कम्पनी, 39, शेक्सपियर सरणी, कोलकाता - 700017, पश्चिम बंगाल।
118.	जनादेश पार्टी	राधे निवास, जरीमरी, जगताप वाडी, कुर्ला अंधेरी रोड, मुंबई - 400072
119.	जननायाहा मुनेत्रा कडगम	नं0 32, न्यु टेन्क गली, नूंगमवक्कम, चेन्नई - 600034, तमिलनाडु।
120.	जाथिया तेलुगु अभिवृद्धि सेवा समुह	नं0 171, केशवईगुंटा, निकट - एस0 जी0 एस0 आर्ट्स कॉलेज, तिरुपति - 517501 जिला - चित्तूर, आंध्र प्रदेश
121.	झारखण्ड जन मोर्चा	द्वितीय मंजिल, अजमेरी टावर, मल्लाह टोली, राँची - 834001, झारखण्ड।
122.	झारखण्ड जनाधिकार मंच	भुवनेश्वरी लोक, काली मंदिर रोड, वर्धमान कम्पाउन्ड, राँची - 834001, झारखण्ड।
123.	झारखण्ड वनांचल काँग्रेस	5, रातू रोड, राँची - 834005, झारखण्ड।
124.	कैबिनयगेर मुन्नेत्र कडगम	श्री विश्वेश्वर भवनम, 76, मिलर्स रोड, किलपोक, चेन्नई - 600010 (तमिलनाडु)।
125.	कामगार समाज दल	मकान नं0 9/237, मोहल्ला : रायडोपुर, पोस्ट एवं जिला - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
126.	कर्नाटक क्रान्ति दल	नं0 240, सिक्सटीन्थ मेन, सिक्सथ क्रॉस, फर्स्ट फेज, II स्टेज, वी.टी.एम. (ई डब्ल्यू एस) लेआउट, बंगलौर - 560076 (कर्नाटक)।
127.	कर्नाटक तामीझार मुन्नेत्र कडगम	नं. 6, II फ्लोर, चिक बाजार रोड, क्रॉस शिवाजी नगर, बंगलौर - 560051, (कर्नाटक)।
128.	केरला जनपक्षम	पुरा - 36, श्यामला निवास, पूजापुरा पी0 ओ0, थिरुवनन्थापुरम - 695012.
129.	किसान गरीब नागरिक पार्टी	203, मरकज ब्यू द्वितीय तल, 24, अपोजिट कैरिट सिनेमा, जोगेश्वरी पश्चिम, मुम्बई - 400103 महाराष्ट्र।
130.	किसान मजदूर बहुजन पार्टी	जे-1/2, दली बाग कॉलोनी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
131.	किसान व्यवसायी मजदूर पार्टी	प्रकाश भवन, नरही बाजार, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
132.	कोंगुनाडु जननायगा काँची	"इराई अरुल" नं0 - 24, मेथा लेआउट, लक्ष्मीपुरम, पीलामेडु (पो.ऑ.), कोयमबटूर, तमिलनाडु - 641004
133.	कोसल पार्टी	जी. एम. कॉलेज रोड, सम्बलपुर - 768004, (उड़ीसा)।
134.	क्रान्ति दल	132, बाबूगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
135.	क्रान्ति परिषद्	म0 नं0 2019, मिस्त्रीखान रोड, नाहरगढ़ रोड, जयपुर (राजस्थान)।
136.	क्रांतीसेना महाराष्ट्र	5-ए, ज्योतिसदन शितलादेवी, टेंपल रोड, माहिम, मुम्बई, महाराष्ट्र।

137.	लेबर एण्ड जॉब सीकर्स पार्टी ऑफ इण्डिया	66, रोयेपेट्टा हाइ रोड, मायलापोर, चेन्नई-600004. (तमिलनाडु)।
138.	लाल मोर्चा	आर० जेड० सी० – 113, विष्णु गार्डन, ख्याला, नई दिल्ली – 110018.
139.	लट्टिन काँग्रेस	बवाली, पोस्ट-खाश, जिला-मेरठ-250621, (उत्तर प्रदेश)।
140.	लोक परित्राण	"सौभाग्य" 12-13 तिलक नगर-II महामन्दिर, जोधपुर – 342 010, राजस्थान।
141.	लोको संमिलोन	पोस्ट ऑफिस-जलेश्वर, जिला-गोलपारा, असम।
142.	लोकसेना	63/एच०/एस०, मदनमोहन बर्मन एस्टेट कोलकता-700007, पश्चिम बंगाल।
143.	लोकतांत्रिक चेतना पार्टी	मुमताज मंजिल, आजाद नगर, बादा, उत्तर प्रदेश।
144.	लोकतांत्रिक जनता फ्रंट	ई०-13/307, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जवाहर पार्क, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
145.	महागुजरात जनता पार्टी	ए-203, सत्यमेव-1, एस.जी. रोड, हाई कोर्ट के सामने, अहमदाबाद गुजरात।
146.	महाकौशल विकास पार्टी	"शान्ति कुटीर" 281, संजीवनी नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।
147.	महानायक सरदार पटेल संघ	52/98, द्वितीय तल, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली- 110019.
148.	मक्कल काँग्रेस वजहापट्टियार	18, तेलुगु ब्राह्मण स्ट्रीट, वेलाचेरी, चेन्नई-600 042, तमिलनाडु।
149.	मक्कल देसिया जननायका काची	245/6, आर. के. मुट्ट रोड, माइलापोर, चेन्नई-600 004, तमिलनाडु।
150.	मक्कल मरुमलार्ची मुनेत्र कडगम	नं० 13ए, प्रथम तल, थियागाराजन नगर, कोडुंगईयुर, चेन्नई – 600118 तमिलनाडु।
151.	माना पार्टी	5-4-719, कैटलमण्डी, नामपाल्ली, हैदराबाद-500 001, आन्ध्र प्रदेश।
152.	मणिपुर पीपुल्स पार्टी(डेमोक्रेटिक)	क्वार्टर नं० 1, टाईप-4, बाबूपाड़ा, इम्फाल-795001, (मणिपुर)।
153.	मर्यादी दल	ग्राम चोरकरवाडा, तहसील- वैर, जिला- भरतपुर, राजस्थान।
154.	मातृ भक्त पार्टी	रघुनाथ फार्म, ग्राम व पोस्ट-कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा।
155.	एम जी आर थोंडरकल काञ्ची	नं. 18/33ए, वट्टाविलई, कप्पिवारी पोस्ट, कन्याकुमारी, जिला- 629156, तामिल नाडु।
156.	मिजोरम काँग्रेस पार्टी	हैडक्वार्टर्स- आइजॉल, मिजोरम-796 001।
157.	नागा नेशनल पार्टी	हैडक्वार्टर्स अजा डेली ऑफिस, चर्च रोड, देवलाहलैंड, इम्फाल, (मणिपुर)।
158.	नेशनल जनक्रान्ति दल	के-316, बस टर्मिनल के पास, कुतुब मीनार के सामने, एम.बी रोड, लाडो सरास, नई दिल्ली-110030
159.	नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी	हाउस नं.1080, ब्लॉक-पी/1, सुलतान पुरी कलोनी, नई दिल्ली-110041
160.	नैशनल सेक्युलर पार्टी	सी-20/बी, फर्स्ट फ्लोर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110016

161.	नेशनल स्टुडेन्ट्स पार्टी	16/2 कर्णनीशवरार पागोडा स्ट्रीट, मायलापोर, चेन्नई-600004, (तमिलनाडु)।
162.	नेशनल विकास पार्टी (इण्डिया)	बी-40/ए-11, गणपति पेराडाइज सेन्ट्रल स्पाइन, विद्या धर नगर जयपुर-302023, राजस्थान।
163.	नव निर्माण नागरिक समिति	6/7/8, शंकरमठ रोड, बासनगुडी, बंगलौर-560004, (कर्नाटक)।
164.	नव तेलंगाना पार्टी	म० नं० 8-2-598/बी, रोड नं० 8, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034
165.	नेताजी सुभाष पार्टी	शाजनवा, जिला-गोरखपुर, (उत्तर प्रदेश)।
166.	न्यूज काँग्रेस	बाई महल, दूसरी मंजिल, वादिया गली, तारदेव, मुम्बई-400 034, महाराष्ट्र।
167.	निस्वार्थ सेवा पार्टी	वेद आर्युवेदिक स्टोर, बस स्टैंड के पास, महेन्द्रगढ़, हरियाणा।
168.	उड़ीसा गण परिषद्	ए/52, खरवेला नगर, यूनिट-III, भुवनेश्वर-751001.
169.	उड़ीसा मुक्ति मोर्चा	15, भौमा नगर, यूनिट- IV, भुवनेश्वर-751001, उड़ीसा।
170.	पहचान मंगलकारी पार्टी	एल-II 56, मदनगीर, दिल्ली-110 062।
171.	पश्चिमी प्रजातंत्र मोर्चा	386, शाहनत्थन, मेरठ, उत्तर प्रदेश
172.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्वराज पार्टी	सरधना रोड, कंकड खारा, मेरठ (उत्तर प्रदेश)।
173.	पैट्रियाट	28-अप्पावु स्ट्रीट, कुड्डालोर पोर्ट, पिन-607003, तमिलनाडु।
174.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक कांग्रेस ऑफ इण्डिया	बाँकरा, पोस्ट ऑफिस-बिराती, कोलकाता-700 051, पश्चिम बंगाल।
175.	पीपुल्स पॉवर पार्टी	पो० बी० नं० 16, शिवाजी नगर पोस्ट ऑफिस, मुम्बई-400043, महाराष्ट्र।
176.	प्लेन्स ट्राइबल्स काउन्सिल ऑफ असम	पी०ओ० व टी० ओ० कोकडाझाड, जिला-कोकडाझाड, (असम)।
177.	प्रबुद्ध भारत पार्टी	7ए, हॉस्पिटल स्ट्रीट, प्रथम तल, कोलकाता- 700 072, पश्चिम बंगाल।
178.	प्रजा भारथ पार्टी	प्लॉट नं० 106, ब्लॉक 'ए', अर्चना अपार्टमेन्ट, ईस्ट मैरिडपल्ली, सिकन्दराबाद-500026 (आन्ध्र प्रदेश)।
179.	प्रजा चैतन्य पार्टी	1-7-578/31/2, जेमनी कालोनी मुर्शिदाबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
180.	प्रजातान्त्रिक लोक एकता दल	3, कौटिल्य मार्ग, पटना-800 001, बिहार।
181.	प्रोग्रेसिव पार्टी	बी ब्लॉक, गली नं० -5, शनि बाज़ार रोड, अमृत विहार, बुराडी, दिल्ली - 110084।
182.	प्रोग्रेसिव पीपुल्स पार्टी	मकान नं०-975, 976, श्याम कॉलोनी, बुद्धविहार फेस-II, कृष्णा मंदिर के पास, थाना - विजय विहार, दिल्ली - 110086।
183.	पुडुचेरी पडाईपली मक्कल काञ्ची	सं० 4, फर्स्ट स्ट्रीट, थेंड्रुल नगर, पुडुचेरी-605013.
184.	पंजाब पीपुल्स पार्टी	14, सैक्टर-28, अरूण विहार, नोएडा-201303 (उत्तर प्रदेश)।
185.	पंजाब विकास कांग्रेस पार्टी	पंज पीर चौक, जालन्धर, पंजाब।

186.	पंजाबी दल	मकान नं० बी.वी/30ए, रामगढ़िया गुरुद्वारा रोड, बरनाला-148101, जिला-संगरूर (पंजाब)।
187.	पूर्वांचल गण परिषद्	मकान नं. 34, पाकेट 28, सेक्टर 24, रोहिणी, दिल्ली-110085.
188.	पूर्वांचल जनशक्ति पार्टी	श्री विश्वेश्वर आश्रम सतुवाभार, पोस्ट-बिहारी बुजुर्ग, खजनी, गोरखपुर-273 212, उत्तर प्रदेश।
189.	पूर्वांचल विकास पार्टी	एल-131, गली नं. 5, महीपाल पुर एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110037.
190.	पुथिया नीधि काची	6, नार्थ बौग रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017 (तमिलनाडु)।
191.	कौमी जनता दल	9 बी, त्रिलोकनाथ रोड, लाल बाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
192.	राजस्थान देव सेना दल	बस स्टैंड के सामने, धमाई हवेली, दूदू, जयपुर, राजस्थान।
193.	राजदल हरियाणा	डी / एस 45, ब्रास मार्केट, बावल रोड, रेवाड़ी-123401, हरियाणा
194.	राष्ट्रसमर्पित जनसमूह	एच-101, ग्राउण्ड फ्लोर, चन्दु पार्क, कृष्णा नगर, नई दिल्ली-110051.
195.	राष्ट्रवादी समता पार्टी	196 /187क, ग्राम-बलीपुर खुर्दावां, तहसील-गौरीगंज, जिला-अमेठी, उत्तर प्रदेश।
196.	राष्ट्रवादी स्वर्ण एकता पार्टी	प्लॉट नं० - 11, द्वितीय तल, अवधपुरी खण्ड - 1, खरगापुर मार्केट, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
197.	राष्ट्रीय अग्रणीय दल	ग्राम-खमौना, पोस्ट-रेसीपुर, थाना-जन्सा, जनपद-वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
198.	राष्ट्रीय आवामी दल	152, काजी टोला, सैलानी रोड, ओल्ड सिटी, बरेली-243005, उत्तर प्रदेश।
199.	राष्ट्रीय देहात मोर्चा पार्टी	601, रोहित हाउस, 3- टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली - 110001
200.	राष्ट्रीय एकता विकास पार्टी	नूर मस्जिद के पास, मदाना मस्जिद ट्रांसफार्मर वाली गली, अशोक विहार, वार्ड नं० 42, लोनी, तहसील एवं जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
201.	राष्ट्रीय हमारा दल	22/191, ढोली खार, मन्टोला, आगरा (उत्तर प्रदेश)।
202.	राष्ट्रीय हिन्दुस्तान सेना, कर्नाटक	शिवा शक्ति, 141, न्यू बस स्टॉप के पीछे, वासवी नगर, हुबली - 580 030, कर्नाटक।
203.	राष्ट्रीय हित कांग्रेस	712, जी- ब्लॉक, मिलिट्री रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005.
204.	राष्ट्रीय इन्दिरा पार्टी	दत्तपुरा, सब्जीमण्डी के पास, मुरैना, मध्य प्रदेश।
205.	राष्ट्रीय जन समानतावादी (अम्बेडकर)	71- बी, पॉकेट ए -3, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110019
206.	राष्ट्रीय जनआन्दोलन पक्ष	'पोवराभवन' नं० 567 (38), 60 फीट रोड, गोकुल मथीकेरे लेआउट, बंगलौर - 560054, (कर्नाटक)।
207.	राष्ट्रीय जनता जनार्दन पार्टी	सूरज का पुरवा, अतरारूरल, पो० ऑ० अतरा जिला-बाँदा, उत्तर प्रदेश।
208.	राष्ट्रीय जनहित पार्टी	कोठी नं० 75, सेक्टर - 17, पंचकुला- 134109. (हरियाणा)।

209.	राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी (सेक्यूलर)	फ्लैट नं० 153-154, वीर चन्द पटेल पथ, पटना- 800001 (बिहार)
210.	राष्ट्रीय कामगार पार्टी	बी डब्ल्यू-97, डी, शालीमार बाग, दिल्ली - 110088
211.	राष्ट्रीय कमजोर वर्ग पार्टी	केन्द्रीय कार्यालय - पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पोस्ट ऑफिस, (उच्च तल), पटना - 800023 (बिहार)।
212.	राष्ट्रीय क्रांतिकारी जनता पार्टी	407, दुर्गा चैम्बर्स, डी. बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005.
213.	राष्ट्रीय लोक जागृति पार्टी	बैरक नं० - 27 के पास, बुद्ध विहार के सामने, भीम नगर, उलहासनगर - 421001, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र।
214.	राष्ट्रीय लोक सेवा मोर्चा	206, लव कुश टावर, एकजीवीशन रोड, पटना 800001, बिहार।
215.	राष्ट्रीय लोकहित पार्टी	ए-40/35 ए, अमरपुर मढिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
216.	राष्ट्रीय मच्छुवा समाज पार्टी	रेलवे रोड, दादरी, नियर रावाजी फार्म हाउस, गोतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)।
217.	राष्ट्रीय मानव अधिकार पार्टी	17/700, ग्राम- गोपालपुर, पो. आजादपुर (तिमारपुर), दिल्ली - 110009
218.	राष्ट्रीय प्रगतिशील प्रजातन्त्र पार्टी	3518, दरीबापन, शीला सिनेमा के सामने, पहाडगंज, नई दिल्ली - 110055.
219.	राष्ट्रीय राजधानी काँग्रेस दिल्ली	8, नाथ मार्किट, नई सड़क, दिल्ली - 110006.
220.	राष्ट्रीय समाधान पार्टी	121-ए० आर० - 3/ए० -2, मंगल बाजार, मोहन गार्डन, नई दिल्ली - 110059.
221.	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी "प्रगतिशील"	बी - 248, मोहन नगर, थाटीपुर, मोरार, ग्वालियर, (मध्य प्रदेश)।
222.	राष्ट्रीय सर्वसमाज पार्टी (इंडिया)	प्लॉट नं०-256, मीतला धाम, रहीवासी संघ, जरी वर्गीस टर्मट कम्पनी के सामने, जनरल ए. के. वैद्य मार्ग, मलाड (पूर्व), मुम्बई-400097, महाराष्ट्र।
223.	राष्ट्रीय स्वर्ण शक्ति पार्टी	299, ग्राउन्ड फ्लोर, गगन विहार, दिल्ली-110051
224.	राष्ट्रीय सिन्धी काँग्रेस	437/बी/1, रूबिया हाऊस, बी/एच, एलिस ब्रिज शॉपिंग सेन्टर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 006, गुजरात।
225.	रिपब्लिकन लेबर पार्टी	ब्लॉक-4, हाउस नं०-236, 7 वीं माइल चुमुकेडिया, दीमापुर-797 103, पोस्ट बॉक्स - 354, नागालैण्ड।
226.	रिपब्लिकन प्रेसिडियम पार्टी ऑफ इंडिया	उरूली-कंचन, पुणे-412202, (महाराष्ट्र)।
227.	सामाजिक एकता पार्टी	22, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सोनीपत-131001, (हरियाणा)।
228.	सामाजिक जनतांत्रिक पार्टी	मुकाम राजा मार्किट, सिनेमा रोड, गोपाल गंज नगर पालिका, पोस्ट - गोपालगंज-841428, जिला- गोपालगंज (बिहार)।
229.	सम्पूर्ण क्रान्ति दल	ग्राम - खजूरी कलों, पोस्ट - खजूरी खुर्द, कोराँव, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
230.	संयुक्त दस्तकार पार्टी	पी- 205, बस्ती ख्वाजा, मीर दर्द, बेरन रोड, नई दिल्ली-110002

231.	सर्व समाज विकास पार्टी	बाम्बा रोड, सैलाई, पो. ओ. - सैलाई, जिला - फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
232.	सर्वहारा समाज पार्टी	68-ए ब्लॉक, दारूलशफा, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
233.	सर्वोच्च राष्ट्रीय विकास महापरिषद	सी - 90, डी डी ए फ्लैट, वैस्ट गोरख पार्क (न्यू जाफराबाद), शाहदरा, दिल्ली - 110032
234.	सत्य विजय पार्टी	101- सी, प्रेस हाऊस, 22, फिरोज़ गाँधी प्रेस कॉम्पलेक्स, आगरा - मुम्बई रोड, इन्दौर - 452008, मध्य प्रदेश।
235.	सत्यवादी पक्ष	कमरा संख्या - 4-5, ओरायान कॉम्पलेक्स, होटल राजधानी के सामने, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद - 431005, महाराष्ट्र।
236.	सेक्युलर डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया	6-2-44/3ए, जम्मीबांदा स्ट्रीट, खम्माम-507001, आन्ध्र प्रदेश।
237.	शेतकरी विचार दल	49, ममता, आनन्दनगर को-ओप. हाउसिंग, गुलमोहर रोड, सावेदी, अहमदनगर-414001, (महाराष्ट्र)।
238.	शिरोमणि यूथ अकाली दल (कहलो)	5/5051, शक्ति नगर, खंडवाला, चहाता, अमृतसर (पंजाब)।
239.	शोषित समाज अधिकार पार्टी	तहसील-कोल, थाना-गांधी पार्क, जनपद-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202001
240.	श्री भारत विकास पक्ष	220, श्री जी कॉम्पलेक्स, एलिसब्रिज पोस्ट आफिस के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380006 (गुजरात)।
241.	सिक्किम गोरखा प्रजातान्त्रिक पार्टी	सिम्मा बिल्डिंग, डाक घर व थाना-सिंगटम, पूर्वी सिक्किम-737134, (सिक्किम)।
242.	सिक्किम हिमाली राज्य परिषद पार्टी	तुलसीकुंज बिल्डिंग, टेलिफोन एक्सचेंज के निकट, पो0आ0 - दारा गांव, 31-ए, नेशनल हाईवे, टाडोंग बाजार, टाडोंग, गंगटोक-737102, सिक्किम।
243.	सिक्किम जन-एकता पार्टी	तिन्जीर, नामची, साउथ सिक्किम-737126
244.	सिक्किम लिबरेशन पार्टी	तिन्तेक, पूर्व सिक्किम, गंगटोक सिक्किम - 737134
245.	सिक्किम संग्राम परिषद्	देवराली बाजार, पो.ऑ-ताडोंग, गंगटोक, सिक्किम-737102।
246.	सिंह जन सेना पार्टी	पब्लिक लाइब्रेरी के पास, वेरावल-362265, (गुजरात)।
247.	सरपंच समाज पार्टी	टी-47, ओल्ड नांगल, दिल्ली कैंट-110010.
248.	सुराज पार्टी	6-81, ऑफिस बिल्डिंग, विशाल एस्टेट्स, ग्राम - अन्नाराम, मंडल - जिन्नाराम, जिला - मेडक, आंध्र प्रदेश - 502 313
249.	स्वराज दल	नं.-4, स्टाप, पाट्टर गुड्डा पोस्ट गाराहेहाराम, पोर्ट ब्लेयर-744101, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह।
250.	स्वर्ण युग पार्टी	नं. 26, "अम्मा", प्रथम मुख्य रोड, डॉलर कॉलोनी, आर.एम.वी. द्वितीय स्टेज, बेंगलोर-560094, कर्नाटक।
251.	स्वतंत्र आदर्शवादी भारतीय क्रान्ति पार्टी	गांव व पोस्ट-लुटुही, यन्हा माहुली, जिला-संत कबीर नगर, खलीलाबाद, उत्तरप्रदेश।
252.	तमिल मनिला कायदे मिल्लत लीग	579, अन्ना सलाई तेनामपेट, चेन्नई-600006, तमिलनाडु।
253.	तमिलीना विदियाल पुलिकल इयाक्कम	अन्नई इल्लम, पल्लावन नगर, थर्ड स्ट्रीट, थेनी मेन रोड, मदुराई - 625 016, तमिलनाडु।
254.	तमिलनाडु जननायक काँग्रेस	327, लोयडस रोड, रोयापेट्टा, चेन्नई-600014, तमिलनाडु।

255.	तमिझार पार्टी	8/43, एम.टी.सी. रोड, मट्टुर डैम, 1, सलेम जिला, चेन्नई-600017, (तमिलनाडु)।
256.	थन्थई पेरियार द्रविड मुन्नेत्र कडगम्	23, अलगप्पन स्ट्रीट, थेन्काराय पेरियाकलम, जिला - थेनी, तमिलनाडु - 625601.
257.	टीपू सुल्तान नैशनल रिपब्लिक पार्टी	नं0 24, फर्स्ट मेन, 13वां क्रॉस, बापूजीनगर, मैसूर रोड, बैंगलूर-560026, कर्नाटक।
258.	त्रिकलिंगा कांग्रेस	पालांका कोलीगाडिया, पोस्ट- गुनठनी बारचाना, जिला- जयपुर, पिन- 754024
259.	त्रिलिंगा प्रजा प्रगति पार्टी	बी-118, मधुरानगर, एस.आर. नगर पोस्ट, हैदराबाद-500038, आन्ध्र प्रदेश।
260.	तृणमूल गण परिषद्	आनन्द प्लाजा काम्पलेक्स, चौथी मंजिल, गणेशगुरी चरीएली, गुवाहाटी- 781006, असम।
261.	यूनाइटेड बोडो नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट	मार्फत देवरी बोरा, रामभापुरी, कहिलीपाडा, गुवाहाटी, (असम)।
262.	यूनाइटेड इंडिया पीपुल्स पार्टी	मन्जामाट्टम मूझूर, पो. ऑ. कोट्टायम, जिला (केरल)।
263.	यूनाइटेड इंडियन डेमोक्रेटिक काउन्सिल	नं0 1205, ए-स्टेज, राजाजी नगर, बंगलौर-560010, (कर्नाटक)।
264.	यूनाइटेड माइनॉरिटीज फ्रंट, असम	उलूबारी, गुवाहाटी — 781007, (असम)
265.	यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (सोशलिस्ट)	टेंगखुल एवेन्यू, इम्फाल, मणिपुर—795001.
266.	यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ऑफ असम	एस. एस. रोड, लखटोकिया, गुवाहाटी—781001, असम
267.	यूनाइटेड रिजर्वेशन मूवमेंट काउन्सिल ऑफ असम	पो0 बाँ. नं0 2, पो0 — रेहाबाड़ी, गुवाहाटी — 781008, (असम)।
268.	यूनाइटेड ट्राइबल नेशनलिस्ट्स लिबरेशन फ्रंट	देउलगुरी, हरिसिंह, दारंग—784510, (असम)।
269.	उर्स संयुक्त पक्ष	नं0 46, पैलेस रोड, बंगलौर — 560001, कर्नाटक।
270.	उत्तराखण्ड संस्कृति परिषद्	डी— 355, विनोद नगर (पश्चिम), दिल्ली — 110092
271.	उत्तराखण्ड सेना पार्टी	जय माता दी अपार्टमेंट, 10/1, नजदीक शंकर मंदिर, जुना कल्वा, बेला रोड, कल्वा, थाने (वेस्ट), महाराष्ट्र- 400605
272.	उत्तराखण्ड जनवादी पार्टी	53 — के, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
273.	विदर्भ विकास पार्टी	ब्लॉक ए0 सेकेंड फ्लोर, पूनम चैम्बर्स, छिन्दवाडा रोड, नागपुर —13, महाराष्ट्र।
274.	विदर्भ राज्य पार्टी	कामगार भवन, वैद्यनाथ चौक के पास, ग्रेट नाग रोड, नागपुर—3, महाराष्ट्र।
275.	विधायक दल	एच0 आई0 जी0 — 205, सेक्टर—1, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
276.	विकास परिषद्	62 — ए, शास्त्री कॉलोनी, अम्बाला कैन्ट—133001, हरियाणा।
277.	विश्व विकास संघ	एफ—53/एफ —1, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली —110095।
278.	विवासायी अंभु काची	नं0 14, राघव नाट्टन स्ट्रीट, उतिरामेरूर - 603406, (तमिलनाडु)।

279.	वार वैट्रन्स पार्टी	ए/ 301 – 302, पर्ल अपार्टमेंट, आई. सी. कॉलोनी, बोरीवाली (पश्चिम), मुम्बई – 400103, (महाराष्ट्र)।
280.	वेस्ट बंगाल प्रगतिशील इन्दिरा काँग्रेस	68 – बी, ए. पी. सी. रोड, कोलकाता – 700009 पश्चिम बंगाल।
281.	यूथ ब्रिगेड	गांव काकगाची, पॉ0 ऑ0 भन्देरहाली, जिला – हुगली, पश्चिम बंगाल।
282.	युवा जागृति दल	3-बी, प्रयोशा फ्लैट्स, जिमखाना के पास, सैक्टर-19, गांधीनगर – 382 019, गुजरात।

*आयोग के दिनांक 25.05.2022, 20.06.2022 और 13.09.2022 के आदेश के अनुसार इन पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (प.अ.रा.द.) को सम्यक सत्यापन और नोटिस भेज दिए जाने के उपरांत सूची से हटा दिया गया है। उन्हें भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के अंतरिम आदेश, जिसमें सामान्य प्रतीक का प्रत्याख्यान किया जाना शामिल है, के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया गया है। सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ)/ रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) को सलाह दी जाती है कि यदि सूची से हटाया गया कोई पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल सामान्य प्रतीक के लिए संपर्क करता है तो आयोग के दिनांक 25.05.2022, 20.06.2022 और 13.09.2022 के आदेश में यथा अधिकथित यथोचित सम्यक तत्परता और प्रक्रिया का पालन किया जाए। चूंकि उनके पते 'अस्तित्व में नहीं हैं', इसलिए सूची से हटाए गए पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए सामान्य प्रतीक का दावा करने के लिए अपेक्षित प्ररूप क और ख अप्रवर्तनशील हो गए हैं।

सारणी-I (ग)

निष्क्रिय पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.)**

क्रम सं०	पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के नाम	मुख्यालय का पता
1.	आदर्श जनहित पार्टी	हाथी वाली गली म0 नं0 – 22, वार्ड नं0 -9, आसफाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश – 283203
2.	आधुनिक विकासवादी पार्टी	डी-1/425, सेक्टर – एच, एल0डी0ए0 कॉलोनी कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3.	अंहिसा दल	सिकरवार सदन, एल-1/108, 109 सैक्टर-बी, प्रियदर्शनी कॉलोनी, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4.	एम्स पार्टी	आजाद चौक, पिपराही बाजार, पोस्ट-पिपराही, जिला-शिवहर, बिहार-843334।
5.	अखंड भारत नेशनल पार्टी	22-3-947/33/ए/1/1 मेगा सिटी नं. 125, पुरानी हवेली, सेटविन ऑफिस के सामने, हैदराबाद - 500002, आन्ध्र प्रदेश।
6.	अखण्ड देशम पार्टी	6, द्वारिकापुरी, सैक्टर – 8, इन्दिरा नगर, लखनऊ – 226016 (उत्तर प्रदेश)
7.	अखण्ड झारखण्ड पीपुल्स फ्रंट	ग्राम व पो. आ. – गिद्धौर, जिला-जमुई, बिहार-811305.
8.	अखिल भारतीय अमन कमेटी	1/9986, वैस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032.
9.	अखिल भारतीय अत्यंत पिछड़ा संघर्ष मोर्चा पार्टी	ट्रांसफार्मर लेन, उत्तरी नवादा, आरा, जिला-भोजपुर, बिहार-802301.
10.	अखिल भारतीय आजाद पार्टी	फौव्वारा तिराहा, नई सडक, शहजादपुर, जनपद – अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश।
11.	अखिल भारतीय देश भक्त मोर्चा	पुरन्दरपुर, जी.पी.ओ.पटना, (बिहार)।
12.	अखिल भारतीय मानव अधिकार दल	1602, डी.डी.ए. जनता फ्लैट्स, जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली-110093.

13.	अखिल भारतीय मानव सेवा दल	ए-74, सेक्टर-12, नोएडा (उत्तर प्रदेश)।
14.	अखिल भारतीय राम राज्य परिषद् (प्रेम बल्लभ व्यास)।	श्री कृष्ण बोध धाम, 7, शंकराचार्य मार्ग, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110054
15.	अखिल भारतीय लोक दल	ए - 1, मेन रोड, गोकल पुरी, नियर अग्रवाल स्वीट कॉर्नर, शनि साई मन्दिर, दिल्ली - 110094
16.	अखिल भारतीय लोकतान्त्रिक काँग्रेस	एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)।
17.	अखिलेन्द्रा महादेसम	डोर नं० 2-9-53, नवाबपेट, मेडक - 502110, मेडक डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश।
18.	ऑल इंडिया अथिथानार मकल काची	एच. ओ. 24, थंगम कॉलोनी, अन्नागार वीट, चेन्नई -40, तमिलनाडु
19.	ऑल इण्डिया बहुजन सम्मान पार्टी	107, टीकरी कलाँ, नई दिल्ली-110041
20.	ऑल इण्डिया मुक्ति दल पार्टी	प्लॉट नं० 158/1, म० नं० 37-93/55/1, रोड नं. 3, मथुरानगर, नेरेदमेट क्रोसिंग रोड्स, सिकन्दराबाद-500094, आन्ध्र प्रदेश।
21.	ऑल इंडिया पार्टी फॉर द प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स	100 ए/5, 11 वां सैक्टर, 66 वी स्ट्रीट, पुनम बालम सलाई, के०के० नगर, चेन्नई-600078
22.	ऑल इंडिया राजीव क्रान्तिकारी काँग्रेस	बी-58, गली नं.18, जितार नगर, नई दिल्ली- 110051
23.	ऑल इण्डिया सिंगारावेलार मुन्नेत्र कडगम्	संख्या 2/305, सिंगारावेलार नगर, नीलंगकराई, चेन्नई-600041, तमिलनाडु।
24.	ऑल इण्डिया तमिल मक्कल मुनैत्र कडगम	न० 25, वीरापांडी स्ट्रीट, पेराम्बूर, चैन्नई - 600039 तमिल नाडु।
25.	ऑल इण्डियंस गांधी काँग्रेस	212, कालिका नगर, अंदरहल्ली, मेन रोड, बैंगलुरू-560058, कर्नाटक।
26.	अम्बेडकर नेशनल मक्कल काँची	दरवाजा नं० 53, गाँधी रोड (फोर्मर्ली पीरन लेन), थिरुपत्तूर, जिला-वेल्लोर, पिन कोड-635601, तमिलनाडु।
27.	अम्बेडकर समाज पार्टी	304, मन्दाकिनी एन्क्लेव अलकनन्दा, नई दिल्ली - 110019.
28.	आन्ध्र प्रदेश नवोदया प्रजा पार्टी	नं० 3-11, तुक्कुगुडा गांव, महेश्वरम मंडल, मनखाल पोस्ट, रंगा रेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश।
29.	अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण काँग्रेस पार्टी	ग्राम व पो० सरकड़ा विश्नोई, विकास खण्ड डिलारी, तह० ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश - 244401
30.	अति पिछड़ा पार्टी	मो० बडी पहाडी, पो० सोहसराय, थाना-लहेरी, जिला-नालन्दा-803118, बिहार।
31.	अति पिछड़ा वर्ग महासंघ	3/1274, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
32.	आजाद हिन्दुस्तान पार्टी	ई ब्लॉक-265, यादव नगर, नई दिल्ली -110042
33.	बहुजन समाज मुक्ति मोर्चा	मकान नं० - बी-198, गली नं० - 11, भूतल, भजनपुरा, दिल्ली-110053।
34.	बहुजन उदय मंच	ग्राम-चालकपुर, पोस्ट-जमीन रसूलपुर, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
35.	बेस्ट क्लास पार्टी	मकान नं० 94, मुहल्ला एलवल, सदर-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276001
36.	भारत अभ्युदय पार्टी	6-6-35, अनुसूया निलयम, कवाडीगुडा मेन रोड, कवाडीगुडा, सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500380
37.	भारत भ्रष्टाचार मिटाओ पार्टी	मकान संख्या - नया नं० 4, भू-तल, बेगम विहार, ब्लॉक-ए, खसरा नं०-16/19, गाँव-बेगमपुर, नजदीक-भैरो मंदिर, दिल्ली-110086।
38.	भारत देशभक्त संगठन	19/460, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
39.	भारत मंगलम परिषद्	जमो बाजार, हास्पीटल चौक, पो० आ० जमो बाजार, जिला सिवान, बिहार।

40.	भारत पुननिर्माण दल	के.जे. - 116, कवि नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
41.	भारतीय नेताजी पार्टी	3857, चौथा क्रॉस, गायत्री नगर, बंगलौर - 560021, (कर्नाटक)।
42.	भारतीय प्रजा शक्ति	सं० 931, 932, करबला मैदान, रेलवे स्टेशन क्रॉस रोड, चन्नापटना टाउन व तालुक, रामनगरा जिला, पिन कोड - 571501 कर्नाटक।
43.	भारतीय जागृति दल	आर. जेड 21 - डी, गली नं० 4, सिडिकेट एन्क्लेव, निकट डाबड़ी मोड, दिल्ली - 110045
44.	भारतीय जनवादी पार्टी	ए-559, शास्त्री पार्क एक्सटेंशन, बुलन्द मस्जिद, दिल्ली-110053.
45.	भारतीय क्रान्तिकारी दल	ए-5, प्रियदर्शनी विहार, नई दिल्ली-110092.
46.	भारतीय नवयुवक चेतना पार्टी	429/263, निकट अम्बर मैरिज हॉल, मौजम नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
47.	भारतीय रविदास पार्टी	मोहल्ला-कुंडगढ़, पोस्ट-सदर, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश।
48.	भारतीय सत्य विजयी पार्टी	सी-120, बेगम विहार एक्सटेंशन, बेगमपुर, दिल्ली -110086.
49.	भारतीय उत्तम सेना	ग्राम व पोस्ट - खेड़ायाँ, थाना - आन्दर, जिला - सिवान, बिहार।
50.	भारतीय देशभक्त पार्टी	92/एच/2, प्रताप मार्केट, मुनीरका, (मार्फत सोमू प्रेस), नई दिल्ली-110067.
51.	भारतीय ग्रामवासी पार्टी	ग्राम - विक्रमपुर बाँसपार (मणि चौराहा), पो० - बैतालपुर, जिला - देवरिया, उत्तर प्रदेश
52.	भारतीय जन सेवा पार्टी	शरीफ मार्केट, हरदोई रोड, सिकरोरी, पोस्ट-काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -227107
53.	भारतीय मजदूर किसान कांग्रेस पार्टी	डी-40, मेरठ रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद -121003, उत्तर प्रदेश।
54.	भारतीय नौजवान इन्कलाव पार्टी	2/26, मन्डौली एक्सटेंशन, मन्डौली चुंगी, शाहदरा, दिल्ली- 110093.
55.	भारतीय नौजवान दल	मकान नं.882, गली नं.16, फेस -4, पुष्कर विहार, शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली - 110094
56.	भारतीय प्रजातन्त्र निर्माण पार्टी	7/7/47-ए न्यू कॉलोनी लाल बाग, पोस्ट ऑफिस - फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।
57.	भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी	ग्राम - नयाटोला बरियारपुर, पंचायत - चम्पापुर, वार्ड नं० 13, थाना - बख्तियारपुर, जिला - पटना बिहार।
58.	भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा	वार्ड नं० - 3, विकास नगर, राबर्टसगंज, जनपद - सोनभद्र, उत्तर प्रदेश - 231216
59.	भारतीय सवैधानिक जनहित पार्टी	विकी गोल्ड फार्म, गांव - सरायजोगा, पोस्ट-कान्था, नवाबगंज उन्नाव, उत्तरप्रदेश।
60.	भारतीय सर्वसमाज पार्टी	लाल सिंह कचरी वाला, शनि बाजार वाली गली, टुण्डा नगर, जौहरी पुर, दिल्ली।
61.	भारतीय शक्ति दल	डी - 236, विवेक विहार, दिल्ली - 110095।
62.	भारतीय शान्ति क्रान्ति पार्टी	1/80, रतन विहार, किराडी, नांगलोई, नई दिल्ली - 110041
63.	भारतीय श्रमिक पार्टी	79/4, जूही सफेद कॉलोनी, साकेत नगर, कानपुर नगर - 208014, उत्तर प्रदेश।
64.	बुंदेलखंड एकीकृत पार्टी	बुंदेली सदन, ग्राम एवं पो० - सतारी, जिला - महोबा, उत्तर प्रदेश।
65.	बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा	श्री सुखलाल आइस फैक्ट्री भवन, इलीट चौराहा, झांसी - 284001, (उत्तर प्रदेश)।
66.	क्रिश्चियन मुन्नेत्र कडगम	93 तैयप्पा मुदाली स्ट्रीट, चेन्नई - 600001. (तमिलनाडु)।
67.	दलित समाज पार्टी	नव चेतना पथ, शिवपुरी, पो. ऑ. - अनीशाबाद, पटना - 800002, (बिहार)।

68.	दिल्ली परिवर्तन पार्टी	ई-37, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110027.
69.	देश भक्त पार्टी	बी - 114, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092.
70.	देसिया पातुकाप्पु कडगम	'अरिवागम' 33, रामकृष्ण स्ट्रीट, गांधी नगर, सालीग्रामम, चेन्नई - 600093 (तमिलनाडु)।
71.	इलेचिया धीरविडा मुन्नेत्र कजगम	'इलेचियागम', 4-ए, हिन्दी प्रचार सभा स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई - 600017, तमिलनाडु।
72.	गांधीवादी राष्ट्रीय कांग्रेस	टीचर्स कॉलोनी तहसील रोड, महोरिया, पोस्ट - महोरिया टाऊन और जिला - मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)।
73.	गरीब राज पार्टी	मं० नं० 748ए, झारखण्डी कायस्थवाड़ा, सिकन्द्राबाद, जिला - बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश।
74.	गरीब समाज पार्टी (शोषित)	हाजीपुर मालीपुर रोड, निकट राम जानकी मन्दिर, शंकरगढ़, थाना व तहसील - जलालपुर, जिला - अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश - 224149.
75.	गरीब विकास पार्टी	प्रोफेसर कॉलोनी, बेलबनवा, मोतीहारी, बिहार - 845401.
76.	गोर्खा जनमुक्ती मोर्चा	नॉर्थ प्वाइंट, सिंगामारी, दार्जिलिंग-734 104, पश्चिम बंगाल।
77.	हमारा दल	सी-112, सेक्टर-जी, एल० डी० ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ -12 उत्तर प्रदेश।
78.	हिन्द किसान मजदूर पार्टी	31/419, केला हाऊस, महाराणा प्रताप नगर, आगरा - 4 (उत्तर प्रदेश)।
79.	हिन्दुस्तान नेशनल पार्टी	नं० 103/68, कॉलेज रोड, नंगनल्लूर, चेन्नई - 600114, तमिलनाडु।
80.	हिन्दुस्तानी स्वराज पार्टी	69, अशोक मोहल्ला, नांगलोई, दिल्ली -110041.
81.	इंडियन बहुजन संदेश पार्टी (कांशीराम)	बी-525, गुरु हरिकिशन नगर, नई दिल्ली।
82.	इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फ्रंट	मकान नं०-404, संजय कॉलोनी, अर्थला मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
83.	इंडियन जस्टिस पार्टी	5, पुसा रोड, तीसरी मंजिल, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005.
84.	इंडियन नेशनल ग्रीन पार्टी	ए-44, पर्यावरण काम्पलेक्स, सैदुला जैब, नई दिल्ली-30.
85.	इंडियन ओसनिक पार्टी	के-316, एम.बी. रोड, लाडो सराय, नई दिल्ली - 110030
86.	इंडियन पीपुल्स कांग्रेस	79, लायर्स चैम्बर्स, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली - 110001
87.	इंडियन यूथ पार्टी	7/545, विकास नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
88.	इंकलाब पार्टी ऑफ इंडिया	मौहल्ला पश्चिमी लखपेड़ा, टाउन एवं पोस्ट-मोहम्मदी, जिला-लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, पिन-262804.
89.	इन्कलाब विकास दल	92, ग्राम-गावांडी, सरदार पटेल पार्क के पास, धौंडा, दिल्ली।
90.	जगनमय नारी संगठन	सेक्टर-21/5, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
91.	जाग्रत भारत पार्टी	101, विधायक निवास, राजेन्द्र नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
92.	जय जवान जय किसान मजदूर कांग्रेस	डब्ल्यू जैड-553-ए/3, सोनी कुंज, नांगल राय, नई दिल्ली-110046.
93.	जन अधिकार मंच	9 शिवाखण्ड, झिलमिल, दिल्ली - 110095.
94.	जन भावना पार्टी	सी - 103, गणेश नगर, पाण्डव नगर कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली - 110092।
95.	जन एकता दल	घेर कटेबाज खान, मस्जिद काले खान के पास, रामपुर, जिला - रामपुर - 244 901, उत्तर प्रदेश।
96.	जन क्रांति स्वतंत्रता पार्टी	226/27, गली नं० - 6, महावीर नगर, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
97.	जन लोक कल्याण पार्टी	ग्राम तथा पोस्ट: बुगाडा, तहसील - शामली, जिला - मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश।
98.	जन मोर्चा	1, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली - 110001.

99.	जन समर्थन दल	12, कृष्णा विहार, ज्वाला नगर, रामपुर, उत्तर प्रदेश।
100.	जन संग्राम पार्टी	मकान नं.482, सेक्टर-3ए, आवास विकास कालोनी, बोदला, आगरा-7 उत्तर प्रदेश।
101.	जन प्रिय	ए/2, कास्टेल-5, कार्नवेल रोड, बंगलौर - 560025, (कर्नाटक)।
102.	जनता विकास मंच	सी-216, आवास विकास कॉलोनी, मीरा भवन, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।
103.	जनलोक राष्ट्रीय पार्टी	452, सेक्टर - 19, द्वारका नई दिल्ली।
104.	जनसत्ता पार्टी	एल-14, महेन्द्रा पार्क, आदर्श कॉलोनी, नई दिल्ली - 110003.
105.	जनशोषित समाज पार्टी	ए-618/7, गली नं0-8, भजनपुरा, दिल्ली - 110053.
106.	कामराजार अदितनार कडगम	6-ई, संस्थान कोइल स्ट्रीट, पुधुकुदिइरुप्पु, नागेरकॉइल - 629001 (तमिलनाडु)।
107.	कन्नडनाडु पार्टी	54, ग्राउन्ड फ्लोर, प्रसन्ना कॉलोनी, बसावेश्वर नगर, गोकुल रोड, हुबली - 580030 कर्नाटक।
108.	कोंगू नाडु मुनेत्र कडगम	320, बेस्ट काम्पलेक्स कुमारन रोड, त्रिपुर - 641601, कोयम्बटूर (जिला), तमिलनाडु।
109.	कोशी विकास पार्टी	मछली भवन, डॉ अम्बेडकर मार्ग, गांव, पो0 व जिला - खगड़िया, बिहार - 851204.
110.	लेबर समाज पार्टी	चेम्बर नं0 91, सिविल कोर्ट, राजनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
111.	लघुजन समाज विकास पार्टी	बड़ापुरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश।
112.	लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी	20, भारतीय नगर, अल्लागप्पापुरम, कराईकुडी-630003, तमिलनाडु।
113.	लोक जनहित पार्टी	ग्राम - डालूपुर सुल्तानपुर, पोस्ट - प्रेमपुर, जनपद - कन्नौज उत्तर प्रदेश।
114.	लोक शक्ति	83, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003.
115.	लोक विकास पार्टी	41, विज्ञान विहार, दिल्ली-110092.
116.	लोकनायक पार्टी	172/3 सी, पूर्वी मोती बाग, सराय रोहिल्ला, दिल्ली - 110 007.
117.	मानीला कोंगु पेराबाई	नं0 41, नारायणगुरु रोड, साईबाबा कॉलोनी, कोयम्बटूर-641011, तमिलनाडु।
118.	महा लोकतंत्र पार्टी	शॉप नं.4, बसन्त गंगा मार्केट, मकान नं. 762/648, पुराना कटरा, इलाहाबाद-211002, उत्तर प्रदेश
119.	महिला अधिकार पार्टी	29-ए नहरपुर, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110085.
120.	मानव समाज पार्टी	9538, गोशाला बारादरी किशनगंज, दिल्ली-110006.
121.	मार्क्सिस्ट कोअर्डिनेशन	टैम्पल रोड, पुराना बाज़ार, धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड-826001
122.	मोमिन कान्फेंस	47/26, वारिस प्लाजा, हुसैन गंज, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001, (उत्तर प्रदेश)।
123.	मुसलसल ईमान समाज पार्टी	261, चक्की वाली गली, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
124.	मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश	सुल्तान मंजिल, तकिया पीर जलील, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)।
125.	नामाधु द्रविड इयक्कम	एस.सी.सी. एन्थनी पिल्लई इलम, न्यू नं0 41, ओल्ड नं0 18. 7 कॉस स्ट्रीट, शिनाय नगर पश्चिम, चेन्नई-600030 (तमिलनाडु)।
126.	नेशनल लोकहिन्द पार्टी	सी-1375, राजाजीपुरम, लखनऊ-226 017, उत्तर प्रदेश।
127.	नेशनल सर्वसमाज पार्टी	मकान संख्या-66, खसरा सं0-1995, इकबाल कालोनी, निकट सना मस्जिद, ग्राम पसौन्डा, परगना लोनी, तहसीह व जिला गजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201001

128.	नेशनल वेलफेयर पार्टी	16, नेहरूजी नगर, करुप्पारायन, कोयल स्ट्रीट, समुन्दीपुरम साउथ, त्रीपुर – 641603, तामिलनाडु
129.	नेशनलिस्टिक तेलंगाना राष्ट्र समिति	23-6-431/1, गोवलिपुरा, हैदराबाद-500 265, आन्ध्र प्रदेश ।
130.	नव युवक दल	ग्राम- टिकरा, पोस्ट-घुघटेर, -तहसील - फतेहपुर, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश – 225302 ।
131.	नवभारत निर्माण पार्टी	30, डी. एस.आई.डी.सी. कॉम्पलेक्स, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली-110 002.
132.	नेलोपा (युनाइटेड)	बी. डी. ओ. बिल्डिंग, दुर्गा देवी मार्ग, शीश महाल, हुसैनाबाद चौक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
133.	न्यू ऑल इण्डिया कांग्रेस पार्टी	ए-138, मेन विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली- 110092 ।
134.	न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	द्वितीय तल, 9 ए/ 83, डब्ल्यू. ई. ए . करोलबाग, नई दिल्ली-110005 ।
135.	पार्टी किसान मजदूर व्यापारी	रेलवे रोड, हाथरस जंक्शन, महात्मा प्राकृतिक चिकित्सालय, नंगला हीरा, हाथरस जंक्शन, महामाया नगर, हाथरस, उत्तर प्रदेश ।
136.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक फोरम	सी-177, सेक्टर-'जे', अलीगंज, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
137.	पीपुल्स मूवमेंट ऑफ इण्डिया	9/215/15, योजना-3, आवास विकास कॉलोनी, झूँसी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 211019
138.	प्रगतिशील पार्टी	111, बादशाह नगर, लखनऊ, 226007 (उत्तर प्रदेश) ।
139.	प्रजा पार्टी	3-5-898/1, हिमायतनगर, हैदराबाद-500029 (आन्ध्र प्रदेश) ।
140.	प्रजातांत्रिक बहुजन शक्ति दल	टी-1, श्रीराम हाउस, 117 एच-2/52, पांडुनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
141.	प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी	गांव व पोस्ट – सूरजावाली (सलेमपुर), जिला-बुलन्दशहर-203001, उत्तर प्रदेश।
142.	पब्लिक डेवलपमेंट पार्टी	मुरलीपुर शेख सलाह तकिया, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
143.	पूर्वांचल राज्य बनाओ दल	374, बक्शीपुर, उत्तर पावर हाऊस के नजदीक, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
144.	राष्ट्रवादी बहुजन क्रान्ति पार्टी	मौहल्ला – चिरंजीलाल, कस्बा – अफजलगढ़, तहसील – धामपुर, जनपद – बिजनौर, उत्तर प्रदेश – 246722
145.	राष्ट्रवादी जनतांत्रिक पार्टी	अम्बर विला, 127/660 डब्ल्यू-1, साकेत नगर, कानपुर-208014 उत्तर प्रदेश।
146.	राष्ट्रवादी लेबर पार्टी	डी-12/104, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली - 110085
147.	राष्ट्रवादी सेना	मुख्य शाहदरा चौक, दिल्ली – 110032.
148.	राष्ट्रीय अमन सेवा	अमन हाउस, संजय गांधी नगर, रोड नं० 9, शिवाजी नगर सं० 2, गोवंडी, मुम्बई, महाराष्ट्र -400043.
149.	राष्ट्रीय ग्रामीण पार्टी	ग्राम – चकेरशानपुर (केमराला)पो०आ० घोड़ी बछेरा (दादरी), जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
150.	राष्ट्रीय हिन्दू सेना	158/1, देव नगर, जिला- फिरोजाबाद – 283203 उत्तर प्रदेश ।
151.	राष्ट्रीय जन संसद	शक्ति नगर, पुराना जी.टी. रोड, खुरजा, जिला – बुलन्दशहर – 203131, उत्तर प्रदेश ।
152.	राष्ट्रीय जन सेवक पार्टी	गांव – नांगला जमालपुर, पोस्ट- पंचली खुर्द, बागपत रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
153.	राष्ट्रीय जनरक्षक पार्टी	ग्राम – बिर्जापुर, पोस्ट – अडूकी, जिला – मथुरा, उत्तर प्रदेश।
154.	राष्ट्रीय जनसंघ	पुराना – 20, नया-35, विक्टोरिया पार्क, स्पोर्ट्स कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।

155.	राष्ट्रीय जनता काँग्रेस	12, सिरी फोर्ट रोड, नई दिल्ली - 110049.
156.	राष्ट्रीय जनतंत्र पक्ष	24, स्टार अपार्टमेंट्स, विद्या विहार मार्ग, सेक्टर - IX, रोहिणी, दिल्ली - 110085
157.	राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी	एम - 12, मीर विहार, मदनपुर डबास, दिल्ली।
158.	राष्ट्रीय लोकमंच	1303, नौरंग हाऊस, बी-ब्लॉक, 21- कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
159.	राष्ट्रीय लोकशाही पार्टी	सर्वे नं0 - 40/1, 40/2 एवं 40/3, मकान सं0 - 411 एवं 412, ग्राम - बीड बुद्रुक, तालुक - कर्जत, जिला - रायगड, महाराष्ट्र
160.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समभाव सेकुलर पार्टी	म0नं0 411, कृष्णविहारी नगर, बांदा सागर रोड वर्मा तिराहा, जिला व तहसील - फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।
161.	राष्ट्रीय परिवर्तन दल	बी - 4 ए/25, राणा प्रताप बाग, दिल्ली - 110007.
162.	राष्ट्रीय पीस पार्टी	17जी/322, सैक्टर - 17, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
163.	राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक पार्टी	मकान नं. 38, ग्राम - जनौर, पोस्ट कन्धीकला, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
164.	राष्ट्रीय साधु विचार काउंसिल	रैदोपुर न्यू, ऑफिसर कॉलोनी, न्याय मार्ग, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
165.	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (यूनाईटेड)	9, कम्युनिटी सेन्टर, अशोक विहार, फेस -II, दिल्ली - 110052.
166.	राष्ट्रीय समदर्शी देशभक्त दल	खुशकरी सदन, आनन्द नगर, मण्डी रोड तिराहा, कासगंज, कांशीराम नगर, उत्तर प्रदेश।
167.	राष्ट्रीय साम्यवादी आर्यन पार्टी	570/20, विराट नगर, आलम बाग, लखनऊ-226005, उत्तर प्रदेश।
168.	राष्ट्रीय संघर्ष पार्टी	फरीदाबाद, सुजानगंज, जौनपुर-222201, उत्तर प्रदेश।
169.	राष्ट्रीय सर्वजन समाज पार्टी	ग्राम व पो0 - मानधाता, तहसील - सदर, जिला - प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।
170.	राष्ट्रीय विकलांग पार्टी	114, डी. डी. ए. पॉकेट-2, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली - 110045
171.	राष्ट्रीय युवा संघ	बी-117, गली नं. 6, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली-110091.
172.	राष्ट्रीय प्रजा चक्रव्यूह पार्टी	नं0 73, शान्तिनिकेतनम, डी. के. हल्ली मेन रोड, पालार नगर, बीईएमएल नगर (पोस्ट), बंगारपेट (तालुक), कोलार (जिला), कर्नाटक - 563115।
173.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (काम्बले)	ए, 703, सूर्याकिरण, को. औप. हाऊसिंग सोसाईटी, प्लॉट नं. 12 एण्ड 13, सेक्टर-5, धनसौली, नवी मुंबई- 400701, महाराष्ट्र।
174.	गरीबजन समाज पार्टी	बी-8, न्यू साई प्लाजा, कंकरखेरा, सरधना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250004
175.	रिवल्यूशनरी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	5221, गली नं.-115, बी-ब्लॉक, सन्तनगर, बुराडी, दिल्ली-110084
176.	सब समान पार्टी	मकान सं0 - 95 क, गांव सरसण्डा, पोस्ट - गोपरामऊ, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश
177.	सदभावना पार्टी	कमरा नं. 14, प्रथम तल, लखनऊ होटल श्रीराम रोड, चौराहा अमीनाबाद, लखनऊ-226018, (उत्तर प्रदेश)।
178.	शक्ति भारत देशम	सं. 2/58, वैरावन चेट्टी स्टोर, पाचीयाम्मन पाडीथुराई, मदुरै- 625001, तमिलनाडु।
179.	सामाजिक इंसाफ पार्टी (राष्ट्रवादी)	मकान नं0 - 53, ग्राम - लहरी, पोस्ट - कुरियार, जिला - बस्ती, उत्तर प्रदेश।
180.	सामाजिक न्याय पार्टी	एम-22, महावीर पार्क, मारिस रोड, अलीगढ़-202001, (उत्तर प्रदेश)।

181.	समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक	14, डॉ. विशंभर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
182.	समाजवादी क्रान्ति दल	3/197, विधायक पुरम, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
183.	समुगा समतुवा पडाई	4/388, राम गार्डन, अन्ना सालई, पालावाक्कम, चैन्नई- 600041, तमिलनाडु।
184.	सनातन समाज पार्टी	रामानन्द नगर, बेगमपुरा, अयोध्या, फैजाबाद, (उत्तर प्रदेश)।
185.	संयुक्त समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट - खारी, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश
186.	सर्वजन कल्याण पार्टी	के-73 के सामने, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना बिहार-800020
187.	सार्वजनिक क्रान्ति पार्टी	सूर्य लॉज, रोड वेज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
188.	सर्वजन महासभा	बी-36/40, कबीर नगर, दुर्गाकुंड, वाराणसी – 221 005, उत्तर प्रदेश।
189.	सतयुग पार्टी	ग्राम-सूखा टोला, डुमरी, पोस्ट-कसया, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।
190.	शिरोमणि अकाली दल (रिपब्लिक)	9. हकीकत नगर, गुरु तेग बहादुर नगर, दिल्ली-110009
191.	शिवाजी कांग्रेस पार्टी	मकान नं. 31, पो० खाकुर्दी, तालुका-मालेगांव, जिला-नासिक, महाराष्ट्र।
192.	शोषित समाज पार्टी	4/8, त्यागराज नगर (सफ़्दरजंग बस टर्मिनल), नई दिल्ली- 110003.
193.	श्रेष्ठतम राष्ट्र पार्टी	ग्राम-जगसड़, पोस्ट-सरवासा, जनपथ-खीरी-लखीमपुर, उत्तर प्रदेश।
194.	शिक्षित बेरोजगार सेना	चन्दन कुमार बहराइच, खजूरावन, मदयाहुन, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
195.	सोशलिस्ट पार्टी (लोहिया)	सिद्धीकी बिल्डिंग, 6122, बाडा हिन्दू राव, दिल्ली-110006.
196.	सोशलिस्ट पार्टी सेकुलर	505/506, भिलावाँ, लखनऊ कानपुर रोड, (अजन्ता अस्पताल के सामने), आलमबाग, लखनऊ -5, उत्तर प्रदेश।
197.	सुखी समाज पार्टी	344 भौझा, गाजियाबाद – 201001 उत्तर प्रदेश।
198.	स्वराज पार्टी-यस (सुभाष चन्द्र बोस)	ग्राम व डाकघर सेमरीखान कोट, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश-272192।
199.	स्वराष्ट्र जन पार्टी	तरकापुर फुलवरिया, पोस्ट-सदर, जिला-मिर्जापुर-231001, उत्तर प्रदेश।
200.	ताई नाडु पार्टी	44/15, कामराज रोड, शिवाजी नगर, बैंगलूरु-560001, कर्नाटक
201.	तमिल देसियक काची	80 ए, चामुन्डी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सलेम-636007, (तमिलनाडु)।
202.	तमिल मनिला द्रविड मुनेत्र कडगम	द्वार नं० 296, अम्बेडकर स्ट्रीट, उथुक्काडु गांव व पोस्ट, वाल्जाबाद बाया काँचीपुरम तालुका व जिला, तमिल नाडु।
203.	तामिज़ागा मक्कल जननायगा काव्वि	वनाविल ईलम, संख्या 9पूर्व सातवीं गली, पुडुकोट्टई-622001 तमिलनाडु।
204.	थल्ली तेलंगाना पार्टी	प्लॉट नं०-50, रोड नं०-5, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033, आन्ध्र प्रदेश।
205.	दि ह्यूमेनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	34, लवीना, 52 ए, टैगोर रोड, सान्ताक्रुज (पश्चिम), मुम्बई-400054, (महाराष्ट्र)।
206.	उज्जवल राष्ट्र पार्टी	ग्राम – अहिरावाँ, पोस्ट – बेरुआ, तहसील – सण्डीला, जिला – हरदोई, उत्तर प्रदेश – 241304
207.	यूनाइटेड सिटीजन पार्टी	डी — 29, कोन्डली, दिल्ली-110096.
208.	यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	29 / 116, गली नं० —10, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली—110 032.
209.	युनाइटेड फ्रंट (पार्टी)	अबु फाखरुद्दीन प्लाजा, लंगर टोली चौराहा, बारी पथ, पटना—800004, बिहार।
210.	युनाइटेड नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी	डी—786, जैतपुर विस्तार, पार्ट — II, बदरपुर, दिल्ली-110 044.
211.	उपेक्षित समाज पार्टी	एफ—15, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट के पास, नई दिल्ली—110011.
212.	उत्तर प्रदेश यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	38 — रोयल होटल, विधान सभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

213.	विकासशील समाज पार्टी	305 ऐ, साहारा शॉपिंग सेन्टर, कैजाबाद रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
214.	वोटर्स पार्टी	ए, 1/75, फ्रीडम इन्क्लेव, नेब सराय, इगू रोड, नई दिल्ली - 110068।
215.	यूथ डेमोक्रेटिक फ्रंट	मकान सं0 1-10-63/5, प्लॉट सं0 44, चिकोटी गार्डन्स, बेगमपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
216.	यूथ फॉर इकैलिटी	पी-90ए, द्वितीय तल, साऊथ एक्सटेंशन -II, नई दिल्ली -110034।
217.	युवा जन जागृति पार्टी	315, फ्रीवे ट्रेड सेन्टर, आई.ओ.सी.पेट्रोल पम्प के सामने, नरोल-असलाली हाईवे, अहमदाबाद, गुजरात- 382427
218.	युवा क्रान्ति दल	बी - 667, अमन विहार, पोस्ट ऑफिस-सुल्तानपुरी, जिला- उत्तर -पश्चिम, नई दिल्ली-110 086.

आयोग के दिनांक **13.09.2022 के आदेश के अनुसार निम्नलिखित दलों को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया है। उनको व्यक्तिगत रूप से और सीईओ तथा ईसीआई की वेबसाइट के माध्यम से नोटिस तामील किया गया था। ईसीआई के उक्त अंतरिम आदेश द्वारा सामान्य प्रतीक की उनकी मांग पर विराम लगा दिया गया है। सभी सीईओ/आरओ को सलाह दी जाती है कि यदि कोई 'निष्क्रिय' दल सामान्य प्रतीक के लिए संपर्क करता है तो आयोग के दिनांक **13.09.2022** के आदेश में यथा अधिकथित यथोचित सम्यक तत्परता का पालन किया जाए। चूंकि उक्त दलों ने अपेक्षित सारवान परिवर्तनों, विशेष रूप से वर्ष **2014** से अपने पदाधिकारियों के विवरण को अद्यतन (अपडेट) नहीं किया है, इसलिए प्ररूप क और ख स्वीकार करने के आधार समाप्त हो गए हैं।

आदेश से,

दिलीप के. वर्मा, प्रधान सचिव

आदेश से

राजेश कुमार, विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 27th March, 2024

No. CEO/COE/102(64)/2024/255—The following is published for general information:—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2024

No. 56/2024/PPS-III.—WHEREAS, the Election Commission of India has decided to update its Notification No.56/2022/PPS-III, dated 15th May, 2023, specifying the names of registeredunrecognised parties [RUPPs], issued in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;

NOW, THEREFORE, in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and in supersession of its aforesaid notification No.56/2022/PPS-III, dated 15th May, 2023, published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (iii), the Election Commission of India hereby specifies: -

- (a) In Table I (A), the registeredunrecognized political parties [RUPPs] and postal address of their Headquarters;
- (b) In Table I (B), the list of delisted registered-unrecognized political parties [RUPPs] and postal address of their Headquarters; and
- (c) In Table I (C), the list of inactive registered-unrecognized political parties [RUPPs] and postal address of their Headquarters.

TABLE – 1(A)

REGISTERED UNRECOGNISED PARTIES

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	Aabaad Party	4-1/2, SCB Nagar, Ramavaram, Mdl: Chunchupally, District – Bhadradi Kothagudem, Telangana – 507118
2	Aadarsh Bharat Nirman Dal	Village- Bhaini Bheron, Teshil- Meham, District- Rohtak, Haryana- 124112
3	Aadarsh Janata Sewa Party	Ranjit House, Didwara Raod, Salwan, District – Karnal, Haryana
4	Aadarsh Mithila Party	Hathi Wali Gali, H. No. 22, Ward No. 9, Asfabad, Firozabad, Uttar Pradesh – 283203
5	Aadarsh Sangram Party	D/S- 1252, Sector- D, L.D.A Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226012.
6	Aadarshwaadi Congress Party	E.W.S. – 04, Kausalpuri Colony, Phase-2, Near of Water Tank, Gramsabha–Gaddopur, Vikas Khand – Masoadha, Tahsil – Sadar, District – Faizabad, Uttar Pradesh.
7	Aadhi Aabadi Party	D-1385/7, D- Block, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016
8	Aadi Bharat Party	116, Bopal Haat & Homes, Inside Sun city, Bopal, Ahmadabad, Gujarat- 380058
9	Aadijan Mukti Sena	‘First Floor’, 21, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (Madhya Pradesh)
10	Aadim Samaj Party	H. No. 84, Village – Mawai Kala, Post – Naribari, Shankargarh, Allahabad, Uttar Pradesh
11	Aadivasi Sena Party	At & Post – Rupvel (Nishal Falia), Tal. Vansada, Distt. Navsari-396 321, Gujarat.
12	Aajad Bharat Party (Democratic)	Village+Post – Behta Buzurg, Vikas Khand – Bhitargaon, District – Kanpur, Uttar Pradesh.
13	Aam Aadmi Mukti Morcha	4 U.F. Babar Place, Todarmal Road, Near Bengali Market, New Delhi-110001.
14	Aam Aadmi Parivartan Party	Satya Sai Colony, Preet Vihar, Near Sammer Vila

		School, Chhapraula, Gaudam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201001
15	Aam Aadmi Sangharsh Party (S)	D- 489, Street No.- 7, Mukandpur Extension, Part- 1, New Delhi- 110042.
16	Aam Adhikar Morcha	Manoj Mandal, Adarsh Nagar, Chethariya Peer, Ward No. 15, P.O. & P.S.-Kahalgaoon, District- Bhagalpur, Bihar - 813203
17	Aam Awaam Vikas Morcha	Flat no.D-202, Gokul Dham Apartment, Ranchi, Jharkhand-834008
18	Aam Bharat Party	C/o Arvind Kumar Dikshit, No. 3 rd Floor, 2 nd Building, Ambika Complex, Damodar Area, Taluk- Idar, district-Sabarkantha Gujarat- 383430.
19	Aam Bhartiya Party	103-Radio Colony, Indore, Madhya Pradesh- 452001
20	Aam Dal	Plot/Bhawan No. 191, Budha Enclave, Lohia Nagar, Meerut, Uttar Pradesh.
21	Aam Hindustani Party	Village Bhagauti Dubey ka Bhiswan, Post- Chauri Chaura, District- Gorakhpur, Uttar Pradesh-273201.
22	Aam Jan Majdoor Party	Bhadpar Chauraha, Bhadpar, Tehsil-Laharpur, District-Sitapur, Uttar Pradesh-
23	Aam Jan Niti Party	Ward No. 8, Sector No. 12L, Near G.G.S.Public School, Hanumangarh Junction, District- Hanumangarh, Rajasthan- 335512
24	Aam Jan Party (Secular)	Meena Vatika, Maa Durganagar, Village- Chaksakra, Post- Chandralya, P.S- Hajipur sadar, District- Vaishali BIHAR
25	Aam Janata Jagrukta Party	Jafar Baitha Market, Dagaria, P.S.-Dagaria, Post-Dagaria, Via-Gulabbagh, District-Purnea, Bihar – 854326
26	Aam Janata Party	Village – Jigina, P.O. – Manjhariya Vikram, District – Basti, Uttar Pradesh.
27	Aam Janata Party (Sarvajana Hitaya)	243-244, 2 nd Floor, Radha Chambers, Plot No. – 9, G – Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi – 18.
28	Aam Jankranti Party	Village & Post – Bhagipur, Shikohabad Road, Near Modern English School, District – Etah, Uttar Pradesh – 207001.
29	Aam Janmat Party	HIG Flat No – 7HF/25, Bahadurpur Housing Colony, Patna, Bihar-800026
30	Aam Janshakti Party	WZ-J-62, Uttam Nagar, Delhi - 110059.
31	Aam Janta Party (India)	Behind Ranipurwa Primary School, Janki Nagar, Post – Bus Stop, District – Gonda, Uttar Pradesh.
32	Aam Janta Party (Socialist)	Village & Post-Indaipur, Distt.-Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh-224129
33	Aam Janta Party Democratic	House No. 1403, Bela, Ward No. 4, Gram Panchayat Bela, Tehsil- Umred, District- Nagpur, Maharashtra- 441115
34	Aam Janta Party Rashtriya	Flat No. 804, 8th Floor, Gharouda Complex, Jagdeo Path More, Bailey Road, Patna, Bihar - 800014.
35	Aam Janta Pragati Party	B-141, Amar Jyoti Colony, Sector – 17, Rohini, Delhi – 110081
36	Aam Lok Party United	House No. 328, Street No. 4, Neta ji Park Haibowal, Kalan, Ludhiana, Punjab-141001
37	Aam Nagrik Party	Village- Baulla Mazupur, Post- Kiratpur Nimana, Block-Gonda, Tehsil- Eglash, District- Aligarh, Uttar Pradesh.
38	Aam Nagrik Yuva Party	Village- Nalhad, Post office- Nalhad, Tehsil and District- Nuh, Haryana- 122107
39	Aamjan Ekta Party	Mohalla-Munshipura, Near Tehsil-Kasba-Nakud, Tehsil & Thana-Nakud, District-Saharanpur, Uttar Pradesh- 247342
40	Aanaithinthiya Jananayaka Pathukappu Kazhagam	1/47B, JSM Cathedral Road, Itteri, Distt.-Tirunelveli, Tamil Nadu - 627007
41	Aap Aur Hum Party	Ward No. 24, House No. 714/647, Mohalla- Basanti

		Gali, District- Muzaffarpur, Bihar
42	Aap Ki Insaf Party	H.No.62A, Abu Bazar Uchwa, Ghasikatra, Near Ideal Marriage House, Thana-Tiwaripur, Gorakhpur, Uttar Pradesh-273001.
43	Aap Sabki Apni Party	Vinayaka Height at Main Road, Tarbahar, Ward No.15, Bilaspur, Chhattisgarh – 495001
44	Aapka Gantantra Party	Venkat Ward -13,Gali No.2,Shastri Colony,Katni,Madhya Pradeh-483501
45	Aapka Hamara Party	Gram – Mahudar, Post – Rewali, District – Hazaribagh, Jharkhand – 825301.
46	Aapki Apni Adhikar Party	H.No.381/5, New Parvatiya Colony, Saran School Road, Mahadev Chowk, Village – Saran, NIT Faridabad, Haryana.
47	Aapki Apni Party (Peoples)	Khasra No. 19/26, Near Amrit Vihar, Main Road Burari, Burari, New Delhi- 110084
48	Aapki Awaaz Party	206,Chandra Prakash,Residency,Sidsar Road,Bhavnagar,Gujarat-364002
49	Aapna Punjab Party	H.No. 2442, Phase- 11, Sector – 65, S.A.S. Nagar, Mohali, Punjab.
50	Aapni Sarkar Party	6/Shantikunj Society, Opp- Gayatri Temple, National Highway, Kalol, District- Gandhinagar, Gujarat- 382721
51	Aapni Democratic Party	Dhani Amrud Ke Baag Wali, Dhaultpur Road, Village-BhodiaKhera, Tehsil & District- Fatehabad, Haryana-125050
52	Aapsi Sahyog Party	E-737,E-Block,J.J. Colony,Mangolpuri,Delhi- 110083
53	Aarakshan Virodhi Party	DT-146, Tirkha Colony, Ballabgarh, Faridabad, Haryana – 121004.
54	Aarthik Vikas Party	Nil Kanth Dham Math Jinda Naga Samadhi, Gram-Kittukhedi, Post- Zarda, Tehsil- Malhargarh, District-Mandsaur, Madhya Pradesh- 458553
55	Aarthik Vyavastha Parivartan Party	House No. 166, Village- Teja Ka Pura, Abdalpur Khas, Post- Harisen Ganj, Mau, Aaima, Thana- Soraon, Tehsil- Soraon, District- Allahabad, UTTAR PRADESH – 226020
56	Aas Punjab Party	1901,1902,Chowk Shakti Nagar,Amritsar,Punjab-143001
57	Aasra Lokmanch Party	Mhada Colony, Gala No. 683, Gut No. 74, Devlai, Tq. and District – Aurangabad, Maharashtra - 431 001.
58	Aawaam Adhikar Jagran Party	Village – Sarokhanpur, Near Govt. Hospital (CHC), Post – Badlapur, District – Jaunpur, Uttar Pradesh - 222125.
59	Aawami Pichhada Party	H. No. 269,Arazi No.1,Chak Rashid Dehati,Adilabad,Power House Mohammadabad,Ghazipur,Uttar Pradesh-233227
60	Aazad Samaj Party (Kanshi Ram)	H. No. 180,Gali No. 3/22,(Khasra No. 265),Gokul Pur Village,Haqa Shahdara,Delhi-110094
61	Aazadi Ka Antim Aandolan Dal	M.I.G.D. – 27, Shailendra Nagar, Raipur-492001 Chhattisgarh.
62	Abhay Samaj Party	Village – Andhya, Post – Harpur Tiwari,Tehsil – SadarMaharajganj, District - Maharajganj, Uttar Pradesh.
63	Abhinav Bharat Janseva Paksh	Kamini Housing Society,Gali No.-1,Mahalaxmi Nagar,Gas Godownchha Bajula,Ambarnath(East),District–Thane,Maharashtra-421501.
64	Abhinav Bharat Party	RB-10, Block-RB, Inderpuri, Delhi-110012.
65	Abhinav Loktantra Party	H.No.97,Thakur Patti Leekhli,Post – Mariyada,Tehsil – Sikrai,District – Dausa,Rajasthan – 303326
66	Abhinav Rajasthan Party	C-14, Gandhi Nagar, Merta City, District- Nagaur, Rajasthan-341510
67	Abua Jharkhand Party	Road No. 7, Middle Daudnagar, Dibdih, Ranchi,

		Jharkhand – 834002.
68	Action Party	Village and Post- Maigalganj, Main Market, Near Haricharneshwar Mahadev Mandir, Block- Pasgawan, Distrtct- Lakhimpur (Khiri), Uttar Pradesh.
69	Action Party for Peoples Progress	No. 13/7, Aishwarya Building, Shop No. 11, 3 rd Cross Street, Trustpuram, Kodambakkam, Chennai, Tamil Nadu- 600024
70	Adarsh Jan Shakti Party	H.No. 10204, Araie Wali Gali, Maan Auto Stand,Durga Puri, Haibowal Kalan,Ludhiana, Punjab.
71	Adarsh Jankalyan Dal	Village-Chanduaara,P.O.-Jatdumri,P.S.-Punpun,Distt.- Patna Bihar-804453
72	Adarsh Janta Party	Gram – Kudhi, P.O. - Katnaharsha, Adarsh Nagar, Shikohabad, District- Firozabad, Uttar Pradesh- 283135
73	Adarsh Lok Dal	Abu Nagar, Opposite Police Station Fatehpur City, Distirct, Fatehpur (U.P).
74	Adarsh Manavtawadi Party	D. S. /919, Sector-C,Sitapur Road Yojna,Janakipuram, Lucknow,Uttar Pradesh.
75	Adarsh Nyay Rakshak Party	Village and Post- Matool, Tehsil- Khargapur, District- Tikamgarh, Madhya Pradesh-472115
76	Adarsh Political Party	405, Kundan Bhawan Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110 033.
77	Adarsh Rashtriya Vikas Party	H.No. 1369, Suraksha-1, Sector –4,ELDECO, Rai Bareilly Road, Lucknow, Uttar Pradesh
78	Adarsh Samaj Party	B-505, Kamla Nagar, Agra, Uttar Pradesh.
79	Adarsh Vyawastha Party	Sugahi Ward No.12, Village- Banjaria, Town Area Salempur, District- Deoria, Uttar Pradesh- 274509.
80	Adarshwadi Dal	Jawahar Road, Khurja-203136,Distt. Bulandshahr, (U.P.).
81	Adarshwadi Party (Loktantrik)	H.No.81, Mohalla-Chitrasai, Near Ashok Inter College, Sadar Jaunpur, Uttar Pradesh- 222001
82	Adhikar Party	234, Khirki Alibeg, Rekabganj, Faizabad, Uttar Pradesh-224001.
83	Adhikar Vikas Party	Shivala Chhaya House No. 10/571, Arun Nagar, Alpo Aaya Varg Society, Ward No. 10, Tehsil – Huzur, District – Rewa, MADHYA PRADESH
84	Adhunik Bharat Party	299A, Nankari IIT, Kanpur Mahanagar, Kanpur Uttar Pradesh- 208016
85	Adim Bhartiya Dal	Beldar Bhawan, Kuri Bazaar Marg,(Balua) Kuri Bazaar,Distt. Gorakhpur – 273404,Uttar Pradesh.
86	Adivasi Jan Kalyan Party	C/o Dakshin Gujarat Gamit Samaj Seva Trust Panwadi,Near Gujarat Traders, Vyara,District- Tapi, Gujarat-394650.
87	Advait Ishawasyam Congress	Guruaaiyanwari Ashram,Riva Naka, Meher, Distt. Satna,Madhya Pradesh.
88	Agar Jan Party	V-949, Aggarwal Wali Gali, Near Main Krishna Gali, Moujpur, Delhi-110053.
89	Agila India Makkal Kazhagam	No.3, Second Cross, Vallalar Nagar, Pethuchettipet, Lawspet Post, Puducherry- 605008.
90	Ahila India Dhayaga Makkal Munnetra Katchi	No.1/407, Iyer Colony, Thanakkankulam, Tirunagar, Madurai, Tamil Nadu – 625006
91	Ahimsa Socialist Party	D. No. 5/125, West Palapatty, Post- Sellappampatty, Taluk and District- Namakkal, Tamil Nadu-637019.
92	Ahinsa Samaj Party	Priyadarshni Colony, Near of Vridha Ashram, Ward No.47, Chhindwara, Tehsil and District- Chhindwara, Madhya Pradesh- 480001.
93	Ahinsawadi Janata Party	Near N.T.P.C. Main Gate, Noufari, Village – Lodhai, Shamshabad Road, Agra, District – Agra, Uttar Pradesh.
94	Aihra National Party	1/24, S.F., KMT Bhawan,St. # 2, Lalita Park, Laxmi Nagar,Delhi-110092.
95	Aim Political Party	543, Babasheb Ambedkar Society, Room No.179, CEN No. 301, Capt. Prakash Pethe Marg, Cuffe Parade,

		Colaba, Mumbai, Maharashtra – 400005.
96	Akali Dal (1920)	296, Sector 10-A, Chandigarh-160010.
97	Akhand Aryavart Access Party	At – 1/4961, Balbir Nagar Ext., Street No.4, Shahdara, Delhi-110032
98	Akhand Bharat Chetna Dal	Plot No. 9, Khasra No. 114/2, Sai Colony, Bhaijan Rikshe Vale Ke Peeche, New Colony, Garha, Jabalpur, Madhya Pradesh- 482003
99	Akhand Bharat Ekta Manch	A-204, Fairdeal House, Near Swastik Cross Road, C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat-380009.
100	Akhand Bharat Janpriya Party	Ganesh Sharma, Road No. -3, Bajrangpuri, Bhagat Singh Path, Guljarbagh, Patna, Bihar-800007
101	Akhand Bharat Party	47 – Rukmani Vihar, Opposite to Mandi Samiti, Bye-Pass, Mathura, Uttar Pradesh – 281001.
102	Akhand Bharat Samaj Party	E-14, First Floor, DDA Mini Market, Sultan Puri, Delhi – 110086
103	Akhand Bharat Samrajya Party	F 305, Rajharsh Colony, Kolar Road, Akbarpur Bhopal, Madhya Pradesh- 462042.
104	Akhand Bharat Swatantra Party	Village- Patni, Post and Thana- Chiklana, District- Saharanpur, Uttar Pradesh.
105	Akhand Bharat Vikas Party	Plot No. 100, Transport Nagar, Saharanpur, Uttar Pradesh-247001
106	Akhand Bharatheeya Aawaaz	A – 54, Manek Nagar CHS Ltd., M.G. Road, Kandivali (West), Mumbai – 400067 Maharashtra.
107	Akhand Bharatiya Kavach Party	B-33, Ashok Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
108	Akhand Bhartiya Yuva Party	421/6, Block-B, Laxmi Vihar, Burari, New Delhi- 110084
109	Akhand Hind Party	B-13, Rafiq Compound, Kishan Nagar, West Durgati Marg, Dahisar (East), Mumbai, Maharashtra-400068.
110	Akhand Loktantrik Party	Main Road Opposite State Bank, C/o Sahetreen Bai Sahu, Ward No. 02, Lavan, District- Balodabazar, Bhatapara, Chhattisgarh-493526
111	Akhand Manav Party	House No.C-20, Nilbad Bala jee Nagar, Phase-I, Tehsil- Huzur, District-Bhopal, Madhya Pradesh-462044
112	Akhand Rashtrawadi Party	7/5/67/2, Vikas Nagar, Sector – 7, Lucknow, Uttar Pradesh - 226002.
113	Akhand Rashtriya Rakshak Party	B/267, Shree Jivrajpark, Near Narayan Nagar, Post- Khodiyarnagar, Ahmedabad, Gujarat- 382352
114	Akhand Samaj Party	2/45, Baloo Aada, Sanjay Gandhi Nagar, P.N.Road, P.S- Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
115	Akhand Samta Party	Flat No. R-202, Teera Green, Alwar by Pass Bhiwadi, Tehsil- Tijara, District- Alwar, Rajasthan- 301019.
116	Akhil Bharat Hindu Mahasabha	Mandir Marg, New Delhi-110001.
117	Akhil Bharat Samagra Kranti Party	Rajendra Pandey's House, In front street of Dr. Saleem Ahmad, Katra, Basti, District Basti, Pin Code No.272001, Uttar Pradesh.
118	Akhil Bharatiya Ashok Sena	117/0/117, Gita Nagar, Kanpur-208025 (Uttar Pradesh).
119	Akhil Bharatiya Congress Dal (Ambedkar)	Ch-1, Kumbha Nagar, Housing Board, Chittorgarh- 312001 (Rajasthan).
120	Akhil Bharatiya Gareeb Party	Village-Kurana, Post Simmavali, Distt. Ghaziabad (U.P.).
121	Akhil Bharatiya Gorkha League	Mahabir Building, Ladenla Road, Darjeeling – 734101 (West Bengal).
122	Akhil Bharatiya Hind Kranti Party	Krishna Bhavan, Semriya Chowk, Satna, Madhya Pradesh.
123	Akhil Bharatiya Jan Sangh	T-14, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi- 110020
124	Akhil Bharatiya Jan Shakti Party	2538, Hudson Line, GTB Nagar, Delhi-110009
125	Akhil Bharatiya Kisan Mazdoor Morcha	Shri Mahatma Gandhi Vichar Kendra, Uldan, Jhansi. (Uttar Pradesh).
126	Akhil Bharatiya Loktantra Party	Vill & P.O.Dattavali, Distt. Meerut (U.P.).
127	Akhil Bharatiya Manavata Paksha	Manavata Bhavan Pentry (Koke), Teh. Sindevahi, Distt.-Chanderpur, Maharashtra.

128	Akhil Bharatiya Muslim League (Secular)	Khari Kuan, Mughalpura Ist, Muradabad-244001, Uttar Pradesh.
129	Akhil Bharatiya Rajarya Sabha	Adarsh Gurukul Shahi, District Pilibhit-262001 (Uttar Pradesh).
130	Akhil Bharatiya Samajwadi Congress	C-31, Hauz Khas, August Kranti Marg, New Delhi-110016.
131	Akhil Bharatiya Sangharsh Dal	Nangli Bhattha, Fethehgarh Choorian Road, Amritsar-143001, Punjab.
132	Akhil Bharatiya Sena	Om Kala Niketan Sankalap, Co-op. Housing Society, Anandgar, Vikhorili Park Site (West), Mumbai-400079 (Maharashtra).
133	Akhil Bharatiya Shivsena Rashtrawadi	Akhil Bharatiya Shivsena Bhawan, Gur Mandi, Ludhiana (Punjab).
134	Akhil Bharatiya Socialist Party	3, Circular Road, Prayagraj, Uttar Pradesh-211001
135	Akhil Bhartiya Aamjan Party	Mukam, Post Ladpura, Via-Gagwana, District-Ajmer, Rajasthan-305023'.
136	Akhil Bhartiya Aapki Apni Party	F-2, Ground Floor, Rajendra Park, Nangloi, New Delhi-110041
137	Akhil Bhartiya Aarakshit Samaj Party	392B, Sector-B, Sarvdharm Colony, Kolar Road, Bhopal, Madhya Pradesh- 462042
138	Akhil Bhartiya Apna Dal	1372, Ganesh Nagar, Malik Mau Aima, District-Raebareli, Uttar Pradesh-229010
139	Akhil Bhartiya Ekata Party	Jadhavwadi Road, Hanuman Chowk, Tehsil & District-Osmanabad, Maharashtra- 413501
140	Akhil Bhartiya Gondwana Party	263, Rahul Nagar, Kolar Road, Bhopal-462003, MADHYA PRADESH.
141	Akhil Bhartiya Hamara Samaj Party	Saa..17/235, G.P. Sarang Talab, Pahadiya, Varanasi, Uttar Pradesh, Pin Code..221007
142	Akhil Bhartiya Jan Morcha	House No. 960, Pratap Nagar, Bhanpur, Bhopal, Madhya Pradesh- 462037.
143	Akhil Bhartiya Janadesh Party	House No.43, Village-Delhua near Berubarvari, Main Road, Shuukhpura, Bansdih-Road, District-Ballia, Uttar Pradesh-277301
144	Akhil Bhartiya Janata Sahara Party	7/96-97, Vikas Nagar, Lucknow (Uttar Pradesh).
145	Akhil Bhartiya Janhit Party	Post – Sajani, Taluk – Hatkanagale, District – Kolhapur, Maharashtra – 416115.
146	Akhil Bhartiya Jansatta Party	60, Chaudharana, Post- Jais, District- Amethi, Uttar Pradesh- 229305
147	Akhil Bhartiya Jharkhand Party	Village – Kinudeeh, Post – Karandeeh, Jamshedpur-831002, Distt. – Poorvi Singhbhoom, Jharkhand.
148	Akhil Bhartiya Kalyan Party	Mohalla- Mirdhan South, Post- Dariyabad, District-Barabanki, Uttar Pradesh- 225403
149	Akhil Bhartiya Kisan Majdoor Party	Village-Faridpur, Tehsil-Tigaon, District-Faridabad, Haryana- 121101
150	Akhil Bhartiya Kranti Sena Paksh	Shop No. 01 in Maharana Pratap Chowk, Opp Bhagat Singh School, Bajaj Nagar, Waluj MIDC, District-Aurangabad, Maharashtra- 431001
151	Akhil Bhartiya Lokadhikar Party	Shop No. 9, 'B' Wing, Bhuraj Enclave, Samarth Wadi, Near Mankhurd Station (E) Road, Mumbai, Maharashtra – 400088.
152	Akhil Bhartiya Manavadhikar Vichar Manch Party	Ballia(Jilebiamore), Sultanganj, Deoghar Road, Post – ManjhaliMatihani, Via – Belhar, District – Banka, Bihar.
153	Akhil Bhartiya Manavatavadi Party	House No. 820, Gopu Colony, Raja Garden, Near Sector-19, Sarvodaya Hospital, Faridabad, Haryana-121002.
154	Akhil Bhartiya Mithila Party	Vilas Rai Complex, Sitamarhi Road, N.H.-77, Near S.S.B.Head Quarters, Rusulpur, Muzaffarpur, Bihar-842004.
155	Akhil Bhartiya Naitik Party	Moh. Kanhaipurwa, Near Bilgram Chungi, Janpad – Hardoi, Uttar Pradesh – 241001.

156	Akhil Bhartiya Navnirman Party	Village- Sikatiya, Post- Langri, Thana- Hata, District- Kushinagar, Uttar Pradesh- 274203
157	Akhil Bhartiya Parivar Party	A-37,Pocket-11,Bhatal,DDA Janta Flat,JASOLA, Delhi- 110025
158	Akhil Bhartiya Rashtriya Parivar Party	B-19/70-4, Dyodhiabeer, Bhelupur, Varanasi, UTTAR PRADESH.
159	Akhil Bhartiya Sarvadharm Samaj Party	72, Bajrang Nagar, Road No.6, Manewada Road, Post- Parvatinagar, Nagpur, Maharashtra- 440027
160	Akhil Bhartiya Sarvjan Hit Party	448/986, Mallahi Tola-1,Nagaria,Lucknow, Uttar Pradesh – 226003
161	Akhil Bhartiya Sawarn Party	177/Q/94, LIC Society, Sharda Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208024.
162	Akhil Bhartiya Sudhar Party	House No. 2389, 1 st Floor, Hudson Lane, Kingsway Camp, Delhi-110009.
163	Akhil Bhartiya Swarajya Dal	H. No. 22/178, Manjh Khore Ramed, Tarous Chauraha, Hamirpur, Uttar Pradesh
164	Akhil Bhartiya Vikas Congress Party	S-7,Vikasdeep Basement, Station Raod, Lucknow - 226001 Uttar Pradesh.
165	Akhil Hind Forward Bloc (Krantikari)	Ward No.36, Holding No. 711/499, Railway Hunder Road, Upadhyay Lane, West Lohanipur, Kadamkuan, Patna Bihar – 800003.
166	Akhil Rashtrawadi Party	Moharvati Sisoudiya Bhawan, Near Dak Bangla, Nadri Gate, Kasganj, District Eta (Uttar Pradesh).
167	Akhil Rashtriya Jantantra Party	Block-22, First Floor, Ganesh Chamber, Dhantoli, Nagpur Maharashtra-440012
168	Akhila Bharatiya Rytha Party	No. 127, Shravanabelagula Town, Bangaluru Main Road, Channarayapatna Taluk, Hassan District, Karnataka-573135.
169	Akhila India Jananayaka Makkal Katchi (Dr. Isaac)	No. 171, Kannan Nagar, Winterpet, Arakonam, Vellore Distt., Tamil Nadu.
170	Akhila Kerala Trinamool Party	House No. 161, Swathi Nagar, Edaikkode Desam, Pallichal Village, Nemom Post Office, Thiruvananthapuram, Kerala – 695020
171	Akhila Vijaya Party	D-591,5 th Floor, Hubdown Market,Geeta Mandir,Bus Stop,Ahmedabad,Gujarat- 380022
172	Akila India Vallalar Peravai	43, Pillayar Koil Street, Veera Ragavapuram,Chennai – 600 077, Tamil Nadu.
173	Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam	144/82,Mariamman Kovil Street,Thuvakudi-Post,Thiruvurumbur-Taluk,Trichirappalli-District Tamil Nadu- 620015
174	Al-Hind Party	B-2/40, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029.
175	All Bharath Thozilalar Katchi	No. 106/1, (Old No. 19) Thiruvalluvar Street, Karuppachavady, Krishnankuppam Post, Kurinjepady, TK. Kullanchavady Way, Cuddalore District, Near Sri Dulukanathamman Koil, Tamil Nadu – 607302.
176	All India Arya Mahasabha	Village-Naba-Himaitpur, Krishnpur, P.S.- Nalhati, P.O.- Krishnapur, District-Birbhum, West Bengal - 731237
177	All India Azaad Congress Party	H. No. 5-9-30/C, Madison House, Basheer Bagh, Hyderabad, Andhra Pradesh
178	All India Backward People Sunami Party	1-2-53, Flat no.302, Odeon Enclave,Domalaguda,(Gaganmahal),Himayat Nagar,Hyderabad,Telangana-500029
179	All India BC, OBC Party	H.No. 1-1-109/18, Ramdas Nagar, Kapra, ECIL, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh – 500062
180	All India Bharti Jug Party	Near Luxmi Narain Mandir, Grain Market, Mansa – 151 505, Punjab
181	All India Democratic Party	M – 77, Sector - 9A, Saket Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh – 462024
182	All India Disabled Party	Plot No. 57, Bhagavan Sri Sesasthiri Nagar, Malapatti Road, Don Bosco College Backside, Balakrishnapuram Panchayat, Dindigul, Tamil Nadu- 624003.

183	All India Federal Bloc	Malekkudy, Elembakapilly P.O., Koovappady, Ernakulan District, Kerala- 683544
184	All India Forward Bloc (Subhasist)	49-M, Mothilal, 1st Street, Madurai- 625010, (Tamil Nadu)
185	All India Hindustan Congress Party	191-C, Chandranagar A, Nau Dukan, Kalwad Road, Govindpura, Jhotwada, Jaipur, Rajasthan – 302012
186	All India Jaihind Party	D.No. 22-77, Bhagat Singh Nagar, 6 th Line, Yanamalakuduru, Vijaywada, Andhra Pradesh- 520007
187	All India Jan Congress Party	A-1B/110A, Krishna Apartments, LIG Flats, A-1B, Paschim vihar Delhi- 110063
188	All India Jan Samasyanivaran Party	Ward no.1, At Post & Tehsil - Kalmeshwar, District - Nagpur, Maharashtra – 441501
189	All India Jana Andolan Party	Khadalay, Pudung Busty, Relly Road, Kalimpong Khasmahal, Post and Police Station- Kalimpong, Dist- Darjeeling, West Bengal- 734301
190	All India Jananayaka Makkal Kazhagam	No. 137, Kesava Garden, 3 rd Block, Demellous Road, Channai, Tamil Nadu- 600012
191	All India Janaraksha Party	K.No. 1403/VS-17/1404/VS 18, Gangadharpura, Doddaballapura Town, Bangalore Rural - District, Karnataka
192	All India Kisan Janatha party	Door No. 2-221, Jayapuram Village, Kudair Mandal, Anantapur District, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh- 515751
193	All India Kissan Mazdoor Morcha	Gali Gujjar Singh Wali, Inside Bagdadi Gate, Firojpur City, Punjab-152002
194	All India Krantikari Congress	184/1469, Moti Lal Nagar-1, Goregaon (West), Mumbai-400104, Maharashtra
195	All India Labour Party	34/1-A, Lower Range, Kolkata, West Bengal- 700019
196	All India Legal Rights Party	D. No. 27, New No. 8j, Kalayanavainayagar Koil street, Pandian Nagar, Thirunagar, Distt.-Madurai, Tamil Nadu –625006
197	All India Liberal Party	Plot No. 48, Near Vinayaka Temple, Sector-6, M.V.P. Colony, Visakhapatnam-530017, Andhra Pradesh
198	All India Mahila Empowerment Party	D.No. – 9-4-135/35/A, 9-4-135/35, Plot No. – 35, Survey Nos. 206, 207, 210, 199, 198, 195/2, Aruna Colony, Tolichowki, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500008
199	All India Majlis-E-Inquilab-E-Millat	No. 23-1-1009/13, Moghalpura, Hyderabad, Telangana- 500002
200	All India Majlum Adhikar Party	Vill.-Durgapur(Tajpur Fatepur), P.O.-Jaynagar Mazilpur, P.S.-Jaynagar, Dist.-South 24 Parganas,- 743337, West Bengal
201	All India Makkal Nalvalu Katchi	No. 2/259, Ondibadanayakanpatti, Palakkanuthu Post, Dindigul District, Tamil Nadu- 624619
202	All India Makkal Rajya Kazhagam	Plot No.6-7, Sheikh Mohamed Nagar, Alundur, Srirangam-Taluk, Distt.- Tiruchirapalli, Tamil Nadu-620012
203	All India Manavadhikar Rajnaitik Dal	Village & Post – Rajapur, Thana – Cholapur, Tehsil & District – Varanasi, Uttar Pradesh - 221101
204	All India Manchi Party	Flat No. F-5, Sai Apartment, Katuru Road, Vuyyuru, Krishna District, Andhra Pradesh.
205	All India Mazdoor Party (Rangreta)	H.No. 2453, Bagh Wala Khuh, Jandiyala Guru, District – Amritsar, Punjab
206	All India MGR Makkal Munnetra Kazhagam	Flat No.- A-4, Srinivas Arcade, No. 1/2, Arunachalam Road, Chennai, Tamil Nadu- 600093
207	All India Minorities Front	148, South Avenue, New Delhi-110001
208	All India Moovendar Munnani Kazhagam	Lake Area, Melur Road, Madurai-625107, (Tamil Nadu)
209	All India National Raksha Sena	Flat No.503, 5th Floor, Samanis Park Viw, Saidabad, Saroornagar, Hyderabad, Telangana- 500059
210	All India Nyay Paksh	H. No.-1106, Sector 16-17, District- Hissar, Haryana-

		125001
211	All India Pasumpon Munnetra Kazhagam	No. 47B/2, Sorgavasal Street, C.N.Graman, District-Tirunelveli, Tamil Nadu- 627001
212	All India Pattali Munnetra Katchi	No.-90, Gandhi Road, Kallakuruchi, Viluppuram (DT), Tamil Nadu – 606202
213	All India People Development Party	D. No. 1/119-B, North Street, Aanaikutt Dam (Post), Thiruththangal(Root),Sivakasi (Taluk),District-Virudhunagar, Tamil Nadu- 626130.
214	All India Peoples' Front (Radical)	B.P.- 18, 40- Feet Road, Patel Nagar, Mugal Sarai, Chandauli, UTTAR PRADESH.
215	All India Pichhada Jan Samaj Party	475/15 Ka, Kadam Rasool, Daliganj, Lucknow, Uttar Pradesh
216	All India Praja Party	H.No.- 5-1-240, 2 nd floor, Jambagh, Street No.- 17, Near Flower Market, Hyderabad, Telangana- 500095
217	All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnetra Kazhagam	D. No. 33, Kannadasan Main Road, 1 st Floor, S.S. Colony, Madurai, Tamil Nadu-625010
218	All India Ravidas Samata Party	Bhagwat Singh Bhawan No. 10, Sector – 11, Shastrinagar, Meerut, Uttar Pradesh.
219	All India Samata Party	H.No. 23-8/3, Millennium Township Shadnagar, Farooqonagar Mandal, Ranga Reddy District, Telangana State- 509216
220	All India Samathuva Makhal Katchi	2, Kalyani Nagar, Kattivakkam, Chennai – 600041, Tamil Nadu
221	All India Sathyajothi Party	Ongarakudil,19, Extension,Thuraiyur, Trichy District, Tamil Nadu - 621010.
222	All India Secular Front	Furfura,Post-Furfura,P.S.-Jangipara,District-Hoogly,West Bengal–712706.
223	All India Shiromani Baba Jiwan Singh Mazhabi Dal	Village & P.O. Majitha, Amritsar (Punjab).
224	All India Tafsili United Party	Village Simulpur, Post-Thakur Nagar, Distt. 24-Parganas (N) (West Bengal).
225	All India Ulama Congress	No 20-24, Jafferabad Village, Gulbarga Taluka, District - Gulbarga, Karnataka
226	All India Uzhavargal Uzhaippalargal Katchi	Door No.55, First Floor,Sinavar Street, Tiruppattur-635601,Tamil Nadu,CHENNAI.
227	All India Women Democratic Freedom Party	No. 36, Ganesh Nagar, Near Ambedkar Nagar Bus Stop, 200 Feet Road, Kolathur, Chennai, Tamil Nadu – 600099.
228	All India Women United Party	Room No-1, 4th Floor, A-117, Shubrati Apartment, Okhla Village, Jamia Nagar, New Delhi - 110025.
229	All India Youth Development Party	4/286,Kallipuram Vattam,Vella Kuttai Village,Vaniyambadi Taluk,Vellore District,Tamil Nadu – 635752.
230	All Indian Rajiv Congress Party	41/238, Alapur House, Radhakrishna Mandir Lane, Narhi, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
231	All Indian Republican Party	Shop No. 4 in Street No. 33, Plot No. 2814, Mauja Bhanapeth, M.G. Road, Tehsil & District- Chandrapur, Maharashtra- 442401
232	All Indians Party	Door No. 30-3-11, Assam Gardens, Visakhapatnam, Andhra Pradesh- 530020
233	All J & K Kisan Majdoor Party	Standard Hotel, Saheed Chowk, Jammu, Jammu & Kashmir.
234	All Jammu & Kashmir Liberal Democratic Party	M.P. Gali, Raj Bagh, Srinagar, Jammu & Kashmir.
235	All Jammu and Kashmir Republican Party	1464, Mohalla Khwaja Bazar, Near Power Station, Anantnag, Pin Code -192101, Jammu and Kashmir.
236	All Pensioner's Party	No.12D, PavodumThoppu, Nellorepet, Gudiyattam,Vellore District, Tamil Nadu - 632602.
237	All Peoples Party	Door No. 1-138, Pallegunta Village. & Post,Gurazala Rural Mandal, Guntur District. Andhra Pradesh.
238	Alliance of Democratic Reforms Party	Flat No. 106, Sai Sri Towers, 3-6-429/106, Himayath

		Nagar, Street No. 4, Hyderabad-500029.
239	Allied Millennials Party of India	At-51,3 rd Street, Annai Theresa Nagar,Madipakkam,Chennai,Tamil Nadu - 600091
240	All-in-One Party	Plot No. 4, Village - Sadhupur, D. D. Puram Colony, Post – Kamlabad Badhauli, Raitha Road, Near Nasha Mukti Kendra, Lucknow, Uttar Pradesh – 226201
241	Aman Aur Shanti Tehreek-E-Jammu & Kashmir	JK-E-Khdmak Markaz, K.P. Chowk, Khanabal, Anant Nag, Near Govt. Higher Secondary School, Jammu & Kashmir- 192101
242	Aman Party of India	83, Sushila Vihar Phase – 1, Ward No. 2, Bhoad, Bulandshahr, Uttar Pradesh.
243	Aman Samaj Party	V-1452, Street No. 4, Vijay Park, Delhi – 110053.
244	Ambedkar Bahujana Samatha Party	08-7, Timmajipet (Vill. & Mandal), Nagarkurnool, Telangana - 503001
245	Ambedkar Janatha Party	No. 57/1, Savimana Enterprises, Badrappa Layout, Kodigehalli, Nagashettyhalli, Main Road, Bagalore-560092, Karnataka.
246	Ambedkar National Congress	8-3-323, Amreetpet Cross Road, Hyderabad (Andhra Pradesh).
247	Ambedkar Peoples Movement	39. Saravana Street, T. Nagar, Chennai- 600017 (Tamil Nadu).
248	Ambedkar Political Party	D.No.321/1S,S.Meenakshipuram,Sowdarpatti(P.O.),Thirumangalam(T.K.),Madurai(D.T.),Tamilnadu-625704
249	Ambedkar Samaj Vikas Party	H.No.- 49, Mohalla- Tilak Nagar, Yamuna Nagar, Tehsil- Jagadhri, District- Yamuna Nagar, Haryana-135003
250	Ambedkar Sena Party	Village-Kabri,Near Ravidas Mandir,Tehsil and District-Panipat,Haryana-132013
251	Ambedkar Vikas party	Village-Rohta,Indira Awas Colony,P.S.Sadar Bazar,Agara,Uttar Pradesh-282009
252	Ambedkar Yug Party	240/71 F/3, Stainly Road, Kamla Nagar, Allahabad, Uttar Pradesh.
253	Ambedkarbadi Party	136/1,Diamond Harbour Road, Kolkata-700063 (West Bengal).
254	Ambedkarist Republican Party	Behind Rashtrabhasha Prachar Sammittee, Wardha-442001, Distt. –Wardha, Maharashtra.
255	Ambedkarite Party of India	API, Central Secretariat, Plot No.1672, Near Buddha Vihar, Nara Road, Indora (Warpakhad), Nagpur-440014, Maharashtra
256	Amma Makkal Munnettra Kazagam	New No.15, Old No. 8, Ground Floor, West Cott Road, Royapettah, Chennai-600014,Tamilnadu
257	Amra Bangalee	No.2, Ballav Street, Kolkata-700004 (West Bengal).
258	Anaithindia Samudaya Munnetra Kazhagam	No.7/13, East Meda Street, Thiruvathipuram & Post Cheyyar Taluk – 604 407, Thiruvannamalai Distt., Tamil Nadu.
259	Anaithindia Uzhaikkum Padaippali Vazhvurimai Katchi	No.27,Regunathapuram East Street,Devakottai,Sivagangai District,Tamil Nadu-630302
260	Anaithindiya Samuthaya Makkal Katchi	80, Kuzhandhai Velan Lane, Main Road, Dindigul, Tamil Nadu – 624001.
261	Anaithinthiya Anna Dravida Makkal Seyal katchi	15/28,Pillanallur Pudur,Gurusaini Palayam Posa,Veterinary Hospital, Rasipuram TK. Namakkal District,Tamil Nadu-637403
262	Anaithinthiya Thamizhaga Munnetra Kazhagam	10/2, Nalvar Nagar, Kalveerampalayam, Bharathiar University (Post) Coimbatore-641048 (Tamil Nadu).
263	Anaithu India Makkal Katchi	No. 176/9, 37D, Taluk Office Road, Opp. To Police Quarters Hosur, Krishingiri District, Tamil Nadu-635109
264	Anaithu Makkal Arasiyal Katchi	No 1/111,East Coast Road,Injambakkam,Chennai, Tamil Nadu- 600115
265	Anaithu Makkal Katchi	No. 44, 2 nd floor, Narayanasamy Street, Pulianthope,

		Near Perambur Barrack Road, Chennai, Tamil Nadu-600012
266	Anaithu Makkal Munnetra Kazhagam	D. No. 199/416 (RS No. 177-1B), 1 st Floor, Arcot Road, Vadapazhani Chennai-600 026 Tamil Nadu.
267	Anaithu Makkal Puratchi Katchi	No. 268, Amman Koil Street, Aladi Post-Viruthachalam(TK), Cuddalore(DT), Tamil Nadu - 606115
268	Anaithu Maruthuvar Makkal Munnetra Kazhagam	136/D3, Annai Aradhana Astalakshmi Nagar, Gudalor, Kancheepuram, Tamilnadu-603204
269	Anaithu Ulaga Tamilargal Munnetra Kalagam	No.17,Ezhil Nagar,perumalpuram,Palyamkottai,Tirunelveli, Tamil Nadu-627007
270	Anaithumakkal Neethi Katchi	D. No.11, Ground Floor, 8 th Street Extension, Ahimsapuram, Sellur, Madurai, Tamil Nadu - 625002.
271	Anarakshit Samaj Party	H. No. 371, 1 st Floor, Mohalla - Sadhvada, Kaimganj, Distt. - Farrukhabad, Uttar Pradesh.
272	Anbu Udhayam Katchi	12/11, Subash Illam, Theni – Gudalur – 625518, Tamilnadu.
273	Andaman & Nicobar Janta Party	Garacharma Village, TTI Road, Tehsil - Port Blair, District - South Andaman, Andaman & Nicobar Islands - 744103.
274	Andaman Nicobar Democratic Congress	Vill. & P.O. – Ramakrishnapur, Little Andaman, A & N Islands – 744207
275	Andhra Chaitanya Party	Door No. 12-20-3, Gudu Street, Bheemunipatnam, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh- 531163
276	Andhra Pradesh Rashtra Samaikya Samithi Party	H. No. 11-8-118/2(Old), 11-8-99/84(New), Narsimhapuri Colony, Ashtalakshmi HYD-VIJAYAWADA Highway, Hyderabad-500 035, Andhra Pradesh.
277	Andhra Pensioners Party	H.No.8-6-666, Plot no.64B, Sri Balaji Nagar, Near B.N.Reddy Nagar, Vanasthalipuram, Hyderabad, Telangana-500070.
278	Andhra Pradesh Rashtra Samithi	Door No. 15-8-158/B, Jakeer Hussain Nagar, 3 rd Lane, Nandivelugu Road, Old Guntur, Guntur District, Andhra Pradesh- 522001
279	Andhra Rastra Praja Samithi	Behind AC Stadium, Koneyapalem Gate, Dargamitta, Nellore, Andhra Pradesh-524001
280	Angika Samaj Party	Aanand Ashraya , P.O- Old Jute Mill, Sharifganj, Ward No. 42, District- Katihar, BIHAR-854105.
281	Anjaan Aadmi Party	House No. 391/117A/1, Radha Nagar Colony, Phulwariya Road Daraganj, Allahabad Uttar Pradesh.
282	Anjuman Party	House No. 95, Nijaatpura, Nazarali Marg, Kotwali Road, Ujjain, Madhya Pradesh- 456006.
283	Anna Democratic Human Rights Movement Party of India	Amla Bhavan, thrikkannamangal, Kottarakkara, P.O.- Kollam, Kerala- 691506
284	Anna Dravidar Kazhagam	No. 8/1, Cutchery Road, Thiruthuraipoondi, District- Thiruvarur, Tamil Nadu- 614713
285	Anna M.G.R. Jayalalitha Dravida Munnetra Kazhagam	1/213, Thirusakthimutram, Keelaveethi, Patteshwaram, Kumbakonam (Taluka), Thanjavur (District), South India, Tamil Nadu - 612703
286	Anna Makkal Iyakkam	No. 660, R.K.J. Vallivelan Nagar, Pammathukulam, Pothur Village, Ambattur Taluk, Chennai, Tamil Nadu-600052
287	Anna Makkal Katchi	No.20C, Railway Station Road, Chinnasalem Vilupuram, Tamil Nadu-606201
288	Anna MGR Dravida Makkal Kalgam	No.150, 3 rd Cross Street, Srilakshmi Nagar, Alwarthirunagar, Chennai, Tamil Nadu-600087
289	Anna MGR Dravida Munnetra Kazhagam	H. No. – 176, Ward No. – 5, East Street, Palodai Colony, Aanaimalaiyanpatty, Uthamapalayam – Taluk, Theni – District, Tamil Nadu – 625526.
290	Anna Puratchi Thalaivar Amma Dravida	No. 1/424, Thotathupalayam, Lakshmi

	Munnetra Kazhagam	Nagar,Pooluvapatti (Post) Tiruppur,Tamil Nadu-641602.
291	Anna YSR Congress Party	D.No. 7/2-2, Chilakalabavi Street, Kadapa, Andhra Pradesh- 516001
292	Annadata Party	Village- Baghala, Post- Dubha (Via- Jasara), P.S. Lalapur, Tehsil- Bara, District- Prayagraj, Uttar Pradesh- 212107
293	Annan Tamilaga Rising Kazhagam	223, GST Road, Chromepet, Chennai, Tamil Nadu-600044
294	Anndata Karigar Party	Ganiyare- Badhan, District- Singrooli, Madhya Pradesh-486886
295	Anti Corruption Dynamic Party	Plot no. 52, Ganesh Nagar, Veppampattu – Village, Thiruvellur- District, Tamil Nadu- 602024
296	Apna Dal Balihari Party	Village- Mahakharpur, Post- Raghavapur, Tehsil- Harraiya, Distict- Basti, Uttar Pradesh-272155
297	Apna Adhikar Party	Masiha Drug House, Line Bazaar, Purnia, BIHAR.
298	Apna Bharat Vikas Party	Village - Kashipur (Mishra Newri),District - Ballia, Uttar Pradesh – 277 001
299	Apna Bharatiya Sanatan Party	Jay Shesh Market,Village Kirtar Tara,Post- Birshahpur,Distt.-Mirzapur,Uttar Pradesh- 231001
300	Apna Dal	1/2A.P. Sen Road, Lucknow, (U.P.).
301	Apna Dal (Kamerawadi)	126/17-B.B.N. Road,Lalbagh,Distt.-Lucknow Uttar Pradesh- 226001
302	Apna Dal United Party	Village – Siswa, Post & P.S. – Kasya, District – Kushinagar, Uttar Pradesh – 274402
303	Apna Desh Party	H. No. – 457, Majorganj, District - Sultanpur, Uttar Pradesh
304	Apna Haq Party	H.No. 244,Vidhayak Vijay Yadav Awas, Ward no.-1, Thakurdwara,Moradabad,Uttar Pradesh-244601
305	Apna Kisan Party	Amla Tola, Ward No- 30, Hotel Jai, New Market, Katihar, Bihar- 854105
306	Apna Raj Front	House No.1096, Sector-7, Bahadurgarh, Haryana.
307	Apna Samaj Party	SCF- 49, Phase 3B2, Mohali, Punjab- 160059
308	Apna Sangharsh Kisani Ekta Party	2379/2,Krishna Nagar,Aarti Chowk,Near Aman Hospital,Super X-Ray Wali Gali,Ludhiana,Punjab – 141001
309	Apni Ekta Party	Near Old Tehsil Complex,Jhaloor Road,V il - Sherpur,Tehsil-Dhuri,Distt.-Sangrur,Punjab – 148025
310	Apni Janta Party	735/4,(1286/60),Gali No.13,Siddharth Puram (Chauhan Puri),Nai Basti,Lallapura,Distt.Meerut,Uttar Pradesh- 250002
311	Apni Jantantrik Party	H. No. 234-K,Sankat Mochan Bhawan,Village and Post- Amarpur Aun,District-Unnao,Uttar Pradesh- 209827
312	Apni Party (Secular)	Village - Unchi Dankaur, Town - Dankaur, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 203201
313	Apni Party India	F-4/149, 2 nd Floor, Sector-16, Rohini, New Delhi- 110089
314	Apni Prajahit Party	Plot No. 12,Din Praja Hit Colony,Opposite Shree Complex,Narendra Nagar,Vivekanand Nagar,Nagpur,Maharashtra-440015
315	Apni Zindgi Apna Dal	A-119, Ground Floor, Near- Angel Mega Mall, Kaushambi, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201010.
316	Appamma Makkal Kazhakam	3/59, Mariyamman Kovil Street, Ammapalayam Post, Perambalur Tk. & Dist., Tamilnadu - 621101.
317	Aravor Munnetra Kazhagam	D.No. 663, Agraharam, Rajalipatti, Post,Thiagarasa Alai Via,Viralimalai,Union, Pudukkottai District,Tamil Nadu-621312
318	Arjak Adhikar Dal	No.128/169/26A,K-Block,Kidwai Nagar,Kanpur, Uttar Pradesh-208011
319	Arjun Bharat National Party	Flat No.G-2,1-Floor,Plot No. 216,Hastinapur Vistar,Panchyawala,Jaipur,Rajasthan-302034

320	Arunachal Congress	G- Extension, Naharlagun (Arunachal Pradesh)
321	Arunachal Democratic Party	LRB-09233/94, DT 30/03/192, E-Sector, P.O.-& P.S.- Itanagar, Near AP State Legislative Assembly, District- Papmpare, Arunachal Pradesh-791111
322	Arya Dal	Central Camp Office – 775, Shanti Colony, Itawa, Uttar Pradesh.
323	Aryavart Party	Village & Post – Barsaina, Thana – Ahirauli, District – Kushinagar, Uttar Pradesh – 274207
324	Asankhya Samaj Party	A-490, Gali No. 22, Shyam Colony, Buddh Vihar, Phase –2, Delhi-110086.
325	Asli Bharat Party	C-48, South Extension, Part-I, New Delhi- 110049
326	Asli Deshi Party	Shop No. 10, First Floor, B- Block, Central Market, Dilshad Garden, Delhi- 110095
327	Asom Jana Morcha	Ward No. 25, Village- Azad Nagar, P.O.- Chutahaibor, Mouja- Nij Sahar, P.S & District- Nagaon, Assam- 782002.
328	Asom Songrami Mancha (Asom)	Bye Lane No.4, Guwahati, Assam-781003
329	Assam Dristi Party	Doom Dooma Pather Gaon, P.O.-Hansara, District- Tinsukia, Assam- 786790.
330	Assam Jatiya Parishad	First floor of house no. 33, Lamb Road, Uzan Bazar, Guwahati, PS. Latasil, PO. Uzan Bazar, District – Kamrup(M), Assam – 781001
331	Atal Janshakti Party	Village- Yarta, Post- Sikandarpur, Tehsil- Hariya, District- Basti, Uttar Pradesh- 272190
332	Atulya Bharat Party	91, Pili Kothi, Near Guruharikishan Public School, Hari Nagar, New Delhi-110064.
333	Atulya Bharat Sarv Samaj Party	Village-Kharaila, Post Sara Paltu, Block-Thekma, District Azamgarh, Uttar Pradesh-276302
334	Autonomous State Demand Committee	Rongniheng, Diphu-782460, Karbi Anglong (Assam).
335	Avirat National Seva Party	#24, Sri Lakshmi Nilaya, 1 st Block, 2 nd Cross, Akshay Nagar Bengaluru, Karnataka - 560016.
336	Awami Aamjan Party	New Adarsh Nagar, Ashapurna Colony, Jalore, District- Jalore, Rajasthan-343001
337	Awami Party	E-11/77, New Colony, Hauzrani, Malviya Nagar, New Delhi-110017.
338	Awami Samta Party	Building No.631/135, Pani Gaon, Sector – 9, Post – Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226016
339	Awami Vikas Party	606/607, Zayfreen Chambers, Oil Depot Road, Opp. Sewree Railway Station, Sewree (E), Mumbai, Maharashtra - 400015
340	Ayya Munnetra Kazhagam	Door No.180/128, Thirugnanasambandar Road, Race course, Coimbatore Tamil Nadu - 641018
341	Azad Adhikar Sena	5/426, Vikram Khand, Gomatinagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226010
342	Azad Bharat Congress	218, Second Floor, LSC Market, Block –A, Samarat Enclave Pitampura, New Delhi- 110034.
343	Azad Bharat Party (National)	Village- 50 Kutiya Rampur, Pargana & Tehsil- Narwal, District- Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 209401
344	Azad Bharat Party (United)	D-59/14A/-1/A, Shivpurva, Rathyatra Road Mahmoorganj, Varanasi, Uttar Pradesh- 221010
345	Azad Janata Party	208, Dhillan Complex, Akashganga Supaila, Bhilai, District - Durg, Chhattisgarh.
346	Azad Kranti Party	H.No. 559, Block- G, Scheme No. 40, Panki, Gangaganj, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208020
347	Azad Mazdoor Kissan Party	D-4, Prem Nagar-III, Shani Bazaar Road, Kirari Nahar, Nangloi, New Delhi-110086.
348	Azad Party	Khanuhath, Block- Motigarpur, Sultanpur, Uttar Pradesh- 228132
349	Azad Samaj Party	Village – Mandusara Bujurg, Post - Fatehpur, P.S. – Ranipur, District – Mau, Uttar Pradesh - 276402.
350	Azad Shivalik Bharat Party	Up-Mahal, Village-Dangoli Khewat, No. 58, Khatoni

		No. 218, Khasra No. 109, Tehsil-Una, District-Una, Himachal Pradesh- 174303
351	Azhagu Tamil Desiyam	TI,Third Floor,Land Marvel Apartments 30,Sadayappan Street,Mandaveli,Chennai Tamilnadu – 600028
352	B.C. Bharatha Desam Party	H.No.12-13-426, Street No.1,Tarnaka,Hyderabad – 500 017Andhra Pradesh.
353	B.C. United Front	15, Saptagiri Nagar, Rethi Bowli, Hyderabad – 500 028, Andhra Pradesh.
354	Backward Classes Democratic Party, J&K (BDP)	Peer Bagh Colony, Opp. Army Gate,Sunjwan Road, Jammu,Jammu & Kashmir – 180 004.
355	Badavara Shramikara Raitara Congress Party	1/A, Parvathi Nagar Main Road, Bellary-583103 Karnataka
356	Bahadur Aadmi Party	S-11/37-38A,Chaukaghat,Varanasi,Uttar Pradesh-221002
357	Bahadur Insan Nagrik Dal	Khata No.678,Village Tema Z.Sherpur,Post Gaura,Distt.Bhadohi,Uttar Pradesh-221404
358	Bahujan Andolan Party	Shahajipura,Saraytareen Sambhal,Near Prathama Bank,District Sambhal,Uttar Pradesh- 244302.
359	Bahujan Awam Party	H. No. 52/42/A/2, Edmasten Road, Tashkand Marg, Civil Line,Allahabad, Uttar Pradesh.
360	Bahujan Azad Party	Village- Sagram Fandah, Post Office & Police Station- Riga, District- Sitamarhi, Bihar-843327
361	Bahujan Bal Party	D.S.-50/G-II, LDA Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh
362	Bahujan Bharat Party	Vatsalabai Mohan Kamble,Dharavi Kumbharvada,90 Foot Road,V.O.C.,Mumbai City,Maharashtra- 400017
363	Bahujan Chetna Vikas Morcha	H.No. C-8, Kachnar City,Teh-Jabalpur,District-Jabalpur,Madhya Pradesh-482001
364	Bahujan Dravida Party	House No. 6659,Block No. 9,Dev Nagar,Karol Bagh,New Delhi- 110005
365	Bahujan Gondwana Party	Ward No. 8, Behind Ram Janki Temple, Burhar, District- Shahdol, Madhya Pradesh- 484110
366	Bahujan Hasrat Party	Village- Kharuwanwa, post- Kunwar Pur, Tehsil- Machhlishahar, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222202
367	Bahujan Janata Dal (Khodawal)	C-170, Sector-1, Shatabdi Nagar, Meerut, Uttar Pradesh-250103.
368	Bahujan Kranti Party (Marxwad-Ambekarwad)	Village – Dhansua, Post – Central Jail, Fatehagarh, Distt. Farrukhabad, Uttar Pradesh – 209 601.
369	Bahujan Lok Dal	Nadraganj Ramsagar Road,Masjid Gali (Bdi Daha),Gaya,Bihar-823001
370	Bahujan Lokrajya Party	Maitra Niwas,Tembhurni Road,Kurduwadi Tal - Madha,District-Solapur,Maharashtra- 413208
371	Bahujan Maha Party	B-245, Street No. 2, Mandawali, Fazalpur, Near Sadbhavna Apartment, Back of Mother Dairy, Delhi- 110092.
372	Bahujan Mazdoor Party	Khasra No. 249, Village- Sikrari, Tehsil- Tundla, P.S. Pachokhra, Janpad/District- Firozabad, Uttar Pradesh- 283204
373	Bahujan Mukti Party	Flat No. 14, Aasha Pushp Vihar, Sahkari Aavas Samiti, Sector – 14, Kaushambi, Gazhiabad, Uttar Pradesh.
374	Bahujan National Party (Ambedkar)	RZ-35 (3rd Floor), Sita Puri, Pankha Road, Near Dabri Mor Metro Gate No.3, New Delhi-110045
375	Bahujan Nyay Dal	596/1, New Paharpur, Police Colony, Thana- Gardnibagh, Post- Anisabad, District- Patna, Bihar- 800002
376	Bahujan Party	125/98, New L.I.G. Barraha –7, Kanpur-208027 Uttar Pradesh.
377	Bahujan Rayat Party	198K-E, Datt Ho, Sosa Rabade Colony, Kolhapur, Maharashtra – 416001.
378	Bahujan Republican Ekta Manch	Hardas Nagar, Kamptee, District Nagpur, Maharashtra.

379	Bahujan Republican Socialist Party	4/17, B.D.D, Worli, Mumbai, Maharashtra-400018.
380	Bahujan Sadan Morcha	Isari Bazar, Post - Isari Bazar, District – Giridih, Jharkhand-825107.
381	Bahujan Samaj Party (Ambedkar)	H.No.- B-33/103, Mohalla Shehrian, Kapurthala, Punjab’.
382	Bahujan Samaj Party (Ambedkar-Phule)	H.No. V-25, Sandhya Venus Apartment S.P.Nagar, Moula-ali, Hyderabad, Andhra Pradesh
383	Bahujan Samaj Vikas Party	20-B.D.S. Commercial Market, Village – Sadarpur, Sector- 45, Post Office- Arun Vihar, Sector – 37, Noida, Janpad – Gautambudhnagar, Uttar Pradesh.
384	Bahujan Samajwadi Party (Baba Saheb)	53-54, 1 st Floor, Commercial Complex, South Patel Nagar, In Front of Metro Pillar No. 190, New Delhi - 110008.
385	Bahujan Samyak Party (Mission)	83K/1, Rithora, Bareilly, Uttar Pradesh- 243122
386	Bahujan Sangharsh Dal	Opposite Padav Police Station, Laxmanpura, P.O. Laskar, (Gwalior), Madhya Pradesh.
387	Bahujan Sangharsh Party (Kanshiram)	Bahujan Bhawan, Khabbashpur, Post-Malikpur, Zila-Ropar, Punjab.
388	Bahujan Sena	124A/G-1, Sector-6, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201012
389	Bahujan Sewa Party	899, Phoolbag Colony, Kursi Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226021
390	Bahujan Shoshit Samaj Sangharsh Samta Party	DDA shop No.16, First Floor, CSC No. V. Sector- 5, Rohini, Delhi- 110082
391	Bahujan Suraksha Dal	1/7, G.H. Board, Hardasnagar, Stadium Road, Old Bapunagar, Ahmedbad-380024 Gujarat.
392	Bahujan Utthan Party (G)	Village- Lonapur, Mazra-Vilai Kheda, Near Purva Madhyamik School Lonapur, Post- Laulai, Tehsil/Pargana - Sadar, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226028
393	Bahujan Vijay Party	98/5, Post Office Gali, Village – Khutbhar, Post & Tehsil – Khajani, District – Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273212.
394	Bahujan Vikas Aaghadi	A-301, Arti Apartment, Vartak Raod, Virar (West), Taluka – Vasai, District – Thane, Maharashtra-401 303.
395	Bahujana Desham Party	Door No. 4/32, Gaddameeda Harijana Wada, Singareddy Palli, Penagalur Mandal, Y.S.R., Kadapa-District, Andhra Pradesh- 516127
396	Bahujana Left Party	H.No. 6-73, SC Wada, Peddalingapur Village, Mandal Illanthakunta, District-Rajanna Sircilla, Telangana State- 505405
397	Bahujana Raajyam Party (Phule Ambedkar)	H.No- 4-33-163, Venkateshwara Nagar, Kukatpally, Pipe line Jagadgirigutta, Balanagar Mandal, Medchal District, Hyderabad, Telangana- 500037
398	Bahujana Rajyadhikara Party	H. No. 8-1-77/9/B, Teachers Colony, District- Mahabubnagar, Telangana - 509001
399	Bahujana Rashtra Samithi	Plot No. 34/2, Lalithanagar, West Marredpally, Secunderabad, Telangana- 500026.
400	Bajjikanchal Vikas Party	Sahjanand Nagar, Bhagwanpur, N.H. 28, Muzaffarpur – 842002 (Bihar).
401	Baliraja Party	Plot No. 1, Commercial Complex, Prithviraj Nagar, Belatrodi road, Nagpur, Maharashtra- 440034.
402	Banchita Swaraj Party	117, No., Dr. B.R. Ambedkar Road, P.O. and P.S.- Nalhati, District-Birbhum-737220, West Bengal.
403	Banga Bharat Party	Vill.- Ghanashyampur, P.O.- Purandarpur, P.S. Kandi, Distt.- Murshidabad, West Bengal - 742140
404	Bangali Nabanirman Sena	C/o Supriya Das, Chengkuri Road, Eastern Bye Lane, P.O. – Ambicapatty, P.S. – Silchar Sadar, District – Cachar, Assam - 788004.
405	Bangla Bikashbadi Congress	Yusufgnaj Afaque Nagar, Near Golghar-Chabutara House, P.O & P.S- Islampur, District- Uttar Dinajpur,

		West Bengal- 733202
406	Bengaluru Nava Nirmana Party	101,Brigade Paramount,5,Old Madras Road,C.V. Raman Nagar,Bengaluru - 560093
407	Berojgar Aadmi Adhikar Party	D-2/329, Shiv Durga Vihar, Lakkarpur, Faridabad, Haryana.
408	Bhaarateeya Janashakthi Congress	D.No. 4-148/A, Paniyoor Road, Udupi - District, Uchila, Karnataka-574117
409	Bhagidari Kranti Dal	Village & Post – Mawai Padiyana, Block – Sarojni Nagar, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh – 226008.
410	Bhagidari Party(P)	30/5B/4, South Lokpur, Naini, Distt – Prayagraj, Uttar Pradesh- 211008
411	Bhapase Party	Village – Massa (Khn), Tehsil – Kalam, District – Usmanabad, Maharashtra - 413507.
412	Bharastachar Apraadh Mukh Nyay Dal	H. No. – A-1061, Sector- I, L.D.A.Colony, Kanpur Road, Post- L.D.A. Colony, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226012
413	Bharat (Integrated) Rakshak Party	H. No. - B-98, Mayfield Garden, Sector -50, Gurugram, Haryana -122018.
414	Bharat Adivasi Party	Plot No. 27A, Gamadi House (Commerce) Complex, Shastri Colony, Dungarpur, Rajasthan-314029
415	Bharat Bharati Party	38,Kaushalpur,Gaumati Nagar Extension,Gali No. 10,Lucknow,Uttar Pradesh - 226010
416	Bharat Bhavishya Party	House No. 94 S, Village -Mugeeshpur, P.S. - Taarun, Post – Chandrikaganj, District – Faizabad, Uttar Pradesh – 224141.
417	Bharat Bhoomi Party	House No. 48, Village- Khapri (Taandpara), Post Office- Pakaria, Tehsil – Pamgarh, Thana- Mulmula, District- Janjgir-Champa, Chhattisgarh- 495553
418	Bharat Dal	Bharat Sevadham Aranyak, Krantideep Mourana, Nurpur, Distt. Bijnaur (U.P).
419	Bharat Ekta Mission Party	171/123,Aaraghar,Distt.-Dehradun,Uttarakhand-248001
420	Bharat Gaurav Party (India)	13/543,Sector-13,Indiranagar,Lucknow,Uttar Pradesh-226016
421	Bharat Jago Janta Party	New Market, Sahara India Bank Building, High School Para, Katihar, Patna, Bihar- 854105
422	Bharat Jan Aadhar Party	Flat No. 4, Kurla Amar CHS Society, Opp. Janseva Petrol Pump, Kale Marg, Kamani, Kurla (West), Mumbai, Maharashtra- 400070
423	Bharat Jan Chikitsa Party	113, Kamaraj Nagar West, Reddiyar Thottam, Uthangarai, District-Krishnagiri, Tamilnadu-635207
424	Bharat Jan Jagran Dal	Ward No. -5,Nara Parsauni,Bhairoganj,West Champaran,Bihar-845106
425	Bharat Jan Shakti Party	H.No. 15/281, Shakti Nagar, Shukla Ganj, District- Unnao, Uttar Pradesh- 209861
426	Bharat Jansangram Party	H. No. 366, Ahilya, New Shangani Nagar, Post- HVPM, Amravati, Maharashtra- 444605.
427	Bharat Janta Dal (Tughlaq)	Village- Nirmani, Post- Nirmana, Block- Baghra, Thana- Shahpur, Dist-Muzaffarnagar. Uttar Pradesh.
428	Bharat Jodo Party	Mohammad Ali Marg, 786/1, Jogi Nawada, Near Barkhandi Nath Mandir, Bareilly, Uttar Pradesh-243006.
429	Bharat Ka Kisan Majdoor Party	Village-Baliyan (Nayan Nagar),Post – Baliyan,Maharajganj, Siwan,Bihar-841506.
430	Bharat Kalyan Party	Village – Mevli, Tehsil – Kheragarh, District – Agra, Uttar Pradesh- 283115
431	Bharat Kaumi Dal	Village – Lathardeva Hoon, Post – Jhabreda, District – Haridwar, Uttarakhand.
432	Bharat Ki Lok Jimmedar Party	3/250, Vishwas Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (Uttar Pradesh).

433	Bharat Kranti Rakshak Party	Barakkatpur, Post-Badagaon, Distt.-Koshambi, Allahabad, Uttar Pradesh.
434	Bharat Labour Praja Party	4-25, Seethanagar Colony, Somulagudem (P), Palvancha (M), Khammam District-507115, Andhra Pradesh.
435	Bharat Lok Sewak Party	Shop No. 16, D-Block Market, Pushpanjali Enclave, Pitampura, New Delhi- 110034
436	Bharat Mahaparivar Party	1286, Ground Floor, DDA Market, New Meena Bazar, Seemapuri, Delhi- 110095
437	Bharat Mata Party	Village & Post – Katka, District – Mirzapur, Uttar Pradesh
438	Bharat Mata Saput Party	Village- Dehariya Daya Ram, Post- LoharaKhas, District- Bhadohi, Uttar Pradesh-221303
439	Bharat Naman Party	Village & Post - Manshapur, Block - Katehari, Dist. - Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh - 224168.
440	Bharat Nav Nirman Party	A – 2, Nitesh Villa, Vivekanand Colony, Nayakhera, Ambabari, Jaipur-23, RAJASTHAN.
441	Bharat Navnirman Voter Sena	1255-F, Basantvihar, Kanpur-208021 Uttar Pradesh.
442	Bharat Nirman Party	High School Road, P.O.-Triveniganj, Distt.-Supaul-852139, Bihar.
443	Bharat Nyay Dal	N. H. – 58, Delhi By-Pass Road, Gopal Vihar, H. No. 48, Meerut, Uttar Pradesh.
444	Bharat Parivar Party	Bharat Hridya Aashram, Mohalla- Karaccha, Jawalapur, Haridwar, Uttarakhand- 249407.
445	Bharat Peoples Sena	Plot No. 6-4-787, Phule Nagar, Somnathpur Road, Taluk- Udgir, District- Latur Maharashtra.
446	Bharat Prabhat Party	105, 1 st Floor, A.G.C.R. Enclave, Near Karkardooma Court, Delhi- 110092
447	Bharat Rakshak Party (Democratic)	Village Post Pakka Saharna, Tehsil Zila Hanumangarh, Rajasthan.
448	Bharat Swabhimani Party	55/1/228, Ground Floor, Bhavapur, G.T.B.Nagar, Karelie, Prayagraj, Allahabad, Uttar Pradesh- 211016
449	Bharat Uday Mission	C-3/4, Suman Nagar, V.N. Purav Marg, Chembur, Mumbai – 400071.
450	Bharat Utkarsh Party	17A-418, Prem Nagar Laulai, Lucknow, Uttar Pradesh
451	Bharat Utthan Party	Village- Harni Ausari, Pragana-Hissampur, Post- Arai Umri Tehsil- Kaiserganj, District-Bahraich, Uttar Pradesh - 271904.
452	Bharat Vahini Party	Matrimandir, Plot No. E-185, Ram Path, Shyam Nagar, Jaipur, Rajasthan- 302019.
453	Bharat Vaibhav Party	C-4, Shivdham Welfare Society, Near B.M.C. Colony, M.D. Nagar, Nalasopara East, Palghar, Maharashtra – 401209
454	Bharat Vikas Morcha	Sekhpura Road, Madhupur, Distt. Devghar, Jharkhand.
455	Bharat Vishal Party	A/6A, DDA Flat, Munirka, New Delhi – 110067.
456	Bharat Yug Janta Party	Village-Gaffarpur, Post-Gulariya, Tehsil & District- Amroha, Uttar Pradesh-244221
457	Bharateeya Bahujana Praja Rajyam	D. No. 956, Arundelpet, 10th Lane, Guntur-522 002 Andhra Pradesh.
458	Bharateeya Manavadhikar Party	21, Rajendra Mullick Street, Kolkata – 700007, West Bengal.
459	Bharath Dharma Jana Sena	Building No.V/489, Mararikkulam North Panchayat, East of Kanichikulangara Temple, Mararikkulam North Village, Cherthala Taluk, Alappuzha (Dist), Kerala - 688544
460	Bharath Praja Spandana Party	D.No. 2-42, Kalavacharla Village, Nidadavole Mandal, West Godavari District, Andhra Pradesh.
461	Bharath Samaj Devlop Party	D. No. 40-31-26, Dharama Nagar, Visakhapatnam, Andhra Pradesh- 530008.
462	Bharatha Chaitanya Yuvajana Party	H. No. 2-35/SF-2, Ramavarappadu, Vijayawada Rural, NTR District, Andhra Pradesh-521107

463	Bharatha Makkal Katchi	Near Door No. 44 & 45 (Old Door No.38), S.S. Colony,Ponmeni Narayanan Street, Distt.-MaduraiTamil Nadu - 625016
464	Bharatha Prajaakeeya Party	H. No.-3-175/1, Bodhampally(Village), Dabba(Post), Koutala(Mandal), Kumarambheem Asifabad(District), Telangana State – 504299
465	Bharatha Sevai Katchi	No. 1 & 2 Gooms road,Parrys, Chennai,Tamil Nadu - 600001
466	Bharatheeya Chaithanya Party	D. No. 9-186/7, High School Road, Venkat Nagar, Kadiyam, East Godavari District, Andhra Pradesh – 533103
467	Bharatheeya Jawan Kisan Party	XL,VI/2694(SB/S/867H),P.O. Civil Station,Near Sannidhanam Tourist Home & Best Engineering,Kannur,Kerala – 670001
468	Bharatheeya Sadharma Samsthapana Party	House No.3/17, Dorasani Palli, Proddatur Mandal, Kadapa District, Andhra Pradesh.
469	Bharathiya Praja Seva Party	D.No. 6-3-360/1,Sri Krishna Devaraya Nagar,Badvel townl,YSR Kadapa - District,Andhra Pradesh- 517124.
470	Bharathiya Belaku Party	No. 54, Govt. School Road, Village- Gopanahalli, Taluka- Maddur, District- Mandya, Bengaluru, Karnataka- 571422
471	Bharathiya Pragnavantha Congress	No. 60c, 80 Feet Road, ITI Layout, Mallathahalli, Nagarrabhavi Ward, Bangalore, Karnataka- 560056
472	Bharatiy Aam Janta Adhikar Party	101-D,East Luxmi Market,Patpar Ganj Road, Gali No.- 4,Delhi-110092
473	Bharatiya Aam Awam Party	Saristabad, Indrapuri Path, Gali No. E, Gardanibagh, Patna, Bihar- 800001
474	Bharatiya Aamjan Party (Vivekanand)	150, Ganesh Colony, Gali No. 8, Near Jain Mandir, Jhothwada, Jaipur, Rajasthan-302012
475	Bharatiya Aavaam Ekta Party	23C, Sector A, SainikVihar, Nanda Nagar, Kuraghat, Gorakhpur, Uttar Pradesh.
476	Bharatiya Agramami Dal	44,Sri Krishna Nagar,Road No.1,P.S.Budha Colony,Patna,Bihar-800001
477	Bharatiya Ambedkar Party	Main Bazar, Krishna Nagar, Jaura Fatak, Amritsar (Punjab).
478	Bharatiya Apna Samaj Party	LIG-A/LGF-03,Yashodhara Kunj Awasiya Yojna,Gorakhpur,Uttar Pradesh- 273016.
479	Bharatiya Asha Party	H. No. 590,Village-Bharan,Near Govt. High School,Tehsil-Meham,District-Rohtak,Haryana- 124111
480	Bharatiya Awam Taaqat Dal	Village- Sujanidih (Rampur), Post- Sohansa (Mungara Badshapur), Tehsil- Machhlishahar, Distirct-Jaunpur, Uttar Pradesh-222204
481	Bharatiya Backward Party	71, Surya Apartments, Fraser Road, Patna –800001 (Bihar).
482	Bharatiya Bahujan Congress	117, Khodiyar Krupa Soc.,Nr. Kantareshwar Mahadev Temple, Katargam, Surat, Gujarat
483	Bharatiya Bahujan Parivartan Party	Khasra No. 139/2, Vill. – Lakhwaya Rasoolpur, Rohta Road, Meerut, Uttar Pradesh.
484	Bharatiya Bahujan Party	156, Bharauli, Shahganj, Jaunpur,Uttar Pradesh.
485	Bharatiya Bahujan Samta Party	Village & Post- Surjannagar, District- Moradabad, Uttar Pradesh-244602.
486	Bharatiya Berojgar Party	Village-Kanta Karaundi , Post- Meerak Nagar, Police Station- Nigoha, Tehsil- MohanlalGanj, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226302
487	Bharatiya Bikash Parishad	Bank Colony,1st Line, Radio Station Road, At/Po-Berhampur,District-Ganjam Odisha-760001
488	Bharatiya Chhatrasangh Bharat	Premghan Marg, Badli Ghat, Mirzapur, Uttar Pradesh- 231 001.
489	Bharatiya Congress Paksha	Kasba Peth, In Front of Linbuwali Sawari, Post-Barshi,District-Solapur,MAHARASHTRA.
490	Bharatiya Democratic Socialist Alliance Party	H.No.198, Mohalla- Katchhpura (Shakya Nagar), Ward

		No.8, P.O- Raja ka Rampur, District- Etah Uttar Pradesh.
491	Bharatiya Development Party	Building No.14/54,S B Building,Opposite Sree Krishna temple, Asramam,Kollam,Kerala-691002
492	Bharatiya Dr. B.R. Ambedkar Janata Party	No.18, 12th Cross, MTS,Layout, Kengeri Upanagara,Bangluru-560060, KARNATAKA.
493	Bharatiya Eklavya Party	Village and Post Belhar Kalan, Tehsil Mahdawal, District Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh.
494	Bharatiya Ekta Dal	189, Basant Apartment, Vasant Vihar, New Delhi – 57.
495	Bharatiya Gana Parishad	House No. 3, Bye Lane No.4, Ward No. 16, Bishnu Rabha Path, Lalganesh (Odalbakhra), P.S- Dispur,District- Kamrup Metro, Guwahati, Assam - 781034
496	Bharatiya Gaon Taj Dal	Village-Kuka, P.O. – Maqsudpur, District Kapurthala, (Punjab).
497	Bharatiya Gorkha Prajatantrik Morcha	47/1, Victoria Road, Ward No. 17, P.O., P.S. & District - Darjeeling, West Bengal.-734101.
498	Bharatiya Grameen Dal	Aryavart Prakashan Mandir, Bus Stop Gosaiganj, Janpad- Lucknow, Uttar Pradesh.
499	Bharatiya Hindu Sena	G-17,Ridhi Sidhi Tower,Sector-5,Plot No.4,Near Sun and Moon Tower,Vidhadhar Nagar,Sikar Road,Jaipur,Rajasthan-302023.
500	Bharatiya Hitrakshak Party	No.33 Meera Niwas, Pushkar Park, Baben, Near Baben Prathmik Shala, Taluka – Barodoli, District – Surat, Gujarat- 394601
501	Bharatiya Inqalab Party	Village – Rana Pratap Nagar, Islampur,Post & P.S. – Islampur,Distt. – Nalanda,Bihar.(Pin – 801303)
502	Bharatiya Jai Bheem Party	1304, Bhantlaiya, Sindhi Camp,Distt. Jabalpur, Madhya Pradesh.
503	Bharatiya Jan Berojgar Chhatra Dal	Near R.T.O. Office, Hussainganj, Siddharth Nagar, Uttar Pradesh.
504	Bharatiya Jan Jagriti Party	Brijdham Ashram, Ranhera, Tehsil-Chhata, District-Mathura (Uttar Pradesh).
505	Bharatiya Jan Kranti Dal (Democratic)	F-23, Sainik Society, Shakti Nagar,Jabalpur, Madhya Pradesh.
506	Bharatiya Jan Morcha Party	Ward No.–1, Satna Road, Amarpatan, District – Satna, Madhya Pradesh - 485775
507	Bharatiya Jan Sabha	C/o Raja Ram Yadav, Raghuvir Nagar, New Colony, Devaria (U.P).
508	Bharatiya Janchetna Dal	No.70,LIG Indra Nagar,Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208026
509	Bharatiya Jankranti Party	12/17, Chakkhuwala, Dehradun, Uttarakhand.
510	Bharatiya Jantantra Sanrakshan Vikas Party	Village – Panditpur,P.S. and Anchal - Piprakothi,District – Purwi Champaran,Bihar – 845429
511	Bharatiya Kamera Varg Party (Kanshiram)	House no. 198, Pataudi Road, Near I.T.I., Rewari, Haryana -123401.
512	Bharatiya Karyasth Sena	121, Vishnu Colony, Shahganj, Agra-282010. Uttar Pradesh.
513	Bharatiya Kisan Parivartan Party	Nagla Dakhal, Kotla Road, Ferozabad-283203, District Ferozabad, Uttar Pradesh.
514	Bharatiya Kisan Rajnaitik Dal	Plot No-04,Khasra No. 151/01,Semra Gaudhi,Madigawn,Sita Road,Lucknow,Uttar Pradesh-226021
515	Bharatiya Kisan Sena Loktantrik	House No. 392/1, Chak Raghunath, Naini, Allahabad, Uttar Pradesh.
516	Bharatiya Liberal Party	C-79, 1 st floor, Gali No. 4, Radhey Shyam Park Extension, Radhey Shyam Part Exnt. Colony, Ghondli Ward, Krishina Nagar, Delhi- 110051
517	Bharatiya Lok Sena	Lower Ground Floor, Office No. – 2, Building No. – A.- 212-C, Tirupati Plaza, Street No. -1, Shakarpur Vikas Marg, Delhi- 110092.

518	Bharatiya Lokshakti Party	371-5, Beghar Vasahat, Main Road Majale, Taluka-Hatkanangale, District-Kolhapur, Maharashtra- 416109
519	Bharatiya Lokvikas Party	Sai Krupa Apartment, Flat No. 404, Near Daiva Bharati Hospital, Kanchanwadi, Aurangabad, Distt. Aurangabad, Maharashtra-431001
520	Bharatiya Majdoor Janta Party	Village – Lalpura, Post – Kukthari (Pinahat), Tehsil – Bah, District – Agra, UTTAR PRADESH - 283123.
521	Bharatiya Minorities Suraksha Mahasangh	410, Arcadia Building, Sir J.J.Road, Opp. J.J.Hospital Mumbai-400008 (Maharashtra).
522	Bharatiya Momin Front	174, Anand Puri, West Boring Canal Road, Patna-800001 (Bihar).
523	Bharatiya Mool Niwasi Samaj Party	77/129, Bhagat Singh Colony, Tarla Adhoiwala, Dehradun, Uttarakhand.
524	Bharatiya Mulnivasi Aazad Party	At-Room No. -601, Building No.-3, Avenue-H, Rustumjee Evershine Global City, Virar West, Distt.-Palghar, Maharashtra- 401303
525	Bharatiya Nagrik Party	Village Kanasi, P.O. Kanasi, Distt. Farukhabad-207501 (Uttar Pradesh).
526	Bharatiya National Janata Dal	701 A, 7th Floor, Meghmalhar Complex, Sector No.11, Gandhinagar, Gujarat – 382010.
527	Bharatiya Nav Kranti Party	Village- Makhmailpur, Post-Saraikhwaja, Distt.-Jaunpur, Uttar Pradesh.
528	Bharatiya Navyuvak Party	H. No. 572, Bye Saheb Ki Pared, Near of Priya Bread Factory, Laxmiganj, Lashkar, Gwalior, Madhya Pradesh.
529	Bharatiya New Democratic Party	Village and Post- Dara, P.S- Joynagar, District- South 24 Parganas, West Bengal- 743337
530	Bharatiya Nyay-Adhikar Raksha Party	Purbo Bishnupur, P.O. - Ramakanta Nagar, P.S - Mandirbazar, District - 24 Paragna (South), West Bengal - 743395
531	Bharatiya Parivartan Congress	126, Adivasi Colony, Near Rashtra Sant Tukdoji Maharaj, Cancer Hospital, Manewada Road, Nagpur-440027, Maharashtra.
532	Bharatiya Peoples Party	House No. T-9, 595/16/11, Shivshakti Nagar, Syed Chincholi Road, Filter Bed, Gulbarga, Karnataka-5851004.
533	Bharatiya Pichhra Dal	Village – Khujri, Post – Sagar, Via – Chakarmatha Camp, Distt. Bilaspur, Chhattisgarh – 495 220.
534	Bharatiya Pragati Party	C/o Chandra Prakash, Village and Post Belsad, District – Tapagaur, P.S. – Paikaliya Tehsil – Haraiya, Basti – 272163 Uttar Pradesh
535	Bharatiya Praja Aikyata Party	No. 01, Kote Street, Near Venkateswara Temple, Kodigehalli, Sahakaranagar Post, Bangalore, Karnataka – 560092
536	Bharatiya Praja Paksha	No.374/A, I-Floor, I-Block, I-Cross, Ravindranath Tagoor Nagar (R.T.Nagar), Bangalore-560032 (Karnataka).
537	Bharatiya Praja Surajya Paksha	A/P- Khandaj, Taluka- Baramati, District- Pune, Maharashtra- 413116.
538	Bharatiya Prajagala Kalyana Paksha	No. 23, Flat No. 401, 4 th floor, Everjoy, Nandanavana, 3 rd Cross, Dwarka Nagar, Channasandra, Bangalore, Karnataka- 560098.
539	Bharatiya Prajashakti Party	29/3, Panchkuiyan, Jhanshi, Uttar Pradesh.
540	Bharatiya Prajatantrik Shudh Gandhiwadi Krishak Dal	Misda, Distt. Janjgeer, Vikas Khand Navgarh, Chhattisgadhangchal, Chhattisgarh.
541	Bharatiya Rashtravadi Paksha	12, Juna Power House, Behind Rotary Hall, Jail Road, Mehsana (Gujarat) Pin-384002.
542	Bharatiya Rashtravadi Samanta Party	F-402, Road No. 9-F, Vishwakarma Industrial Area, Jaipur-302013.
543	Bharatiya Rashtriya Bahujan Samaj Vikas Party	G-96, Shantipuram, Phaphamau, Allahabad, Uttar Pradesh
544	Bharatiya Rashtriya Mahila Sarvodaya	No.2, 1 st Floor, Vayuputra Arcade, Ward No.15, Near

	Congress	NTTF, P.B. Road, Dharawad, District – Dharawad, Karnataka – 580001
545	Bharatiya Rashtriya Mazdoor Dal	Naya Sarafa, Gwalior-474001(Madhya Pradesh).
546	Bharatiya Rashtriya Morcha	D-6, Pratap Bagh Colony, New Hanuman Mandir, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
547	Bharatiya Republican Paksha	Dr.Ambedkar Bhawan, Gokuldas Pasta Road, Dadar,Mumbai-400014 (Maharashtra).
548	Bharatiya Sabhyata Party	545 K/AV-006, Avanti Vihar, Old Para Police Station, Hardoi Ring Road, Post- Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh - 226017.
549	Bharatiya Sadbhawana Samaj Party	Khan Manjil Khaparganj, Bilaspur, Chhattisgarh.
550	Bharatiya Samaj Dal	85, Chowk Makandu Ganj, Pratapgarh, Uttar Pradesh.
551	Bharatiya Samajwadi party (Loktantrik)	Moh. Chahshiri, Punjab & Sindh Bank Lane,Civil Lines,Bijnor,District-Bijnor,Uttar Pradesh-246701
552	Bharatiya Samatawadi Party	No.60, Part No.3, Bijlinagar, Chinchwad, Pune, Maharashtra-411033.
553	Bharatiya Sampuran Krantikari Party	A-1/150, Aman Vihar, Nangloi,New Delhi – 110041.
554	Bharatiya Samrat Subhash Sena	Village – Ajitpur, Post – Kankhal, Laksar Road, Haridwar,Uttarakhand – 249408.
555	Bharatiya Samta Samaj Party	Gram - Dehramau, Post – Gosainganj,Zila – Lucknow – 227 125 (U.P.)
556	Bharatiya Samtawadi Party (A)	Near Khan Atta Chakki, Opposite Devi Lal Colony, Saraswati Vihar, Mehla Road, Tehsil & District-Sonapat, Haryana- 131001
557	Bharatiya Sangharsh Morcha	C4/33,EWS Vishwa Bank Colony,A.D.A,Naini,Tehsil-Karchana,Prayagraj,Uttar Pradesh-212301
558	Bharatiya Sanghathit Party (S)	Sai Green City, Ator Road, Near Morti, Rajnagar Extension, NH-58, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201 017)
559	Bharatiya Sangram Parishad	48, Bank Street, Khatau Building, Ground Floor, S.B.S Road, Opposite Old Custom House, Fort, Mumbai, Maharashtra - 400001
560	Bharatiya Sant Mat Party	Bahu Jholri Road,V.P.O. – Nahar, Tehsil – Kosli,Distt. – RewariHARYANA.
561	Bharatiya Sarvjan Vikas Party	Village- Harshpur (pure Ralhi), Post- Kotwashukulpur, Tehsil- Lalganj, P.S. Sangipur, District- Pratapgarh, Uttar Pradesh- 230136
562	Bharatiya Sarvodaya Kranti Party	113, Malikpur, G.T.B. Nagar, Delhi-110009’.
563	Bharatiya Satyarth Sangathan	Bharat Nagar, Prem Vidyalaya, Railway Crossing, Opposite Radhapuram Housing Colony, Near Birla Mandiar, Varindavan Road, G.T.V – 3, Mathura- 281003, (U.P.)
564	Bharatiya Subhash Sena	Vill. & Post Office: Bankasiya Shivratan Singh, Janpad-Gonda -271302. (U.P.).
565	Bharatiya Suheldev Janata Party	Village and Post- Chitbaragaon, House No. 885B, Ward No. – 8, Indira Nagar, Tehsil – Balia, Balia, Uttar Pradesh – 221713
566	Bharatiya Suraaj Dal	Sinha Bhawan, Exhibition Road, Behind Reserve Bank of India, Patna, Bihar – 800001
567	Bharatiya Swajivi Nagrik Party	Village- Kukuriha, Post- Rudrapur Korwa, Thana-Rudrapur, Tehsil- Rudrapur, District- Deoria, Uttar Pradesh.
568	Bharatiya Swatantra Party	Village- Naugai, P.O. – Raghunathnagar,Teh. – Vadrufnagar, Distt:- Sarguja, Chhattisgarh
569	Bharatiya Yuva Jan Ekta Party	261, Kesar Palace,Abuparvat,Th. Abu Road,District - Sirohi,Rajasthan – 307501
570	Bharatiya Yuva Party (Democratic)	Ward No. 54, Circle No. 71, Biscoman Golambar, Near B.S.N.L Telephone Exchange, Post Office- Gulzarbagh, Kumhrar, Patna, Bihar- 800007.
571	Bharatiya Yuva Shakti	Haveliyo ka Vaas, Gram Panchayat – Kosewal, Tehsil – Sumerpur, District – Pali, Rajasthan.
572	Bharatrashttra Democratic Party	Shop No. 22, CSC-II, DDA Market, I.P. Extension,

		Patparganj, Delhi-110092.
573	Bharatwasi Party	Ambedkar Nagar Poorvi, Ramkola Road, Post – Padrauna, Distt. – Kushinagar, Uttar Pradesh-274304
574	Bharipa Bahujan Mahasangha	Dr. Ambedkar Bhawan, Gokuldas Pasta Road, Dadar, Mumbai-400014 (Maharashtra).
575	Bharosa Party	H.No. 8-233, Pocharam Grama Panchayat, Ghatkesar Mandal, District- Medchal, Telangana – 500088
576	Bharti Jan Suraksha Party	Head Office, Dholwha Road, Near Heera Colony, Town & P.O. Hariana, Distt. Hoshiarpur, Punjab -144208
577	Bharti Samudaya Party	7C-10, Vrindavan Yojana, Raibareli Road, P.S. – P.G.I., Tehsil - Lucknow, District – Lucknow, Uttar Pradesh – 226002.
578	Bhartiya Aam Aadmi Parivar	1000 Jay Ambey Apartment, DDA LIG Flates, New Kondali, Mayur Vihar Phase -3, Delhi-110096
579	Bhartiya Aam Janta Vikas Party	Village and Post- Dulma, Thana- Madhubani Motihari, District- East Champarn, Bihar
580	Bhartiya Ahinsa Party	728, Nirala Nagar, Ayodhyapuri, Raebareli, Uttar Pradesh.
581	Bhartiya Amrit Party	Khasra No. 661/3, Kachhariya, Bhopal road Biaora, District- Raigarh, Madhya Pradesh-465674
582	Bhartiya Anarakshit Party	House No.08, Anandvan, NH-2, Nawada, Post- Aurangabad, District- Mathura, Uttar Pradesh-281006
583	Bhartiya Anarya Party	Rajvanshi Market, Bus Stand, Rajgir, Thana. & P.O. Rajgir, Distt. Nalanda, Bihar-803116
584	Bhartiya Antyodaya Party	8-Preet Vihar, Phase-II, Indira Gandhi Marg, Niranjanpur- Dehradun, Uttarakhand-248171
585	Bhartiya Apna Adhikar Party	Near Kirar Hostel, Rampuri Aou Khana Kala Shabad, Pratap Aashram, Gwalior, Madhya Pradesh - 474012
586	Bhartiya Arakshan Mukti Dal	291, Agnipotra Nagar cakdikheda, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208017
587	Bhartiya Arya Kranti Manch	83 Ram Vatika Colony, Behind Geeta Palace, Shyamganj, Bareilly, Uttar Pradesh – 243005
588	Bhartiya Asmita Party	H. No. 302, Village-Katbav, Dahagaon Road, Pst- Vashind, Taluka-Shahpur, District-Thane, Maharashtra-421601.
589	Bhartiya Awaam Activist Party	Village-Keshru, P.S. – Chandauti, District – Gaya, Bihar - 823002.
590	Bhartiya Awam Party (Rastriya)	House No. 30, (B.P.20) Bechupur, Patel Nagar (40 Feet Road), Mughalsarai, District – Chandauli, Uttar Pradesh- 232 101.
591	Bhartiya Azad Sena	15 No. Chowk, Barkagaon, District- Hazaribagh, Jharkhand- 825311
592	Bhartiya Bahujan Kranti Dal	Sevagadh Building No. 02, Azadegaon, Dombivali East, District- Thane, Maharashtra-421201
593	Bhartiya Bhaichara Party	H. No. 61/3, Village- Chhalera Bangar, Ambedkar Vihar, Sector- 37, Pargana & Tehsil- Dadri, Noida, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh - 201303.
594	Bhartiya Chaitanya Party	B – 97, Panchsheel Vihar, Near Sheikh Sarai, Community Centre, New Delhi.
595	Bhartiya Chatrapati Sena	Shagun Row House D3, Behind Udyog Bhawan, Ayodhya Nagar, Sinner, Nasik, Maharashtra – 422103
596	Bhartiya Chetna Party	Surat Ganj, Ward No. 15, Thana Nagar, madhubani, Madhubani-District Bihar- 847211.
597	Bhartiya Dalit Congress	Chopara Para, Behind of Kali Mandir, Ambikapur, Distt. – Sarguja, CHHATTIAGARH- 497001.
598	Bhartiya Dalit Party	Khata No. 269, Mohalla- Vijaynagar, Post- Vijaynagar, Anchal- Banka, District- Banka, Bihar.
599	Bhartiya Damitjan Party	Village – Govindpur, Post- Seohara, Tehsil-Dhampur, Disst.- Bijnor Uttar Pradesh- 246746.
600	Bhartiya Dharmanirpeksha Party	H.No. 146, Village- Kharagpur, Post-Chaubepur,

		Thana- Chaubepur, District- Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-209203
601	Bhartiya Drishtigochar Party	H.No. 54, Gram - Mausandi, Post- Suratganj, District- Barabanki, Uttar Pradesh- 225304
602	Bhartiya Ekta Manch Party	Shabab Building , Tagore Marg, Nadava Road, Lucknow-226020 Uttar Pradesh.
603	Bhartiya Gadar Party(S)	Village-Odera,Post-Rautmau,Distt.Azamgarh,Uttar Pradesh-276406
604	Bhartiya Gan Varta Party	G-18, Ground Floor, Sanchi Complex, Shivaji Nagar, Near Board Office, Bhopal, Madhya Pradesh, Pincode: 462016.
605	Bhartiya Gandhiwadi Party	Village & Post – Garwar, District – Ballia, Uttar Pradesh.
606	Bhartiya Ganrajya Party	H. No. 1094,Vikas Sharma B.T.I. Road,Near Bajaj Agency,Mohalla Beni Sagar,Panna,Madhya Pradesh-488001
607	Bhartiya Garib Vikas Kalyan Party	Referral Chikitsalaya Ke Samne, Gulabpura, Tehsil-Hurda, Distt-Bhilwara,Rajasthan-311021
608	Bhartiya Garibmazdoor Party	Pachtaki Ram, P.O. Pachtaki Yadu, P.S. Baigania, District- Sitamarhi, Bihar - 843313
609	Bhartiya Gram Nagar Vikas Party	Ekta Vihar, Lane No. -1, Gramsabha – Aamwala Talla, P.O. - Kandoli, Sahastradhara Road, Dehradun, Uttarakhand – 248 001.
610	Bhartiya Gramin Samaj Party	Bhawan No. 15/357, Near Bharoshi ki Dharamshala, Pancham Wali Gali, Duttapura, Morena, Madhya Pradesh-476001
611	Bhartiya Harit Party	Near Hans Prakratik Chikitsalaya, Meerapur Road, Jansath, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh – 251314.
612	Bhartiya Himachal Jan Vikas Party	V.P.O. Badalthore , Tehsil - Dehra, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh - 177105.
613	Bhartiya Hind Fauj	UGF-07, Chitransh Dream Society, R.K.Puram, Govindpuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201013
614	Bhartiya Hind Party	90,Eswari Dayal Building,Arya Samaj Road,Ganesh Ganj,Lucknow,Uttar Pradesh-226018
615	Bhartiya Imaandar Party	Sindholi, Tehsil – Puwayan, Shahjahanpur, Uttar Pradesh
616	Bhartiya Indian Secular Party	Hamdard Nagar- B,Jamalpur,Mafi, Tahsil-Coal,District Aligarh,Uttar Pradesh- 202001.
617	Bhartiya Insan Party	N-84, 4 th Floor, Batla House, Near Khalilullah Masjid, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi – 110025.
618	Bhartiya Insan Rakshak Dal	H.No-192/17, Dharampur, Village-Gevrabasti/Gevra, Post Office-Kusmunda, Ward No. 60, Tehsil-Katghora, District-Korba, Chhattisgarh-495454
619	Bhartiya Jagaran Party	Poorvi Nawada, Arrah,Bhojpur-802 301, Bihar.
620	Bhartiya Jan Adhikar Party	Village-Bhim,Hospital Road,P.O.-Bhim,Distt.- Rajsamand Rajasthan-305921
621	Bhartiya Jan Hit Vikas Party	220, Indrapuri, Jacobpura Road, Gurgaon, Haryana – 122001
622	Bhartiya Jan Hitkari Party	Plot No. 31-32, Shivnagar, Tonk Road, Sanganer, Jaipur, Rajasthan
623	Bhartiya Jan Jagrook Party	Survey N0. 171, Village- Chainpura, Post-Shivgarh, Tehsil- Megh Nagar, District- Jhabua, Madhya Pradesh - 457777
624	Bhartiya Jan Jan Party	Shop No. 8 & 9, 2 nd Floor, Goyal Plaza, Faizabad Raod, Lucknow, Uttar Pradesh.
625	Bhartiya Jan Manas Party	H. No. 262 Gha, Sarsawan, Arjunganj, P.S. – Arjunganj, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh- 226002.
626	Bhartiya Jan Manch	361, Street No. 13, BuddhVihar,(Behind Senior School),Mandoli Gaon, Nand Nagri,Delhi-110093.
627	Bhartiya Jan Nayak Party	C-17-18, Sector-15, Vasundhra, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201012

628	Bhartiya Jan Parishad	FF/108, Shantivila Complex, Opp. H.P. Petrol Pump, Dahegam Road, Naroda, Ahmedabad, Gujarat- 382330
629	Bhartiya Jan Pragati Dal	H.No. 134, Village- Ramraipur (By Pass Road), Post- Ramraipur, Tehsil- Bhadohi, District- Bhadohi, Uttar Pradesh- 221314.
630	Bhartiya Jan Sahyog Party	8/6, Juhi Safed Colony, Kanpur, Uttar Pradesh- 208014.
631	Bhartiya Jan Samadhan Party	411, Spectrum, Near Yasharian, Swami Vivikanand Circle, Memnagar, Ahmedabad, Gujarat-380052
632	Bhartiya Jan Samaj Party	Mohalla Gram, Ahamadpur Urf Kamlapur Pargana, Bijnaur Tehsil & Vidhansabha, Sarojini Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226002
633	Bhartiya Jan Samman Party	Flat No. 32, Krishina Apartment, Block- BH East, DDA Flats, Ground Floor, Shalimar Bagh, Delhi- 110088
634	Bhartiya Jan Sampark Party	House No. 3616, Sharda Niwas Katra, Aadhartal, Jabalpur, Madhya Pradesh.
635	Bhartiya Jan Samrasata Party	5081, Vishwkarma Nagar, Plot No.80, Ward No.14, Dwarkapuri, Rameshwari Road, Near Radha Mandir, Parvati Nagar, Nagpur, Maharashtra-440027
636	Bhartiya Jan Samrat Party	Khasra No. 719, Property No. X-9/10, Old No. X-6/12, Village- Ghonda Gujran Khadar, Gali No. 9, X- Block, Brahampuri, Delhi- 110053
637	Bhartiya Jan Satta Party	House No. 11, Mukhya Gram + P.O - Bhaadvaasi, Via Katrathal, District- Sikar, Rajasthan-332024
638	Bhartiya Jan Swaraj Party	MB- 156 S/F, Master Block, Shakarpur, Delhi-110092
639	Bhartiya Jan Vikas Aaghadi	Krantisurya, Navjivan Nagar, Juna Pedgaon Road, Parbhani, Maharashtra- 431401
640	Bhartiya Jan Yug Party	Heera Nagar, Purani Chhawani, Laskhar, Gwalior, Madhya Pradesh -474010.
641	Bhartiya Janata Samajsevi Party	Old House No.116RPG/844 Present H. No.116/839 Rawatpur-2 Kalyanpur Kanpur,
642	Bhartiya Janata Vikas Party	D-4/2, Sector- 20, Rohini, Delhi- 110086
643	Bhartiya Janhit Congress Party	A-3, Room No. 602, 6th Floor, R.N.A Park, Vashi Naka, R.C. Marg, Chembur, Mumbai, Maharashtra – 400074
644	Bhartiya Janhit Dal	D-1/535 J.J. Cluster, Bhalaswa Dairy, New Delhi - 110042.
645	Bhartiya Janjagran Gandhiwadi Party	Khata No. 112, Khesra No. 1196, Village- Hesmi, P. S- Mandar, District- Ranchi, Jharkhand- 835214
646	Bhartiya Janmukti Party	Village – Dundur, P.O. Latheya, P.S. - Chhatarpur, District – Palamau, Jharkhand – 822116.
647	Bhartiya Janraj Party	H.No. 653, Ward No. 14, Shiv Nagar, Near Shiv Mandir, Hisar, Haryana- 125001
648	Bhartiya Jansamanta Adhikar Party	Kothi No. – 2, Poornagiri Vihar, Patel Nagar, Post – Izzatnagar, Janpad – Bareilly Uttar Pradesh
649	Bhartiya Jansamooch Dal	H. No. 55/35, C.Y. Chintamani Road, George Town, Prayagraj, Uttar Pradesh – 211002
650	Bhartiya Janseva Congress	Kothi No. 768, Ward No. 17, Kila Colony, Kosli Road, Jhajjar, Haryana – 124103
651	Bhartiya Janta Dal	C-16, Sanjay Vihar, Aavas Vikas Colony, Meerut Road, Hapur, Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh.
652	Bhartiya Janta Dal (Integrated)	H.No. 62, Gali No.16, A-1 Block, Sant Nagar, (Bengali Colony), Burari Road, Delhi – 110084
653	Bhartiya Janta Secular Party	Servamangala Nagar, Durpa, Ward No. 45, Post- Durpa, P.S- Kusmunda, Tehsil- Katghora, District- Korba, Chhattisgarh- 495677
654	Bhartiya Jantantra Morcha	Khata No.80, Plot No.-528, Village-Sidraul, Yugantar Bharti, P.S.-Namkum, Distt.-Ranchi, Jharkhand-834002
655	Bhartiya Jantantra Sanatan Dal	No. 752, Charitra Van, Teacher's Colony, District- Buxar, Bihar-802101
656	Bhartiya Jantantrik Janata Dal	1, Daroga Rai Path, Patna – 800001, Bihar.
657	Bhartiya Jantantrik Party	Village- Chirota, Post- Ajayrajpora, Via- Bagru, Tehsil-

		Sanganer, District- Jaipur, Rajasthan- 303007
658	Bhartiya Kamgar Party	Village – Chandopara, Post - Chandopara, District – Allahabad, Uttar Pradesh - 212402.
659	Bhartiya Kautilya Sena	R-14/6(Basement), Rajnagar, In Front of Square Mall Ghaziabad, Uttar Pradesh.
660	Bhartiya Kisan Janshakti Party	House No. 600, Ward No. 5, Ghasiyari Pura Nauvagarhi, Bahraich, Uttar Pradesh
661	Bhartiya Kisan Party	E- 58, Taranagar, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan- 302012
662	Bhartiya Kisan Sena (Secular)	At-Vyara,Taluka- Vaghodiya,District- Vadodara,Gujarat- 391760.
663	Bhartiya Kisan Union Samaj Party	H.No. 332F, Near Vrindavan Gate, Rajender Nagar, Pushchim Gorakhnath, Gorakhpur, Uttar Pradesh- 272115
664	Bhartiya Kisan Vikas Party	Village Amrai, Post Lakkharampur, Vishweshwarganj, Distt. Bahraich, Uttar Pradesh.
665	Bhartiya Kranti Vir Party	Village- Kajichak, Post and Police Station- Sandesh, District- Bhojpur Bihar-802164
666	Bhartiya Krantisangh Party	No. 19/G-1, Brijeshwari Anex, Kanadia Road, Indore, Madhya Pradesh-452016
667	Bhartiya Krishak Dal	197, Kaushalpuri (Sarla Bajpai Ka Bagh),South of Subhash Nagar,Janpad – Hardoi,UTTAR PRADESH.
668	Bhartiya Lok Chetna Party	Janki Niwas,Brahmpur,Post & Thana- Fulwari Sharif,Distt. Patna Bihar-801505
669	Bhartiya Lok Nayak Party	Vill.-Nauwapali,P.O. – Chakra,Distt.Siwan,Bihar- 841226
670	Bhartiya Lok Satta Party	Gali No.6,Ward No. 47,Gadora ke Pura,District- Morena,Madhya Pradesh-476001
671	Bhartiya Lokmat Rashtrawadi Party	Village and Post- Saday Vigaha-165, Barahia, District- Lakhisarai, Bihar- 811302
672	Bhartiya Lokshahi Party	Khadka Road, Ramdev Baba Mandir, Tal – Bhusawal, District – Jalgaon, Maharashtra - 425201
673	Bhartiya Lokswarajya Party	Subhash Nagar, Astha Vinayak Colony, Zila Panchayat Prathmik, Shale Samor, D.P. Bhosale Collage Jawel, Sultanwadi Road, Tal-Koregoan, District- Satara Maharashtra – 415501
674	Bhartiya Lokvani Party	Plot no.-6,A-Block,Amity Green Colony,Hasemau,Post- Laulai,Lucknow,Uttar Pradesh-226028
675	Bhartiya Mahasangh Party	No. K-2413, Nagar Palika Road, Rosera Samastipur, Bihar - 848210
676	Bhartiya Mahashakti Morcha	Jai Narayan Varma Road, Fatehgarh, District- Farrukhabad, Uttar Pradesh, Pin-209 601.
677	Bhartiya Majboot Party	Village & Post-Tigri,Block-Gajraula,District- Amroha,Uttar Pradesh-244235
678	Bhartiya Mallrashtra Party	At 333, O, Lachchhipur Bhati Vihar,Gorakhpur,Uttar Pradesh- 273007
679	Bhartiya Manav Kalyan Party	E- 49/1, Raj Harsh Colony, Kolaar Road, Bhopal, Madhya Pradesh- 462042
680	Bhartiya Manav Samaj Party	Village & Post- Oina, Tehsil- Kerakat, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222146.
681	Bhartiya Manavta Party	Srirampur Tola (Bihta),P.O.+P.S.- Bihta,District Patna,Bihar-801103
682	Bhartiya Manvadhikaar Federal Party	154/17, Raj Chambers (Fakhruddin Manzil), Alibhai Premji Marg, Grant Road, Mumbai, Maharashtra- 400007.
683	Bhartiya Mitra Party	Circle-10, Holding No.-79A/64, Mohalla- Gola Road, Bakarganj, District- Patna, Bihar - 800004.
684	Bhartiya Muhabbat Party (All India)	H.No.18184, Chandsar Basti, Bhatinda-151001 (Punjab).
685	Bhartiya Nagrik Suraksha Party	No.13,New Ketan Society,Near Uma Shikshan Tirth,Bh. Bhagyoday Society,Naroda, Ahemdabad,Gujarat- 382325

686	Bhartiya Nav Vikas Party	60, Seeda Mohalla, Chilla Village, Near Sai Mandir, Mayur Vihar Phase-I Delhi- 110091.
687	Bhartiya Navjawan Sena (Paksha)	Shri Mourya Park, Shop No. 4, Somnathnagar, Near Somnath Temple, Vadgaonsheri, Pune – 411014 Maharashtra.
688	Bhartiya Navodaya Party	Village- Aheria, Post- Chakarnagar, Chakarnagar Chauraha, District- Etawah, Uttar Pradesh.
689	Bhartiya New Sanskar Krantikari Party	Village and Post- Sahasarawan, P.S- Bhagwanpur Hatt. District- Siwan, Bihar - 841408
690	Bhartiya Niwas Party	Village- Sarbasi, P.O.- Barhni, Gopalpur (Unawal), District- Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273406.
691	Bhartiya Panchayat Party	D-15/674, Street No.- 5, Ganesh Nagar – 2, Shakarpur, Delhi-110092 .
692	Bhartiya Panchayati Raj Party (Loktantrik)	B-247,3 rd Floor,Priyadashni Vihar,Delhi- 110092
693	Bhartiya Panchsheel Party	B-71,Indira Nagar,Raebareli,Uttar Pradesh- 229001.
694	Bhartiya Party	New Colony, Post – Neem Ka Thana, District – Seekar, Rajasthan - 332713.
695	Bhartiya Party (Loktantrik)	A-12, Ansa Plaza, R.B.S.S. Sahay Road, Bhagalpur, Bihar-812001
696	Bhartiya Prabuddha Samaj Party	554 C/118, Damodar Nagar, Near Raj Chandra Hospital, VIP Road, Lucknow, Uttar Pradesh -226005.
697	Bhartiya Pragatisheel Congress	D-43, Rajdhani Park,Nangloi, Delhi – 110041.
698	Bhartiya Praja Jan Party	Narayanpur Road, Kasba Bansoor, District – Alwar, Rajasthan.
699	Bhartiya Public Labour Party	357/3, Shyam Nagar, Gali No.1, Kali Mandir Back Side, Foyasagar Road, Ajmer, Rajasthan – 305001
700	Bhartiya Ranvir Party	S-498,Ground Floor,School Block,Shakarpur,Delhi- 110092
701	Bhartiya Rashtrawadi Party	J-74A, Gali No-14, Khasra No. 6/14, Swaroop Nagar,Delhi - 110042.
702	Bhartiya Rashtriya Dal	C- 6/52, Yamuna Vihar, Delhi- 110053
703	Bhartiya Rashtriya Ekta Dal	10/10,Mohalla Kaitwada,Near Ambedkar Chowk,Jwalapur,Distt-Haridwar,Uttarakhand-249407
704	Bhartiya Rashtriya Jagruk Dal	E-2548, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh- 226017.
705	Bhartiya Rashtriya Jagsewa Party	Unit No.208,2nd Floor,Sunrise Tower,Shiv Market,Wazirpur,Ashok Vihar,Delhi-110052
706	Bhartiya Rashtriya Jansatta	127, 1 st Floor, Vardhman Tower, Preet Vihar, Delhi 110092
707	Bhartiya Rashtriya Lok Manch Party	Plot No.2. Gali No.2, Chouhan Patti, Near Mangal Bazar, Karawal Nagar, Delhi- 110094.
708	Bhartiya Rashtriya Tantra Party	N/502,Madhuvan Glory,Near St. Marya School,Naroada,Ahmedabad,Gujarat- 382330
709	Bhartiya Reflection Party	LIG 11-G,Pocket A-2,Mayur Vihar,Phase-3,Delhi - 110096
710	Bhartiya Republican Party (Insan)	Village - Mahuari, Post – Jangiganj, District - S.R.N. Bhadohi, Uttar Pradesh.
711	Bhartiya Rozgar Party	E-77, Old Jasola Village, Near Metro Pillar No.141, Jasola, Near Jamia Co-operative Bank, New Delhi - 110025.
712	Bhartiya Sabka Dal	Moh. Golwar Tola, P.O, P.S & Tehsil - Mohammadabad Gohna, District- Mau, Uttar Pradesh- 276403
713	Bhartiya Sablog Party	Mauja Digha,Rajiv Nagar,Road No. 25 E,P.O.- Kesrinagar,Thana-Phulwari,Patna,Bihar-800024
714	Bhartiya Sakshar Party	Khasra No. 78/4,Dharampura Atal Behari Bajpayee Ward No.38,Jagdalpur,Tehsil Jagdalpur,District Bastar, Chhattisgarh-490001
715	Bhartiya Samaj Sewa Party	H.No.01, Village - Vanupur Pukhta, P.O.- Malikpur (Soro), Distt.-Kasganj, Uttar Pradesh.
716	Bhartiya Samajik Ekta Party	16, Village- Nandora, Tehsil- Goharganj, District- Raisen, Madhya Pradesh- 464990
717	Bhartiya Samajik Kranti Dal	Village – Suwari, Post – Danganj,Distt. – Varansi,

		Uttar Pradesh.
718	Bhartiya Samajik Nyay Party	Village & P.O. Sersa, Tehsil & District – Sonapat, Haryana.
719	Bhartiya Samajik Party	6, Bus Stand, Alirajpur, District – Alirajpur, Madhya Pradesh – 457887
720	Bhartiya Samajvadi Sena	Bhawan No. S- 2/525, Mohalla-Sikraul, Post-Cantonment, District - Varanasi, Uttar Pradesh -221002
721	Bhartiya Samanta Party	Chitrakoot Dhaam, Third Floor, 60-B, Panki Road, Kalyanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208017
722	Bhartiya Samriddhi Kalyan Party	H.No.- 12/2, B- Block, Phase-2, Goyla Vihar, Near Thomas School, Dwarka Goyla Dairy Road, New Delhi- 110071.
723	Bhartiya Samta Party	173D, Radha Krishna Chauraha, Rampuram Shyam Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh- 208013
724	Bhartiya Sangam Party	230/5, New Menhdauri, Post – Teliyarganj, District-Allahabad, Uttar Pradesh- 211004.
725	Bhartiya Sangharsh Samiti	H.No.4684, Nisar Nagar, Infront of Krida Sankul, Jambhrun Road, Sangwan, Buldana, Maharashtra- 443001
726	Bhartiya Sanskrit Virasat Party	H.No. 338, Village and Post- Lakhaura Khurd, P.S- Kurawali, District- Mainpuri, Uttar Pradesh
727	Bhartiya Sanyukt Kisan Party	Bhusahi Bazar, Yadav Market, Kamle Baliya, Bhusahi, Bochaha, Muzaffarpur, Bihar-843103
728	Bhartiya Sarthak Party	Shivshankar Path, Mithanpura, Post Ramna, P.S.- Mithanpura, Dist.- Muzaffarpur, Bihar-842002
729	Bhartiya Sarvdharm Party	Vilal Market, Shop No. 5, Khadri Thana, Madiyaon, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226013
730	Bhartiya Sarvjan Hitay Samaj Party	Anant Vihar Colony, Daldal Shivni Marg, Mowa, Raipur, CHHATTISGARH.
731	Bhartiya Sarvjan Party	Village -Rampur, Hata Marg, Post - Gauri Bazar, District – Dewaria - 274202, UTTAR PRADESH.
732	Bhartiya Sarvodaya Party	152/126, Patel Nagar (West), Dehradun- 248001 Uttarakhand.
733	Bhartiya Satya Sangharsh Party	Village – Bijhinya, P.S. – Mandla, District – Mandla, Madhya Pradesh.
734	Bhartiya Sewak Party	Hqrs/Office-Near Utarakhand Grameen Bank, Biuggawala (Main Market) Haridwar, Uttarakhand- 247662
735	Bhartiya Shakti Chetna Party	Ward No.18, Village - Khamdar, Post - Mau, Tehsil - Vyouhari, Dist. - Shahdol, Madhya Pradesh
736	Bhartiya Shramik Dal Socialist	Baman Nagar, Pateri, Sector – 20, District - Satna, Madhya Pradesh.
737	Bhartiya Suvrnayug Party	A/33, Capital Commercial Centre, Near - Sanyas Ashram, Ahmedabad, Gujarat -380009
738	Bhartiya Swadeshi Congress	12/303, Max City park Sapphire, Ramprastha Greens, Sector-9, Vaishali Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201010
739	Bhartiya Swaraj Jan Seva Sangathan	H. No. 647, Kalyanpur Majra, Kheliya Kalyanpur, P.S. - Ahamadgarh, Tehsil - Shikarpur, District - Bulandshahar, Uttar Pradesh - 203391.
740	Bhartiya Swarajya Kranti Party	Tryamboli Nagar, Kasaba Bawada, District- Kolhapur, Maharashtra- 431124
741	Bhartiya Swarnim Yug Party	40, Laxmi Nagar, Ratneshwar Road, Ratlam, Madhya Pradesh- 457001
742	Bhartiya Swatantra Panch Party	Naurangia Chwraha Se 50 Meter Koni Marg, Post-Koni, Nehru Chowk Khalilabad, Janpad Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh- 272175
743	Bhartiya Tarak Samaj Party	465A Binauli, Tehsil- Baraut, District- Baghpat, Uttar Pradesh- 250645
744	Bhartiya Tribal Party	PO- Chanderia, Taluka- Valia, District- Bharuch,

		Gujarat
745	Bhartiya Uday Nirman Party	H. No. 431/955N, Ward Ganj (132), Newati Tola, Near Elaf Palace, Momin Nagar, Campwell Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226003
746	Bhartiya Vanchitsamaj Party	Village- Bhudiya, (Faguha), Tehsil & Distt.- Kannauj, UTTAR PRADESH.
747	Bhartiya Veer Dal	Khewat/Khasra No.- 39/56, Mustil No.- 14, Moja-Ghurasan, Post- Tigaon, Ballabgarh, Faridabad, Haryana- 121101
748	Bhartiya Veer Kisan Party	Village - Khaparkheda, Taluka- Jafrabad, District- Jalna, Maharashtra.
749	Bhartiya Vikas Party	139-B, Tamur Nagar, New Friends Colony, New Delhi.
750	Bhartiya Vikash Dal United	House No. SM.0011-0425, Village- Chhota Bariyarpur, Ward No. 38, Post- Motihari Court, P.S. Chhatauni, District- East Champaran, Bihar – 845401
751	Bhartiya Vistarwadi Party	Village – Shyampur, Post – Dugarei, District – Fatehpur, Uttar Pradesh.
752	Bhartiya Yojana Raithu Party	D.No.27-1-148/H, Attarattaiah Street, Near Challapalli Bungla Governor Pet, Vijayawada, Krishna District, Andhra Pradesh-520002.
753	Bhartiya Yuva Ekta Shakti Party	H.No.63, Rampur Road, Manpur Uttar, Haldwani, Nainital, Uttarakhand-263139
754	Bhartiya Yuva Janshakti Party	Rozy Anima XTTI, Near Akhand Jyoti Hospital, Digha, Patna, BIHAR- 800011
755	Bhartiya Yuva Kranti Party	E-Block Surajdeep Complex, Near Dainik Jagran Chauraha, Jopling Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 2260001
756	Bhartiya Yuva Party	Evershine App., Nr. Jalaram Society, Opp. Royal Park, Nr. Park Evenue, Janagadh, Gujarat- 362001
757	Bhartiya Yuva Party (Rashtrawadi)	H.No. 139, Sonbarsa Bairia, District- Ballia, Uttar Pradesh- 277208
758	Bhartiya Yuva Sena	House No. 1-407, Kasba Vibhag, Kille Dharur, Tq. – Dharur, District – Beed, Maharashtra - 431124.
759	Bhartiya Yuva Swabhimani Party	19/769, Mohalla – Narayanpur, Shukla Aata Chakki Ke Pass, Govind Nagar, Auraiya, Uttar Pradesh - 206122
760	Bhartiya Manavata Nirman Party	Lala Lajpat Nagar, Post -Pundag, P.S.- Jagannathpur, District-Ranchi, Jharkhand – 834004.
761	Bheem Tribal Congress	14E/J/804, Marwar Apartment, Chopasani Housing Board Jodhpur, Rajasthan-342008
762	Bhim Sena	Swaraj Nagar, Swaraj Appartment, 66/7/B-134/102, Maanewada, Ringh Road, Nagpur-440024
763	Bhojpuria Jan Morcha	Sahyogi Nagar, Post-Bahiro, Thana & District-Bhojpur, Ara, Bihar-802301
764	Bhrashtachar Mukti Morcha	Chandra Nagar, Kurud Road, Kohka, Bhilai, Tehsil & District – Durg, Chhattisgarh.
765	Bhrashtachar Virodhi Dal	R.Z.D- 120C, Nihal Vihar, (Nangloi), Delhi-110041.
766	Bhrastachar Ka Ant Party	64/189, Gadaria Mohal, Kanpur, Uttar Pradesh-208001.
767	Bhumiputra United Party	Village-Itahar, Near Power House Gate, Post-Itahar, Police Station-Itahar District-Uttar Dinaj pur, West Bengal-733128
768	Bhumisantan Adhikar Party	Village-Taluk Ranaghata, P.O.-Purba Ranaghata, P.S.- Mathurapur, Distt.-South 24 Parganas West Bengal– 743338
769	Bihar Janta Party	Village: Jail Shahar, Old Remand Home, Dharmnath Mandir Road, Daulatganj, Saran, Bihar – 841301
770	Bihar Justice Party	Plot No. 2251, Yadhuwanshi Nagar, Digha Ashiana Road, Patna, Bihar-800011
771	Bihar Lok Nirman Dal	Mohalla – Noongola, Thana Nagar & Post – Hazipur, District – Vaishali, Bihar-844101
772	Biju Swabhimani Dal	Plot No-40, Umapada, Stadium VIP Road, PO – FC Project, Kalinga Nagar, Jajpur Road, Jajpur, Odisha –

		755020.
773	Bira Oriya Party	C/o Shri P.Samantaray, IAS(Retd.), At/P.O. Madhupatna, Cuttack-10(Orissa).
774	Blue India Party	H.No.2-8,Village & Mandal-Bachupally,District-Medchal,Malkajgiri,Telangana-500090
775	Bolshevik Party of India	C/o- Dr. Shashikant Waikar, 9, Bhupeshnagar, Gorewada Road, Nagpur- 440013, Maharashtra.
776	Brabar Samaj Saanjhi Party	House No. 698, Village – Arniawali, Tehsil – Nathusari Chopta, District – Sirsa, Haryana- 125055
777	Braj Party	Beswan Morh, Aligarh Mathura Road, Post – Beswan, Gram Panchayat – Nayabaas, Tehsil – Iglas, District – Aligarh, Uttar Pradesh – 202145
778	Braj Vikas Party	A-193, Trans Yamuna Colony,Phase-II, Agra-286002, Uttar Pradesh.
779	Brihattar Bharat Prajatantra Sewa Party	Behind of the Palace, Kishorganj Panna,Distt. – Panna, Madhya Pradesh.
780	Brij Kranti Dal	16, Haryana Bhawan, Dyal Bagh, Agra-5, Uttar Pradesh.
781	Bruhat Bharatiya Kalyana Paksha	2484/F, AECS Layout, Koodlu, AECS Layout, A-Block, Bangalore, Karnataka-560068.
782	Buland Bharat Party	Shop No.8,First Floor,SCO No. 84-85,Sector-16,Near Sagar Cinema,Faridabad,Haryana-121002
783	Bundelkhand Congress	56. Jwala Heri Market, Sarbati Complex, Paschim Vihar, Delhi-63
784	Bundelkhand Kranti Dal	House No.40, Mohalla- Khai, New Basti, Jhansi Uttar Pradesh -284001.
785	Bundelkhand Vikas Dal	C/o Shiv Narayan Khare (Advocate), 116/3 Shivalaya Kishor Ganj, Town Area, Kulpahar, District - Mahoba, Uttar Pradesh-210426
786	Challengers Party	Durgesh Nivas, Opp. Vithoba Temple, 68/XX, Tailor Street, Cowl Bazaar, Bellary, Karnataka- 583102.
787	Chandigarh Ki Aawaz Party	H.No. 2207, Ground Floor, Sector- 45C, Chandigarh-160047
788	Chennai Youth Party	H. No. 2595,TNHB,Ayappakkam,1st Floor,Chennai,Tamil Nadu 600077
789	Chhatrapati Shivaji Bhartiya Garib Party	Village Fateput Khauda),Post-Katauna,District-Varanasi,Uttar Pradesh-221208
790	Chhattisgarh Ekta Party	H.No. 182/2, Ward No. 08, Bade Padarmooda Road, Jamgahan, Tehsil- Malkharoda, District- Janjgir Champa, Chhattisgarh- 495691
791	Chhattisgarh Mahatari Party	LIG 76,Sector-2,Shankar Nagar,Raipur,Chhattisgarh,PIN-492007
792	Chhattisgarh Mukti Morcha	P.O.Dalli Rajhara, Distt-Durg –491228 (Chhattisgarh).
793	Chhattisgarh Samajwadi Party	Ramanujganj Road, In front of Sanjay Park, Ambikapur, Chhattisgarh - 497001.
794	Chhattisgarh Sanyukt Jatiye Party	Bajrang Nagar (Tatyapara Ward),Raipur, Chhattisgarh.
795	Chhattisgarh Swabhiman Manch	21, Battis Bangla, Bhilainagar,Distt. – Durg-490006,Chhattisgarh.
796	Chhattisgarh Vikas Ganga Rashtriya Party	Khongapani, District – Korea, Chhattisgarh – 497447
797	Chhattisgarh Vikas Party	A-12, Flash Vihar, New Purena,Post Office – Ravigram, Raipur, Chhattisgarh.
798	Chhattisgarhi Samaj Party	Handipara, Azad Chowk,Raipur-492001 (Chhattisgarh).
799	Chhattisgarhiya Party	House No. 93, Village – Dhanrash, Post – Chhuri, Tehsil – Katghora, District – Korba, Chhattisgarh.
800	Chhava Dal	Survey No. 11/2, Plot No. 01 at sitaram Nagri, Malharwadi, Post-Hingoli, Taluka-Hingoli, District-Hingoli, Maharashtra- 431513.
801	Christian Democratic Front	No.9, Rosary, Church Road, San Thome, Chennai (Tamil Nadu).
802	Citizen Action Party-Sikkim	Party Head QTR,Lower Lumsay,Adampool to Reshtithag Road,Gangtok,Sikkim-737128

803	Citizen Party	H.No.53,Survey No. 620,Bajanaikoil Street,Madhanankuppam Kolathur,Chennai Tamil Nadu- 600099.
804	Civil Rights Party	Flat No. D-89, Ground Floor, Block-16, Shivjot Enclave, Kharar SAS Nagar, Mohali, Punjab – 140301
805	Communist Marxist Party Kerala State Committee	Kunnukuzhy, Trivandrum-695037(Kerala).
806	Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star	C-141, Sainik Nagar, New Delhi-110059.
807	Communist Party of Telangana (Marxist-Ambekarist)CPT(MA)	H. No. 2-2-1106/B/SBK/1,Shanti Nagar,Amberpet,Distt.-Hyderabad,Telangana-500013
808	Congress (Secular)	Ram Raj Bhavan, Manikkath Road, Cochin-16. (Kerala).
809	Corruption Abolition Party	House No. – 219, VPO – Sheriya, Tehsil – Beri, District – Jhajjar, Haryana.
810	Country Citizen Party	5, 'Padmavathi' Behind Maramma Temple, Chikkalasandra, Bengaluru, Karnataka- 560061.
811	Daksha Party	I/1102, Raheja Vistas, Raheja Vihar, Chandivali, Andheri East, Mumbai, Maharashtra- 400072
812	Dalit Kranti Dal	Jati Meghwale, Gaon Post – Dholipal,Teh. & Zila – Hanumangarh (Rajasthan)
813	Dalit Mazdoor Kishan Party	E-11/77, New Colony, Hauz Rani, Malviya Nagar, New Delhi-110017.
814	Dalit Soshit Pichhara Varg Adhikar Dal	Village – Hasanpur Jagir, Post – Sikandrabad, District – Bulandshahr, Uttar Pradesh - 203205.
815	Dalit Vikas Party (Bharat)	Behind of High School, Ward No.3,Village & Post – Ghunwara,Teshil – Maihar, Distt. – Satna, MADHYA PRADESH
816	Dalita Bahujana Party	H.No. 1-7-186/303, Srinivasa Nilayam, Chaitanyapuri, Dilsukhnagar, Hyderabad- 500060
817	Delhi Janta Party	Y-200, Camp No.-1, Nangloi, Delhi-110041
818	Democratic Bharatiya Samaj Party	Gali No-7, Guru Nanak Pura(East),Near Chintpurni Mandir, Jalandhar, Punjab.
819	Democratic Congress Party	291, Odeon Wali Gali, Near Gopal Mandir, Majitha Road, Amritsar (Punjab).
820	Democratic Corruption Liberation Front	2F/1A Neduganvilai, Ponnappa Nadar Nagar, Nagercoil, Tamil Nadu – 629004.
821	Democratic Human Rights Movement Party	Thunduvila Veedu, Panjiyoor, Venjaramood P.O., Thiruvananthapuram, Kerala – 695607.
822	Democratic Labour Party	D. No. 3/78,P.O. Elamkunnappuzha,Dist - Ernakulam, Kochi, Kerala- 682511
823	Democratic National Allegiance	No.6,Rajavelu Street,Erukkancherry,Chennai- 600118,Tamil Nadu
824	Democratic Organisation for Socio-economic Transformation of India Party	Plot No. 749,Basement,Sector-39,Gurgaon Haryana- 122003
825	Democratic Organization of Nation Party	MannarayathuThekkethilVeetil,(PadeerayathuPuthenveedu),Pallisserickal,P.O. Sasthamcotta,Kollam,Kerala- 690521
826	Democratic Party of India	162,Anandrao Umra Marg, Ashok Nagar, Nagpur-17 (Maharashtra).
827	Democratic Party of India (Ambedkar)	MohallaTaj Pura, Rahon, Teshsil - Nawanshahr, S.B.S. Nagar, Punjab – 144517.
828	Democratic Prajakranthi Party Secularist	Ummathur Post & Village, Hunsur Taluk, Mysore District Karnataka-571105.
829	Democratic Progressive Azad Party	National High Sonwar, Opposite Amar Singh Club, Srinagar, Jammu and Kashmir- 190001
830	Democratic Secular Party	At. Kohinoor Bakery, Umred Road, Tajabad, Aulia Nagar, Nagpur –24, (Maharashtra).
831	Democratic Social Justice Party	Thiruvonam,NLRA-140,NeerazhiLane (No.7/242),Trivandrum Corporation,Uloor,Medical College,PO-Trivandrum,Kerala-695011

832	Democratic Socialist Party (Prabodh Chandra)	63- Ananda Plit Road, 1st Floor, Kolkata-700014, West Bengal.
833	Democratic Socialist Party of India	359, West Kodalia, New Barrackpore, P.S. – Ghola, District – North 24 Parganas, Kolkata, West Bengal – 700131.
834	Democratic Swaraj Party	Arya School Road, V.P.O. Sohana, SAS Nagar, Punjab-140308.
835	Desa Makkal Munnetrak Kazhagam	3/172, Veerachelliyapuram Colony, Valliyur (Post), P. Kumaralingapuram, Amathur (Via), Taluk & District – Virudhunagar, Tamilnadu-626005.
836	Deseeya Praja Socialist Party	N.S. Bhavan, Vellayani, P.O. Nemom, Thiruvananthapuram-695020, Kerala.
837	Desh Bachao Jan Morcha	D-6/171, Sector-31, Noida-201301 (Uttar Pradesh).
838	Desh Bachao Party	223/A, Kewalpuri, Ahilyabai Road, Muzaffarbagar, Uttar Pradesh- 251001
839	Desh Hit Party	Plot No. 467, Village- Jamuni, Post- Tarkulwa, District-Deoria, UTTAR PRADESH.
840	Desh Janhit Party	Plot No. 78, Vinayak Co. Housing Society Bidipeth, Behind Power House, Narsala, House No.4430/78, Mouza Bidipeth, Nagpur-30, Maharashtra.
841	Desh Prem Party	Ward No. 19, (Old Ward No. 17), Door No. 143(2), Opp. Old KSRTC Bus Stand, Kolachalam Compound, Janathakal Complex Ballari, Karnataka – 583101
842	Desh Seva Party	No. A-2, Adhana Bhawan, Village- Morna, Sector-35, Noida, Uttar Pradesh- 201303.
843	Desh Shakti Party	14/39, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
844	Desha Dal	Manas Ranjan Mishra Khatian No.466/90, Tehsil No.198, Anand Vihar, Sarbahal, Near Hanuman Mandir, PO & PS-Jharsuguda, District-Jharsuguda, Odisha-768201
845	Deshbandhu Party	Village – Meharban Nagar, Near Primary School, Meharban Nagar, Bye-Pass Road Nanpara, Post – Balha, Tehsil – Nanpara, District – Bahraich, Uttar Pradesh
846	Deshbhakt Jagat Party	638/111, Chetna Vihar, Sector-14, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh- 226016.
847	Deshbhakt Nirman Party	Sultanpur Barahganva, Post & Tehsil – Madhuban, Janpad – Mau, Uttar Pradesh
848	Deshi Kisan Party	House No. 1624, Ward No. 52, Lakhibag Manpur, District – Gaya, Bihar.
849	Deshvadi Party	House No.2184, D-Block, Indira Nagar, Janpad-Lucknow, Uttar Pradesh- 226016
850	Desiya Jananayaga Katchi	D.No. 4/133E, Anna Nagar, Reddipatty post, Namakkal District, Tamil Nadu-637002
851	Desiya Makkal Periyakkam	Plot No. 19, K.K. Nagar, Nannilam-610 10 Nannilam (Post) and Taluk, Thiruvavur, District, Tamil Nadu-610105.
852	Desiya Makkal Sakthi Katchi	New No.21, Old No.11, Venkatraman Street, Mint, Chennai, Tamil Nadu - 600079.
853	Desiya Sirupanmayinar Makkal Iyakkam	S. John, No. 7, Pavunjur, Main Road, Keeralvadi-Village, Puliyanaran Kottai, Panjayat, Zamin, Endathur-Post, Madurantakam- Taluka, Kancheepuram- District, Chennai, Tamil Nadu- 603311
854	Desiya Uzhavar Uzhaipalar Kazhagam	2/52, C.C.Road, E.B.office Opposite, Kilpallipattu Village, Vellore Taluk, Vellore District, Tamil Nadu-632311
855	Dhanwan Bharat Party	Flat No. 002, D Wing, Shree Ganesh CHS, Shanti Vidyanagari, Mira Road (East), Taluka & District-Thane, Maharashtra- 401107
856	Dharam Nirpeksh Dal	24/42, Loknath Chowk, Allahabad (Uttar Pradesh).
857	Dharamarajya Paksha	601/602, Bldg. No. 7, Shubharambh Phase-1,

		Konkanipada Marg, Off GB Road, Manpada, Thane-400610, Maharashtra.
858	Dharma Samaj Party	D. No. 8-17-90/B42, Nandanavanam, Karmanghat Village, Saroornagar, Mandal, Ranga Reddy District, Telangana-500079.
859	Dhartiputra Vikas Party	29, Vidhyut Abhiyanta Colony, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan-302017
860	Dhesia Eliya Makkal Nala Katchi	No.8/166, Maruthampatti Colony, Kathalapatti (PO) Karur, Tamil Nadu- 639007
861	Dhesiya Makkal Kazhagam	Door No. 1/239-3, Main Road, R.C. Chettipatty, Kottamettupatty Village, Dharmapuri Omalur Taluk, District - Salem, Tamil Nadu - 636455.
862	Dhoom Sena	25/549, Shri Sheetla Mata Mandir Marg, Near Navbharat Chowk, Purani Basti, Raipur, Chhattisgarh- 492001
863	Digital Organization of Nation Party	Ward No. 25, Property No. 35, Plot No. 3776, Motinagar Pusad, Taluka Pusad, District- Yavatmal, Maharashtra-445204.
864	Digvijaya Bharatha Party	#5 (40G), 21 st Main Road, Marenahalli, (Standard English School), Vijayanagar, Bengaluru, Karnataka-560040
865	Do Jama Panch Mudde Jan Party	Village – Asan, Tehsil & District – Rohtak Haryana
866	Dogra Swabhimana Sangathan Party	No. 9&10, Block- D, Sector- C, Gandhi Nagar, Jammu, Jammu & Kashmir - 180004
867	Dr. Ambedkar People Revolution Movement	No.4, 11 th Street, Kumarappa Nagar, Dharapadavedu, Katpadi, Vellore District, Tamil Nadu – 632007.
868	Dr. Ambedkar People's Party	106, 4th Cross, K.H. Ranganath Colony, Opposite BHEL Factory, Mysore Road, Bangalore-26, Karnataka
869	Dr. Ambedkar Samajvadi Democratic Party	Venkataiahna Chatra, Haradanahalli Hobli, Chamaraajanagara Taluk & District, Karnataka.
870	Dr. Bhimrao Ambedkar Dal	Village – Kothideeh, Tehsil – Pargna Navabganj, Janpad – Barabanki – 225001, Uttar Pradesh.
871	DR. MGR Democratic Party	New No. 2 & Old No. 2/75, Padavettamman Koil Street, Shenbakkam, Vellore-632008
872	Dravida Jananayaga Makkal Katchi	No. 6, Immanuel 2 nd Cross Street, Pallikarani, Chennai, Tamil Nadu- 600100
873	Dravida Janashakti Party	No. 4/87, Othaveedu, Allinagaram (P.O.), Thiruppuvanam, Sivagangai District, Tamil Nadu-630611
874	Dravida Makkal Padhukappu Kazhagam	No.2, 1st Lane, P.V. Kovil Street, Royapuram, Chennai, Tamil Nadu - 600013
875	Dravida Murpokku Makkal Katchi	No. 5/762, Sabari Road, Madipakkam Chennai Tamil Nadu- 600091
876	Dravida Peravai	69, Rangapillai Street, Pondicherry-605001.
877	Duggar Pradesh Party	Driving Institute Complex, Janipur, Jammu – 180007, Jammu and Kashmir
878	Ekam Sanatan Bharat Dal	20 B/B, Gandhi Nagar, Jammu & Kashmir-180004
879	Ekjut Adhikar Party	At-C-1037/2, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016
880	Eklavya Samaj Party	53, B - Block, Old Darulshapha, Lucknow, Uttar Pradesh – 251 001.
881	Ekta Nirman National Party	Near Durga Mandir, 41-B, Vandana Nagar Tilak Nagar, Indore, Madhya Pradesh-452018
882	Ekta Samaj Party	6898, Neem Street, Ahata Kidara, Bara Hindu Rao, Delhi-110006.
883	Ekta Shakti	Jhanjhadi, Post – Bhaini Khurd, Tehsil – Nilokheri, Distt. Karnal, Haryana.
884	Ekta Vikas Mahasabha Party	Sinha Sadan, L.C.T. Ghat, East Mainpura, Thana-Pataliputra Colony, Post-G.P.O, Sadar- Patna, District-Patna, Bihar-800001
885	Eluchi Desam Party	Old No.-1/46, New No. – 34, Vadivalpuram, Post – Vadukatchimathil, Taluk – Nanguneri, District –

		Thirunelveli, Tamil Nadu – 627102
886	Engineers Party	Bhoothana Hosur, Post- Sunagahalli, District - Mandya, Karnataka- 571403
887	Equality Party of India	Mithunam, 15/818, 81A, Bhadra Nagar, Uliyakovil (PO), Kollam, Kerala- 691019.
888	Ezhuchi Tamilargal Munnetra Kazhagam	5/197, Chinna Managalakudi, Uthangudi Post, Madurai, Tamil Nadu -625107
889	Fauji Janta Party	H.No- 104, Village - Manobas, Post Office- Baral, Tehsil – Secunderabad, Dist- Bulandshahar, Uttar Pradesh - 203001 .
890	Fauji Kisan Party	Village- Serahwa, Post office- Murali, Via Harinagar, District- West Champaran, Bihar- 845103
891	Federal Democratic Party	No. 244B, Kathmorwa, P.O. – Madainiya, Distt. – Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh – 224147
892	Forum For Presidential Democracy	B-145-146, Mittal Towers, Nariman Point, Mumbai- 400021MAHARASHTRA
893	Forward Democratic Labour Party	Ward No.5, Opposite Rest House, Ganesh Nagar, Murmadi, Post and Tehsil- Lakhani , District- Bhandara Maharashtra – 441804.
894	Freedom Party	F-2/260,Top Floor,Sunder Nagri,Nand Nagri,Shahadara,Delhi- 110093
895	Freethought Party of India	121, Dharma Vihar, P.O. Khandagiri, Bhubaneswar, Odisha – 751030
896	Front of Revolutionised Creative Efforts	Shree Goverdhan Palace, Dhar Road, Udampur – 182101 Jammu & Kashmir.
897	Gadar Party	House No.32, Near Ramlila Ground,Padav Ward, Post Makandruganj,Distt. Pratapgarh, Uttar Pradesh-230001.
898	Gaddar Praja Party	Plot No. 26, H.No. 1-23-125/1 Bhodevi Nagar, Mandal, Alwal, Post-Thirumalagiri, Secunderabad, Telangana- 500015
899	Gana Suraksha Party	Village-Disghlipur Tamulpur,P.S.-Tamulpur, Sub-Division-Baksa,District-Baksa Assam- 781367
900	Ganasangam Party of India	D.No. 6/786, Sakya Manzil, Ponvila Nagar, Trichy Road, Namakkal, Tamil Nadu – 637001.
901	Gandhi Ekta Party	K-63/01, Bhootbhairav Nakhas (Kashipura), Varanasi, Uttar Pradesh
902	Gandhi Prakash Party	House No.-126, Khata No.-236, Plot No.-637, Village-Sikathi, Post- Akhalashpur, P.S. – Bhabhua, District-Kaimur, Bihar.
903	Gandhiyan Peoples Party	C-1255, Indira Nagar, Lucknow-226016, Uttar Pradesh.
904	Gantantrik Janhit Party	C/o Vedvati Devi,West Lohanipur,Kadamkuan,Patna,Bihar-800003
905	Gareeb Aadmi Party	R-21, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi – 110059
906	Gareeb Jankranti Party	Ward – 12, Holding No. – 747/642, Daudpur Kothi, In front of MIT Gate, Laxmi Chowk, Brahmapura, Muzaffarpur, Bihar - 842003
907	Gareeb Kranti Party	House No. 7, Mukarpur Khema, Nawabka Ahata, Tehsil and District- Bijnor, Uttar Pradesh-246701.
908	Gareeb Samaj Swaraj Party	Shahpur Tigri,Post & Thana-Majhola,Muradabad,Uttar Pradesh-244001
909	Gareeb Samana Party	H.No. 399, Aawas Vikas Colony, District- Mirzapur- 231001, Uttar Pradesh.
910	Garib Berozgar Vikas Party	Village- Champatpur, P.O- Ballia, Tehsil- Aawla, Vikas Khand- Alampur Jafarabad, District- Bareilly, Uttar Pradesh - 243402
911	Garib Democratic Party	132 Brind Lamar Maidan,Gurjar Basti,The Devsar,Kulgam,Jammu & Kashmir – 192231
912	Garib Ekta Party	A-71 Group, Vazirpur Industrial Area, Vazirpur, Delhi – 110052.
913	Garib Janshakti Party	Kumar Market, Akhadaghat Road, Holding No.17/15,

		Ward No.17, Near to Balughat Dhalan, Muzaffarpur, Bihar-842001
914	Garib Janta Dal (Secular)	Mitra Mandal Colony, Ward No.11, Located Holding No. 470, Saket Vihar, Anishabad, Patna-2 Bihar.
915	Garib Kalyan Party	No.-C/268,Shop No.2, Prabhakar Tent,Nr.Sejal Nagar Soci.,Nr.G.D. High School,Saijpur Bogha,Ahmedabad,Gujarat-382345
916	Garibi Mukta Bharat Party	H.No. 185, Baliya Dev Nagar, Vadodara, Gujarat-390001
917	Garo National Council	New Tura, West Garo Hills (Meghalaya).
918	Garvi Gujarat Party	No. 112, Gheewali Chali, Chamanpura, Asarwa, Ahmadabad, Gujarat- 380016
919	Global People Peace Party	1 No. Anandanagar, P.O. – Anandanagar, P.S.-Kalyani, District – Nadia, West Bengal - 741245.
920	Goa Nationalist Party	House No. 442, Chinchmala, Wada Parye, Sattari, Goa-403505.
921	Goa Praja Party	Classic Apartments, House No. – 69, Ella, Old Goa, Tiswadi, North Goa, Goa – 403402.
922	Goa Su-raj Party	383-A, Pirazona, Moira,Bardez-Goa (Pin-403514).
923	Goa Suraksha Manch	Shop No. 644/1, Ward No. 4, Ground Floor, Ahilyaram Niwas, Opp. Panchayat, Savaiverem, Ponda-Goa.
924	Goa Vikas Party	Laxmi Sadan, Ground Floor,Opp. Assembly Complex, Near Journalist Colony, Porvorim, Goa-403507.
925	Goemcarancho Otrek Asro	H. No. 780/A, Mugally,Sao Jose de Areal, Salcete,Goa.
926	Goencho Swabhimani Party	H.No. 12/678,Behind St. Joaquim Chapel,Borda,Margao,Goa – 403601
927	Gokula Makkal Katchi	New No.7, Old No. 3, Venkatraman Street, Teynampet, Chennai, Tamil Nadu- 600018
928	Gondvana Gantantra Party	Village & P.O. Tiverth, Tehsil Kutghora, District-Bilaspur (Chhattisgarh).
929	Gondwana Congress Party	Shahapura, A-121, B.D.A. Colony,Bhopal,Madhya Pradesh.
930	Gondwana Dandkaranya Party	H.No.4-4-24/2/308/8/1,Near Green Kirana Shop,Beside Rickshaw Colony,Sanjay Nagar,Adilabad,Telangana-504001
931	Gondwana Mukti Sena	M-2, Poorvanchal Phase-I, Khazurikala Road,Bhopal-462 021, Madhya Pradesh.
932	Gorakha National Liberation Front	Dr. Zakir Hussain Road (Jalpahar Road), P.O. and District-Darjeeling, Darjeeling Gorkha Hill Council (West Bengal).
933	Gorkha Democratic Front	Shahi Niwas, Chandrabani,Post – Mohabbewala, Dehradun, Uttarakhand.
934	Gorkha Rashtriya Congress	9, K.B. Road, P.O. Ghoom, P.S. Jorebunglow, District Darjeeling, West Bengal.
935	Graduate India Party	No.443, Katha No. 1200, AGB Layout, BBMP Ward No.12, Chikkasandra, Bangalore, Karnataka-560090.
936	Gramin Vikas Party	Shiv Gram, Plot No. 323, (Khata No. 1161/1314), Entkal No. 5678, Kila No. 10/02, (1-0), Choma, Palam Vihar Extension, Tehsil & District- Gurugram, Haryana-122017
937	Great India Party	D.No.1-1334, Devasthanam Road, Mangalagiri-522503, Guntur District, Andhra Pradesh.
938	Green Party of India	36-C, Govindpuri, Ramnagar, Sodala, Jaipur, Rajasthan-302006
939	Gujarat Janta Panchayat Party	City Survey No. 966, Rameshwar Mandirkepaas, Dili Fali, Bokhira, Porbandar, Gujarat – 360577.
940	Gujarat Kisan Majadur Lokshasan Party	710/32, Green City, Street No. 5, Lalpur Road, Jamnagar, Gujarat-361005.
941	Gujarat Krantikari Party	Shop No.1, Madhur Complex, Vadgam, PO-Vadgam, Near Bus Stand, District-Banaskantha Gujarat-385421
942	Gujarat Loktantra Party	B/2, Sahakar Vikas Flats, Opp.-Monanagar,

		Nehrunagar, S M Road, Ahmedabad, Gujarat-380015
943	Gujarat Nav Nirman Sena	C-19, Jayraj Flat, Soni Ni Chali, Odhav, Ahmedabad, Gujarat-382415
944	Gujarat Sarva Samaj Party	Plot No.20, Survey No.133/3, Nirmal Nagar, Kidana, Tehsil-Gandhidham, Distt.-Kachh, Gujarat-370205
945	Gunj Satya Ni Janata Party	Office No. C/442, Sumel – 7, Soni Ni Chawal Cross Road, N.H.No. 8, Rakhiyal, Ahmedabad – 380023
946	Gurgaon Residents Party	C-1927, Sushant Lok-I, Gurgaon – 122 002, Haryana.
947	Guru Chand Mukti Morcha	G-52, Aruna Nagar, Majnu Ka Tilla, Civil Lines, Delhi-110054.
948	Guruchand Sena Dal	106, Purba Panchanna Gram South, Post-VIP Nagar, PS-Anandapur, Kolkata, West Bengal – 700100
949	Haakim Apna Party	Mohalla Mehmood Khan, Sarai Nakhasa Chauraha, Sambhal, Tehsil & District – Sambhal, Uttar Pradesh – 244302.
950	Hamar Raj Party	K-19. In Front of Gomti Industries, Laxmi Nagar. Raipur. Chhattisgarh- 492001.
951	Hamara Kam Dhandha Aur Berojgar Party	H.No.652, Iregaa Project, Post-Ralegan Siddhi, Swaraj Hind Trust Road, Maharashtra-414302.
952	Hamara Sahara Party	Sanand Bhawan, Village and Post – Masaurha, P.S. – Paliganj, District - Patna, Bihar – 801110
953	Hamara Sahi Vikalp Party	Flat No. 303, K.H. No. 167, Lal Dora, Village-Kapashera New Delhi-110034
954	Hamari Apni Party	Survey No. 75/1, Indrayani Vihar, Sant Nagar, Lohgaon, Pune, Maharashtra – 411047
955	Hamari Janmanch Party	1/12, New Chukuwala, Dehradun, Uttarakhand.
956	Hamdard Party	Mohalla - Sayyadvada, Post- Satti Masjid, City – Ghazipur, District- Ghazipur, Uttar Pradesh- 233001
957	Hamdardi Janrakshak Samajvadi Vikas Party (Jansevak)	Village- Udhura, Post office- Dallupur, P.S- Brahampur, District- Buxar, BIHAR-802130
958	Hamro Sikkim Party	Om Shanti Niwas, Lower Marchak, Rani Pool, East Sikkim, Sikkim – 737135
959	Haq Insaaf Party	No.3037, Talab Khatikan, Jammu, Jammu & Kashmir-180001
960	Hardam Manavtawadi Rashtriya Dal	No. 3-10-18, Pattabhipuram, Guntur, Andhra Pradesh-522006
961	Harit Pradesh Vikas Party	House No. 34, Gram – Tabela Gadhi, Tehsil – Baraut, Distict – Bagpat, Uttar Pradesh – 250622
962	Haryana Democratic Front	No. 549, Mathura Nagri, Ambala City Haryana- 134003
963	Haryana Development Party	H.No.2079, Sector-4, (Near Community Centre), Rewari, Haryana-123401
964	Haryana Hitkari Dal,	Village-Brahman Majra, P.O.-Bhadaur, Tehsil-Panipat, District-Panipat, Haryana- 132103
965	Haryana Insaaf Congress	Farm House, Near Bhagwat Bhakti Ashram, Rampura, Rewari – 123401 Haryana.
966	Haryana Jan Chetna Party (V)	Kothi No. 118A, Circular Road, Model Town, Ambala City, Haryana – 134003.
967	Haryana Jan Sevak Party	32A/34, Ashish Kutter, Near Shiv Park, Janta Colony, Rohtak, Haryana-124001
968	Haryana Janhit Vikas Party	531A, Sector-4, Rohtak, Haryana- 124001
969	Haryana Janrakshak Dal	249/3, Park Road, Adarsh Nagar, Gohana, Distt. Sonapat, Haryana.
970	Haryana Jansena Party	H.No.633, Ground Floor, New Janta Colony, Opposite Saran Thana, Faridabad, Haryana-121005
971	Haryana Kranti Dal	Babain Road, Ladwa, District – Kurukshetra Haryana
972	Haryana Lokhit Party	Shop No.8, SCO-2, Old Judicial Complex, Jharsa Road, Sector – 15, Gurgaon, Haryana – 122001
973	Haryana Navnirman Sena	101, Village – Silokhra, Gurgaon, Haryana.
974	Haryana Sarvajana Party	H. No. 236, Ward No. 2, Gram Panchayat Radaur, District – Yamuna Nagar, Haryana.

975	Haryana Swatantra Party	House No. 154, Village & P. O. – Jakhauda, Tehsil – Bahadurgarh, Distt. – Jhajjar, Haryana.
976	Helping Hand Party	B – 203, Shree Ram Heights, Samor Residency, Near Toll Tax Muthiya, Naroda, Ahmedabad – 382330, Gujarat
977	Himachal Jan Kranti Party	H.No.435, Ward No.10, Sham Nagar, Dharamshala, District- Kangra, Himachal Pradesh- 176215
978	Himachal Janta Party	Pawan Katoch C/o Urmila Devi, 88, Mahal Vihar, H. No. 248, Vill.-Band Vihar, P.O.- Deogran, Tehsil- Palampur, District-Kangra, Himachal Pradesh- 176061.
979	Himachal Lokhit Party	Shastri Bhawan, Devnagar, Kasumpti, Shimla-171009, Himachal Pradesh.
980	Hind Congress Party	C-6, South Side, GT Road, Industrial Area, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
981	Hind Hitaishi Hind Maa Sena	I-Virat Nagar, Sawan Park, Parshura Chowk. Phase-II, Canal Bypass, Model town, (Near Hotel Virat Palace), Panipat, Haryana-132103
982	Hind Jan Congress	72, Pyarelal Compound, Nagra, Jhansi, Uttar Pradesh.
983	Hind Jan Swaraj Party	Village-Kishanpur, Post-Benipur, Police Station-Bahera, Darbhanga, Bihar-847208
984	Hind Samarpit Party	156, Shahbiswa Jalalpur, Raghunathpur, Muradanagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201206
985	Hind Samdarshi Party	F-64, Galaxy Apartment, Sector – 43, Gurgaon, Haryana – 122002.
986	Hind Samrajya Party	512/695K/1, Walda Road, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226007.
987	Hind United Morcha	No. J-1, Shivalik Towers, Shivalik City, Sector-127, Kharar, S.A.S. Nagar, Punjab-140301.
988	Hind Vikas Party	P.O. Sri Harbhagwan Nagar, Tapakalan, Near Kali Mandir, Jalesar Road, Ferozabad (Uttar Pradesh).
989	Hindu Ekta Andolan Party	Hindi Ekta Karyalay, Malhar, Khan Bhag, Police Chowki, H.No.927/1, Sangli-416416, District Sangli, Maharashtra.
990	Hindu Samaj Party	Rashtrawadi Dharma Satta, 26-A, Khurshedbad, Lucknow - 4, Uttar Pradesh
991	Hindustan Ekta Party	Shop No. 132/2, Kesho Ram Complex, Sector - 45 C, Chandigarh-160047.
992	Hindustan Hamara Party	555A/1, Mumfordganj, Allahabad, UTTAR PRADESH- 211002
993	Hindustan Inquilab Party	Mahesh Prasad Mandal, Village-Jhitki, P.O.-Hisar, Thana No. 32, Block-Harlakhi, Bajrang Bazaar Jhitki Distt. Madhubani, Bihar-847230
994	Hindustan Janmorcha	House No. 1, Village & Post – Tekua, District - Deoria, Uttar Pradesh – 244182.
995	Hindustan Jansewa Paksh	At-33, Abbabhau Sathe Nagar, Rambai Colony, V.N. Naik Marg, Eastern Express Highway, Ghatkopar (East), Mumbai - 400084
996	Hindustan Janta Party	M/s Sono Sales Corporation, Subji Mandi, Khokadpura, Aurangabad (Maharashtra).
997	Hindustan Janta Party Secular	Village-Morena, Post-Sirsa Viran, Thana Lalganj, District Vaishali, Bihar-844123
998	Hindustan Kranti Dal	Village – Tundlaka, Panchayat – Goudhola, P.O & Tehsil – Punahana, Distt. – Mewat (Nuh), Haryana.
999	Hindustan Krantikari Dal	A-65, Sector – 34, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
1000	Hindustan People's Party (Democratic)	H. No. 57, (Sky Sadam), Plot No-34/392/B8/C, Vill-Palbagan, Ward-4, Mihijam Jamtara, Jharkhand – 815354.
1001	Hindustan Rashtreeya Party	Door No. 64-8/1/1, Rsgghavanagar, Patamata Lanka, Vijayawada, Krishna District, Andhra Pradesh- 520010

1002	Hindustan Samaj Party	Village & Post- Jagdishpur,Deeh- Raebareli,Uttar Pradesh- 229310.
1003	Hindustan Sampoorana Azad Party	Gram-Senduari Purushottam Ward No.8, Post-Bakhri, Thana-Anchal-Motipur,Muzaffarpur,Bihar-843111.
1004	Hindustan Shakti Sena	H. No. 1113/11, Darshan Singh Nagar, Alipur Road, Patiala, Punjab
1005	Hindustan Swaraj Congress Party	Shewar Bangla A.B. Nair Road, Juhu, Mumbai-4000491, Maharashtra
1006	Hindustan Tehreek-E-Insaaf	H.No. 1-12-386, Rajahawdi, Patvadi Naka Bahar Bhuj, Tahsil- Bhuj, District- Kachchh, Gujarat – 370001
1007	Hindustan Utthan Party	House No. 438, Village- Ravanikateri, Post- Bugarasi, Tehsil- Syana, District- Bulandshahr, Uttar Pradesh-245403
1008	Hindustan Vikas Dal	Karman Tola, Arah,District – Bhojpur - 802301Bihar.
1009	Hindustan Zindabad Party	No.C-33, Hari Krishna Park, Cadila Road, Ghodesser Crossing Pass, Ahmedabad, Gujarat-380050.
1010	Hindustani Awaam Party	H. No. 202A/104, Jawahar Nagar, Near Hathi Park, Lucknow, Uttar Pradesh – 226001.
1011	Hindustani Awam Manch (United)	Village-Dakhner,Post-Paraiya,Thana-paraiya,Distt.Gaya,Bihar-824209
1012	Hindustani Awam Morcha (Secular)	Maa Shabari Kutir, Godawari, P.S. - Rampur, District – Gaya, Bihar-823001.
1013	Hindustanwadi Party (Jaihind)	H.No.102,Village-Ramdattpur,Post-Pandaypur,P.S.Cantt,Varanasi,Uttar Pradesh-221007
1014	Hindusthan Nirman Dal	House No. 100, Gali No. 5,Krishna Nagar, Safdarjang Enclave,New Delhi.
1015	Hindusthan Praja Paksha	7/702, 'C' Wing, Sheetal Dhara Complex, Plot No. 28, Sector-7, Kamotha, Navi Mumbai – 410209, Maharashtra.
1016	Hindvi Swarajyay Dal	No. 167,Ambikanagar, Bhchau-7,Bhachau-Ta Chachau,District- Kachchh,,Gujarat- 370140.
1017	Hitech Party	B-85, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
1018	Hmar Peoples Convention	C/o Lalauva, House No. A/56, Bawngkawn Chimveng, Aizawl – 796 014 (Mizoram).
1019	Hum Bhartiya Party	House No. 1-3-3227, Harshrush, Behind Mukta Lawns, Jijau Nagar, Barshi Road, Beed, MAHARASHTRA-431122.
1020	Hum Ek Hai Party	House No. 212,Khasra No.15/21,Rashid Nagar, Nal Saheb Road,Nagpur,Maharashtra-440018
1021	Hum Kisan Party	House No. 1699/G-25/A1, Vidya Nagar, Road No. 1, Harmu, Ranchi, Jharkhand – 834002
1022	Hum Log Party	803-B, Beverly Park 1, MG Road 1, MG Road DLF Phase-2, Sector-25, Chakarpur (74), Gurgaon, Haryana-122002
1023	Hum Sabki Party	Village – Mahimapur (Jalalpur Chaumuhani), Post – Jalalpur, District - Jaunpur, Uttar Pradesh – 222136
1024	Human Democratic Party	D.No.2/42,Boosipalli Village,Thenepalli Post,Vepanapalli Panchayathi,Puthalapattu Mandal,Chittoor District,Andhra Pradesh-517124
1025	Humanity for Peace Party	1-A,A.R.Rahuman Nagar,JMS Compound,Ka Na Vilakku,Aundipatti Taluk,Theni District,Tamil Nadu-625512
1026	Humanity Universal Motion Party	C/o Shamik Banerjee,#Holding No.84/1,Inda Rabindrapally,Ward No.02,Near Prantik Club,Kharagpur,District-Paschim Medinipur,West Bengal-721305
1027	Ilantamilar Munnani Kazhagam	1/159, Periyar Nagar, Thirisulam, Chennai, Tamil Nadu-600043
1028	Independent Indian Congress	At/Post Pimpalgaon By Mahalunge, Tal. – Ambegaon, Dist. – Pune, Maharashtra – 410503

1029	Independent Nationalist Front	No.89,Sathangadu Village Street,Sathangadu,Tiruvottriyur,Chennai,Tamil Nadu-600019
1030	Independent People's Party	House No.63, Kargil Colony, Narwal Bala, Jammu, Jammu & Kashmir.
1031	Indhia Kudiarasu Katchi	11, Karpagambal Nagar, III Street,Kottivakkam, Chennai – 600 041.Tamil Nadu.
1032	Indhu Dravida Makkal Katchi	No.14, Balaji Nagar, Chikkarayapuram, Mangadu, Chennai, Tamil Nadu - 600069
1033	India Dravida Makkal Munnetra Katchi	Door No. 15/1, Ward No. 21, Sarojini Nagar, Towerline Colony, Erode Corporation Zone II, Erode-638011,Tamil Nadu.
1034	India Greens Party	104,Vardhman Complex,1 st Floor,LSC,Savita Vihar,Delhi-110092
1035	India Janshakti Party	Plot No. 20, 21 & 22, Nai Basti, Nahar Road, Saidpur Jagir, Near Bhuiyan Devi Mandir, Lucknow, Uttar Pradesh- 226062
1036	India Makkal Munnetra Katchi	95, Cauveri Street, Bhavani – 638301, Erode District, TAMIL NADU.
1037	India Manus Party	Plot No. 2308, Khatian No. 1505. Vill & Post Talbangurua. Mehar Ali Tola, P.S.-Harishchandrapur, District-Malda, West Bengal-732125
1038	India Praja Bandhu Party	H. No. 18-1-317/A/68/1, Shivaji Nagar, Uppuguda, Hyderabad, Telangana- 500053
1039	India Rising Party	H.N. 39, Fatehpur, Kapoorapur-1, Tehsil- Tirwa, Dist- Kannauj, Uttar Pradesh- 209723
1040	India Samadhan Party	H.No. 129, Village & Post- Chauradev, P.S.-Gagalhedi, District- Saharanpur, Uttar Pradesh- 247669
1041	India Suyarajya Party	No. 48, Cholan Street,Praksah Nagar,Ambattur,Chennai,Tamil Nadu-600053
1042	Indian People Association Party	H.No. 2-74, Village- Venkatapur, Laxmi Narasimha Swamai Temple, Town/Mandal- Velpur, District- Nizamabad, Telangana State-503311
1043	Indian Aarthik Sudhar Party	H. No.- 1, Manjit Nagar,Basti Sheikh, Jalandhar, Punjab.
1044	Indian Alliance Party	Shop No. 6, L/1/21/6/83, Alnoor Society, Ahmedabad Road, Balasinor, District- Mahisagar, Gujarat- 388225
1045	Indian Bahujan Samajwadi Party	2/3, Ambedkar Nagar, Post-Nagina, Distt. Bijnaur- 246762 (Uttar Pradesh).
1046	Indian Believers Party (IBP)	Old H. No. Central Office:8-3-168,Flat No. 201,2 nd Floor,Bhanu Towers,ESI Hospital,Metro Station,S.R.Nagar,Hyderabad,Telangana State- 500038.
1047	Indian Business Party	1207, Pragati Tower, 26-Rajendra Place, New Delhi- 110008.
1048	Indian Christian Front	LIG-289, Anna Nagar, Opp Velankanni Church, Madurai- 625020, Tamil Nadu.
1049	Indian Christian Secular Party	Plot No. 8, Wahab Nagar, Sikh Village, Secunderabad – 500 009.
1050	Indian Citizens' Party	At: Markata Nagar, Sector-10, Plot No. C-43,P.O. – Abhinaba Bidanasi,Cuttack-753014Orissa.
1051	Indian Democratic Congress	Vill.-Babu Sankar Nagar, Mouja- Bhalucksundi, J.L.No: 22, Post- Aligarh, P.S.- Rajnagar, Dist- Birbhum, West Bengal- 731130.
1052	Indian Democratic Party	D – 978, Jan Kalyan School Road,Bhajan Pura, Delhi – 110054
1053	Indian Democratic People's Party	Babugachh, P.O. Gendagachh, P.S. Chopra, Islampur, District- Uttar Dinajpur, West Bengal- 733207
1054	Indian Gandhiyan Party	Kuriyakott Building, Thekkumpadam Road, Pattikkad P.O., Thrissur District, Kerala-680509.
1055	Indian Indira Congress (R)	1-Roop Rajat Nagar, Behind New Bus Stand, Pali, Rajasthan –306401

1056	Indian Justice Democratic Party	TC/25/25(3), GBNRA-63, Kalpalayam Lane, Gandharamman Covil Road, Thiruvananthapuram, Kerala- 695001
1057	Indian Krantikari Lehar	Mohalla Dhudi Wala, Bazigar Basti, Faridkot, Distt. – Faridkot, Punjab.
1058	Indian Labour Party (Ambedkar Phule)	D.No.26-28-118, 1 st Line, Netaji Nagar, A.T. Agrapharam, Guntur, Andhra Pradesh – 522004.
1059	Indian Lovers Party	No.-23, B-Block, 2 nd Street, Bhoopathy Nagar, Kodambakkam, Chennai, Tamil Nadu - 600024.
1060	Indian Makkal Kalvi Munnetra Kazhagam	No.3, Deenadayalau Street, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
1061	Indian Milan Party of India	Golbazar, Post- Akot, District- Akola, Maharashtra- 444101
1062	Indian Minorities Political Party	D. No. 9-4-51/35/48,Hakeempet (I.A.S.) Colony,Towli Chowki,Post – Golkonda Fort,Hyderabad – 500008,Andhra Pradesh.
1063	Indian Movement Party	No.-65,Mantappa Village,Bannergatta Road,Jigani Hobli,Anekal Taluk,Bangalore Karnataka- 560083
1064	Indian National League	No.7, Balwant Rai Mehta Lane, Kasturba Gandhi Marg Cross, New Delhi-110001.
1065	Indian National Manavadhikar Party	Plot No. 429/(R),Rani Durgavati Chowk,N.I.T. Complex Binki Layout,Nagpur,Maharashtra- 440017
1066	Indian National Parivartan Party	C-316A, Vashi Plaza, Plot No. 80/81, Sector- 17, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra- 400703
1067	Indian National Samaj Party	D-64/52,E-1 Kh,Madhampur,Sigra,Varanasi,Uttar Pradesh – 221010
1068	Indian National Secular Democratic Party (of India)	Virk Farm,Near Main Canal Bridge,Verowal Road,Jandiala Guru,District-Amritsar,Punjab-143115
1069	Indian National Socialistic Action Forces	Amua, Post Office & Police Station-Sainthia, District-Birbhum, West Bengal – 731234.
1070	Indian National Youth Party	No.68-B,Devasandra,K.R.Pura,Bengaluru,Karnataka- 560036
1071	Indian National Yuva Jana Party	H.No.9-14,Prashant Nagar,Boduppall,Ghatkesar Mandal,Ranga Reddy District,Telangana-500092
1072	Indian Nationalist Alliance Party (India)	C/ 1061/5,Indranagar,Lucknow,Uttar Pradesh- 226016
1073	Indian New Congress Party	Office No. 107, 2 nd Floor, 1 st Cross, 'A' Block, A.K. Colony Road, Ghousia Nagar, Mysore City, Karnataka- 570 019.
1074	Indian People's Conference Party	H/o Makhdoom Sahib, House No. 51, Rainawari, Srinagar, Kashmir, Jammu & Kashmir.
1075	Indian Peoples Adhikar Party	544, Narsingh Ward, Madan Mahal, Jabalpur, Madhya Pradesh-482001
1076	Indian People's Forward Bloc	Tangra Housing Estate, Block-L/1, Flat -5, 40/1,Trangra Road, Kolkata-15, West Bengal.
1077	Indian Peoples Green Party	19, Shubham Enclave,C-Scheme, Jaipur,Rajasthan.
1078	Indian Praja Congress	Mathrudevobhava, Shop No. 1, Ground floor, Liberty Plaza, Door No. 3-6-365/UG/3-4, Himayath Nagar, Hyderabad, Telangana- 500029
1079	Indian Public Federation Party	220, Vardhman Fortune Mall, (Opp. Mahendru Enclave), G.T. Karnal Road, Delhi- 110033
1080	Indian Public Party	B-1, Raj Complex, Sanskar Mandal, Bhavnagar – 364002, Gujarat
1081	Indian Rakshaka Nayakudu Party	House No. 4-279, Basaveshwara Colony, Makthal, District- Mahabub Nagar, Telangana State-509208
1082	Indian Sarvahit Party	6-B/138, Gopesh Kunj, Vrindavan Yojna, Raebareli Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226025.
1083	Indian Savarn Samaj Party	H. No. 0053, Daudpur, Gorakhpur, Uttar Pradesh
1084	Indian United Peoples Party	Ward No.18,Indira Chowk,Sohagpur,Shahdol,Madhya Pradesh-484001
1085	Indian Unity Centre	Vill & P.O- Somruk,P.S- Uluberia, Dist- Howrah,Pin- 711316, West Bengal.

1086	Indian Vikas Party	Khasra No. 327, Khoda Hajari Buteshwar Bagichi Road, Tehsil & District- Hathras, Uttar Pradesh- 204101
1087	Indian Youth Progressive Party	Chitrangi Marg, Itar Road, Deosar, District- Singrauli, Madhya Pradesh-486881
1088	Indians Victory Party	3/261-2, Anandan Nagar, Asaripallam-629201, Kanyakumari District, Tamil Nadu
1089	Indigenous Nationalist Party of Twipra	Abhayanagar, Agartala-799005 (Tripura).
1090	Indiya Jananayaka Katchi	No.9, 3rd Avenue, 34th Street, Ashok Nagar, Chennai-600083, Tamil Nadu.
1091	Inqlabi Party	Behind B.T.I. School, Mahavir Nagar, Bhind, Madhya Pradesh, Pin – 477001.
1092	Insaaf Di Awaz Party	MC No. 9/128/D, 9/128E, Gali No. 10, Ward No.9, Near Kansal Gas Agency, Raman Mandi, Tehsil- Talwandi Sabo, District- Bathinda, Punjab- 151301
1093	Insaafwadi Party	Village & post – Piyari, P.S. – Chaubeypur, District – Varanasi, Uttar Pradesh - 221104.
1094	Insaniyat Lok Vikas Party	Plot No. 1938/447/2, C/o Hind Scrap Store, Street No.- 2, Janta Nagar, Near PNB, Ludhiana, Punjab-141003
1095	Insaniyat Party	H. No. 262/1, Gannayak Bhavan, At & P.O. Sanali, Taluka Mahudha, Distt. Kheda, Gujarat - 387330.
1096	International Party	Block-B-5, Flat No.-111, Yamuna Vihar, Delhi-110053
1097	Islam Party Hind	Mohalla: Rajde Pur, Post-City Janpad, Gazipur, Uttar Pradesh.
1098	Ittehad-E-Millait Council	93, Sodagaran, Dargah Aala Hajrat, Bareilly, Uttar Pradesh.
1099	J & K Peoples' Movement	Sheikhpura, Humhama, Tehsil & District- Budgam, Jammu & Kashmir- 191111
1100	J&K United Peace and Development Party	Bagandar, Lasjan-B, Near Bund Road, Srinagar-191101, Jammu & Kashmir.
1101	Jaago Bharat Front	D – 185 B, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi - 110059.
1102	Jaathia Chethi Vruthula Ikya Vedika Party	Door No.12-494, Sapthagiri Colony, 9th Line Bus stop, Thimmalanaidu Palem (Post), Thirupathi Urban Mandal, Chittoor District, Andhra Pradesh-517507.
1103	Jabro Des Mharo	149, Kalyan Kunj, Opp. Jhotwara Post Office, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan-302012
1104	Jagat Kalyan Morcha	Village-Nanni, P.O.-Matiana, Tehsil-Theog, District-Shimla, Himachal Pradesh-171212
1105	Jago Bharat Jago Party	14A/ 84, WEA, Karol Bagh, New Delhi-110005.
1106	Jago Hindustan Party	H. No. 368, Mohalla- Kalyani Devi Civil Lines, District- Unnao, Uttar Pradesh-209801
1107	Jago Party	9-1-108/1, 2nd Floor, Tata Chary Compound, S.D. Road, Secundrabad – 500 026, Andhra Pradesh.
1108	Jagrook Janta Party	Village- Dilawarpur, P.O. & P.S.-Bihta, District- Patna, Bihar- 801103
1109	Jagte Raho Party	C/o Ms. Kshama R Desai, 2, Vatika Bungalows, Near Sabari School, Vasna Road, Baroda, Gujarat.
1110	Jai Andhra Party	D. No. – 14-71, Chagalnadu Steels, Morampudi Junction, Rajahmundry, East Godavari District, Andhra Pradesh - 533105.
1111	Jai Bharat National Party	12-4-27, Vijayawada Municipal Corporation, Revenue Ward 40, Vijayawada-520001, Andhra Pradesh.
1112	Jai Bharat Party	RZH-710E (E/54), Raj Nagar II (Near Dev Hospital), Palam Colony, New Delhi-110045.
1113	Jai Bharat Samanta Party	A-36/54-V-1, Samanata Shakti Bhawan, Kajjakkpura, Koniya Road, Varanasi, Uttar Pradesh.
1114	Jai Bharath Jena Sena Party	D. No: 42-64-1/1, Luna Centre, Opp. M.K. Baig Municipal Corporation High School, Singhnagar, Vijayawada, Krishna District, Andhra Pradesh – 520015
1115	Jai Hind Congress Party	Shop No. 34, Ridhi Sidhi Colony, Rawla- Mandi, Tehsil- Gharsana, Sriganganagar, Rajasthan- 335771

1116	Jai Hind Jai Bharat Rashtriya Party	BK No.1366,Room No.10,Maratha Section-32,Station Road,Near Ulhas Vidyalayaa,Next to Pradeep Vadapav Centre,Ulhasnagar,District-Thane,Maharashtra-421004
1117	Jai Hind National Party	A2/135,Darshanam Antica,Danteshwar,Vadodara,Gujarat-390004
1118	Jai Hind Party	Kharail Punarvas, Ward No.16, Nagar Parishad, Supaul, Bihar.
1119	Jai Hind Samaj Party	Village - Kharhara (Bind Valia) Post – Dubiha, Janpad – Ghazipur, Uttar Pradesh.
1120	Jai Hindustan Party	H.No.22-13-47, Block No. 13, Ambedkar Colony, Tirupati, Chittoor District, Andhra Pradesh- 517507
1121	Jai Jana Sangham Party	H.No.6-282,Opposite Chandrika Rice Mill,(Pollamma Putta), Village-Rayavaram,Mandal-Rayavaram,Dist-Dr.B.R.Ambedkar Konaseema,Andhra Pradesh-533346
1122	Jai Janseva Party	14/43, Sambhaji Chowk, Ichalkaranji, Tehsil – Hatakanangale, Distt:- Kolhapur, Maharashtra-416115.
1123	Jai Janta Party	Ward No. 18, Holding No. 27, Bhabhua (Kaimur), Near of Agarwal Petrol Pump, Bihar – 821101.
1124	Jai Jawan Jai Kisan Party	First Floor, H. No. – 60, Street No.7, Virk Colony, Near DCW, Patiala,Punjab - 147001.
1125	Jai Jawan Kisan Naujawan Samvidhan Party	Khasara no.101/3,Mauja Vahanpur,Post-kailora,Hatharas Junction,Dist.-Hatharas,Uttar Pradesh-204102
1126	Jai Kisan Jai Majdoor Party	House No. 77,Kharsa No. 374,Vill. & Post – Balakot, Near Mandir Darwaja,Pani Tanki ke Pass, Tehsil-Damoh,District - Damoh, M.P. – 470672
1127	Jai Lok Party	F-2/5, Mayur Vihar,Ashoka Garden, Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh-462023.
1128	Jai Maha Bharath Party	Jai Mahabharath Bhawan,Shri Mahaavykuntha Puram,Vill.- Bukkapuram, Tehsil – Alampuram,Distt. – Mahabub Nagar, Andhra Pradesh, Pin – 509 652.
1129	Jai Manavta Party	H. No. 1, Samriddhi Parisar, Near of Sahu Aata Chakki, Lalita Nagar, Kolar Road, Bhopal, Madhya Pradesh.
1130	Jai Prakash Janata Dal	190, Pratap Nagar, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi – 110091
1131	Jai Samaikya Andhra Party	D. No. 4-86, Kammavari Veedhi, Machavaram Gram Panchayat Limits, Rayavaram Mandal, District – East Godavari, Andhra Pradesh – 533 214.
1132	Jai Samta Party	Rakba Sher Nagar BiBipur,Kallarpur,Jansath Road,Tehsil- Sadar,Muzaffarnagar,Uttar Pradesh-251001
1133	Jai Sewalal Bahujan Vikas Party	Flat No. 2,Plot No. 31,Himalaypushpa Building,Swapnanagri Garkheda Area,Aurangabad,Maharashtra- 431005.
1134	Jai Swaraj Party	10-105/1/B/2, First Floor, Road No.- 2, New Gaddiannaram Colony, Dilsukh Nagar, Hyderabad, Telangana - 500060
1135	Jai Vijaya Bharathi Party	Chinnagottigallu P.O., Chittoor District,Andhra Pradesh.
1136	Jaibhim Rao Bharat Party	D.No. 32-13-1/1, Lavanya Apartments, Flat No. B3, Mogalrajpuram, Vijayawada, Andhra Pradesh- 520010
1137	Jamat-E-Seratul Mustakim	P.O. Chhotto Sujapur, P.S. Kaliachak, Distt. Malda, West Bengal – 732206
1138	Jammu & Kashmir All Alliance Democratic Party	Harco House Masjid Noor Lane,Rajbagh,Srinagar,Jammu & Kashmir-190008
1139	Jammu & Kashmir Awami National Conference	3-R.C. Quarters, Press Enclave, Pratap Park, Srinagar-190001 (J & K).
1140	Jammu & Kashmir People Conference	General Office, Old Secretariat Road, Sri Nagar-190001 (Jammu & Kashmir).
1141	Jammu & Kashmir Pir Panjal Awami Party	Near Police Station Poonch, C/o District Court Poonch, Jammu & Kashmir

1142	Jammu and Kashmir Apni Party	Kohinoor House, 7 Sheikh Bagh, Srinagar, Jammu and Kashmir-190001
1143	Jammu And Kashmir National Democratic Front	168, Rawalpura Housing Colony, Srinagar (Jammu & Kashmir).
1144	Jammu and Kashmir Nationalist People's Front	Badshah Flats 7-B, Jahangir Chowk, Srinagar, Jammu and Kashmir-190001
1145	Jammu Kashmir People's Party (Secular)	96/9, Nanak Nagar, Jammu, Jammu & Kashmir – 180004
1146	Jammu Kashmir Save Party	Rawalpura Village, Srinagar, Jammu & Kashmir
1147	Jammu State Morcha (Progressive)	8, Old Dry Fruit Market, Jewel Chowk, Jammu – 180 001, Jammu & Kashmir.
1148	Jan Aawaj Party	Jhinhak, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh- 209302.
1149	Jan Abhiyan Party	27/3, Birhana Road, Kanpur, Uttar Pradesh-208001
1150	Jan Adesh Akshuni Sena	House No.117, Patharia Mohalla, Padua Chauraha, G.T. Road Bhongaon, Mainpuri, Uttar Pradesh
1151	Jan Adhikar Party	House No. 331, Sarvodaya Nagar, Chandi Road, Pilkhuwa, Uttar Pradesh.
1152	Jan Adhikar Party (Loktantrik)	Ward No. 05/14, Vardhman Hata, Arjun Bhawan, Arjun Nagar, Post office- Purnea, P.S- Sahayak k. Haat, District- Purnea, Bihar-854301.
1153	Jan Andolan Morcha	A-8/18, 1 st Floor, Block-A, Pocket-8, Sector-17, Rohini, Delhi - 110085.
1154	Jan Asra Party	C/o Rawel Singh Bhinder, Khasra No. 12/1, Ground Floor, Near Kalwanu Road, Attalan, Tehsil- Patran, Distt. Patiala, Punjab-147102
1155	Jan Awaz Vikas Party	H.No. 631, Second Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi.
1156	Jan Chetna Kranti Manch	Suvir Kumar Pardeshi, Khemneechak, Behind Jakariyapur Krishna Niketan School, Police Station Aalamganj, Distt. - Patna, Bihar-800007
1157	Jan Chetna Party	Chamber No.475, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.
1158	Jan Congress Party	Ward No. 1. House No. 395, Bokakhat Town, District- Golaghat, Assam- 785612.
1159	Jan Hit Party Pragatisheel	Village-Bhadurpur, Post-Morta, Tehsil & Distt. Ghaziabad, Near Police Chowki, Uttar Pradesh- 201003
1160	Jan Jagaran Yuva Manch	No. 2528/2649, at Ratnadeep Hospital, Nagar Road, Jamkhed, Taluka Jamkhed, Dist. Ahmednagar, Maharashtra-413201
1161	Jan Jan (United) Party	Shantipuram, Phaphamau, Opposite B.B.S Engineering College, Near Navjeevan Hospital, District- Prayagraj, Uttar Pradesh- 211013
1162	Jan Jan Party	Gali No. – 7, Village – Mamura, Sector – 66, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
1163	Jan Janwadi Party	Gata No. 88, Village Badahara, Post-Turna, Tehsil- Saidpur, Thana-Nandganj, Distt. -Gazipur, Uttar Pradesh- 233306
1164	Jan Kalyan Party	Fatehpur-Sahabpur, P.O- Kasenda, Tehsil- Chail, District- Kaushambi, Uttar Pradesh.
1165	Jan Kranti Party, Andaman & Nicobar	C/o Harsh Mehra Traders, Opposite: CBI Office, Ranchi Basti, Port Blair - 744103.
1166	Jan Man Party	D.409, Pratik Mall, Raysan, Gandhinagar Gujarat- 382007
1167	Jan Mithila Vikas Party	Village Samdhiniya, Post Garri, P.S.- Jale, Darbhanga, Bihar-847303
1168	Jan Pragati Party	544/2395, Mari Mata Mandir, Near Vikas Public School, Balaganj, Lucknow Uttar Pradesh- 226003
1169	Jan Raajya Party	110/F/10A/1A, Kanahipur Village, Dhoomangunj, Allahabad-211001, Uttar Pradesh’.
1170	Jan Raksha Party	Bhithauli, Sitapur Road, Lucknow-226020 Uttar Pradesh.

1171	Jan Rashtrawadi Sangathan	356/340/1331, Ashok Vihar, Alam Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226017.
1172	Jan Sadharan Party	House No – 04, Dr. Fatehullah Lane, Main Road, Ranchi, Jharkhand – 834001
1173	Jan Sahara Party	Flat No.2,UG Floor,A-1/B,Advocate Compound,Old Jasola Village,Delhi-110025
1174	Jan Samaj Ekta Party	530A,K-Block,Yashoda Nagar,Near Maa Durga Inter College,Kanpur,Uttar Pradesh-208011
1175	Jan Samanta Party	B-125, Navjiwan Camp, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019.
1176	Jan Samarpan Party	At-H.No.189 I, Jatepur North, Lohiya Nagar, Gorakhpur,Uttar Pradesh-273015
1177	Jan Samman Party	G-238, Main Road, Gali No.- 6/28, Bal Gyan School, West Karawal Nagar, Delhi- 110094.
1178	Jan Samuh Party	C-336/A,Ground Floor,Gali No.12,Khasra No.18/14,Matawali Gali,Johari Pur,Delhi-110094
1179	Jan Samwad Party	319, Amkhera Road, Gohalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh-482004
1180	Jan Sandesh Party	72/76/3, Stenely road, (Myorabad Crossing), Mamford Ganj, Prayagraj (Allahabad), Uttar Pradesh-211002.
1181	Jan Sangh Party	A-90, Sector-21, Jalvayu Vihar,Noida, Gautambudh Nagar-201301, Uttar Pradesh.
1182	Jan Sangharsh Dal	Near Choti Masjid,Main Road,Lauriya,West Champaran,Bihar-845453
1183	Jan Sangharsh Virat Party	Street No. 2, Near of Bhuteshwar Mandir, Sant Ravidas Ward, Sagar, Tehsil & District – Sagar Uttar Pradesh.
1184	Jan Santosh Party	Village & Post-Lalpur, Police, Chowki-Kamar, thana-Kosikalan, Block-Nandgaon, Tehsil-Chhata, District-Mathura,, Uttar Pradesh- 281403
1185	Jan Satya Path Party	1 st Floor, Madhav Complex, Opp. City Pulse Theatre, Raipur, Ahmedabad, Gujarat- 380022.
1186	Jan Seva Sahayak Party	Village – Tal Mahawar, Tehsil – Bilaspur, District - Rampur, Uttar Pradesh
1187	Jan Seva Sangharsh Party	Village & Post - Pilimandori, Tehsil- Bhattu Kalan, District- Fatehabad, Haryana - 125053.
1188	Jan Sevak Party	L.I.G. 63, Shekhpura, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh,
1189	Jan Sewa Driver Party	Flat F-201,Krish Exotica,Opp.Rajipa Greet Land,B/h,Shyamved,Residency,Nicol,Ahmedabad,Gujarat- 382350
1190	Jan Sewak Kranti Party	AT-772,Bhim Nagar New Railway Road,Gurugram-122001
1191	Jan Shakti Dal	Shivaji Nagar, Street No. 1, Near Kailtan School, Line Paar, Muradabad-244001, Uttar Pradesh.
1192	Jan Shakti Ekta Party	Village – Mandanpur, Post- Meerganj, District – Bareilly, Uttar Pradesh – 243504.
1193	Jan Shakti Party of India	7107, Street No.3, New Vishwakarma Nagar, Focal Point, Ludhiana, Punjab-141 010.
1194	Jan Srijan Party	15-D, Kaushalpur, Khargapur, Vikas Khand – Chintah, Gomtinagar, Pargana, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh .
1195	Jan Suraaj Party	Suit No.2,1st Floor,Dakshineshwar Building,10,Hailey Road,New Delhi-110001
1196	Jan Surajya Shakti	Janasampark Karyalaya, Warananagar, Tal. Panhala, Distt. Kolhapur, Maharashtra-416113.
1197	Jan Swabhavik Party	636/09 Budh Vihar Colony, Phase I, Takrohi, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016
1198	Jan Vikas Party Secular	1/97, Vishesh Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
1199	Jana Dwani Party	D. No. 3-PC/18, Lakshmi Narayana Estates, Miyapur, Hyderabad, Telangana – 500 049
1200	Jana Rajyam Party	H.No.8-217/16,Dharmareddy Arcade,Flat-T1,Gayatri

		Nagar,Laxminagar Colony,Road No.3,Jillela Guda Municipality,Balapur Mandal,Rangareddy District, Telangana State-500097
1201	Jana Sahayaka Sakthi	Door No. 27-85/1,Cobaldpet,4 th Lane,Guntur,Andhra Pradesh- 522006
1202	Jana Samanyara Party (Karnataka)	Sri. Veerabhadra Swamy Nilaya, 1 st Main, 5 th Cross, Vijaya Nagar, Tumkur, Karnataka – 572102.
1203	Jana Samrudhi Party	Kashipur-Balarampur, Unit-18, P.O.- Keonjharagarh, P.S- Town, District- Keonjhar, Odisha- 758001.
1204	Jana Shankhaaraavam Party	H.No.4-1-216/54/502,Karthikeya Nagar,Nacharam,Uppal,Medchal Malkajgiri District,Telangana State-500076
1205	Jana Spandana Party	No. 60,1 st Floor,Veerapillai Street, Shivajinagar,Bangalore, Karnataka- 560001
1206	Jana Swarajya Party	H.O. 83/A, 3 rd Ward, Kamma Bazar, Sandur-583119, Karnataka.
1207	Jana Vaahini Party	Door No. 28-5-37A, 12th Road, Santhi Nagar, Eluru, West Godavari District, Andhra Pradesh-534001
1208	Janadhar National Party	63, R.R.Avenue,Tulsi Nagar,Mahalaxmi Nagar Road,Indore,Madhya Pradesh- 452010
1209	Janadhar Shakti Party	Gram 162512,DevraKh Road,Arel,Naini,Tehsil Karchana Prayagraj,Uttar Pradesh – 211008
1210	Janadhipathiya Kerala Congress	Near Jawahar Balbhavan, Building No. 641, Ward No. 21, Kottayam Municipality, District – Kottayam, KERALA.
1211	Janadhipathya Samrakshana Samithi	Kerala State Committee Office, Iron Bridge P.O., Alleppey-688011, Kerala.
1212	Janahitha Paksha	D. No. 109, 2nd Ward, Kamma Street, Bellary, Karnataka – 583101.
1213	Janam Manam Party	13-24/A, Pandurangavaripalli Village, Ithepalli Post, Chandragiri Mandal, Chittoor District, Andhra Pradesh- 517102
1214	Janam Rashtriya Party	Bldg.No.582,Iverkala Ward 5,Kunnathoor Panchayath,Iverkala East P.O.,Kollam-691507,Kerala
1215	Jananayaka Makkal Rajjiyam	20/86A, Krishna Nagar West, Ammapet (PO), District - Salem, Tamil Nadu - 636003.
1216	Janapaalana Party (Democratic)	8-2-703/2/B, Plot No.2, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500034.
1217	Janasena Party	D.No. 11-1903, Lakshmi Narasimha Swamy Colony, Mangalagiri,Guntur District, Andhra Pradesh-522503
1218	Janata Cabinet Party	16/A (16/1),Lytton Road,Subhash Road,Dehradun New Nagar Nigam,No.184/4,PIN – 248001, Uttarakhand
1219	Janata Congress	278A, 1 st Floor, G.K.Complex, Main Road Okhla, Jamia Nagar, New Delhi-110025 .
1220	Janata Congress National Movement Party	No. 8-2-293/82/J/III,Road No. 79,Jubilee Hills,Hyderabad,Telangana -500033
1221	Janata Dal (Ahinsawadi)	201,BHEL Extension,9 th Cross,Stage-II,Rajarajeshwari Nagar,Bangalore,Karnataka-560098.
1222	Janata Party	G/42, Purvi Vinod Nagar, Delhi - 110091
1223	Janata Uday Party	860, Gali No.4, Sanjay Enclave, Chacha Chowk, Parvatiya Colony, N.I.T. Faridabad, Haryana.
1224	Janata Unnati Party	Village-Palhipar,Post Office-Pakdi Doobe,Dist.- Gorakhpur,Uttar Pradesh-273413
1225	Janata Vikas Party	Abashek Bhavan, Udainagar Colony, Sagar Road, Vidisha(Madhya Pradesh).
1226	Janhit Bharat Party	730, Arra Nai Basti, Naubasta, Yogendra Vihar, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208021
1227	Janhit Dal	R.M.S. Colony, Road No. 2, Kankar Bagh, Patna-20, Bihar.
1228	Janhit Kisan Party	Ward No. 24, Saxena Nagar, Nagar Palika Parishad – Maharajganj, Janpad – Maharajganj – 273303 Uttar

		Pradesh.
1229	Janhit Krantikari Party	Shivaji S/o Panna Lal, H.No.47/1, Vill. & Post - Nayabans, Paragana - Marhara, Thana - Mirhachi, Tehsil - Etah, District - Etah, Uttar Pradesh - 207125
1230	Janhit Lokshahi Party	Room No. – 41/3, Gaondevi Road, Pavanegaon, Navi Mumbai, Maharashtra – 400705.
1231	Janhit Sankalp Party	Shiv 15/52 V-6-2-S, Usarpur, Bharlai, Shivpur, Varanasi, Uttar Pradesh-221003
1232	Janhit Vikas Party	Village-Kapasi, Post- Hasanpur, Block- Baliakhedi, District- Saharanpur, Uttar Pradesh-247111
1233	Jankranti Samaj Party	House No. 16, Sadarpur Colony, B.D.S. Market, Som Bazar, Sector-45, Noida, Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh.
1234	Janlok Vikas Party	House No.124, Ward No.22, Kasai Tola, Gorya Asthan, P.O.-Rasra, Distt.-Ballia, Uttar Pradesh-221712
1235	Janmangal Paksh	Ram Pratap, Geeta Nagar, Main Road, Near Gurukul, Rajkot – 360 002 (Gujarat).
1236	Janmat Party	C2A/107, Pocket-16, Janakpuri, New Delhi-110058.
1237	Janmat Vikas Paksha	Post – Saswad, Purandhar, Maharashtra - 412301.
1238	Jannayak Yuva Shakti Party	H.No.587/20, Near Khasa Chowk, Rameshwar Puram Colony, Kabirpur, Sonipat, Haryana-131001
1239	Jan–Nyay Dal	301, Sri Devraha – Complex, Mata Madia Choraha, Vijay Takeej Road, Motinagar Ward, Teh. & Zila – Sagar, Madhya Pradesh.
1240	Janral Samaj Party	Surat Printing Press, Dana Mandi Road, Bathinda, PUNJAB.
1241	Jansamuday Party	57, 1 st Floor, Stadium House, Stadium Cross Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat - 380009.
1242	Jansatta Dal Loktantrik	Village & Post- Majhilgaon (Babuganj), Tehsil- Kunda, District- Pratapgarh, Uttar Pradesh- 230204
1243	Jansatta Rashtrawadi Ekta Party	C/o Raghavendra Singh, S/o Shri Harivansh Singh, Village-Garhi, Majre-Khaspariya, Post-Basti, Tehsil- Nawabganj, Block-Banki, District-Barabanki, Uttar Pradesh-225003.
1244	Janseva Gondwana Party	Plot No.36, Jayaswal Lay Out, Near Bhoyar College Girls Hostel, Nalwadi, Wardha, Teh. And Distt. – Wardha, Maharashtra- 442001
1245	Janshakti Janta Dal	Rajni Complex, Khagaul Road, Near Dayanand Girl's High School, Mithapur, Patna 800001
1246	Janshakti Party (Rashtriya)	Plot No. 38, Ground Floor, Opp. KDK Public School, Main Road, Mandawali, Fazalpur, Delhi- 110092.
1247	Janshakti Samta Party	Tehsil Campus, Post-Salon, Janpad- Raebareli, Uttar Pradesh-229127
1248	Janshakti Vikas Party (Democratic)	At-PO-Numar, PS-Barhat, District-Jamui, Bihar-811313
1249	Janta Brigade Party	R-142, Jawalपुरi, Camp No. 5, New Delhi- 110087
1250	Janta Dal Hindustani	Khata No. 64 (Old), Plot No. 370 (Old), New Plot No. 838, 839, 744, 745, Thana No. 314, Village- Aabgila, Thana- Mufsil, Anchal- Manpur, District- Gaya, Bihar- 823003
1251	Janta Dal Rashtravadi	House No. 55/1, Haroon Nagar Colony, Sector – 1, P.S. & P.O. Phulwari Sharif, Patna, Bihar - 801505.
1252	Janta Darbar Party	MIG-II, 70/1, Housing Board Colony, PO/PS- Chandrasekharpur, Bhubaneswar, Dist-Khorda, Odisha- 751016
1253	Janta Kalyan Morcha	Khevat No. 184, Khata No. 188, Keela No. 51/16/3, Khedi Damkan, Tehsil Gohana, Sonipat, Haryana- 131301.
1254	Janta Kranti Party	Bharat Vihar Colony, Opposite of Big Shiv Mandir, Mandavar Road, Bijnaur, District – Bijnaur, Uttar Pradesh- 246701.
1255	Janta Kranti Party (Rashtravadi)	No. 29, Kantipuram Part-2, Behind Shivpuri Power

		House, Ganeshpur, Rahmanpur, Deva Road, Chinhat, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
1256	Janta Raj Party	House No. 43, Village – Tejpura, Post – Indore, District – Ghazipur, Uttar Pradesh – 233226
1257	Janta Raj Vikas Party	Village- Chakfaij, Post- Sukki, P.S- Patepur, Distirct- Vaishali, Bihar-843114.
1258	Janta Rakshak Party	Ward No. 1, Mohalla Kamlapur, Near Dr. Bhim Rao Ambedkar Inter College, Post-Udaypur Mahewa, District-Lakhimpur Khiri, Uttar Pradesh- 262701
1259	Janta Samajwadi Party (Vivek Raj)	72, Ratan Nagar, Pradharshni Pandal Marg, City & District-Etawah, Uttar Pradesh-206001
1260	Janta Samta Party	Village-Dumri Ekhalas, P.O.-Hetimpur, Thana-Rampur Karkhana, Tehsil & District-Deoria, Uttar Pradesh- 274206
1261	Janta Sarkar Party	I-4/39, Ground Floor, Sector – 16, Rohini, Delhi- 110089
1262	Janta Sena Rajasthan	Mukam Post: Vallabh Nagar, District – Udaipur, Rajasthan – 313601.
1263	Janta Shashan Party	4A, Keshav Park, Saraswatipuram Raibareli Road, Lucknow Uttar Pradesh-226014.
1264	Janta Swabhimani Party	Katghara Dehati, Haveli, Sadar, Jaunpur, Uttar Pradesh- 222002
1265	Jantantra Awaj Party	Poorvi Gumati Lakh No. 11, Post-Aara, District- Bhojpur, Bihar-802301
1266	Jantantra Party	3rd Floor, Taksal Theatres Building, Nadesar, Varanasi – 221002, Uttar Pradesh.
1267	Jantantrik Lokhit Party	Sushma Nawal Kunj, NTPC Colony, R.K. Nagar, Ward No. 32, Circle No. 8, P.O. Now Jaganpura, P.S. Rak Nagar, District-Patna, Bihar-800027
1268	Jantantrik Samta Party	H.No. 100, Ward No. 4, Ludhupara, Jaswant Nagar, Etawah, Uttar Pradesh- 206245
1269	Jantantrik Vikas Party	201, P.Mall, Second Floor, Exhibition Road, District-Patna, Bihar-800001
1270	Jantawadi Congress Party	161/B, Opp. Shivaji Garden, Swadeshi Mill Road, Chunabhatti (E), Mumbai, Maharashtra – 400037.
1271	Janvadi Party (Socialist)	B-32/2, Behind Jain Mandir, Nariya, Varanasi, Uttar Pradesh.
1272	Jateeya Sama Samajam Party	1-24, Dinnadevarapadu Village, Kurnool Mandal, Kurnool –District, Andhra Pradesh- 518002
1273	Jatiya Jana Sena Party	Door No. 1-9-290/B/A, Adikmet, Ramnagar Gundu, Lalita Nagar, New Nallakunta, Hyderabad, Telangana- 500044.
1274	Jatiya Mahila Party	6-3-B-922, N.G.O's Colony, Vanasthalipuram, Hyderabad, Telangana- 500070
1275	Jawan Kisan Awam Party	Nai Basti, Bahadurpur, Manjhapur, Thana- Jahangirabad, Post-Somaiya Nagar, Barabanki, Uttar Pradesh-225002
1276	Jawan Kisan Morcha	Qr. No. L.I.G.H.-1/7, Housing Colony, Dalpatpur (Chandva), Aara, Bihar-802312.
1277	Jay Hind Jay Bharat Party	N – 106, HIG Flat, Sanjay Nagar, Sector – 23, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1278	Jay Vidarbha Party	302, Kolbaswami Residency, Vithal Nagar, Opposite New Era English School, Uday Nagar Square, Manewada Ring Road, Nagpur, Maharashtra- 440034
1279	Jebamani Janata	No.33, Second Street, East Abiramapuram, Mylapore, Chennai-600004, (Tamil Nadu).
1280	Jharkhand Anushilan Party	Vill + Post – Jhilimili, P.S.– Barikul, Distt – Bankura, West Bengal – 722135.
1281	Jharkhand Azad Party	C/o Jaleshwar Karmali H. No. 153A, Khata No. 40, Plot No. 293, Mauj Hombai, Village – Hombai, Post – Nevri

		Vikas,Thana – Sadar Ranchi,District – Ranchi,Jharkhand – 835217
1282	Jharkhand Disom Party	12, Road No.21, Kadma Farm Area, Jamshedpur-831005, Jharkhand.
1283	Jharkhand Jan Kranti Morcha	House No. 36, Dinkar Nagar, P.O. – Hatia Railway Colony, PS – Jagarnathpur, Ranchi, Jharkhand.
1284	Jharkhand Janadhikar Party	Opposite Holi Cross School,Lalpur Peace Road, Ranchi – 834 001,Jharkhand.
1285	Jharkhand Ki Krantikari Party	23, Purvi Jail Road, Ranchi-1, (Jharkhand).
1286	Jharkhand Mukti Morcha (Ulgulan)	C/o - Shri Om Prakash Singh, Village & Post - Madhukam, Road No.4, Thana - Sukhdev Nagar, District - Ranchi, Jharkhand - 834001
1287	Jharkhand Party	Anand Suwani Niwas, Airport Road, Hinoo, Ranchi Jharkhand-834002.
1288	Jharkhand Party (Naren)	At-Raghunathpur, P.O.Jhargram,District- Midnapur-721507 (West Bengal).
1289	Jharkhand Party (Secular)	Village – Unideeh, Post – Raja Ulatu, Thana - Namkum, District- Ranchi, Jharkhand.
1290	Jharkhand People's Party	P.O.Laubasa, Jamshedpur, P.S. Gobind Pur, Distt. Singhbhum (East) (Jharkhand).
1291	Jharkhand Vikas Dal	273, Lake Avenue, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand.
1292	Jindabad Kranti Party	31/83A,3 rd Floor,Gali No.5,Bhikam Singh Colony,Vishwas Nagar,Shahdara,Delhi-110032
1293	Johaar Party	Village- Dadha Tand, P.O & P.S. Itki, District- Ranchi, Jharkhand- 835301
1294	Johar Chhattisgarh Party	10, 2nd Floor, Shaheed Veernarayan Singh Compound,Nagar Ghari Chowk, G.E. Road, Raipur, Chhattisgarh – 492001.
1295	Justice and Development Party	Vill. & P.O.-Ahiran,P.S.- Suti,Distt.-Murshidabad,West Bengal- 742223.
1296	Justice Party	Village- Diktan Khera, P.O- Harchandpur, District- Raebareli, Uttar Pradesh-229303
1297	Jwala Dal	H. No. 247B, Mo. Jangal Tulsiram,Post – Bichhia P.A.C. Camp,P.S. – Shahpur,Distt. – Gorakhpur-273014,Uttar Pradesh.
1298	Kalinga National Front	At-Parabil, P.O.-Kandarpur, Dist-Cuttack-754100, Odisha.
1299	Kalinga Sena	19A, Madhusudan Nagar, Unit-4, Bhubaneswar-751 001, Khurda, Orissa.
1300	Kalyan Karnataka Party	CTS No.4589/A,1st Floor,Shetty Galli,Belagavi,Karnataka- 590002
1301	Kalyana Kranthi Party	#57, 2 nd Floor, 3 rd Main Adithyanagar, 8 th Phase, JP Nagar, Bengaluru, Karnataka-560062
1302	Kalyana Rajya Pragathi Paksha	49/48, Kyalasanahalli, Kothanur Post, Bengaluru, Karnataka-560077.
1303	Kalyankari Jantantrik Party	B 4/260A, Keshavpuram, New Delhi - 110035.
1304	Kalyanwadi Party	16,Pandey Tola, Paintepur, Mahmudabad, Sitapur, Uttar Pradesh- 261203
1305	Kamarajar Deseeya Congress	7-Velayudha, Raja Street,Raja Annamalaipuram, Mandaveli, Chennai-600028 (Tamil Nadu).
1306	Kamarajar Makkal Katchi	52/6, Gandhi Salai, Chennai – 600042.
1307	Kamatapur People's Party (United)	Village & Post- Bhandani, P.S- Dhupguri, District- Jalpaiguri, West Bengal-735210
1308	Kamera Samaj Party	Ward No. 3,Lala Ka Purva,Shankargarh (Near Patti Devi School),Shankargarh,Post-Shankargarsh,District- Prayagraj,Uttar Pradesh- 212108.
1309	Kamgaar Kisan Party	Rahul Bhawan H.No.51 Manas Nagar,Ziyamau,Hazratganj,Distt.-Lucknow,Uttar Pradesh-226001
1310	Kamtapur Progressive Party	'Chilla Roy Bhawan' Village - Bidhanpally, P.O.

		Kadamtala, Distt. Darjeeling – 734433, West Bengal.
1311	Kannada Chalavali Vatal Paksha	154, Rangswamy Temple Street, Bangalore-560053 (Karnataka).
1312	Kannada Deshada Paksha	No. 20, Bandarlhalli Village, Kamasamudram Hobli, Bangarpet Taluk, Distt.-Kolar Karnataka- 563129.
1313	Kannada Paksha	No. 259/1, 1st Floor, Rangswamy Temple Street (Opp. to Jain Temple) Bangalore-560053 (Karnataka).
1314	Kanoon Raj Party	D-1/1045, Gali No.27, Harsh Vihar, Shahdara, Delhi-110093
1315	Kanshiram Bahujan Dal	Khata No. 208, Ka Arajai No. 159M/0.0810, Village- Ali Khanpur, P.S.- Line Bazar, Tehsil- Sadar, Pargana- Haveli, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222132
1316	Kanshiram Bahujan Moolniwasi Party	H. No.A-62/1-153, A Block Omaex City, Aurangabad Khalsa Janpad, Lucknow, Uttar Pradesh – 226025
1317	Karma Party	Shop No. – 1, HUDA Market, Leisure Valley Park, Opposite Kingdom of Dreams, Sector – 29, Gurgaon, Haryana - 122002
1318	Karnataka Janaseve Party	Old PID No.36, Khata No.151, Survey No.42, Kaveripura Main Road, No.587, Near Mahadeshwara, Temple Road, Ranganathapura, Kamkshipalya, Bengaluru, Karnataka-560079
1319	Karnataka Jantha Paksha	# 11, 12 th Main 17 th Cross, Malleshwaram, Bengaluru – 560055, Karnataka
1320	Karnataka Karmikara Paksha	No. 120, 1 st Floor, St. Johns Church Road, Near Coles Park, Bangalore, Karnataka-560005
1321	Karnataka Makkala Paksha	H.O. No. 09, Block-4 JSS Employee's Layout, Sathagalli, Nazarabad Mohalla, Mysore, Karnataka-570011
1322	Karnataka Pragnyavantha Janatha Party	No.23, 2 nd “A” Main Road, 7 th Cross, Muneshwara Layout, Srigandhanagar, Bengaluru, Karnataka – 560091
1323	Karnataka Praja Party (Raitha Parva)	Flat No. 104, Adith Apartment, SJCE Collage Road, Telecom Layout, Vagdevinagar, Mysuru, Karnataka-570009.
1324	Karnataka Praja Vikas Party	No. 15 Sampangiramaiah Layout, Sidedahalli, Yashwantpur Hobli, Nagasandra Post, Bengaluru North Taluk, Bengaluru District, Karnataka- 560073
1325	Karnataka Rajya Ryota Sangha	636, Ideal Homes Layout, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-560098 (Karnataka).
1326	Karnataka Rashtra Samithi	No.31/2, 8 th E Main, 4 th Block, Jayanagar, Bengaluru, Karnataka-560011
1327	Karnataka Samata Paksha	No. 718, S.Kalledar Plot, Tiriapur, Navalgund, District-Dharwad, Karnataka- 582208
1328	Karnataka Swabhimani Raithara Karmikara Party	Khatha Assessment No. 565/7782/6536, C.K.Pura, Main Road, Chitradurga, Karnataka-577501
1329	Karnataka Swarajya Party	No. 2082, Chidambar Krupa, Sai Nagar, Raibag, Dist-Belgaum, Karnataka – 591317.
1330	Karpoori Janta Dal	Rajeev Nagar, Road No. 15A, Post Keshari Nagar, Patna, Bihar-800024
1331	Kartavya Rashtriya Party	H. No. - 46, Lala Mohamadpur, Kankar Khera, Meerut, UTTAR PRADESH.
1332	Karunaadu Party	Sa-13/2, No:7 th Mallathahalli, Nanjappa Garden, Bangalore-560056 Karnataka.
1333	Karunada Sevakara Party	Door No. 2-6. Karodi House, Kenjar Village and Post, Mangalore Taluk, D. K. District, Karnataka-574142
1334	Karunadaga Thamizhar Katchi	No.15, Nidharsanam, JV.Shetty Road, Ramasamy Palya, MS Nagar Post, Bengaluru, Karnataka-560033
1335	Kashmir Development Front (J&K)	House No. 254 – Main Road, Near Post Office, Jawahar Nagar, Srinagar, Jammu & Kashmir.
1336	Kathor Shasan Party	75, B-3, Jatan, Bhagwati Bhawan, P.O. & District -

		Bijnor, Uttar Pradesh - 246701.
1337	Kendriya Janvikas Party	Plot No. - 179, Ayurvedic Layout, Bhande Plot, Umrer Road, Sakkardara, Dist- Nagpur, Maharashtra- 440024.
1338	Kerala Congress	67, Kumaranasn Nagar, Kadavanthara, P.O. Ernakulam, Kerala.
1339	Kerala Congress (B)	P.T. Chacko Smarka, Mandiram, S.S. Kovil Road, Thampanoor, Thiruvananthapuram-695001 (Kerala).
1340	Kerala Congress (Jacob)	Ward XIII, Building 346, T.B. Road, Kottayam (Kerala) - 686001
1341	Kerala Congress (Skariah Thomas)	Chingavanam in Building No. 711, Ward No.6, Kottayam Municipality, Kottayam, District- Kottayam, Kerala
1342	Kerala Congress Secular	Kerala Congress Secular State Committee Office, Bharath Building, Pulimood Jn., Kottayam - 1, (Kerala).
1343	Kerala Democratic Party	6/341, Pinakattu, Bharananganam, Choondacherry, P.O. Pala, Kottayam District, Kottayam-686579, Kerala
1344	Kerala Janapaksham (Secular)	T.C. 16/882(13), Sreekrishna Nagar, Jagathy – Post, Thiruvananthapuram, Kerala- 695014
1345	Kerala Janatha Party	Mulakulam Panchayath, Ward No. 12, Building No.2, Poozhikol P.O, Kaduthuruthy, Kerala- 686604
1346	Kerala Kamaraj Congress	Building No.- NMC XII/342D, Neyyattinkara, Thiruvananthapuram, Kerala- 695121.
1347	Kerala Pravasi Association	Kanjiramattathil (House), No.11/585P, Maloth, Darkhas, Kasargod, Kerala- 671533
1348	Kerala Revolutionary Socialist Party (Leninist- Marxist)	No. 19/1347, Sasthamcotta Gramapanchayath, Kollam, Kerala- 690521
1349	Kerala Vikas Congress	EP. III/468, Eruvessi Village, P.O- Chemperi, Taliparamba Taluk, Kannur District, Kerala.- 670632
1350	Khandesh Vikas Congress Party	Building No.2, 15/16, First Floor, Khandesh Mill Shopping Complex, Jalgaon – 425 001.
1351	Khatiyani Jharkhandi Party	Village-Hombai, Post-Neori Vikas, P.S.-Sardar, OP Mesra, Ranchi-Jharkhand-835217
1352	Khun Hynnietrip National Awakening Movement	Jaiaw Lower Lansonlane, House No.32 & Ward No.14 and holding No.65, Shillong, East Khasi Hills District, Meghalaya - 793002
1353	Khushhal Kisan Party	House No.- 125, Anaj Mandi ke Paas, Nagar Road Deeg, Tehsil- Deeg, District- Bharatpur, Rajasthan- 321203
1354	Khusro Sena Party	I-4/95, Sashtri Nagar, District- Bareilly, Uttar Pradesh.
1355	Kisan Adhikar Party	A/1-104, First Floor, Suryanjali Residency, Opp. Sanskar Residency, Cross Road, Amroli, Surat, Gujarat- 394107
1356	Kisan Kranti Dal	Nangla Sukhdev, Neemkhera – Jalesar, Distt: Etah (Uttar Pradesh).
1357	Kisan Majdoor Berojgar Sangh	Village-Jaitpur, Post-Phaphund, Oraia, Uttar Pradesh
1358	Kisan Majdoor Praja Party	A X - 223/224, Rajharsh Colony, Nayapura, Kolar Raod, Bhopal, Madhya Pradesh.
1359	Kisan Majdoor Suraksha Party	House No. 45, Village- Kheria Hairat Khan, PO- Kulwath, Tehsil- Gabhana, District- Aligarh Uttar Pradesh-202001
1360	Kisan Mazdoor Sangharsh Party	Bharosa City, Village-SarosaBharosa, Post- Maunda, Block-Kakori, District- Lucknow, UTTAR PRADESH – 226008
1361	Kisan Party (Loktantrik)	Srikrishna Chikistalaya, Sida, Sata Hariya, Post- Pawara, District- Jaunpur Uttar Pradesh- 222202
1362	Kisan Party of India	Ward No. 01, Janakpur Road, Nageshwar Sthan, P.S- Pupri, District- Sitamarhi Bihar -843320.
1363	Kisan Raj Party	Junior L.I.G. 358, Vindhya Vihar Colony (Padra), District- Rewa, Madhya Pradesh- 486001
1364	Kisan Raksha Party	529/A & New House No.807, Pathoriyan Outside

		Datiya Gate, Tehsil & District- Jhansi, Uttar Pradesh-284001
1365	Kisan Samaj Morcha	Bichola Bhood, Post – Patriya, Tahsil – Gunnaur, Badayun, Uttar Pradesh.
1366	Kisan Samaj Party (S)	Jhinnaपुर, Post – Dhakherva Nankar, Tehsil – Nighasan, Distt. – Lakhimpur (Khiri), Uttar Pradesh.
1367	Kisan Sangharsh Samiti	Chhariari, Makhdumpur, Jahanabad, district- Jahanabad, Bihar-804422
1368	Kisan Sena	101, Koliyan Vishungarh Road, Chhibramau, Kannauj, UTTAR PRADESH.
1369	Kisan Shakti Jantantrik Party	H.No. 12/445, Majhola Awas Vikas, Tehsil-Sadar, Distt.- Muradabad, Uttar Pradesh.
1370	Kisan Vishwa Party	Village & Post-Safipur, Thana-Devan, District- Barabanki, Uttar Pradesh-225301
1371	Kishore Raj Party	L-2/601, Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
1372	Kongu Desa Marumalarchi Makkal Katchi	301/14, Alagarasan Nagar, Pachampalayam, Anthiyur, Erode, Tamil Nadu – 638501.
1373	Kongunadu Ilaiginar Padai Katchi	D.No.2/38, Janani Garden, Allikulam, Nagamma Puthur (PO), Sathi Road, Annur, Coimbatore District, Tamil Nadu-641653
1374	Kongunadu Makkal Desia Katchi	No. 5/54, East Street, Post - Kokkarayan Pettai, Taluk - Tiruchengode, District - Namakkal, Tamil Nadu-638007
1375	Kosal Janata Dal	Plot No-JC-02, Phase-01, Chhend Colony, Rourkela, District- Sundargarh, Odisha- 769015
1376	Kosal Kranti Dal	Telephone Exchange Road, Rugudi Para, Balengir – 767 001, Orissa.
1377	Koshal Mukti Morcha	Railway Station Road, Titilagarh, District-Bolangir, Odisha.
1378	Kranti Janshakti Party	1058, Yadav Pura, In front of Purani Vidhan Sabha, Ward No. 34, Zone No.8, Tehsil – Hujur, Bhopal, MADHYA PRADESH
1379	Krantikari Jai Hind Sena	C/o Advocate R.N. Kachave, Near Devi Prasad Hotel, M.I.D.C., Central Road, Andheri (E), Mumbai-400093, Maharashtra.
1380	Krantikari Kisan Sena	C-221, Old Meenal Residency, Raj Homes, J.K. Road, Bhopal-462023, Madhya Pradesh.
1381	Krantikari Parivartan Party	Devyani Marg, Near Sixway Bypass, Ashok Nagar (East), Etawah, Uttar Pradesh-206001
1382	Krantikari Samyavadi Party	MLA Flat No.26, Veerchand Patel Path, Patna. (Bihar).
1383	Krantikari Shetkari Party	Shop No. 20, Tirupati Complex, Sonai- Rahuri Road, Sonai, Taluka- Newasa, District- Ahmednagar, Maharashtra- 414105
1384	Krantikari Swaraj Dal	Vill-Mavaiya Kalan, Post Naaribaari, Thana Shankargarh, Tehsil Bara, District Prayagraj, Uttar Pradesh-212106
1385	Krantikari Vikas Dal	78/09C, Mohalla- Birsa Adivasi Colony, Post- Guljarbagh, P.S.-Alamganj, Distt.- Patna-800007, Bihar.
1386	Krantikari Yuva Party	H.No. 318, Old Rohtak Road, Gujjar Gujjar Gali, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi- 110035.
1387	Krishak Bharti Party	Shop No. 841, Gali No. 11, Haripur, Sectore- 4, Panchkula, Haryana- 134112
1388	Krupaa Party	Plot No. 452, Khata No. 69, Santi Vaban, Village- Pahana, P.O- Tikanpur, G.P- Ramchandrapur, P.S- Patakura, District- Kendrapara, Odisha- 754153
1389	Kuki National Assembly	Grace Cottage, Paiteveng, Kwakelthel, P.O. Imphal, Pin-795001, (Manipur).
1390	Kuki People's Alliance	Little Woods, Rengkai Road, Zhenhang Lamka, Churachandpur, Manipur, India -795128
1391	Kunbi Bahujan Sawrajya Party	H. No. 114, A-2, Village & Post Khadi Lolvan, Taluka- Sangameshwar, District-Ratngiri, Maharashtra- 415801

1392	Kushal Janta Party	Pupri, Ward No. 2, P.O.-Janakpur Road, District-Sitamarhi, Bihar-843320
1393	Labour Party (Secular)	382/4, Gali Hardev, Sant Nirankari Colony, Delhi-110009.
1394	Labour Party of India	H.No.A-63, New Gopal Nagar Extension, Nanak Piau, Rama Public School Road, Gali No.4, Nazafgarh, New Delhi-110043
1395	Lakshya Ghar Ganatantrik Party	Puruni Basti, Chowkidarpada, P.O.- K.M.Road, Jharsuguda-2, Dist. – Jharsuguda, Odisha
1396	Latchiya Jananayaka Katchi (LJK)	No. 18, Aravind Bliss, Amman Kovil, First Cross Street, Srinivasa Nagar, Perungalathur, Chennai, Tamil Nadu – 600063
1397	Laukik Samaj Party	C/o Chitra Convent School, Village – Deopar (Veersinghpur), P.O. Madanpur, Tehsil – Barhaj, District – Deoria, Uttar Pradesh- 274205
1398	Liberal Democratic Party	Village – Santipur (Mirza), Post Office – Mirza, Police Station – Palashbari, District – Kamrup, Assam - 781125.
1399	Liberal Party of India	6/12, Sarvapriya Vihar, New Delhi- 110016.
1400	Liberal Socialist Party	Opp. Gurudwara Sahib, H. No. 82, MITC Colony, By Pass Road, Sirsa, Haryana - 125055
1401	Liberation Congress Party	Prathur(v), Gundimeda Village, Tadepalli, Guntur District, Andhra Pradesh-522501
1402	Log Jan Party - Secular	Shivpuri, Navchetna Path Anisabad, Patna, Bihar-800002
1403	Log Party	33/2, Stanley Road, Allahabad, Uttar Pradesh- 211001.
1404	Lohia Sanyukta Samajwadi Party	H-Block, H.No. – 359, Sector – 9, Old Vijay Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1405	Lohiya Janta Dal	Ward No.4 Nh31 near School Gulab Bag, Barh, Patna - 803213
1406	Lok Adhikar Lehar Punjab Party	Opposite Civil Hospital, Talwandi Sabo, District Bathinda, Punjab-151302
1407	Lok Awaz Dal	Holding No. 20/11, Circle No. 264, Ambedkar Chowk, Vishnu Puri, Patna-800002, Bihar.
1408	Lok Bandhu Party	1/4908, Khasra, No.192/163/179, Gali No.6, Balbir Nagar Extn., Shahadara, Delhi-110032
1409	Lok Bhalai Party	5-FF, Raj Guru Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana, Punjab.
1410	Lok Bharati	A/702, Vedant Unnat Nagar No. 2, Goregaon (W) Mumbai- 400062.
1411	Lok Chetna Dal	Village - Pakari Jalal, P.O. – Shubhankarpur, District – Muzaffarpur, Bihar – 843113.
1412	Lok Dal	Central Office, 8, Mall Avenue, Lucknow (Uttar Pradesh).
1413	Lok Ekta Party	S-8/188, Sudhakar Road, Khazuri Cant., Varanasi – 221 002, Uttar Pradesh.
1414	Lok Gathbandhan Party	No. B – 16-A, Basement of Alisha Apartment (Utraula House, 27/6, Ram Mohan Rai Marg) Madan Mohan Marg, Near Krishi Bhawan, 3 Way Road, Lucknow, Uttar Pradesh - 226001
1415	Lok Hit Rashtriya Vikas Party	Grain Market, Longowal, District – Sangrur, Punjab.
1416	Lok Insaaf Party	B-XXVII/208/403-D/5 Guru Ramdaas Complex, Dugri Road, Ludhiana Punjab - 141001.
1417	Lok Jan Samaj Party (Bharat)	Village Rehara, Post - Nipaniya, Thana Parsa Malik, Tehsil - Nautanwa, Distt. - Maharajganj, Uttar Pradesh-273164
1418	Lok Jan Sangharsh Party	Village- Jamunaha, Post- Sounkhia, Vikas Khand Bankeganj, District- Lakhimpur Khiri, Uttar Pradesh- 262802
1419	Lok Jan Vikas Morcha	Kachahri Road, Thana-Kotwali, PO. Ranchi, Zila-Ranchi-834001, Jharkhand.
1420	Lok Kalyan Party	No. 4 th F/403, Akashrath B/H Ratnam Op. C G

		Road,Ahemdabad,Gujrat – 380009
1421	Lok Manavadhikar Party	C. 32/27-16A, Vidyavihar Colony, Chhittupur, Varanasi-221002, Uttar Pradesh.
1422	Lok Nirman Dal	2, Aradhana Enclave, Surakhpur Marg, Phase-II, Delhi.
1423	Lok Parivartan Party (DC)	Bhapra Road, opposite Police Chowki, G.T. Road, Samalkha District-Panipat, Haryana.
1424	Lok Raksha Party	Village & Post Office Sirsa, District – Etawah, Uttar Pradesh.
1425	Lok Rashtriya Party Secular(S)	Avantibai Nagar Bhogaon, Distt.-Mainpuri Uttar Pradesh- 205262
1426	Lok Sahas Party	H.No. 6307, Katara Complex. Main Road, Jintur, Near Police Station, Jintur, Near Hanuman Temple, Jintur, parbani Maharashtra-431509
1427	Lok Samaj Party	B-1756, Gali No. 25, First Pushtha, Sonia Vihar, Delhi-110090
1428	Lok Samya Party	Plot No. 179, Ramchandrapur R.C. Thakurani, P.O. Haridevpur, Kolkata - 700104
1429	Lok Sangharshsheel Party	Premises No.1004Z0864894, Shastrinagar Chotila, Tal. Chotila, District-Surendranagar, Gujarat- 363520
1430	Lok Satta Party	Flat No.801, Srinivasa Towers, Beside ITC Kakatiya Hotel, Begumpet, Hyderabad-500016, Telangana’.
1431	Lok Sena Party	Ahmed Nagar Road, House No.1-4-2956, Gulshan Nagar, Balepir, Beed, Maharashtra- 431122
1432	Lok Sewa Dal	Post: Badhiya, Tehsil: Lakhi Sarai, Bihar-811 302.
1433	Lok Shahi Party (Secular)	187-H, 6/2, Jivan Nagar, Near Ashram Chowk, Opposite Maharani Bagh Bus Stand, New Delhi-110014.
1434	Lok Shakti Party (Loktantrik)	House No.2,3 rd Floor, Shakarpur Khass, Delhi-110092
1435	Lok Swarajya Party	Premlata Govindrao Bramhankar, Ward No. -5, Village-Sangadi, P.O.-Sangadi, Tehsil-Sakoli, Distt.-Bhandara, Maharashtra- 441802.
1436	Lok Vikas Manch	Shop No. - 159, 2 nd Floor, Shopping Centre, Near R-World Cinema, Sector – 21, Gandhinagar, Gujarat .
1437	Lokataantrik Janaadhaar Party	T-43, Ground Floor, Punjabi Basti, Baljeet Nagar, New Delhi-110008
1438	Lokhit Adhikar Party	94-HIG, Brij Vihar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201011
1439	Lokjagar Party	Plot No.17, Mehfil, Sanmarg Nagar, Hudkeshwar Road, District- Nagpur, Maharashtra- 440034
1440	Lokjan Socialist Party	C/o Varsha Netralaya, Village and Post-Phoolpur Bazar, Tehsil- Pindra, P.S.-Phoolpur, Varanasi, Uttar Pradesh-221205.
1441	Lokpriya Rashtrawadi Party	Village – Madhayana, Post- Sikrara, Peepal Chowki, Agra Road, Tehsil – Fatehabad, Agra, Uttar Pradesh -283111
1442	Lokpriya Samaj Party	Prajapati Dharmshala Mandir Shri Kalkaji, Nehru Place, New Delhi-110019.
1443	Lokpriya Samta Party	Alpha Tutorial, Behind Sudha Dairy, Katari Hill Road, Shantibagh, New Karimganj, PS-Civil Line, PO-Karimganj, District-Gaya, Bihar-823001
1444	Lokrajya Janata Party	No. 1001A/1B, Plot No. 58, A Ward, Laxmitek Colony, Sane Guruji Vasahat, Kolhapur, Distt.-Kolhapur, Maharashtra-416012
1445	Lokrajya Party	A-115/35/1, N-9, Shivneri Colony, Dr. Babasaheb Ambedkar Chowk, CIDCO, Aurangabad, Maharashtra-431001
1446	Loksangram	H.No. 1321, Lane No.4, Dhule – 424001, Maharashtra.
1447	Lokshahi Ekta Party	202, Y ardhman Galaxy, Naviwad I, Off. Dadi Seth Agyari Lane, J.S.S. Road, Mumbai 400002, Maharashtra
1448	Lokshahi Nirman Party	No. 6, Prime Rose, Queens Park, Behind Deepak Hospital, Mira Bhayandar Road, Mira Road, District-

		Thane, Maharashtra- 401107
1449	Lokshahi Party	No.B-705, Omkar Veda CHS, Near Ambedkar Colony, Eknath Ghadi Marg, Parel East, Mumbai, Maharashtra-400012.
1450	Lokshahi Satta Party	'Panchvati' Boradipa, Near Ramaji Mandir, Bavla, Taluk – Bavla, District – Ahmedabad, Gujarat - 382220.
1451	Lokshakti Vikas Party	Udantpuri (Killapar), Bihar Sharif, Nalanda, Bihar-803101
1452	Lokshasan Andolan Party	259, Village Guha, Tal. Rahuri, District – Ahmednagar, Maharashtra – 413705.
1453	Lokshasan Party of India	S.No. 67, Plot No. 25, Pratik Building, Flat No. 3, Vidyanagar, Pune -411032, MAHARASHTRA.
1454	Loktanter Suraksha Party	H. No. 568, Sector - 3, Urban Estate, Kurukshetra - 136118, Haryana.
1455	Loktantra Congress Party	E-1, 21/7, New Rajendra Nagar, P.O. Ravigram, Raipur, Chhattisgarh.
1456	Loktantra Jagrut Party	C-410, Sumel Business Park 7, Near Soni Ni Chali Rakhial, Ahmedabad, Gujarat - 380023
1457	Loktantra Kalyan Party	Vill.- Khirikone, Post-Tar, P.S.- Agiawan Market, Block-Piro, District-Bhojpur, Bihar-802207
1458	Loktantra Vikas Party	Village & Post Shahpur Bamhaita, Thana Kavinagar, Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201009
1459	Loktantrik Jan Swaraj Party	Savita Sadan, Dhumnagar, (Kachari Tola), Post- Belbag (Bettiah), Thana- Nautan, District- West Champaran, Bihar-845438
1460	Loktantrik Janata Party (Secular)	Main Road, Firozpur, Post Office-Aander, Distt.- Siwan, Bihar-841231.
1461	Loktantrik Janshakti Party	H. No. 107, Keshar Colony, Haldauni, Greater Noida, District – Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh- 201306
1462	Loktantrik Janta Dal	H.No. 861 P, Sector- 15, Part –II, Gurugram, Haryana-122001
1463	Loktantrik Janwadi Party	S- 25/51A-9B-1, Gautam Bihar Colony, Sarsauli, District- Varanasi, Uttar Pradesh- 221002
1464	Loktantrik Lok Rajyam Party	Banker's Colony, Laxmisagar, Ward No. 01, Near Vision School, Darbhanga, Bihar – 846009
1465	Loktantrik Manavatavadi Party	Shop No. 5, SD 366, Shastri Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1466	Loktantrik Party of India (Democratic)	No.103 (Circle No.189, Holding No.101/1,94/86), Bhitri Begampur, Patna City, Patna, Bihar-800009
1467	Loktantrik Rashtravadi Party	E-2, Old Society, Near Saijpur Railway Station, Saijpur Bogha, Ahmedabad, Gujarat- 382245.
1468	Loktantrik Samajik Nyay Party	C-32, Anand Niketan, New Delhi-110021
1469	Loktantrik Samajwadi Party	27-A, D.D.A.Flats, Mata Sundri Road, New Delhi-110002.
1470	Loktantrik Samata Dal	D-104, Daroga Prasad Rai Path, Patna-800 001. (Bihar).
1471	Loktantrik Sarkar Party	C/o P.K. Kharia, Advocate, Shatabdi Chember No. 1, District Court, Mandla – 481 661, Madhya Pradesh.
1472	Loktantrik Sarvjan Samaj Party	B-103, Sapna Apartment, Ramnagari, Ashiyana Nagar, Patna-800025 Bihar.
1473	Loktantrik Yuva Shakti Party	No.5, HIG-160, 100 Feet Road, Nehru Enclave, Agra, Uttar Pradesh -282001.
1474	Maa Telangana Party	8-2-540/4, Road No.4, Banjara Hills, Hyderabad, (Andhra Pradesh).
1475	Maa Tharam Party	At -302, 2 nd Floor, Innovative Saanvi Elite, Doddathogur, Opp. Krishna Mist, Apt. Pragathi Nagar, Chikka Thoguru, Doddathogur, Bengaluru, Karnataka-560100.
1476	Maanavvaadi Janta Party	Village- Dogi, Post Office- Gorour, P.S. – Chhabilapur, Via – Rajgir, District- Nalanda, Bihar-803116.
1477	Madhya Pradesh Jan Vikas Party	New Ward No. 72, H. No. 4872, Plot No.123, Phase – 2, Star City, Katangi Road, Jabalpur, MADHYA PRADESH.

1478	Madhya Pradesh Nav Nirman Sena	2983, Prince Colony, New Kanchanpur, Adhartal, Jabalpur-482004. Madhya Pradesh.
1479	Mahabharat Rashtra Party	330, Tradesquare, Safal Parishkar, Khokhara Circle, Maninagar East-Ahmedabad, Gujarat-380026
1480	Mahabharath Mahajan Sabha	Plot No. 10, Vivekananda Nagar, Inner Ring Road, Kolathur, Chennai-600099 (Tamil Nadu).
1481	Mahajana Mandali Party	H. No. 1-8-27/20, GHMC-1483, Street No. 12, Chikkadpally, Hyderabad, Andhra Pradesh – 500020.
1482	Mahajana Rajyam Party	7/347-2P-A3, Simhapuri Colony, 4th Road, Near RTC Bus Stand, Kadapa – 516002, Kadapa District, Andhra Pradesh.
1483	Mahajana Socialist Party	Door No. 1-14-297/1, Balamrai, Rasoolpura, Secunderabad, Hyderabad, Andhra Pradesh
1484	Mahakaushal Rashtriya Party	Jaiswal Colony, Chhapra, Jila Seoni, Madhya Pradesh-480884
1485	Mahakranti Dal	Village-83 Awahadpur, Post- Koilari, Tehsil and Paragna- Kerakat, District- Jaunpur, Uttar Pradesh-222148.
1486	Mahamukti Dal	Village Usarav, Post Office – Itayen, Tehsil – Mariahu, District - Jaunpur, Uttar Pradesh.
1487	Mahan Bhartiya Sangathan Party	Village & Post- Jangral, Police Station- Vagdod, Tehsil- Saraswati, District- Patan, Gujarat.
1488	Mahan Dal	A-218 D, Dhiraj Nagar Extn., Atmadpur, Near Fauji Dhaba, Sector-30, Faridabad, Haryana.
1489	Mahan Samtawadi Party	H. No. 571, Gali No. 10, Adarsh Colony, Bihariपुर, Near Khilluram Academy, Vijaynagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201009
1490	Mahanwadi Party	Village & Post – Kutubpur Chanora, District – Firozabad, Uttar Pradesh.
1491	Maharana Kranti Party	H. No. 698, Ward No. 14, Opposite Baba Ramdev Mandir, Purani Abadi, Sriganaganagar, Rajasthan.
1492	Maharashtra Bahujan Sanman Party	At Keskarwadi, Post Bhalawani, Tal. Pandharpur, District-Solapur, Maharashtra- 413310.
1493	Maharashtra Bahujan Vanchit Agadi	10 B, Karanje Turf, Plot No. 7, Satara, Maharashtra – 415002.
1494	Maharashtra Jankalyan Party	Shop No. 9, Punjani complex, Main Road, Kannaaji, Karanja(LAD). District-Washim, Maharashtra-444105
1495	Maharashtra Kranti Sena	W.No. 20, Ho. No. 920, Plot No. 58, Mahavir Housing Society, Near Gujrati Bhavan, Ichalkaranji, Tehsil- Hatkanangale, District- Kolhapur, Maharashtra- 416115
1496	Maharashtra Lokhitwadi Party	Moja Lendave Chainchale, Tal. Mangalwedha, Dist.- Solapur, Maharashtra-413305
1497	Maharashtra Parivartan Sena (T)	Village – Mangvadgaon, Taluk – Kej, District – Beed, Maharashtra
1498	Maharashtra Swabhimaan Paksh	Sukhsagar Real Estate Pvt. Ltd., 101, Sai Pooja, 1 st floor, 16 th Road, Near Hotel Mini Punjab, Bandra (West), Mumbai, Maharashtra- 400050
1499	Maharashtra Vikas Aghadi	Govindagraj Sadan, Shyam Nagar, Latur, Maharashtra.
1500	Mahasankalp Janta Party	Shop No. 22, Sun Shine Complex, Refinery Road, Panchvati Gorwa, Vadodara, Gujarat – 390016
1501	Mahathma Makkal Munnetra Kazhakam	Old No. 56/11-N, New No. 24, Dr. Ambedkar Nagar, Railway Road, Kanchipuram District, Tamil Nadu-631502
1502	Mahatma Gandhi National Labour Party	3/366 G, Kuthukal Street, Paramakudi, Ramanathapuram District, Tamilnadu - 623707
1503	Mahatma Makkal Sevai Periyakkam	Office No. 45, Suba Agila Nagar, Airport – PO, Tiruchirappalli, Tamil Nadu – 620007
1504	Mahila & Yuva Shakti Party	H. No. 45, New Abadi, Sector- 23, Tehsil- Sonipat, District- Sonipat, Haryana- 131001
1505	Mahila Mazdoor Kisan Party	Vill.-Ruknapur, P.O.-Madhoganj, Distt.- Hardoi, Tehsil- Bilgram, Utar Pradesh-241302

1506	Mahila Pradhana Paksha	1261, 16 th Main, 20 th Cross, A Block, Sahakara Nagara, Bangalore - 560092, Karnataka.
1507	Mahila Sashaktikaran Party	UGF- 63, Udyan Plaza, Utrathiya, Raibareili Road, Lucknow, Uttar Pradesh - 226025
1508	Mahila Swabhiman Party	Village—Gumati No. 5, Sarai Karora, Gosainganj, District – Lucknow, Uttar Pradesh - 227125.
1509	Mai Hee Bharat	2A, “Royal” Hastings Park Road, Kolkata, West Bengal.
1510	Maidani Kranti Dal	Headquarters Masjid Wali Gali, Mazra, Dehradun (Uttaranchal).
1511	Majdoor Kisan Akali Dal	Village – 75 GB, Post Office – 72 GB, Via Ramsinghpur, Tehsil – Anoopgarh, Distt. – Ganganagar, Rajasthan.
1512	Majdoor Kisan Union Party	459/1, Moh. Sarvat (Basant Vihar), Post Office-Khas, Distt. & City-Muzaffarnagar, Uttar Pradesh – 251 001.
1513	Majlis Bachao Tahreek	16-4-593/A, Chenehalguda, Hyderabad-500024 (Andhra Pradesh).
1514	Majlis Markaz-e-Siyasee Party	10-5-391/54/182/A, Ground Floor, Kashan-e-Ghousia Aleem, Sayed Nagar, Opp: 95A, MLA's Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad – 500028, Andhra Pradesh .
1515	Majloom Samaj Party	Village – Maudkhurd, Tehsil – Mawana, District – Meerut, Uttar Pradesh, Pin Code – 250404
1516	Makkal Aalum Arasiyal	No.2,N.S.K. 1 st Street, Nelvayal Nagar, Perambur, Chennai, Tamil Nadu- 600011
1517	Makkal Arasial Katchi	3/463 Paalkara Duraisamy Vattam, G P. Polytechnic Near .G.P. Nagar, Palnangkuppam Village, Elagiri Post, Tirupattur Taluk, Vellore District, Tamil Nadu – 635601
1518	Makkal Desiya Katchi	137, Kakkan Colony, Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu – 600034
1519	Makkal Kootamaipu Katchi	No. 348A, Cape Road, Ettukadai Bazar, Near T.M.B. Bank, Edalakudy, Kottar Post, Vaiveeswaram Village, Agasteeswaram Taluk, Nagercoil, Kanyakumari District, Tamil Nadu - 629002.
1520	Makkal Masotha Katchi	No. 480, R.K.V. Compound, Thethakudi, Kathiruppu Post, Sirkali TK, Nagapattinam District, Tamil Nadu- 609109
1521	Makkal Mempattu Kazhagam	No. 2/4A, North Street, Veera Reddy Kuppam, Pazhayapattinam Post, Viruthachalam Taluk, Cuddalore-Dustt., Tamil Nadu - 606104
1522	Makkal Munnetra Congress	No. 12, 1 st Cross Street, Balaji Nagar, Puducherry- 605013
1523	Makkal Munnetra Katchi	No. 62/77, Perumal Puram, Kamaraj Nagar, 2 nd Street, Bhavani, Erode-District, Tamil Nadu- 638301
1524	Makkal Munnetra Peravai	Door No. 61E, Pondy Road, Koliyanur Village, District – Villupuram, Tamilnadu – 605103
1525	Makkal Nala Kazhagam	No. 30, Ward-2, Nethaji Nagar, Thathanavalasai, Kodumapalli Post, Tiruppattur Taluk, Tirupattur Distt., Tamil Nadu- 635653.
1526	Makkal Nalvaazhvak Katchi	Flat No. G3, Vetri Flats, No. 7 (Old No. 3A), Kaveri Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai, Tamil Nadu- 600093
1527	Makkal Needhi Maiam	New # 4 Old# 172, Eldams Road, Alwarpet, Chennai, Tamil Nadu- 600018
1528	Makkal Neethi Katchi- India	No. 112 A3, Vaddakku Theru, (Parveen Complex), Ground Floor, Trichy Main Road, Thuraimangalam Post, Taluk & District- Perambalur, Tamilnadu- 621220.
1529	Makkal Rajjiyam Katchi	No. 1/427, Kadur Main Road, Puthuvettaikudi Post, Kunnam Taluk, Perambalur District, Tamil Nadu- 621716.
1530	Makkal Sakthi Katchi	New No. 41, Old No. 15, Bazaar Lane, 2nd Floor, Anna

		Salai, Saidapet, Chennai –600015, Tamil Nadu.
1531	Makkal Sananayaga Kudiয়ারasu Katchi	No.3/123, Gengai Amman Kovil Street, South Malayambakkam Village, Kunrathur, Chennai, Tamil Nadu – 600069.
1532	Makkal Sevai Katchi	No. 10, Balaji Nagar, Ernavoor, Chennai, Tamil Nadu-600057
1533	Makkal Thilagam Munnetra Kazhagam,	D. No. 6/431-Punnaiyapuram, Chokkampatti, Kadayannallur Taluk, Tenkasi, Distt.-Tirunelveli, Tamil Nadu- 627855.
1534	Makkalatchi Katchi	No. 57,Jagajeevanram Street, Parumbu Alwarkurichi, Ambasamuthiram Taluk, Thirunelveli District, Tamil Nadu- 627412.
1535	Makkalatchi Munnetra Kazhagam	5/187, Dr. J.J.Street, Kaspapuram, Agaramthem, Chennai, Tamil Nadu- 600126
1536	Malwa Congress	133 Sneh Nagar,Sapna-Sangeeta Road,Indore,Madhya Pradesh- 452001
1537	Mana Desam Party	A1, 1 st Floor, Ananta Sai Apartments, Vivekanand Nagar Colony, Kukatpally, Hyderabad, Andhra Pradesh-72
1538	Mana Telangana Rashtra Samaikya Party	MIG OG Block Ist Floor No.6,Bhaglingampally,Above Apollo Pharmacy,Opp.TSSPDCL,Office and Electric Substation,Near Sundaraiah Vignana Bhavan and Park,Hyderabad,Telangana-500044
1539	Manav Adhikar Raksha Party	36 Daryasthan Street, Ground Floor, Office No.3, Katawala Bldg. (Gopmani Chambers), Mumbai, Maharashtra – 400003.
1540	Manav Awaz Party	Mohalla – Nalapur, Ward No. 6, Narnaul, District – Mahendergarh, Haryana- 123001
1541	Manav Ekta Party	Dadusingh Colony, Plot No. 53, Sirpur,District – Dhule,MAHARASTRA.
1542	Manav Hit Party	575/1, Sector-24, Tubewell Colony, Agra Road, Etah, Uttar Pradesh- 207001
1543	Manav Jagriti Manch	552, Bank Colony, Devli Village,New Delhi – 110062.
1544	Manav Kalyan Manch	Sa. 6/186, M.X. – 1.Aktha, Varanasi, Uttar Pradesh.
1545	Manav Kranti Party	New Sarrafa Bazar, Nagar Panchayat Khaga, Ward No. 11, District- Fatehpur, Uttar Pradesh- 212655
1546	Manav Mukti Morcha	Hameedganj Ward No. – 13,Ahead the Patthar Mill,PO. Medini Nagar – 822 101,Distt. Palamu (Jharkhand).
1547	Manav Samadhan Party	21,Sukhi Sewania,P.O-Sukhi Sewania,Tehsil-Huzur,District-Bhopal,Madhya Pradesh-462010
1548	Manav Sangharsh Party	H. No.-54,Village & Post-Mania,Block-Bhadora,Distt.-Gazipur,Raebareli,Uttar Pradesh- 233001
1549	Manava Party	G-23, Eureka Towers,Kittur, Chennamma Circle, Hubli-580029 (Karnataka).
1550	Manavadhikar Congress Party	H. No. 26,Joshi Tola Kheri Town-1,P.S.-Kheri,Tehsil-Lakhimpur,District-Kheri,Uttar Pradesh-262702
1551	Manavadhikar Janshakti Party	J-6/7-B-D, Near Police Station,Jaitpura, Varanasi, Uttar Pradesh-221001
1552	Manavtawadi Kranti Dal	Manav Bhawan, Kullikhera, Ahmamau, Post – Arjunganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
1553	Manavtawadi Samaj Party	638/307, Village – Jarahra,Indira Nagar,Lucknow - 05, Uttar Pradesh.
1554	Mang Samaj Party	Village-Pahdullam (Pahdevajeet),Post-Ratanpur,Thana-Haldharpur,Sadar Mau,District-Mau,Uttar Pradesh-221706
1555	Manipur Democratic People`s Front	Lairik Yengbam Leikai(South),Opposite-33KV Electric Sub-Station,Near K.M. Tower, Tirupati Lane,Imphal East - 795010Manipur.
1556	Manipur National Democratic Front	Koijam Apartment, VIP Colony-107/109, Babupara, Imphal West, Manipur- 795001

1557	Manipur People's Party	People's Road, Imphal 795001 (Manipur)
1558	Manitha Urimaigal Kalaagam	14/41, Goods Shed Street, Madurai-625001 Tamil Nadu.
1559	Manithaneya Jananayaga Katchi	124, Kamarajar Road, Moula Complex, First Floor, Ilayangudi, District - Sivagangai, Tamil Nadu- 630702.
1560	Manithaneya Makkal Katchi	3rd Floor, No. 6, Vada Maraicoir Street, Chennai-600001, Tamil Nadu.
1561	Mannin Maithargal Kazhagam	No.-62, Ward-4, Santhanampattu, Kamaraj Street, Manampathy(PO), Thiruporur Taluk, Chengalpattu District, Tamil Nadu-603103
1562	Manuvadi Party	201, Birhana Pandeyganj, Subhash Marg, Lucnow-226004, Uttar Pradesh.
1563	Manvadhikar National Party	12, 2nd Floor, Swagat Complex, Rambaug Road. Maninagar, Ahmedabad, Gujarat- 382443
1564	Manviya Bharat Party	Village & Post – Rampur Naddi, Tehsil – Madhiyahu, District – Jaunpur, Uttar Pradesh - 222105.
1565	Maraland Democratic Front	Saiha-796901, Chhimituipui District (Mizoram).
1566	Marathwada Janta Paksha	Mauje Pakhar Sangvi, Gut No. 39, Near of Sant Tukaram Vidyalaya, Tq. & District - Latur, Maharashtra – 413512.
1567	Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam	'THAYAGAM' No. 141, Rukmani Lakshmi Pathi Salai, Egmore, Chennai-600008 (Tamil Nadu).
1568	Marumalarchi Janatha Katchi	62/5, Pillayar Kovil Street, Pappireddipatti- PO & TK, Dharmapuri- District, Tamil Nadu- 636905
1569	Marxist Communist Party of India (United)	# 1-8-742/2/3, Bagh Lingampally, Achaiah Nagar, Hyderabad-500044, Telangana
1570	Marxist Leninist Party of India (Red Flag)	Door No. 828, 2 nd Floor, Aroma Building, Pudukad PO, Thirur District, KERALA- 680301.
1571	Marxwadi Janata Party	33, Kundan Pura, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh - 251002.
1572	Matra Bhoomi Vikas Party	C/o Shri Kashi Nath Tripathi, Aspathal Road Mau Chibee, Bandha-210209 (Uttar Pradesh).
1573	Matrubhoomi Sewa Party	A-118, Durga Vihar, Near Devli, New Delhi-110062.
1574	Maulik Adhikar Kranti Party	H. No. 402, Teesri Manzil, Plot No. 2-3, Gali No.-3, Friends Enclave, Shahberry, Greater Noida Extension, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201009
1575	Mazdoor Dalit Kisaan Mahila Gareeb Party (Hindustani)	Garhi Ashraf Khan, Jasmai Road, Farrukhabad, Uttar Pradesh
1576	Mazdoor Ekta Party	No. B-2/208, Nand Nagri, Shahadara, Delhi- 110093
1577	Mazdoor Kirayedar Vikas Party	Plot No. 116, Municipal No. 500/3E/4, Block No.30, Gali No. 6, Vishwas Nagar, Shahdra, Delhi- 110032
1578	Mazdoor Vikash Dal	At-Qtr. No. Plot-E/124, Phase- I, Chhend, Rourkela, Dist- Sundargarh, Odisha-769015
1579	Meenavar Makkal Munnani	No. 51, Old No. 24, Thambu Lane, Royapuram, Chennai, Tamilnadu -600013.
1580	Megh Desham Party	Meghvansh Bhawan, E-70B, Bajrang Vihar Tirtiya, Harmada Ghati, Jaipur, Rajasthan.
1581	Meghalaya Democratic Party	Mission Compound, Mawkhar, Shillong-793001, Meghalaya.
1582	Mera Adhikaar Rashtriya Dal	House No. 531/62, Bhindia Tola, Bada Chandganj, Pratap Singh Marg, P.S. Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226024
1583	Mera Bharat Mahan Party	Indira Nagar, Block-3, Panihti, Post-Sodepur, District-24 Paganas (N), Kolkata, West Bengal-700110
1584	Mera Gaon Mera Desh Party	H. No. 142, Village – Islampur, P.O. – South City – II, Gurgaon, Haryana - 122018
1585	Mera Watan Party	D.No. 23-4-227/5, Near Ashok Pillar, Sultan Shahi, Hyderabad, Telangana - 500065
1586	Merku Tamilagam Katchi	D.No.4/387, Sanjay Garden, Thayampalayam, Muthiyaneerichal (PO), Kangayam Via Tiruppur (TK), Tiruppur

		District, Tamil Nadu – 638701.
1587	Meydhaa Party	13E/10A, Rajeev Nagar (Suturkhana), P.O. Teliarganj, District-Allahabad, Uttar Pradesh.
1588	MGR Makkal Katchi	No. 6,4 th Cross Street, 1 st Main Road, Gopalapuram East, Pattabiram, Chennai, Tamil Nadu- 600072
1589	Mihir Sena	Nagar's Choice, S-47, South Side, G.T. Road, Lal Kuan, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1590	Minorities Democratic Party	13, Hydry Road Complex, Mominpura, Nagpur-440018, (Maharashtra).
1591	Minority People's Party	PP No. 55,56, DAG No.22,23, Vill-Dhingarati, Mouza-Laharighat, P.O.-Laharighat, P.S.-Laharighat, District-Morigaon, Assam - 782127
1592	Mission All India Independent Justice Party	Room No.-2, Jivdani Chawl, Kumbharpada, Virar East, Virar, Maharashtra-401305
1593	Mission Ekta Party	House No 790/12, Salara Mohalla, Rohtak, Haryana-124001
1594	Mission Garib Parivartan Party	R-7, Side-5, (UPSIDC) Kasna Industrial Area, Greater Noida, Goutam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201308
1595	Mission Naya Digant Bharat	Holding No.1275, Khandoghosh, PS-Khandoghosh, District-Purba Bardhaman, West Bengal-713142
1596	Mithilanchal Mukti Morcha	Supoul Bazaar, College Road, Vandevi Nagar, Biroul, Darbhanga, Bihar – 847203.
1597	Mithilanchal Vikas Morcha	Mahuar, Gaura Bauram, Post – Aasi, District - Darbhanga, Bihar – 847203.
1598	Mithilawadi party	Village-Paliwar, Post-Ranti, P.S.- Rajnagar, Ward-8, Near Hanuman Temple, Madhubani, Bihar-847211
1599	Mizoram People's Conference	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).
1600	Mo Dala	At-Mukura Press Premises, Bhasakose Lane, Nimchouri, PO-Chandini Chowk, P.S.-Lalbag, Distt.-Cuttack, Odisha-753002.
1601	Moderate Party	Village – Khakhari (Maghara Chauraha) P.O. Balepur Kalan, District – Devariya, Uttar Pradesh.
1602	Modern Citizen Party	Village-Ranichak, P.S.-Garhpura, District-Begusarai, Bihar-848204
1603	Modern People Party	H. No. 5-109-3/B/1, 3rd Floor, Jubilee Hills Road, Opp. J.R.C., Rai Durga, Hyderabad, Telangana - 500033
1604	Mool Bharati (S) Party	House No. 25, Near Khooni Masit Moga Mehla Singh Moga- 142001 Distt. Faridkot (Punjab).
1605	Mooljan Shakti Party	H.No.394, Gali No.18, Near Vishwakarma Mandir, Karan Vihar, Karnal, Haryana-132001
1606	Moolniwasi Samaj Party	Village – Maghaipur, Post – Maharajganj, Janpad – Ajamgarh - 276137 Uttar Pradesh.
1607	Most Backward Classes of India	Paraspur-Kudwar, Sultanpur-228155, Uttar Pradesh.
1608	Mother India Party	Khasra No. 143, Kurre ke bad bana No. 143/3, Gram - Jaunsamana, Pargana & Tehsil - Dadri, District - Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh.
1609	Mother Land National Party	Survey No. 20+21, Duplex No. 05, Noman Duplex, Near Iqbal Avenue, Near Canal, Fatehwadi, Ahmedabad, Gujarat-380055
1610	Moulik Adhikar Party	Biroli-Motinagar, Faizabad, Uttar Pradesh-224201.
1611	Mulnibasi Party of India	Village and Post- Basantpur, District- Murshidabad, SD and PS- Dumkal, West Bengal-742406
1612	Mulnivasi Adhikar Party	R/o. S-96, UPSIDC, Sector-5, Jagdishpur, Amethi., Uttar Pradesh- 227817
1613	My India Party	No. 447/265, 2 nd floor, Poonamallee High Road, Amnjikarai, Chennai, Tamil Nadu- 600029
1614	Naadaalum Makkal Katchi	4/330, Ground Floor, Duwaraga Nagar, Phase-I, Manali New Town, Chennai Tamil Nadu- 600103.
1615	Naam Indiar Party	73F/1A, Polepettai, Thoothukudi, Tamil Nadu- 628002

1616	Naam Tamilar Katchi	Door No. 7, Plot No. 8, Hospital Road, Senthil Nagar, Cinna Porur, Chennai – 600 116 Tamil Nadu .
1617	Naari Nar Rakshak Party	Raj Laxmi Nivas, Kakrali Road, Village- Aneg, Behta, Abdul Pur, Primary Pathshala Ke Peechhe, Tehsil-Hardoi, District-Hardoi, Uttar Pradesh- 241001
1618	Naba Bharata Nirmana Seva Party	Plot No.145/245/1141/1356, Khata No.50/4873, Hati Pathar Lane, Near Trinath Temple, Raniguda Farm, District-Rayagada, Odisha-765001
1619	Nagaland Congress	H. No. 202, Fellowship Colony, Near IMC Hall, Dimapur, Nagaland - 797112.
1620	Nagrik Adhikar Party	Nandlalpur, Post- Nandlalpur, Via- Mathurapur, District- Bhagalpur, Bihar- 813222
1621	Nagrik Adhikar Shakti Sewa Party	A-63, JantaJeevan Camp, Tigri, Khanpur, New Delhi- 110062
1622	Nagrik Chetna Party	Sarvodaya Nagar, Teachers Colony, Pilakhua, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1623	Nagrik Ekta Party	3/305, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010, Uttar Pradesh
1624	Nagrik Sewa Party(R)	4, Tayal Vihar Colony, Gate No. – 2, Aishbagh Road, Haidarganj, Lucknow, UTTAR PRADESH - 226004.
1625	Nagrik Vikas Party	728, ABC, Ekta Nagar, Opp. Professional Courier, Near Modi Hundai Show Room, Sativali, Vasai Road, Vasai (E), District- Palghar, Maharashtra – 401208
1626	Nai Kranti Party	Baba Mritunjaynath Mandir, Kumharan Tola First, Gola Gokarannath, Distric- Likhampur- Kheri, Uttar Pradesh- 262802
1627	Naitik Party	314, City Center, Near Press Club, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
1628	Naki Bharatiya Ekta Party	Ward No. 1, Mohalla- Harijan Wala, Kithore, Meerut, UTTAR PRADESH
1629	Nalvazhikkazhagam	Kathiravan Illam, 94/2, Kalavai Chetty Street, Chintadripet, Chennai, Tamil Nadu – 600002.
1630	Nam India Naam Indiyar Katchi	H. No. 9/8, Flat No. 3 Swagath Apartment, Chellappa Street, Otteri, Chennai, Tamil Nadu- 600012
1631	Namadhu Makkal Katchi	No.3, Pillayar Kail Street, Kasba, Vellore-632001, Tamil Nadu.
1632	Namathu Kongu Munnetra Kalagam	5F Sanjith Plaza, Thiru.V.Ka. Street, Tirupur Road, Kangayam, Tirupur District, Tamil Nadu - 638701
1633	Namma Congress	No.98, Varthur Main Road, Bangalore East, Bangalore – 560087 Karnataka.
1634	Narayani Sena	Niwas-Gram, Post-Malipur, Zila-Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh.
1635	Nari Panchayat Party	Plot No 79, Pocket - 4, Sector - 23B, Dwarka, New Delhi – 110077
1636	Narmadakhand Navnirman Sena	H.No.20, Village-Lakho, Post-Chhanta, Tehsil & Dist.- Dindori, Madhya Pradesh-481880.
1637	Nasha Mukht Bharat Party	Tejaswi House, Vivek Vihar Colony, Farrukhabad Road, New Mandi, Etawah, Uttar Pradesh- 206001
1638	Nation First Democratic Party	House No. 99, Ward No. 39, Gangotri, Ganga Vihar, R.P.S. Road, Danapur, District- Patna, Bihar- 801503
1639	National Adhikar Insaf Party	House No. – 230, Street No. – 7, S.A.S. Nagar, Abohar Road, Sri Muktsar Sahib, Punjab
1640	National Aman Party	Moh. Punjabiyan, Nagina, District – Bijnor, Uttar Pradesh – 246762
1641	National Apni Party	D-1, 242/9, Main Circular Road, Sonia Vihar, Delhi- 110094.
1642	National Awami United Party	H.No. 62, Priyadarshani Lane, Patta Bohri, Jammu & Kashmir- 180002
1643	National Backward (Mool), Dalit, Minorities Kranti Dal	1st E-17, Jai Narayan Vyas Colony, Bikaner, Rajasthan – 334003.

1644	National Bhrashtachar Mukht Party	576/2, Punjabiyan-5, Khurja, Bulandshahr, Uttar Pradesh-203131
1645	National Black Panther Party	Shop No. 1, Hill Park, Tirupati Apt., Kokanipada, Kurar Village, Mumbai, Maharashtra - 400097.
1646	National Confederacy of India	63, Southern Avenue, Flat No. – 9, Kolkata, West Bengal – 700029.
1647	National Dalitha Dhal Party	7/398-8, Balijapalli (HC), Revenue ward No. 7, Mannur (SO), Rajampet Mandal, Kadapa- District, Andhra Pradesh- 516126
1648	National Democratic Front	House of Jangbahadur Yadav, Village – Maulanipur Bazar, Post – Tarwan, Tehsil – Lalganj, District – Azamgarh, Uttar Pradesh.
1649	National Democratic Mission	C-63, Pratap Nagar, Hari Nagar, New Delhi-110064
1650	National Democratic Party	Central Office-Changanacherry-2, Kottayam District (Kerala).
1651	National Democratic Party (Indian)	H.No. 83, Mohalla- Ustad, Jammu, Near Jambulochan Community Hall, Jammu & Kashmir- 180001
1652	National Democratic Party (Secular)	TC. 28/1628, Pullamadom Compound, Sreekandeswaram, Thiruvananthapuram, Kerala- 695023
1653	National Democratic Party of South India	21/7, Naveen Flats, Meenakshi Street, Perambur, Chennai, Tamil Nadu- 600011.
1654	National Democratic Peoples Front	C-4D, 42 B, Janakpuri, New Delhi.
1655	National Development Party	House No. A-8-2, Multani Colony, Bidar – 585 401, Karnataka.
1656	National Equal Party	SH-15/83, 3D, Vivekpuram Bharlai, Shivpur, Varanasi, Uttar Pradesh- 221003.
1657	National Ex Servicemen Party	A-4, Vishwa Pride Apartment, Nookampalayam Main Road Perumbakkam, Chennai-600100
1658	National Federal Party	House No. 80/3A, Ground Floor, Basant Village (Basant Gaon), Vasant Vihar, New Delhi – 110057.
1659	National Fifty Fifty Front	H.No. 77, Garden City Colony, Post- Shahamat Ganj, District- Bareilly, Uttar Pradesh-243005
1660	National Future Party	Deoria House, Behind GPO, Purani Mandi, Ajmer, Rajasthan.
1661	National Inquilab Party	E1/576, Street No.-12, (Near Mazar), 33 Futa Road, Nehru Vihar, Mustafabad, Delhi- 110094
1662	National Jagaran Party	H.O.-14, Montessory School lane, Near Maruti Auto Mobiles, Boring Road, Patna, Bihar - 800001.
1663	National Jan Dal	H.No. 1/19, Hausilnagar, M.H. Quddoosi, PS-Kotwali Nagar, The Faizabad, Dist-Faizabad Uttar Pradesh- 224001
1664	National Janhit Congress (AB)	043A/5 Piarey Lal Building, Near Government College, Mehrauli Road, Gurgaon, Haryana.
1665	National Janmandal Party	Flat No. F-2, (1st Floor) Plot No. 105 & 106, Alkapuri Yojna, Village Niwaru, Rajasthan-302012
1666	National Jansatta Party	Tejaji Chenchya Wali Dhani, Post – Khori, Tehsil – Shahpura, District – Jaipur-303103 Rajasthan.
1667	National Janta Party (Indian)	Plot No. 385, Khata No. 105, Village – Mohammadpur Hari, P.O. & P.S. – Bhagwanpur, District – Vaishali, Bihar – 844114.
1668	National Labour Party	D-22, Office No. 11, D-Block, Pandav Nagar, Delhi- 110092.
1669	National Lokmat Party	Village - Jisauri, Post - Mundali, District - Meerut, Uttar Pradesh
1670	National Loktantrik Party	46, Gulista Colony, Lucknow-226001(Uttar Pradesh).
1671	National Maha Sabha Party	Maa Krupa, Amardeep Society, Ambika Chowk, Deesa, Banaskantha- 385535, Gujarat.
1672	National Nationalist Party of India	596-E-D/S, Azad Kutia, Barra-2, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208027
1673	National Nava Kranthi Party	D.No.- 1-236, Vill.- Gangavaram, Mandal- Gurazala,

		Dist- Guntur, Andhra Pradesh- 522 415.
1674	National Organisation Congress	No.1, Jeevananandam, Salia, K.K.Nagar, Chennai- 600078(Tamil Nadu).
1675	National Party	Rudain Badayun-202 524 (Uttar Pradesh).
1676	National Peace Party Secular	Village – Rasoolpur Biur, Post-Awadhan, Tehsil – Chaayal, District – Kaushambi,Uttar Pradesh - 212218.
1677	National People's Congress	H.No. 3-6-200, Flat No. 105, Arunodaya Apartment, Street No.15, Himayatanagar, Hyderabad- 500029, Andhra Pradesh
1678	National Praja Shakti (Janathan) Party	H.No.16-1-159,Chinnadarpally Village,Hanwada Mandal,Mahabubnagar District,Telangana State,Pin- 509334
1679	National Republic Party of India	N-51/1, Flat No. 2, Upper Ground Floor, Rajpur Khurd, Hargovind Enclave, Tehsil- Hauz Khas Mehrouli, New Delhi- 110068
1680	National Republican Congress	Holding No. 223, House No. 6, Ward No. 26, Located at Pragati Path, Near Rajdhani Maszid, Dispur Guwahati, Assam -781006.
1681	National Samajwadi Congress	No.42,Naidu Layout,Kuvempu Nagar,Bangalore,Karnataka-560014
1682	National Secular Conference	MISFA, Koduvally (P.O.), Kozhikode DT.,Kerala - 673572.
1683	National Socialist Party (United)	Flat No. 6, Ist Floor, Sai Kripa Housing Society, 45/6, Hospital Colony, Talegaon, Dabhade, Taluka- Maval, District- Pune, Maharashtra- 410507
1684	National Target Party	No. 158/A, Tehkhand, Okhla Phase-I, New Delhi- 110020.
1685	National Tiger Party	Central Head Office- Sarojnagar, Post office- Kalgiganj, Vai/Thana- Kahalgaoon, District- Bhagalpur-Bihar- 813203.
1686	National Unionist Zamindara Party	129, New Dhaan Mandi, Sriganganagar, Rajasthan- 335001.
1687	National Women's Party	H.No.2-247, Sri Sai Nagar, (Near Venkateshwara Swamy Temple), Jilleguda Saroor Nagar, Hyderabad - 500097, Andhra Pradesh
1688	National World Leader Party	2 nd Floor, In front of ATM, Navi Bhag, Berasia Road, Bhopal, Madhya Pradesh-462038.
1689	National World Life Panchatatva Party	Patidar Colony, Bhelkheri Road, Shujalpur Mandi, District – Shajapur, Madhya Pradesh
1690	National Youth Party	Flat No. A-202, Yuro Apartment, Sector – 5, Rajendra Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh
1691	Nationalist Charity Congress	Bishop House, Gabriel Compound, Panavilai Thuckaley-629175, Kanniyakumari District, Tamil Nadu.
1692	Nationalist Citizens Party of India	Jago Biswa, Holding no. -4719, village- Hatgacha, P.O.- Banipur, P.S. Sankarail, District-Howrah, Pin- 711304
1693	Nationalist Janshakti Party	Abhinav Niwas, Rapatpur, Belghat, Gorakhpur, Uttar Pradesh - 273404.
1694	Nationalist Justice Party	No. 1525/1, Street No. 33, Preet Nagar, New Shimlapuri, Ludhiana, Punjab- 141003
1695	Nationalist People's Front	S-8, Divya Mall, Tonk Road, Lal Kothi, Jaipur (Rajasthan)
1696	Nationalist Power Party	L-1 st 1100/2,Gali No. 25,Sangam Vihar,New Delhi- 110062
1697	Nationalist Trinamul Congress Party	A9/124, Kalyani, PS & PO-Kalyani, District-Nadia, West Bengal-741235.
1698	Nature Mankind Friendly Global Party	Ward No.1, Kathua (Jammu & Kashmir).
1699	Nav Bharat Democratic Party	Chherawal and Associates, F6/35, United Apartments, East Street, Pune- 411001, (Maharashtra).
1700	Nav Bharat Jagran Party	At Golechha Building,Opposite Railway Station,Phalodi,District- Jodhpur,Rajasthan- 342301

1701	Nav Bharat Rashtriya Congress Party	B- 100, New Ashok Nagar, New Delhi- 110096
1702	Nav Chetna Party	Mohalla – Jagat Nagar, Kasba & Post – Bhongaon, District – Mainpuri, Uttar Pradesh - 205262 .
1703	Nav Hind Party	130, Village-Darbarpur, Post-Ajarka, Tehsil-Mundawar, District-Alwar, Rajasthan-301401
1704	Nav Jankranti Party	B – 11/42, Ahata Rohila, Gauriganj, Varanasi, Uttar Pradesh – 221001
1705	Nava Bharat National Party	Survey No.627, Bhairava Gutta, Ravalkole Village, Medchal Mandal, Ranga Reddy District. Andhra Pradesh.
1706	Nava Praja Rajyam Party	Old H.No.10-30, New H.No.11-54, Harijanawada(P&M) Utnoor, District - Adilabad, Andhra Pradesh -504311
1707	Nava Samaj Party	House No. 5-7, Buddharam Village, Gopalpet Mondal, Wanaphthy District, Telangana- State.
1708	Nava Socialism Party	Door No. 18-6-35B, First Floor, Sundaraiah Nagar, Tirupati, Andhra Pradesh-517501
1709	Navabharath Sena	No.14/15, Chamundeshwari Building, 3 rd Cross, 4 th Main Road, Chamrajpet, Bengaluru, Karnataka-560018
1710	Navam Disha Dal	4/684, Vihav Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh- 226010
1711	Navarang Congress Party	D.No. 866/1, Pedavadlapudi Village, Mangalagiri Mandal, Guntur District, Andhra Pradesh- 522302
1712	Navataram Party	D.No. 26-37, Subbaiah Thota, Chilakaluripet, District – Guntur, Andhra Pradesh - 522616
1713	Navbahujan Samajparivartan Party	185, Sahyadrinagar, G – Ward, AT/Post – Lonavla, Tehsil – Maval, District – Pune, Maharashtra – 410401.
1714	Navbharat Ekta Dal	Dhiman Bhawan, Nagrota Surian, Tehsil- Jawali, District- Kangra, Himachal Pradesh- 176027
1715	Navbharat Party	538Ka/409, Adarshpuram, Triveni Nagar- 3, Lucknow, Uttar Pradesh-226020
1716	Navbharat Samaj Party	Village-Paraspur, Post-Budhanpur, Thana Bhudakuda, Tehsil-Jakhaniya, District-Ghazipur, Uttar Pradesh, India-275203
1717	Naveen Samajwadi Dal	133/4C/1C, Teliarganj, Allahabad, Uttar Pradesh.
1718	Navin Bharat Nirman Manch	Pipalawali Khadki, At. & Po. Kasor- 388205, Ta. & District Anand, Gujarat.
1719	Navjawan Sangharsh Morcha	D/711, Township, Bhavnathpur, Garhwa, Jharkhand- 822112.
1720	Navlok Samaj Party	Located 24B, Renuka Bagh, New Avadheshpuri Karmayogi, Agra, Uttar Pradesh- 282010.
1721	Navnirman Party	Plot No. 1588-P, Sector- 5, Urban Estate, Tehsil- Thanasar, K.D.B Road, District- Kurukshetra, Haryana- 136118
1722	Navodaya Jantantrik Party	Khasra No.31/23, & 49/3/81, Gupta Nivas, Gali No.45, B-Block, Kaushik Enclave, Burari, Delhi-110084
1723	Navodayam Party	D.No. 4-96/2, Near Rama Mandir, Nallakavari Street, Etukuru Village, Guntur Rural Mandal, Guntur District, Andhra Pradesh.
1724	Navsarjan Bharat Party	House No.- 492, Fal Faliya, Opp. Krishna Petrol Pump, Vaghadhra Road, Dadra, Dadra & Nagar Haveli- 396193
1725	Navyug Nirman Party	C-2, Room No. 401, Shaghun Residency, Mahyavanshi faliya, Dadra, Dadra and Nagar Haveli-396193.
1726	Navyug Party	1-Ground Floor, Begumpur, Malviya Nagar, New Delhi – 110017.
1727	Navyug Pragatisheel Morcha	Adarsh Nagar, Post-Pakur, District-Pakur, Jharkhand- 816107
1728	Navyuvak Atmanirbhar Party	At –C/o Babita Kanwar, 213, Railway Officers Colony, Opp. Kanakpura Jaipur, Rajasthan-302012
1729	Nawan Punjab Party	52-E, Hira Nagar, Patiala, Punjab-147001

1730	Naya Bharat Party	8- Bapu Sabji Mandi, Nagar Palika Road, Sumerpur, Rajasthan –306902
1731	Naya Daur Party	A-406, Defence Colony, New Delhi-110024.
1732	Naya Savera Party	Plot No. J-2-530.8, J-2 Block, Gupta Colony, Sangam Vihar, New Delhi- 110062
1733	Neethi Nijayithi Party	Door No. 36-178A, Padhmavathi Nagar Kalyanapuram, Narayanavanam Mandal, District- Chittor, Andhra Pradesh- 517581
1734	Nehru Janhit Congress	Sainipura Mohalla, Badshahpur, Tehsil & Distt. – Gurgaon, Haryana.
1735	Netaji Adarsh Party	298, Kuttiyani, 28 – Thodupuzha, Idukki District, Kerala – 685584.
1736	Netaji Congress Sena	Ranga Place, Ground Floor, S.No.48/2/10, Waghjal Nagar, Ambegaon Khurd, Katraj P.O., Pune-411046, Maharashtra.
1737	Netaji Subhash Chander Bose Rashtriya Azad Party	Mohalla – Gayatri Nagar, City & Post – Banda, Distt. - Shahjahanpur, Uttar Pradesh – 242402
1738	Nethaji Makkal Katchi	No.6/33, Ramakrishna Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai, TamilNadu-600093
1739	New Bhartiya Kranti Party	Vill.-Sungulpur, Post & Thana- Khedtasray, Tahsil- Sahganj, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222139
1740	New Generation People's Party	30-C1, Ambu Nagar, Edayarpalayam Post, Coimbatore, Tamil Nadu- 641025
1741	New India Party	H. No. 20-3-314, Vidyanagar Godavarikhani, -505209, Distt. Karimnagar(Andhra Pradesh).
1742	New India United Party	Shop No. B/6, Uravi Complex, Naroda Bethak, Naroda Ahmedabad-382350, Gujrat
1743	New Labour Party	Room No. 8/249, Perumbillissery, P.O.-Cherpu, Thrissur District, Kerala- 680561
1744	New Life People's Party	No.15/16, 'Judie Flats', No. 13, Rosary Church Road, Santhome, Chennai-600004, Tamil Nadu.
1745	New Mother Land Party	F-111, South City, Rai Bareilly Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226025
1746	New Rashtriya Samaj Party	H.No. 167/2/5/F/4, 1st Floor, Bramhanand Nagar, Tadali Road, Kamatghar, Bhiwandi, District- Thane, Maharashtra – 421305
1747	New Socialist Movement	104, Maharana Pratap Complex Opp. Ellisbridge, P.O. – Ellisbridge, Ahmedabad – 380 006. Gujarat.
1748	Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dal	House No. 105T, Mohalla- Jungle Salik Ram, Bypass Road, Sangram Chowk, Padri Bazar, Gorakhpur, Uttar Pradesh -273014
1749	Nirbhay Bharteey Party	27, Sahajanand Bungalows, Motera, Ahmedabad, Gujarat-380005
1750	Nirdhan Samaj Party of India	11A, Rajiv Vihar, Near Bandi Baba Mandir, Machhariya, Naubasta, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh – 208011
1751	Nirjatita Samaj Biplabi Party	Village –Durgapur P.O. Haritala (Bagula), Distt. Nadia, West Bengal, Pin 741502
1752	Nirmal India Party	SA 6/8 H-15, Satsang Nagar, Benipur, Pahadia, Varanasi-221007, Uttar Pradesh.
1753	Niswarth Seva Rashtra Seva Party	House No. 56, Indalpur, Post- Dandi, Naini, Allahabad, Uttar Pradesh- 211008
1754	Niz Goenkar Revolution Front	H.No. 9/222, Patrong, Baina, Vasco-Da-Gama, Goa.
1755	Noorie Party	102, Kadodra – Bardoli Road, Surat, Gujarat.
1756	North Bengal People's Party	Village-Rabindrapally, P.O.-Mohanbati, P.S.- Raiganj, District-Uttar Dinajpur, West Bengal-733134
1757	North East India Development Party	Sagolband Tera Loukrakpam Leikai, Imphal West, Manipur-795001
1758	North East Social Democratic Party	Mawlai Mawdatbaki, Dong Nongpathaw, Shillong- 793008, East Khasi Hills District, Meghalaya.
1759	Nyay Party	No. 319, Swamipada, Budhana Gate, Meerut City, Uttar

		Pradesh-250002
1760	Nyay Satta Party	Ground Floor,House No.303,Gali No.12,Chandan Vihar,West Sant Nagar,Burari Road,Delhi-110084
1761	Nyaydharmsabha	Pragativihar,Jagjitpur,Kankhal,Hardwar,Uttarakhand-249408
1762	Nyaywadi Janta Party	Kanchanpur Chauraha (Bagi Road),Village Sakramau, Post-Mau Aima, Dist-Prayagraj, Uttar Pradesh-212507
1763	Odisha Jan Morcha	Plot No.17, Village Nakhaur, PO Gopinathpur, District – Khurda, Bhubaneswar – 751002, Odisha.
1764	Odisha Janata Party	At-Chhagharia,P.O-Bagada,PS./Distt. Kendrapara,Bhubaneswar,Odisha- 754212
1765	Odisha kalyan Party	Plot No.44 (1 st Floor),P.O.-Satyanagar,P.S.-Kharabela Nagar,City-Bhubaneswar,Distict-Khordha,Odisha-751007
1766	Odisha Pragati Dal	Khatian No. 99/180, Plot No. 420/1360, Brundamal, P.O.- Badmal, P.S.- Katarbaga, Tehsil- Jharsuguda, District- Jharsuguda, Odisha- 768202.
1767	Odisha Praja Dal	Naveen Bhaban, Chhadasingh,Post-Badanaganania,Via-Mahimagadi,Dist.Dhenkanal,Odisha-759014
1768	Ojaswi Party	Flat No. 38, Plot No. 36,Ajanta Apartment,Patparganj, Delhi-110092.
1769	One India One People Party	14/916,Vadakkancheri Angadi,City Light Shopping Complex,Second Floor,Vadakkanchery,Kerala-678683
1770	One India One Policy Party	Arakkal Tower,Christopher Nagar,Ollur Village,Thrissur Taluk,Thrissur District,Kerala-680306
1771	One India Party	D-46A, Krishan Vihar, Delhi- 110086
1772	Open people's Party	Pawar House,Near Saibaba Temple,Mangal ragho Nagar,Tisgaon road,Kalyan (E),District-Thane,Maharashtra- 421306.
1773	Orissa Communist Party	MLA Colony, Unit-4, Bhubaneswar (Orissa).
1774	Orissa Socialist Party	Municipal Compound, Choudhury Bazar, Cuttack-753009 (Orissa).
1775	Our Mahathma National Party	No. 62(II Floor),Pillaiyar Koil Street,Kamaraj Street,Gandhi Nagar,K. K. Nagar Post,Tiruchirapalli,Tamil Nadu – 620 021
1776	Pachai Tamizhagam Katchi	12/143 Idinthakarai, Harijan colony, Vijayapathy, Radhapuram(TK), Tirunelveli(DT), Tamil Nadu - 627104.
1777	Pachchasi Parivartan Samaj Party	Village & Post- Mohari Khurd, Mohanlalganj, Lucknow (U.P.)-226305.
1778	Pahadi Party	Village-Talli Bagi,Patti-Sarjula,Post-Bhagirathpuram,Vikas Khand-Chamba,District-Tehri Garhwal,Uttarakhand-249145
1779	Panch Party	Kailash Chandra Meena House at Khodki Dhani, Village & Post- Raisana, Tehsil- Nadoti, District-Karuli, Rajasthan-322215
1780	Panchpauniya Samaj Party	Village & Post – Aunta Mujeeb Nagar,Ward No.8,P.S.-Hathida,Distt- Patna,Bihar-803303
1781	Panthers Republican Party	‘Anandvan’, Mahatma Phule Nagar, Peer Bazar, Osmanpura, Aurangabad, Maharashtra - 431005
1782	Paradise Party	Kabita Apartment,Sriniketan Road,P.O.-Bolpur,District-Birbhaum,West Bengal - 731204
1783	Param Digvijay Dal	H. No. 7/297/7, Vikas Nagar, Sector – 7, Lucknow, Uttar Pradesh
1784	Parbatiaya Prajatantrik Party	39/A, Leborg Cart Road, Near MaheswariPetrol Pump, Darjeeling West Bengal-734301
1785	Parcham Party of India	1-Rahmat Bano Market, Medical College Road, Civil Lines, Aligarh-202002, Uttar Pradesh.
1786	Parisara Bandhu Party	#281,Janani,Opp.of BCC Layout,2nd Stage Bus Stand,Vijayanagara Bengaluru,Karnataka-560040
1787	Parivartan Party of India	Monu Rawat, Pohri Bye Pass, Intercity Bus Walon Ke

		Peeche Wali Gali, Rajpura, Circular Road Circuit Housing Tiraha, Tehsil and District- Shivpuri, Madhya Pradesh- 473551
1788	Parivartan Rajniti Party	D-41/28/GF,Gali No.-2,D-Block,East Vinod Nagar,weard-Mayur,Vihar Phase-II,Delhi-110091
1789	Parivartan Samaj Party	Gande Wali Sarak, Laskar, Gwalior-474001, Madhya Pradesh.
1790	Party for Democratic Socialism	183, Jodhpur Park, Kolkata-700068, West Bengal.
1791	Paschim Banga Rajya Muslim League	129, Collin Street, Kolkata-700016 (West Bengal).
1792	Paschimanchal Vikas Party	Qr. No. 10 E, In front of St. Joseph School, At. Sakhipara, Distt. – Sambalpur,Orissa- 768001.
1793	Pashchimanchal Nirman Party	Shree Trimbakeshwar Mahadev Mandir,Behind of Dwarkadham City,Village-Sivaya Janpad Meerut,District-Meerut,Uttar Pradesh-250110
1794	Pashchimi Uttar Pradesh Vikas Party	H. No. 1, Kasana Niwas, Village – Morna, Sector – 35, Noida, District – Gautambuddh Nagar, Uttar Pradesh – 201308.
1795	Pasumpon Makkal Kazhagam	Door No.102, L.B. Road, Adyar, Chennai, Tamil Nadu – 600 020.
1796	Pathik Janshakti Party	C/o Rajkumar,P.O.-Sidhani,Tehsil-Tohana,Distt.- Fatehabad,Haryana-125133
1797	Pathik Swaraj Party	C/o Ravinder Singh Deodhar, S/o Sh. Balbir Singh DeodharVill. & Post -Bihta, Tehsil -Ambala Cantt., Distt. Ambala, Haryana- 133101.
1798	Patri Vyapari Party	Geeda - Gorakhpur, Sector-22, Plot No.C-5/23, Geeda, Gorakhpur, Uttar Pradesh-273209.
1799	Patriotic Party of India	4/28, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh.
1800	Pattali Makkal Katchi	No.10, Tilak Street, T. Nagar, Chennai-17
1801	Peace & Freedom party	CTS No. 5214,Plot No. 180,Nagar Parishad Colony,Kothlaj Road,Near Parival Mall,Distt.- Hingoli,Maharashtra- 431513
1802	Peace Party	Johra Complex, Barhalganj,PO- Barhalganj, Zila – Gorakhpur,Uttar Pradesh.
1803	Peasants And Workers Party of India	Hari Kharude Niwas,Mahatma Phule Road, Naigaon, Dadar, Mumbai (Maharashtra).
1804	Pedala Party	D.No. 18-131(A), Village - Katurivaripalem, Mandal – Podili, District – Prakasam, Andhra Pradesh – 523240.
1805	Pedarikam Nirumulana Party	D No. 66-1-3/A.S. Atchuthapuram, Kakinada-533004, East Godavari District Andhra Pradesh.
1806	Pehchan People's Party	HanifManzil,ChandanChowk,Rani KhedaDarwaja,Nimbahera,Distt.-Chittorgarh,Rajasthan-312601
1807	People Liberation Party	4/611, Pughazhendhi Road, 4 th Block, Mogappair East, Chennai, Tamil Nadu- 600037
1808	People Protection Party	D.No. 7-97/2,Srinagar Colony,Sun Rays School,Pasumamula Road,Kuntloor,Hayatnagar,Rangareddy District Telangana – 501505
1809	People's Action Party	363, Nainagarh, Prem Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh-284003
1810	People's Justice Party	H. No. 120/209(120/096B),Ward-Hazratganj,Ram Teerath,Beldari Lane,Behind Lok Bhawan,Lalbagh,Lucknow Uttar Pradesh- 205262
1811	People's Liberal Party	104/01, Gram Gangana, Gram Panchayat Boranada, Tehsil- Luni, District- Jodhpur, Rajasthan-342012
1812	People's Party	A-23, Subhash Nagar, Roorkee, District- Haridwar, Uttarakhand
1813	People's Party for Liberty	AP 12/129, M.M.Bhavan, Madathilchira, Anad- P.O, Nedumangadu, Thiruvananthapuram, Kerala- 695544

1814	People's Party of India (Secular)	Duplex-38, Saileshree Vihar, Chandershekharpur, Bhubaneswar-751021, Orissa.
1815	People's Party of Punjab	7112, Ward No.2, Malout Road, Gidderbaha (Mukatsar), Punjab-152101.
1816	People's Union Party	Dharmavat House, House No.1015, Shukrawar Peth, Tilak Road, Swargate, Pune-411002, Maharashtra.
1817	People's Democratic Alliance	Ragailong, Imphal-795 001, Manipur
1818	Peoples Democratic Party	MASS Building Ernakulam North, P.O. Cochin-18 (Kerala).
1819	Peoples Green Party	19C/1, Jeevan Jyoti Appartments, Ward No. 1, Mehrauli, New Delhi-110030.
1820	Peoples Guardian	D-302, Blue Hills, Nagar Road, Pune (Maharashtra) – 411 006.
1821	Peoples Party of India (Democratic)	111, Astha Complex, Dahej Bypass Road, Nandelav, Taluka & District- Bharuch, Gujarat- 392001
1822	Peoples Representation for Identity and Status of Mizoram (PRISM) Party	A-16, Upper Republic, Aizawl, Mizoram- 796001
1823	Peoples Republican Party	Saptahik Jaibheem, Opp. Anand Talkies, Sitabadi, Nagpur-440012 (Maharashtra).
1824	Peoples Resurgence and Justice Alliance	House No. 156, Khomdram Selungbam Leikai, Thangmeiband, PO/PS: Lamphel, Imphal West, Manipur- 795004
1825	Peoples Ruling Party	Flat No.74, Gandhi Nagar, Chakali Gunta, Etukuru Road, Kamma Sessaiah Ground, Revenue Ward- 32, Guntur, Andhra Pradesh-522003
1826	Periyar Ambedkar Munnetra Kazhagam (PAMK)	,MIG No.-8, Dr.B.R.Ambedkar House, TNHB, Bargur, P.O.-& Taluk, Krishnagiri Distt., Tamil Nadu-635104
1827	Perunthalaivar Makkal Katchi	'NRD Towers', First Avenue, Ashok Nagar, Chennai-600 083 Tamil Nadu.
1828	Phoolan Janta Party	Village - Mohammadpur Kandh, Post-Imlo, Vikas Khand Dharmapur, Tehsil - Sadar, District - Jaunpur, Uttar Pradesh - 222180
1829	Phule Bharti Lok Party	Main Gurudwara Road, Baba Bakala, Distt.-Amritsar, Punjab-143201.
1830	Pichhada Samanya Alpsankhyak Vyapari Kisan Party	H.No.402 Kh, Nagla Khandari, Alipur Patti, P.S- Bhongaon, Tehsil- Bhongaon, District-Mainpuri, Uttar Pradesh.
1831	Pichhara Samaj Party United	Madhariya Complex, Mukht Nagar, Pulgaon Raod, Padmanabhpur, Durg, Chhattisgarh- 491001
1832	Pichhra Samaj Party	Mohalla Jati, Nagina, District-Bijnor, Uttar Pradesh.
1833	Pichhravarg Mahapanchayat Party	Mo.-Jamalpur, (Karhan Road), Post- Mohammadabad Gohana, District- Mau, Uttar Pradesh-276403.
1834	Political Essential & Accurate Council of Experts Party	Door No. 24-21, Vyshya Street, 5 Roads Junction, American Hospital Road, Narsipatnam, Vizag District, Andhra Pradesh – 531116.
1835	Political Justice Party	H.No. 796, G-3, Shalimar Garden Extension-I, Sahibabad, P.S.-Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201005
1836	Political Shoshit Manavatavadi National Dal	4-C, A.I. Apartment, Vajeerhasan road, Hasratagnj Lucknow, Uttar Pradesh-226001
1837	Political Team India	House No. 182, Ansal Courtyard, Dehtora, Shastripuram, Agra, Uttar Pradesh-282007
1838	Pondicherry People Rights Party	#1, Subramaniyar Koil Street, Kuvayarpalayam, Pondicherry-605013
1839	Poorabiha Log Party	Village Pipra Tiwari, Post Sakhvaniya, Distt. Kushinagar, Uttar Pradesh-274402
1840	Poorna Swaraj Manch	House No. 1/328, GwalToli, Fathegarh, District-Farrukhabad Uttar Pradesh- 209601
1841	Poorva Sainik All India Dalit Evam Nirbal	Plot No.-96, Gram Hansa Pur Nikat, Jhun Jhunwala

	Varg Vikas Party	Degree College,Dwarikapuri,Dabhasemar Janpad,Ayodya,Uttar Pradesh-224001
1842	Poorvanchal People's Party	12/391, Gali No.12, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
1843	Poorvanchal Rashtriya Congress	Plot No. 157-158, Pocket E-20, Sector-3, 1 st Floor, Rohini, Delhi-110085.
1844	Poorvanchal Shoshit Samaj Apna Dal Party	H.No.739,Devariya Khas, Old Ward No.6, New Ward No.11/749, C.C.Road,West Side of Hanuman Mandir, West Side of Bhagwan Chauraha, Post & Tehsil-Deoria,District-Deoria,Uttar Pradesh-274001.
1845	Pothuvudamai Katchi	No.1259,Perumal Kovil Street, Krishnapuram, Kandigai, Kannigaipair Post, Uthukottai Taluk, Thiruvallur District, Tamil Nadu – 601102
1846	Prabal Bharat Party	Village-Andahara,P.O. +P.S. Parsauni,District-Sitamarhi,Bihar-843325
1847	Prabuddha Bharat Prajasattak Party	A/101, Panchsheel Nagar, Seva Sangh No. 3, Near Anik Depot. Sion (E), Mumbai, Maharashtra - 400022.
1848	Prabuddha Republican Party	MD-26-17/6, SRTRMCH Chanai Road, Ambajogai, District Beed-431517, Maharashtra.
1849	Prabuddhwadi Bahujan Morcha	H. No. 130A/3A, Teliyarganj, Bhoosawali Gali, Post - Teliyarganj, District - Prayagraj, U.P.-211004
1850	Pragatisheel Janta Adhikar Party	4 – Ka,Village & Post – Bhuval Chak,P.S. – Jamaniya, District – Ghazipur,Uttar Pradesh – 232336
1851	Pragatisheel Janta Party	Bajrang Vihar Colony, Digha Ashiyana Road, Thana-Rajiv Nagar, Post-Ashiyana Nagar, Patna-800025, Bihar
1852	Pragatisheel Labour Party	S-21/127-K. Subashnagar Colony, Maldahiya, Varanasi, Uttar Pradesh- 221002
1853	Pragatisheel Lok Manch	Ishwar Sadan, Sonkar Farm, Dhaulakhera, Post – Arjunpur (Haldwani), District – Nainital Uttarakhand.
1854	Pragatisheel Magahi Samaj	H.No.605/334, Ward No. 44, Mohalla – Madaanpur(Akshayvat), Thana – Civil Lines, Distt. – Gaya, Bihar.
1855	Pragatisheel Manav Samaj Party	Village Wari (Naipurva) Post Dashrathpur-221304, Distt. Bhadohi (Uttar Pradesh).
1856	Pragatisheel Samaj Party	58/12/1D, Newada, Circular Road, Rajapur, Allahabad, Uttar Pradesh.
1857	Pragatishil Samajwadi Party (Lohia)	CP-1, Vikrant Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
1858	Prahar Janshakti Party	H.No. 1634, Grampanchayat- Belora, Tehsil- Chandur Bazar, District- Amravati, Maharashtra- 444704
1859	Praja Adhikara Party	D.No.4/107-1,S.C.Colony,Kurnool Mondal,Panchaliagala Village,Kurnool District,Andhra Pradesh-518004
1860	Praja Congress Party	D - 6/6154/6, Vasant Kunj, New Delhi - 110070.
1861	Praja Ektha Party	Door No. 15-9-86 to 88,Srinivasa Nilayam, Maharajganj,Locality-Gowliguda Chaman,District-Hyderabad,Telangana State- 500012
1862	Praja Kripa Party	Shop No. -2,Hari Om Apartment, BLK C-33/124-125, Opp. Chopda Court, Ulhasnagar, Maharashtra-421003
1863	Praja Palana Party	H.No. 64-1D-8A/1, Treasury Colony, Kakinada, East Godavari District, Andhra Pradesh-533004.
1864	Praja Parivartan Party	No. 9/228, 1 st Main 3 rd Cross, (behind Jaibheem Petrol Bunk) Nanjappa layout, Anekal Town, Bangalore urban District, Karnataka-562106
1865	Praja Prasthanam Party	Sri Balaji Residency, Door No.1-116-3, Plot No.MIG-48/12, GF-1, MVP Colony, Visakhapatnam-530017.
1866	Praja Raj Party	287/264/1, Meerut Bulandshahar Road, Hapur –245101, Uttar Pradesh.
1867	Praja Satta Party	1-91/24, Raghavendra Nagar, Parvathapur(V), GP – Ghatkesar Mandal, R.R. District, Hyderabad, Andhra Pradesh – 500098.

1868	Praja Sena Party	H. No. 4-3-167 Gajulapet, Metpally Town and Mandal, District- Jagityal, Telangana- 505325
1869	Praja Seva Ankith Party	2-2-16a/1, Beside of RTC Complex, Pithapuram, East Godavari District, Andhra Pradesh-533450
1870	Praja Seva Party	D.No 3-1C, Ramchandra Puram Village, Tada (P), Sathyavedu (M), Chitoor- District, Andhra Pradesh- 524401
1871	Praja Shakti Democratic Party	Survey No. 1073, C/o Vasant Vadgo, Near K-7 Circle, Gandhinagar, Randheja Road, Gandhinagar, Gujarat- 382026
1872	Praja Shanthi Party	382, Aparijitha Colony, Ameerpet, Hyderabad, Andhra Pradesh.
1873	Praja Velugu Party	H.No.5-21, Pulmamidi (village), Nawabpet, Vikarabad District, Telangana-501111
1874	Praja Vijay Paksh	First Floor, HHI-08, Abhinav Avenue Zadeshwar Chowkdi, Zadeshwar, Taluka-Bharuch, Dist.- Bharuch, Gujarat-392011
1875	Prajaa Raita Raajya Paksha	H. No. 937, Manjunatha Nagar, Kengeri Road, Tavarakere, Bangaluru South, Karnataka- 562130
1876	Prajaa Swaraaj Party	House No. 7-2-104/11, Plot No. 11, Srikrishna Nagar, Chinthalakunta Check Post, L.B. Nagar, Hyderabad, Telangana state-500003
1877	Prajamaharashtra Paksh	New Parijat Building, 3 rd Floor, Mathur Nagar, Tuling Road Nalasopara (East), Tal – Vasai, District – Palghar, Maharashtra- 401209.
1878	Prajamandal Party	Barthwal Niwas, Sheetla Mata Mandir Marg, Lower Bhaktiyana, Srinagar, Garhwal, Uttarakhand- 246174.
1879	Prajarajya Samithi	6-3-143, Durgamagadda, Karimnagar, Telangana-505001
1880	Prajasattak Bharat Paksha	At. Shileshwar, Post – Bhadas, Tal. Mulshi, District – Pune-412108 Maharashtra
1881	Prajasattak Lokrajya Party	Village & Post – Parasi, Tehsil – Mangawan, District – Rewa, Madhya Pradesh – 486111.
1882	Prajasattak Samajwaadi Bharat Party	H. No. – 1-7-281, Yadav Niwas, Rajnagar, Post – Yashwant Nagar, Pavdewadi Naka, District – Nanded, Maharashtra- 431602.
1883	Prajashakti Party Samdarshi	Shri Ram Sadan – 40, Saraipitthu Aanshik, Nayagaon (Kesharua), Sitapur Raod, Hargaoon, Janpad – Sitapur, Uttar Pradesh.
1884	Prajanantra Aadhar Party	46, Purani Fauzdar Ki Chali, Memco Char Raste Ke Pass, Naroda Road, Ahmedabad-382345, Gujarat.
1885	Prajanantra Congress Party	Station Chowk, Opposite Main Post Office, Raigarh, Chhattisgarh
1886	Prajanantra Party of India	H.No.33, Mohalla- Bambaghera, Town & P.S- Ramnagar, District- Nainital, Uttarakhand
1887	Prajanantrik Jansevak Dal	Muzaffara Bagadpur, Tehsil & District - Hapur, Uttar Pradesh-245101.
1888	Prajanantrik Jansevak Party	H.No.88, Nivhara Ikhara, Post office- Barnahal, Tehsil- Karhal, District- Mainpuri, Uttar Pradesh- 205264
1889	Prajanantrik Samadhan Party	Village- Hakimabad, Tehsil- Aasta, Distt.- Sihore, Madhya Pradesh.
1890	Prajanantrik Samajvadi Party	C-17, Yadav Nagar, Village – Samaypur, Delhi-110042.
1891	Prajavani Party	H. No. 11-83, Lingidivari Bhavanamu, Vinyakanagar Colony, Kuda Kuda Road, Suryapet, Telangana -508214.
1892	Prapancha Telugu Bhasha Parirakshana Party	H.No.- 5-19, Chimanaguntapally Village, Wanaparthi Mandal, Wanaparthi District, Telangana - 500089
1893	Pravasi Nivasi Party	Maha Mahal Building, T.C.-1/1502/7, Pazhaya Road, Medical College P.O, District - Thiruvananthapuram, Kerala-695011
1894	Pravritti Party	980, Near Prakash Public School, Palam Village, New Delhi-110045
1895	Prem Janata Dal	H. No. 1-4-524/A/7/1, Bholakpur, Near Badi Masjid,

		Musheerabad, Hyderabad, Andhra Pradesh.
1896	Prema Vahini Dal	Village & Post- Antarpada, Via- Balipadar, District-Ganjam, Odisha.
1897	PRISM	Top Floor, 4-CHHA-30, Vigyan Nagar, Kota-324005 (Rajasthan).
1898	Prithak Bastar Rajya Party	8, Senior H.I.G., Sector-3, Shankar Nagar, Raipur, Chhattisgarh.
1899	Prithviraj Janshakti Party	H.No. 45-A, Village- Kiratpur, Post- Pindra, Tehsil-Pindra, Police Station - Phoolpur, District- Varanasi, Uttar Pradesh.
1900	Professional Party of India	H.No. 91, Block- D-1, Shyam Vihar, Najafgarh, New Delhi- 110043
1901	Proutist Bloc, India	C/o Shri Ramesh Kumar, H.N.A-37 (Khasra No.2167/845), Harshroop Colony, Fatehpur Beri, New Delhi – 110074
1902	Proutist Sarva Samaj	Sewa Niketan Compound, Agra Road, Etah, Uttar Pradesh.
1903	Public Adhikar Socialist Indian Party	5/200, Sector-H, Jankipuram, Lucknow, Uttar Pradesh- 226021
1904	Public Mission Party	Sita Kunj, Opposite Godawari Appartment, Ashiyana Digha Road, Patna, Bihar-800014
1905	Public Party	Iqbal Mahal, 234-A, Atala, Allahabad-211003, Uttar Pradesh.
1906	Public Political Party	14A/57, First Floor, WEA, Karol Bagh, New Delhi- 110005.
1907	Public Utthan Party	H.No. 236, Fatehagadh, Fatehagadh, P.S.- Khargoopur, Tehsil – Gonda, Near Power House, Distt. – Gonda, Uttar Pradesh – 271204
1908	Puducherry Development Party	No. 51, Second Cross, Selva Nagar, Uruvaiyar, Puducherry- 605110
1909	Punjab Democratic Party	958, Mataur, Sector – 70, SAS Nagar, Adjoining Syndicate Bank, Punjab - 160070.
1910	Punjab Ekta Party	B-XII/46, Khewat No. 125/119, Khatauni No. 235, Village Faridkot, Ward No. 10, Part-2, Tehsil – Faridkot, Harindra Nagar, District – Faridkot, Punjab – 151203
1911	Punjab Kisan Dal	H.No.47, Village – Sarai Mugal, Tehsil-Rajpura, District-Patiala, Punjab-140417
1912	Punjab Labour Party	Village and Post Office Adhniyan, Tehsil – Malot, Distt. – Muktsar, Punjab
1913	Punjab Lok Congress Party	Mohinder Bagh, situated at Village Siswan, Near Gurudwara Sheesh Mahal Sahib, Post Office Mullanpur Garibdass, Tehsil Kharar, District Mohali, Punjab-140901
1914	Punjab Lokhit Party (Birmi)	Village-Bhagwanpura, Dehlon Road, Ludhiana, Punjab-141120
1915	Punjab National Party	157, University Encloave phase-I, Near Guru Nanak Dev University Regional Campus, Ladhewali, Jalandhar, Punjab- 144009.
1916	Punnagai Desam Party	3/58B, Main Bazaar, Peikulam, Asirvathapuram – Post, Sathankulam – Taluk, Thoothukudi District, Tamil Nadu – 628 613
1917	Puratchi Bharatham	No. 54, National Highways, Poonamalla, Chennai-56, Tamil Nadu.
1918	Puratchikara Thozhilalar Katchi	No. 3, Karikalan East, First Street, (Opp.S.P.Hospital, Anjappar Hotel), Adambakkam, Chennai, Tamil Nadu – 600088
1919	Purvanchal Navnirman Party	Village- Sirihira, P.O- Sewapuri, P.S- Kapsethi, District- Varanasi, Uttar Pradesh- 221403
1920	Purvanchal Janata Dal	Village and Post Office – Janadi, District – Ballia, Uttar Pradesh.
1921	Purvanchal Janta Party (Secular)	Flat No. 2, DDA Flats, Pocket-I, Phase-I, Sector-12,

		Dwarka, New Delhi- 110078.
1922	Purvanchal Kranti Party	Yadavganj, Post – Sikrara, District – Jaunpur, Uttar Pradesh.
1923	Purvanchal Mahapanchayat	No. 601 D, Shipra Sun City, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1924	Purvanchal Rajya Janandolan	S.P. Tower, Buddha Puram, Badeban, Gram Sabha-Madwa Nagar, Near Byepas Crossing, District - Basti, Uttar Pradesh-272001.
1925	Puthiya Makkal Tamil Desam Katchi	D.No.6/58,South Street,MuthulakshmiPuram,Megnanapuram,Thiruchendur Taluk,Thoothukudi District,Tamil Nadu-628210
1926	Puthiya Tamilagam	132, New MLAs Hostel, Govt. Estate, Chennai-600002 (Tamil Nadu).
1927	Pyramid Party of India	2-1-83, Kola Street, Tirupati-517 501,(Andhra Pradesh).
1928	Qaumi Ekta Dal	H. No. - 228, Moh. Astupura, Teh. - Sadar,District - Mau,Uttar Pradesh.
1929	Qaumi Itthehad Republican Party	No. 47/1,Chemmumiahpeta,Revenue War No. 47,(Besude Hari Tower),Nagarajaupeta Kadapa,Andhra Pradesh- 516001
1930	Rachnatmak Jan Morcha	House No.-752,Khasra No.-146,Ground Floor,Near Kanya Vidyalaya,Buradi Village,New Delhi- 110084
1931	Radical Democrats	D. No. 4-9-771/P70, Pavangiri Colony, Hayatnagar, Hyderabad, Telangana -501505.
1932	Radical Party of India (Ambedkarist)	House No.7-1371, Room No. 2, Madanpur (Village),Kothapatnam (Mandal),Prakasam (District), Andhra Pradesh-523280
1933	Rahbar Party	Ward No. 2, Mohalla - Kachchi Masjid, Raysen,Tehsil & Distt. Raysen-464551,MADHYA PRADESH.
1934	Raijor Dal	House No.1,Zoo-Narengi Road,Near Modern School,Mathghoria,P.S. Noonmati,District-Kamrup (Metro),Guwahati-781020,Assam
1935	Raita Bharat Party	Sector No. 31, Plot No. 31/A, Navanagar, Bagalkot, Karnataka-587101
1936	Rajasthan Democratic Front	No. 761, Mahatma Gandhi Dastkar, Nagar, Nayla, Jaipur, Rajasthan-303012
1937	Rajasthan Jan Satta	Gramin Kanya Chhatrawas, Near Water Works, Sadulpur, Churu-331023, Rajasthan.
1938	Rajasthan Janta Party	Village- Naithla, Post-Neethari, Tehsil- Malakhara, District- Alwar, Rajasthan- 301001
1939	Rajasthan Navnirman Party	H.No. 4F, 1 st Floor, Ramlal Sadan, Civil Airport Road, Pabupura, Jodhpur, Rajasthan-342001
1940	Rajasthan Raj Party	Jain Nasiyan Road,Sanganer,Distt.-Jaipur,Rajasthan-302029
1941	Rajasthan Vikas Party	43, Chand Bihari Nagar, Khatipura Road,Jaipur-302012. (Rajasthan).
1942	Rajlok Party	B-123, Street No.8, Kamal Vihar, Burari, Delhi – 110084.
1943	Rajnaitik Chetna Dal	Plot No. 78, Khata No. 93, Village- Sikariya, P.O. Sughari, P.S. Govindpur, District- Nawada, Bihar- 805126
1944	Rajnaitik Kranti Dal	House No. 55, Baduzai-2, Near Old Over Bridge, District- Shahjahanpur, Uttar Pradesh- 242001
1945	Rajnaitik Vikalp Party	204 – Shahi Bhawan, Dak Banglow, Patna – 800001 Bihar.
1946	Rajya Swaraj Party	931,Indira Nagar,Dehradun,Uttarakhand-248006
1947	Rajyadhikara Party	H.No.10-4-A/390,Addagutta,East Marredpally,Secundarabad-17,Andhra Pradesh.
1948	Rakshak Jan Morcha Party	Araji no. – 813/H.No. – 180A,Girja Nagar,New P.A.C. Line,Dehli Sujampur,Kanpur Nagar,Uttar Pradesh - 208015
1949	Rakshaka Sena	No. 604, Vayunanda Layout, Hebbal, Kempapura,

		Banglore-560024.
1950	Rani Chennamma Party	Vakkalageri Dyamavvankatti, Gadag – 582 101, Karnataka.
1951	Rani Laxmibai Krantikari Party	Shop No. 6, Rahul Bazar, Commercial Complex, 1 st floor, Sitaburdi, Nagpur, Maharashtra- 440012
1952	Rashtra Bhakt Dal	Baba Bajrang Das Ji Ki Bagichi, Khatipura Road, Jhotwada, Jaipur – 302 012, Rajasthan.
1953	Rashtra Dharak Dal	At-90(4), Wazeerbagh, Beside Chaurasiya Complex, Bhraich, District-Bahraich, Uttar Pradesh- 271801
1954	Rashtra Hith Party	706/707, M.K. Heights CHS, 'B' Wing, C.T.S. No. 621, Opp. 'L' Ward Office, S.G. Barve Marg, Kurla (W), Mumbai-400 070 Maharashtra.
1955	Rashtra Mangal Mission Party	Kamdhenu Krupa, Kacho Madh, Pilaji Ganj, Sriram Chowk, Mehsana, Gujarat – 384001.
1956	Rashtra Nirman Party	D-25, Defence Colony, New Delhi-110024.
1957	Rashtra Samanya Praja Party	Door No.-3-44, Athvelly, Medchal, Telangana-501401
1958	Rashtra Samarpan Party	Ward No.-4, Property No.040000225, Old Property No. W 4-448(Old 225), Saoner, Taluka, Saoner, District-Nagpur Maharashtra- 441107
1959	Rashtra Sewa Dal	85/40, Officer Flat, Beli Road, Patna – 800001, Bihar.
1960	Rashtra Shakti	1112, S/5 Tegore Garden, Near Bus Stand, Yamuna Nagar-135001, District – Yamuna Nagar, Haryana.
1961	Rashtra Uday Party	Khasra No. 10, Atif Vihar Colony, Near City I.T.I., Uttardhauna, Chinhath, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
1962	Rashtra Vahini Party	412, S.K. Shyam Heights, Sampat Hills, Bhicholi Mardana, Indore, MADHYA PRADESH- 452016
1963	Rashtra Vikas Zumbes Party	2nd Floor, Apollo Enclave, Opp. Jain Derasar, Modhera Cross Road, Mehesana, Gujarat – 384002
1964	Rashtrahit Chintak Vipaksh Party	Plot No. 177E/2, Ward No. – 2, Mehrauli, New Delhi – 110030.
1965	Rashtravadi Bharat Party	At-511/5, Anantpur, Ward No.-10, Gayatri Nagar, Huzur Rewa, Rewa, Madhya Pradesh-486001.
1966	Rashtravadi Communist Party	Begaria Ka Khera, P.O. Brawan Kalan, Kakori, Lucknow, Uttar Pradesh.
1967	Rashtravadi Janata Party	Anil Bharti Bhawan, 43-A, Sukhbir Nagar, Karala, New Delhi-110081.
1968	Rashtravadi Kranti Dal	Indu Niwas, Gaon Devi Road, Poisar, Kandivali (East), Mumbai, Maharashtra- 400101
1969	Rashtravadi Loktantrik Party (India)	35B, Sainik Enclave, Sector-1, Mohan Garden, New Delhi- 110059
1970	Rashtravadi Party (Bharat)	Village- Kakrana, Post- Dhaulana, District- Hapur, Uttar Pradesh-245301
1971	Rashtravadi Pratap Sena	Village – Narayanpur Banska, P.O. – Dhaulana, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1972	Rashtravadi Vikas Party	217, 2 nd Floor, Devaki Tower, Chandra Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201011
1973	Rashtravyapi Janta Party	M.M.S. 1/84, Sector – A, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
1974	Rashtrawadi Chetna Party	House No. 16F/F, K.H.No. 28/10, Risal Garden, Nangloi, New Delhi-110041
1975	Rashtrawadi Insaan Party	18/84/6C, Pura Dalel, Tilak Nagar, Allahpur, Allahabad, Uttar Pradesh.
1976	Rashtrawadi Jan Chetna Party	A-69, Trikam Nagar Section-1, Near Chowpaty Garden, L.H. Road, Surat, Gujarat- 395010.
1977	Rashtrawadi Jan Congress	Santosh Bhawan, Road No.1 Extension, Rajvanshi Nagar, Patna, Bihar - 800023
1978	Rashtrawadi Jan Samaj Party	158/33A-1, Ganga Prasad Road, Aansar Complex, Molviganj, Lucknow Uttar Pradesh – 226018
1979	Rashtrawadi Janataraj Party	A-404, Abajibapa Lake View, Opp. RAF Gate, Nirant Chokdi, Vastral, Ahmedabad, Gujarat – 382418

1980	Rashtrawadi Janlok Dal	934/1, Near- Vadi, Mota Madh, At&Po- Valam, TA- Visnagar, District- Mahesana, Gujarat – 384310
1981	Rashtrawadi Janlok Party (Satya)	Harsaru, Near Shiv Mandir, Tehsil- Harsaru, District- Gurgaon Haryana- 122505
1982	Rashtrawadi Jansangh	Pakri Gandhi Nagar More, (Katira Road), Near Jain Collage East Gate, Katira, Aara, Nawada, District- Bhojpur, Bihar-802301
1983	Rashtrawadi Janvikas Party	H.No. 7-G-27, Jawahar Nagar, Sri Ganganagar, Rajasthan- 335001
1984	Rashtrawadi Janwadi Manch	H.No.-160, Jodhi ka Pura, Azamgarh City, Azamgarh, Uttar Pradesh
1985	Rashtrawadi Kisan Kranti Dal	H.No. 73, Mohalla – Raysahab, Tehsil – Sirauli, Gauspur, District - Barabanki, Uttar Pradesh – 225415
1986	Rashtrawadi Minority Party	Village-Kadampura, Ward -9, P.O.-Kadampura, District- Supaul, Bihar-852134
1987	Rashtrawadi Parivartan Party (L.B.)	M.C. Unit No. 4 – 467, Noonsar Johad, Patram Gate, Bhiwani, District – Bhiwani, Haryana – 127021
1988	Rashtrawadi Party of India	Village- Kalyanpur, Post- Barhalganj, Tappa Kasbe, Pargana – Chillupar, District- Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273402
1989	Rashtrawadi Praja Dal	C-2/60, Ram Park – I, Loni, District – Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201102
1990	Rashtrawadi Samaj Party	16/17, Civil Lines, Near Padam Apartment, Kanpur, Uttar Pradesh.
1991	Rashtrawadi Shramjeevi Dal	512/695N, First Street, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh-226007
1992	Rashtrawadi Yuva Party	ARSI House, Pragati Nagar, Chakmohabbat, P.O- Bhikhanpur, P.S- Ahiyapur, District- Muzaffarpur, Bihar-842004.
1993	Rashtriy Bahujan Party	729/4, Ambedkar Chauk, Village – Nalegaon, Taluq – Chakur District – Latur, Maharashtra- 413524
1994	Rashtriya Aadarsh Member Party	Village and Post- Udaypura Beech ke Mohalla, Tehsil- Rajnagar, Thana- Khajuraho, District- Chattarpur, Madhya Pradesh- 472339
1995	Rashtriya Aadiwasi Bahujan Party	Plot No.4, Pushpak Nagar, Junwani Road, Bhilai, Disst. Durg, Chhattisgarh-490020
1996	Rashtriya Aam Party	Office no. 19A, 2nd Floor, Om Heera Panna Mall, New Link Road Oshiwara, Andheri (West), Mumbai, Maharashtra – 400053
1997	Rashtriya Aamjan Party	B-225, Old Minal, J.K.Road, Bhopal, Madhya Pradesh- 462023.
1998	Rashtriya Adarsh Party	Pitthuwalla Khurd, Chanderbani, Dehradun, Uttarakhand.
1999	Rashtriya Ahinsa Manch	132/1, Mahatama Gandhi Road, Kolkata – 700 007.
2000	Rashtriya Aikta Manch Party	D-197, Kunwar Singh Nagar, Nangloi, Delhi-110041
2001	Rashtriya Ambedkar Dal	Ambedkar Bhawan, Budh Vihar, Bhim Nagar, Central Jail Road, Varanasi, Uttar Pradesh.
2002	Rashtriya Antyodaya Congress	SS-III / 800, Sector – 1, Koparkhairane, Navi Mumbai, Maharashtra - 400709.
2003	Rashtriya Anyay Nivaran Sena	138, Jahagirdarwadi, P.O- Shingoli, Tehsil & Disrtict- Usmanabad, Maharashtra – 413501
2004	Rashtriya Apna Dal	House No. 232/81/4D, Tilak Nagar, Allapur, Allahabad, UTTAR PRADESH
2005	Rashtriya Arakshak Manch	4586, Vijayanagar, 2 nd Stage, Devaraja Mohalla, Mysore, Karnataka -570017.
2006	Rashtriya Arya Raj Sabha	769/2, Vijay Park, Jhang Colony, Rohtak- 124001. Haryana.
2007	Rashtriya Atulya Yuva Party	Plot No. 291, Flat No. 301, Shiv Nagar-1, Murlipura, Jaipur, Rajasthan-303328
2008	Rashtriya Azad Manch	Village&Post- Shahzadpur, Teshil- Naraingarh, Dist.- Ambala, Haryana.
2009	Rashtriya Backward Party	1/44, Shanti Nagar, Etah-207001, UTTAR PRADESH

2010	Rashtriya Bahujan Congress Party	TA-137/3, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019.
2011	Rashtriya Bahujan Hitay Party	C-158, Captain Satish Marg, Rishi Nagar, Rani Bagh, New Delhi-110034.
2012	Rashtriya Bahujan Kranti Dal	Village – Datavli Gesupur, Jai Bheem Nagar, Garh Road, Near Medical College, Tehsil - Meerut, District – Meerut, UTTAR PRADESH.
2013	Rashtriya Balmiki Sena Paksha	Jagadguru Maharishi Balmiki Swami Mandir Marg, C.M.E. Ram Nagar Bopkhel, Pune-411 031 (Maharashtra).
2014	Rashtriya Bandhutwa Party	554, Mamfordganj, Allahabad Uttar Pradesh.
2015	Rashtriya Bhagidari Party	Sreesheepama Building, Opposite Amity University Gate No.1, Nizampur, Malhour, P.S-Chinhat, Tehsil-Sadar Lucknow, Uttar Pradesh-226028
2016	Rashtriya Bhagidari Samaj Party	Village – Garhi (Mehanda More), Tehsil-Hansi, District – Hisar, Haryana -125033
2017	Rashtriya Bhaichara Vikas Party	CP-15, RICCO Jhunjhunu, Rajasthan - 333001
2018	Rashtriya Bharatiya Akhand Party	H. No. – 14, Village & Post – Behta, Vikas Khand – Masauli, P.S. – Safdarganj, District – Barabanki, UTTAR PRADESH.
2019	Rashtriya Bharatiya Jan Jan Party	Near APS, Bishara, Dadri (Gautam Buddha Nagar), Uttar Pradesh - 203207
2020	Rashtriya Bujurg Shakti Party	House No. – 144, Village – Mangawas, Post Office – Palra, Tehsil – Beri, District – Jhajjar, Haryana.
2021	Rashtriya Bundelkhand Vikas Party	1/965, Mansarovar Park, Ramji Lal Ki Bagichi, Near Railway Line Phatak, G.T.Road, Shahadara, Delhi-110032
2022	Rashtriya Chanakya Party	Flat No. 726FF, Block-A, Sector- MU-II, Greater Noida, Gutam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 201310.
2023	Rashtriya Congress (Babu Jagjivanram)	Ward No. 45, Mohalla – Baldevpuri, Janpad – Muradabad, Uttar Pradesh.
2024	Rashtriya Congress (J.) Party	Saindhri, Post-Harthala, Via Pakvarh, Muradabad, Uttar Pradesh.
2025	Rashtriya Dal United	G- 3/792, Ward No.- 69, Durga Apartment, Shalimar Garden, Extension- 1, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201005
2026	Rashtriya Democratic Front	H. No. 397, Village – Sonari, Post Sonari (Ramganj), P.S. – Piparpur, Tehsil – Amethi, District – Amethi, UTTAR PRADESH - 228159.
2027	Rashtriya Deshaj Party	Tungari Toli, Argora, St. Francis School, Post - Harmu, Distt. Ranchi Jharkhand - 834012.
2028	Rashtriya Devbhumi Party	H. No. 330/6, Naya Bazaar, Nahan, Distt.- Sirmour, Himachal Pradesh- 173001
2029	Rashtriya Dharmanirpeksha Nava Bharat Party	108, Shankar Shah Nagar, Jabalpur (Madhya Pradesh).
2030	Rashtriya Ekta Party	H.No. 83, Ground Floor, Gali No. 4, Near Chand Masjid, Jafarabad, Delhi – 110053.
2031	Rashtriya Ekta Party (Secular)	Bhawan No. 543, Mohalla- Upadiyan, Ward No.14, Kithore, District- Meerut, Uttar Pradesh.
2032	Rashtriya Gana Sangha	At-68/1, Khudiram Sarani, Namabongi, Balurghat, Post-Balurghat, P.S.-Balurghat, District-Dakshin Dinajpur, West Bengal – 733101
2033	Rashtriya Garib Dal	110, Ram Nagar, Panipat, Haryana.
2034	Rashtriya Garib Utthan Party	Village – Nasopur, Post -Nagpur, Tehsil – Jalalpur, P.S. – Jalalpur, District – Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh - 224149.
2035	Rashtriya Garima Party	B-14, Kasturba Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462001, (Madhya Pradesh).
2036	Rashtriya General Party	Ward No. 11, Aadarsh Nagar, Collectriate Road, Buxar, Bihar- 802101.
2037	Rashtriya Gondvana Party	Sarkhel House, Tiffra, Bilaspur – 495223, Chhattisgarh.
2038	Rashtriya Gram Vikas Party	62, Civil Lines, Roorkie, Janpad-Haridwar Uttarakhand

2039	Rashtriya Hind Ekta Dal	Village Nagla Bhaja, Post – Mighauli, P.S.- Vishnugarh, Tehsil-Chhibramau, District- Kannauj, Uttar Pradesh- 209721
2040	Rashtriya Hindustan Shakti Dal	I- 26/1, Gali No. 10, Brahmapuri, Delhi- 110053
2041	Rashtriya Hissedari Party	Village Mumtaj Jagar, Post-Mumtaj Nagar, Tehsil-Sohawal, near Samrat Medical Store, P.S.- Cantt., Distt.- Auodhya, Uttar Pradesh- 224001
2042	Rashtriya Independent Morcha	At: Mining Road, Keonjhar (In front of O.S.M.E. Ladies Hostel), P.O./Via.: Keonjhar District – Keonjhar- 758001, Odisha.
2043	Rashtriya Jagriti Party	Rishabh Institute, Chiraitaad Pul, Chaudhry Petrol Pump, Kankarbagh, Patna, Bihar – 800020.
2044	Rashtriya Jagrook Party	House No.- B-7/209, Satta Bazar, Kot Kapura, District-Faridkot, Punjab-151204.
2045	Rashtriya Jaihind Party	Adarsh Nagar, Kokar, P.S.Sadar, District-Ranchi, Jharkhand-834001
2046	Rashtriya Jan Adhikar Party (United)	H.No. 710, Naya Purva, Degree College Chauraha, Kachari Road, Opp. Liberty Showroom, District- Rae Bareli, Uttar Pradesh.
2047	Rashtriya Jan Awaz Party	MIG-23, Triveni Complex, TT Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh- 462003
2048	Rashtriya Jan Gaurav Party	470, Parmanatpur, (Behind-Sapna Ice Factory), P.O-Kachahari, Tehsil- Sadar, District- Jaunpur Uttar Pradesh-222002.
2049	Rashtriya Jan Jan Party	C/o Parshuram Singh, Neily Niwas, Shiv Nagar, Road Number-1, Behind Ford Hospital, Thana-Ram Krishna Nagar, PO-Ram Krishna Nagar, Khemnichak, District-Patna, Bihar-800027..
2050	Rashtriya Jan Kalyan Party	G-290, Old Seema Puri, Delhi 110095.
2051	Rashtriya Jan Kalyan Party Secular	Khata-187, Khasra-869, PS-150 Tozi No 525, Village-Chodhli, PS-Deldour, Distt.- Khagaria, Bihar-852161
2052	Rashtriya Jan Karmath Party	11-F-10, Nehru Nagar, Nikat Ganesh, Hospital, Gaziabad, Uttar Pradesh 201001
2053	Rashtriya Jan Manch	Village & Post- Gurha, District- Jalaun, Uttar Pradesh- 285122.
2054	Rashtriya Jan Sagar Party	Behind Water Box, Nareda Road, Tehsil & District-Baran, Rajasthan- 325205.
2055	Rashtriya Jan Sahay Dal	112, New Connaught Place, Dehradun, Uttaranchal.
2056	Rashtriya Jan Sahyog Party	Plot No. A-40, Gaytri Puram, Near Shobhit University, Pallavpuram, Phase-2, Modi Puram, City- Meerut, Uttar Pradesh-250110
2057	Rashtriya Jan Samarthan Party	A-122B, Ground Floor, Hari Nagar, New Delhi- 110064
2058	Rashtriya Jan Shourya Party	Khasra no.3250, Opp-Police Line main gate, Ajmer, Rajasthan-305001
2059	Rashtriya Jan Utkarsh Party	Hut Survey no. A/EE-126, Gazdhar Bandh, Laundry Gally, Ratnabai Chawl, S.B. Patil Marg, Santacruz (W), Mumbai, Maharashtra-400054
2060	Rashtriya Jan Vikas Party	Mohalla-Sundarpur Chhathi Pokhar, P.O. Lal Bagh, P.S. – L.N.M.U., District Darbhanga, Bihar-846004
2061	Rashtriya Janadhar Party	596 S.K. – 04/01/01, Sumiran Khera, Adarsh Vihar, Lucknow, Uttar Pradesh.
2062	Rashtriya Janadhikar Party	61, Mangla Puri Phase-I, Palam, New Delhi-110045.
2063	Rashtriya Janadhikar Suraksha Party	Village: Krishnapur, Post: Dhopathat Krishnapur, Distt: 24 Parganas (South), West Bengal.
2064	Rashtriya Janahita Party	No. 140, Vidyananyapura, Narasipura, Main road, Bengaluru, Karnataka- 560097
2065	Rashtriya Jananayak Janata Party	RZ-3284/37, Tughlakabad Extension, New Delhi – 110019
2066	Rashtriya Janasachetan Party (R.J.P.)	Sonarpur, Sukanta Nagar (Milanpally), (Near Shib Mandir) P.O. & P.S. Sonarpur, Kolkata-700150. West Bengal.

2067	Rashtriya Janhit Sangharsh Party	109-F, Najimpura, Bhoor, Bulandshahar Uttar Pradesh - 203001.
2068	Rashtriya Janhit Vikas Party	V.P.O. Khanak , H. No. 627B, Near Panchayat Ghar, Adarsh Colony, Teh. – Tosham, District- Bhiwani, Haryana- 127040
2069	Rashtriya Jan-Jagran Morcha	Raj Manzil, Ward No.12, Gopalganj, Post and District Gopalganj, Bihar.
2070	Rashtriya Jankranti Morcha	Village- Babbhe Alam Nagar, P.O-Pratappur, District: Chatra, Jharkhand -825404
2071	Rashtriya Jankranti Party	5/24 H-10 (R) ITI Road, Aligarh, Uttar Pradesh – 202001
2072	Rashtriya Janmanch (Secular)	Village,Taluka -Shrirampur,Distric-Ahmednagar,Maharashtra- 413715
2073	Rashtriya Janmat Party	Village – Fatuha, Post – Hanumanganj, Distt. – Allahabad, Uttar Pradesh.
2074	Rashtriya Janmorcha	C-69/10, Gali No. 10, C- Block, Mustafabad, Delhi- 110094.
2075	Rashtriya Janpriya Party	H-II-76/D, LDA Colony, Kanpur Road. Lucknow- 226012, UTTAR PRADESH.
2076	Rashtriya Janraj Party	28-A, Vishal Kunj, Dehtora Road, Bodla, Agra, Uttar Pradesh - 282007.
2077	Rashtriya Jansabha Party	Kondagaon, Forest Colony Ward, District- Kondagaon, Chhattisgarh-494226
2078	Rashtriya Jansambhavna Party	U.K Sahni Commercial Complex, Room No.101, First Floor, Village- Rajopatti, District- Sitamarhi, Bihar- 843302.
2079	Rashtriya Jansanchar Dal	600/279/031N, Sumit Nagar, Faridipur Ring Road, Dubagga, Lucknow, Uttar Pradesh- 226101
2080	Rashtriya Jansangharsh Swaraj Party	Upper Chutia, Ranchi, Jharkhand – 834001.
2081	Rashtriya Jansardar Party	Village-Jigina Khurd, P.O.-Kurthiya, P.S.-Bansi, Janpad-Siddharthnagar, Uttar Pradesh-272153
2082	Rashtriya Jansena Party	Shop No. 101, Madina Complex, Kumbhartek, Shirpur, District- Dhule, Maharashtra
2083	Rashtriya Janseva-Secular Party	428, Brahman Wara, Old Ward No. 23, Ballabhgarh- 121004, Distt. - Faridabad, Haryana.
2084	Rashtriya Janshakti Party (Eklavya)	Post and Village :- Binjhol, Tehsil and District :- Panipat, Haryana-132103.
2085	Rashtriya Janshakti Party (Secular)	417-A, Jaina Tower-III, A-1 Block, Janakpuri, New Delhi- 110058
2086	Rashtriya Janshakti Samaj Party	Mohalla- Thok, Ward No. 4, Puranaganj, Near Railway Station, Mishrikh, District- Sitapur, Uttar Pradesh- 261001
2087	Rashtriya Janshanti Party	52/2, School Ward Chawk, Behind G.G.I.C., Pratapgarh- 230001, Uttar Pradesh.
2088	Rashtriya Jansurajya Party	House No. 953/C, Garoba Maidan, Bhandara Road, Bagadganj, Nagpur(E), Maharashtra-440008.
2089	Rashtriya Jan-Swabhiman Party	No.1-B, 223, M.I.G, Awas Vikas Colony, Rukunpur, Shikohabad, District-Firozabad, Uttar Pradesh-283135
2090	Rashtriya Janta Party	Near of Shiv Mandir Colony, Saorkha Jahidabad, Sector – 115, Noida, Distt. - Gautambudhnagar, UTTAR PRADESH.
2091	Rashtriya Janta Sena	27, Gyan Vihar, Nirman Nagar, DCM Ajmer Road, Jaipur, Rajasthan-302019
2092	Rashtriya Jantantrik Bharat Vikas Party	Govind Chikitsalya, Parsiya Morh, Rasulpur, Rasraha, Balia, Uttar Pradesh.
2093	Rashtriya Jantantrik Morcha	Village-Rajpur, Post-Dharmshala, Thana-Paraiya, District-Gaya, Bihar-824236
2094	Rashtriya Janutthan Party	A-655-56, Awas Vikas, Hanspuram (Kainal Road), Naubesta, Kanpur Nagar – 208021, Uttar Pradesh.

2095	Rashtriya Janvikas Party (Democratic)	Manorma Sadan, Indrapuri Sipara, Post Office-Dhelwan, Thana- Beur District- Patna Bihar 800020.
2096	Rashtriya Janwadi Party (Krantikari)	9/168, Indira Nagar, Near Pani Tanki, Luknow-226016.
2097	Rashtriya Janwadi Party (Socialist)	1/73, Shiv Katra, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208007
2098	Rashtriya Jatigat Aarakshan Virodhi Party	788-E/24, In Front of Union Bank, Near of old Court, Rohtak Road, Sonapat-131001 Haryana.
2099	Rashtriya Kalyan Paksha	904, Atlanta Towers, Inqualab Society Gulbai Tekra, Ahmedabad-380006, Gujarat.
2100	Rashtriya Karmyog Party	Village & P.O. – Sultanpur, Tehsil – Nilokheri, Distt. – Karnal, Haryana-132116.
2101	Rashtriya Karyarat Party	House No.54K, Ward No.4(New), Ward No.8(Old), Malviya Nagar, Chitbaragaon, Near Middle School, Tehsil & District-Ballia, Uttar Pradesh-221713
2102	Rashtriya Kisan Bahujan Party	Ajinkya, Rajwada Bhawan, In front of Govt. ITI College, Tuljapur Road, Niture Nagar, Osmanabad, Tal. & Distt. – Osmanabad, Maharashtra - 413501
2103	Rashtriya Kisan Congress Party	H. No. 1-11-602, Ramamata Ambedkar Nagar, Near of Guru Govind Singh Ji Stadium, Tq. & Distt. Nanded, Maharashtra.
2104	Rashtriya Kisan Majdoor Party	W-127, 1 st Floor, Greater Kailash –II, New Delhi-110048.
2105	Rashtriya Kisan Party	Village & P.O. Dhanaundha, Teh. & Distt. Mahendragarh (Haryana).
2106	Rashtriya Kisan Samaj Party (United)	Mohalla- Pateganj, Post- Kanth, Tehsil- Kanth, District-Moradabad, Uttar Pradesh-244501
2107	Rashtriya Kisan Shramik Party	Village- Takhat Khera, Post- Akampur Bihar, Bagwant Nagar, District- Unnao, Uttar Pradesh- 209864
2108	Rashtriya Komi Ekta Party	Limda Lane, Makrani Pada, Jamnagar-361001, Gujarat.
2109	Rashtriya Kranti Party	Lodhi Pragyapeeth, Lauh Purush Dr. Sakshi Nagar, Shikohabad Road, Etah, District: Etah – 207 001, Uttar Pradesh.
2110	Rashtriya Krantikari Dal	Gopal Nagar, Main Surakhpur Road, Najafgarh, New Delhi –110043.
2111	Rashtriya Krantikari Samajwadi Party	House No. 65/25 K, Chhitwapur Road, Lalkaun, Lucknow, Uttar Pradesh.
2112	Rashtriya Krishak Dal	Plot No.177, House No.SA-4/4A-5B, Daulatpur, Post Khajoori (Pandeypur), District-Varanasi, Uttar Pradesh-221002
2113	Rashtriya Lok Dal	406, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001
2114	Rashtriya Lok Janta Party	H. No. 31, Village- Kamsari, Post office- Asawar, Tehsil- Muhammadabad, District- Ghazipur, Uttar Pradesh- 233225
2115	Rashtriya Lok Morcha	Ashirwad Bhawan, Mohalla Majar Gali, Shekhpura, P.O. B.V. College, P.S. Shastrinagar, Patna, Bihar-800014
2116	Rashtriya Lok Praja Rajay Party	Barkati Appartment, Normal Chowk, In front of Bijali office, Khurrampur, District-Gorakhpur, Uttar Pradesh-273001
2117	Rashtriya Lok Sarvadhikar Party	H. No. –630, Village-Pasonda, Bodh Vihar Mandir, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
2118	Rashtriya Lok Sevak Party	Sampatti No.39/34A, Near Saheb Bus Adda, District – Hanumangarh Rajasthan-335501
2119	Rashtriya Lok Tantra Dal	Gram Mohalla – Nagla Kashi, Tehsil – Dhaulana, District – Hapur. Uttar Pradesh - 245301.
2120	Rashtriya Lokneeti Party	J-1201, Aditya Mega City, Vaibhav Khand, Indrapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201014
2121	Rashtriya Lokraj Party	H. No. 73/382, Mohalla – Vankhandi Teela, (Behind of Sahkari Bank), Mathura, Uttar Pradesh- 281001.
2122	Rashtriya Loksatta Party	No.287/3, Mangel Pandey Nagar, Meerut, Uttar Pradesh-250001
2123	Rashtriya Lokshakti Party	Arjun Nagar Colony, Gola Gokarnnath, Lakhimpur

		Kheeri, Uttar Pradesh - 262802
2124	Rashtriya Lokswaraj Party	Padma Farm, Village – Chhapra Khera, Near Balaji Mandir, Phusgarh, Karnal, Haryana.
2125	Rashtriya Lokwadi Party	A/6A, Ground Floor, Mansarovar Garden, New Delhi – 110015.
2126	Rashtriya Maha Janshakti Dal	Room No.17, M. Naresh Munna Chawl,Jaihind Nagar, Pipe Line, Khar East, Mumbai-400 051, Maharashtra.
2127	Rashtriya Mahajan Shakti Party	H.No. 843/39, Shiv Utsav Vatika, New Railway Station Marg, Ater Road, Bhind, Madhya Pradesh- 477001
2128	Rashtriya Mahan Dal	108/60, Avas Vikas Colony, Village – Taimurpur, Post – Bijnaur, Distt. – Bijnaur, Uttar Pradesh.
2129	Rashtriya Mahan Gantantra Party	Village – Adda Chhinparai, Post – Chhinparai, Naujhil, Mathura, Uttar Pradesh - 281203
2130	Rashtriya Mahashakti Party	5, Rupayatan, S V Road, Vile Parle West,Mumbai-400056Maharashtra.
2131	Rashtriya Mahaswaraj Bhumi Party	At-3A,1st Floor,Dharavi,Vivekananda Co-op. Housing Soc. Ltd.,Prabhakar Kunte Nagar,90 Feet Road,Kumbharwada,Dharavi,Maharashtra,Mumbai-400017
2132	Rashtriya Mahila Janshakti Party	Gram Sabha – Santa Jiginiya,Post – Kanta Guljarpur,Block – Fatehpur, Distt. – Unnao,Pin-209801 UTTAR PRADESH.
2133	Rashtriya Mahila Party	340, Swale Nagar, Rampur Road, Post- C.V.Ganj, District- Bareilly, Uttar Pradesh-243502
2134	Rashtriya Majdoor Krishak Party	At-NH-28,Tenua,Harraiya,Basti,Uttar Pradesh- 272155
2135	Rashtriya Majdoor Vikas Party	H.No. 502, Yamuna Road, Ist floor, Village-Mehandipur, Tehsil & District- Sonipat, Haryana-131001
2136	Rashtriya Manav Ekta Congress Party	Opp. Gurudwara,Station Road, Raipur, Chhattisgarh.
2137	Rashtriya Manav Party	H.No.29/124,1st Floor, West Patel Nagar,New Delhi,Delhi-110008
2138	Rashtriya Manav Samman Party	H. No-1485, Kidwai Nagar, Bhardwaj Puram, Allahabad-211006.
2139	Rashtriya Manav Sewa Party	Khata No.60,Khasra No.03,Mauja No.82,Shree Nagar House,Samukhiya More,Near New Police line Banka,District-Banka,Bihar- 813102
2140	Rashtriya Manav Vikas Party	House No. 249, Village- Sathalpur, P.O- Dhawarsi, Tehsil- Hasanpur, Block- Gangeswari, District- Amroha, Uttar Pradesh-244242
2141	Rashtriya Mangalam Party	19/23, West Moti Bagh, Street No. 3, Sarai Rohilla, Delhi – 110035.
2142	Rashtriya Maratha Party	Shivneri Sinhad Building, Shrinagar (Shivnagar) Colony, Bidar Road, Udgir, District – Latur, Maharashtra - 413517
2143	Rashtriya Marxwadi Dalit Lehar Party	Village- Chhonkarwara, Tehsil- Weir, District- Bharatpur, Rajasthan.
2144	Rashtriya Mataadhikar Party	Village & Post-Areraj,Ward No. 11,Shiv Mandir Se purav,Gayatri Traders,Distt.-Purvi Champaran,Bihar-845411
2145	Rashtriya Matdata Party	Mohalla – Sayedvada, Kasba – Malihabad, District – Lucknow, UTTAR PRADESH
2146	Rashtriya Mazdoor Ekta Party	Block-B, Sant Nagar, Gali No.57, Burari Road, Delhi – 110009.
2147	Rashtriya Mazdoor Kisan Party	Aakash Bhawan, Opp. IDBI Bank, Main Road Dadri, Surajpur, Greater Noida, Vikas Khand- Visrakh, Tehsil-Sadar, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
2148	Rashtriya Mazdoor Kisan Prajatantrik Party	Ashoka Avenue, Village-Lalganj, P.S- Sadar, District - Ranchi, Jharkhand.
2149	Rashtriya Morcha Party	H.No.57, Village – Manesar,Mohalla – Mohan Patti, Distt. – Gurgaon,Haryana-122050.
2150	Rashtriya Nagrik Party	H.No. 725, Khasra No. 40, Village- Maidangarhi, New

		Delhi- 110068
2151	Rashtriya Narayanwadi Vikas Party	At Narayan Bhawan, Pikaurabhadd, Nand Nagar, Janpad Basti, Uttar Pradesh-272129
2152	Rashtriya Naujawan Dal	20/575, D.D.A. Flat, Dakshinipuri, New Delhi – 110062
2153	Rashtriya Nav Nirman Bharat Party	No.- K-33, F/F, AB, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024
2154	Rashtriya Nav Prabhat Party	110/2, Lakshmiapuram, Near RBM School, Gandhinagar, Mujaffarnagar, Uttar Pradesh-251001
2155	Rashtriya Navjagran Party	Senior M.I.G-2, Sahyadri Parisar, Bhadbhada Road, Bhopal, Madhya Pradesh-462003.
2156	Rashtriya Poorvanchal Ekta Party	Plot No.145, Paigamberpur, Post-Rasulgarh, P.S-Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh-221007
2157	Rashtriya Power Party	101, Ashram Avenue, B/H, Kochrab Ashram, Paldi Cross Road, Ellisbridge, Ahmedabad, Gujarat – 380006
2158	Rashtriya Pragati Party	Garh Par, Nardiganj Road, Nawada, Post & Distt. Nawada – 805 110, Bihar.
2159	Rashtriya Praja Congress (Secular)	12-11-113, AB-Nageswara Rao Street, Arya Puram, Rajamundry, Andhra Pradesh.
2160	Rashtriya Pratibha Party	H. No. 119, Sri Ram Colony, Hoshangabad Road, Misrod, Bhopal, Madhya Pradesh-462047.
2161	Rashtriya Raksha Dal	C/o Hotel Pankaj, Sector-22A, Chandigarh.
2162	Rashtriya Rakshak Morcha	31, Alkapuri, Behind New High Court, City Center, Gwalior, MADHYA PRADESH- 474011
2163	Rashtriya Rashtrawadi Party	2/36, Ruchi Khand-1, Sharda Nagar Yojna, Lucknow, Uttar Pradesh -226012.
2164	Rashtriya Republican Party	D-26, Meerdard Road, New Delhi- 110002
2165	Rashtriya Sab Janshakti Party	Ratanachak New Tola, P.O.-Hathua, Dist-Gopalganj, Bihar-841436
2166	Rashtriya Sadbhavna Party	Village- Raghupur Narsanda, Post- Bajitpur, Thana-Patepur, District- Vaishali, Bihar- 843110
2167	Rashtriya Saf Niti Party	Village & Post- Manoharpura, Tehsil- Bassi, District-Jaipur, Rajasthan- 303301
2168	Rashtriya Sahara Party	Jangra Market Dundahara, Gurgaon-122016, Haryana.
2169	Rashtriya Sahyog Party	F-130/4, Ground floor, Gautam Nagar, New Delhi-110049
2170	Rashtriya Samadhan Janmorcha	11 Prakash Nagar, MPEB Officer Colony, Govindpura, Bhopal, Madhya Pradesh - 462023.
2171	Rashtriya Samaj Dal (R)	H.No.193, Ward No.7, Shastri Nagar, Koraon, Allahabad, Uttar Pradesh-212306
2172	Rashtriya Samaj Paksha	C/o L.W. Kale, 17-Raghunath Dadoji Street, 4th Floor, Near Handloom House, Fort, Mumbai-400 001 (Maharashtra).
2173	Rashtriya Samajhit Dal	Moh.Devi Mandir Colony (D.M.Colony), Near Petrol Pump, Digha, Patna, Bihar-800011
2174	Rashtriya Samajwadi Apna Dal	Vill. – Basupar (Bankut), Near Shiva Nursing Home, P.O. – Jiyanpur, District – Ajamgarh, Uttar Pradesh.
2175	Rashtriya Samajwadi Jankranti Party	B-37/162, K.P.Giri Colony, Birdopur, Varanasi, Uttar Pradesh.
2176	Rashtriya Samajwadi Lok Adhikar Party	At-Village Silat, Post Pokhraia, Via Birauli (R.I), Distt.-Samastipur, Bihar-848113
2177	Rashtriya Samajwadi Party (Secular)	A/104, Rajshree Avenue, B/h, Income Tax, Nr. Dinesh Hall, Ashram Road, Ahmedbad-380009, Gujarat.
2178	Rashtriya Samajwadi Swabhimani Manch	Plot No. 33/34, Laxmi Nagar, Risali, Bhilai, District-Durg, Chhattisgarh- 490006
2179	Rashtriya Samanta Dal	8/440, Trilok Puri, Delhi-110091.
2180	Rashtriya Samrasta Party	No. C-133, DDA Flats, New Ranjeet Nagar, Patel Nagar, New Delhi- 110008
2181	Rashtriya Samrat Sena Party	3115, S.G. Nagar, Digha, Airoli, Navi Mumbai, Maharashtra- 400708.
2182	Rashtriya Samta Party (Secular)	H.No.- 27, Village- Veerapur Singhara, Post- Singhara,

		Dist.- Vaishali, Bihar- 844126.
2183	Rashtriya Samta Vikas Party	House No. 227/111, Vishnupuri Bhuteshwar, Post-Krishnanagar, District- Mathura, Uttar Pradesh- 281004
2184	Rashtriya Samvidhanwadi Party	Village-Rampura,Post-Haidarpur,District-Auraiya,Uttar Pradesh- 206129
2185	Rashtriya Sanatan Party	H.N. 108-A,G/F K.H.No. 60, 30 Foota Road, New Sabhapur Gujran, Karawal Nagar, Delhi-110092
2186	Rashtriya Sangail Party	Simdega Bhawan, Near Dangratoli Chowk, Opposite Tanveer Petrol Pump, Purulia Road, Ranchi, Jharkhand- 834001
2187	Rashtriya Sangam Dal	7B, Khyora, Nawabganj, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208002
2188	Rashtriya Sanskriti Party	24 D 1, Barasirohi, Gadariyanpurwa, Ratanpur Panki, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh 208017
2189	Rashtriya Sant Sandesh Party	263, Vanarse Niwas, Mitra Nagar, Latur, Tq. Latur, Distt.- Latur-413512,Maharashtra.
2190	Rashtriya Sanyukt Party	5/36, Railway Road, Near State Bank of India, District – Furukhabad, Uttar Pradesh - 209625.
2191	Rashtriya Sanyukt Samaj Party	N8/236-R-53-1, (Ganeshdham Colony), Newada, Sunderpur, Varanasi, Uttar Pradesh - 221004.
2192	Rashtriya Sarv Manch Sangathan	1-Q-13, Tilak Nagar, Bhilwada, Rajasthan-311011
2193	Rashtriya Sarvajan Party	124/3, Madak Khana (Khushipura), Jhansi-284001,Uttar Pradesh.
2194	Rashtriya Sarvangeen Vikas Party	Khasra No. 608, Village – Pasonda, Main Wazirabad Road, Near Garimanjali Public School, Opp. Rajender Nagar, Garima Garden, Sahibabad, Gaziabad, Uttar Pradesh – 201005
2195	Rashtriya Sarvjan Vikas Party	Khasra No. 496/1, Main Wazirabad Road, Village-Pasonda, Tehsil- Loni, District - Ghaziabad, Uttar Pradesh.
2196	Rashtriya Sarvodaya Party	A-412, AG Colony, P.S. – Shastri Nagar, District - Patna, Bihar – 800025.
2197	Rashtriya Sawarg Samaj Party	Village- Sakhella, Post-Gaurabadshahpur, District-Jaunpur, Uttar Pradesh - 222133.
2198	Rashtriya Sawarn Dal	Dubey Ka Parav, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
2199	Rashtriya Secular Congress	Ashirvad Apartment,Mathura Dawaraka Road,P.O. Dispur, Sakuntala Path, 5th Bye Lane, Guwahati-6,ASSAM.
2200	Rashtriya Secular Majlis Party	Ward No.36,Village-Bihar Sharif,Badi Dargah,Nalanda,Bihar-803101
2201	Rashtriya Shahri Vikas Party	H. No. 8/69(40,40A) PuranaQuila, Babu Banarsi Das Nagar, Cantt. Road, Lucknow, Uttar Pradesh – 226001.
2202	Rashtriya Shakti Party (India)	80-A, Munirka Village,New Delhi-110067.
2203	Rashtriya Shoshit Samaj Party	Village – Lohvan, Post – Lohvan, Laxmi Nagar-Baldeo Road, District – Mathura, Uttar Pradesh.
2204	Rashtriya Suraksha Party	Third, H. -2,Nehru Nagar,Rakesh Marg,Ghaziabad Uttar Pradesh- 201001
2205	Rashtriya Surya Prakash Party	C/o Sh. Panna Lal, S/o. Sh. Bhole Shankar, Thana-Avagarh, Jalesar Road, Kasba & Post Office-Avagarh, Zila-Eta, Uttar Pradesh.
2206	Rashtriya Swabhiman Sangh Party	A-104, Sanghvi Tower, Opposite Hatkesh, Mira-Bhayander Road, Mira Road East, Maharashtra - 401107.
2207	Rashtriya Swarajya Sena	03,Dahisar Sanket Building,Shiv Vallabh Cross Road,Ravalpada,Dahisar (E),Mumbai,Maharashtra – 400068
2208	Rashtriya Swatantra Party	Vill& P.O. Pipriya,Word No. 3,Thana Mohania,Distt.Kaimur,Bihar-821105
2209	Rashtriya Teesara Vikalp Party	1372/12,New Gadaura,Behsa,Kanpur Road,Lucknow,Uttar Pradesh - 226002
2210	Rashtriya Ulama Council	3, Rashad Nagar, Gorakhpur Road,Azamgarh-

		276001Uttar Pradesh.
2211	Rashtriya Unnati Party	Prop. No. 12-A,Block-K4,Mohan Garden,Uttam Nagar,Delhi- 110059
2212	Rashtriya Uttar Bhartiya Samaj Party	Opp. Kailash Industrial Estate,S.R.A. Building No. 1,Room No. 207,90 Ft. Road,Vikroli Mumbai- 400079
2213	Rashtriya Uttarakhand Party	124/98, Haridwar Road, Dehradun, Uttarakhand.
2214	Rashtriya Vanchit Party	H.No.525 (New), 204 (Old), Paltan Bazar Sadar, MakandruGanj District- Pratapgarh, Uttar Pradesh- 230001.
2215	Rashtriya Vikalp Party	Village – Piprauli, Post – Jahangirabad, Janpad – Barabanki, Uttar Pradesh
2216	Rashtriya Vikas Manch Party	Plot No. 58, New Colony, Tilmapur, Aashapur, Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh.
2217	Rashtriya Vikas Morcha	557, Pana Udyan, Narela, Delhi - 40.
2218	Rashtriya Vikas Party	195, Main Ashoka Enclave, Faridabad, Haryana.
2219	Rashtriya Vikaswadi Janta Party	Village and Post-Hariharpur Raikwari, District-Bahraich, Uttar Pradesh-271870
2220	Rashtriya Vyapari Party	F-25, Professor Colony,Kamla Nagar,Agra-282005Uttar Pradesh.
2221	Rashtriya Yuva Janadhikar Party	Shop No. -1,Bhimnath Shopping Centre,Beside Big Swaminarayan Temple,Borisana,TA-Kalol,Distt.- Gandhinagar-382721
2222	Rashtriya Yuva Adhikar Dal	At-G-67,Rajeev Nagar,Begampur,Near Pal Hospital,New Delhi-110086
2223	Rashtriya Yuva Morcha Dal	Village-Baleji,Post-Phehpana,District-Ballia,Uttar Pradesh-277503
2224	Rashtriya Yuva Samaj Party	18- Muskan Manjil, Rasulabad, Opposite Rehmat Duplax, Shah-E-Alam, Ahmedabad, Gujarat- 380028
2225	Rashtriya Yuva Swabhimani Party	Katre Township, Opp. Sawta Maidan, Junivasti Main Road, Badnera Maharashtra- 444701.
2226	Rastriya Aam Jan Seva Party	C-90, Khasra No. 770, Madanpur Khaddar Extension, Tehsil, Mehrauli, New Delhi-110076
2227	Rastriya Atal Janta Party	At Near Ring Road Crossing,Khurasan Nagar Sai Guest House,First Floor,Lucknow,Uttar Pradesh-226022
2228	Rastriya Hind Samaj Party	H. No. Naya,Juggaur Anshik,Teh.-Lucknow,District-Lucknow,Uttar Pradesh- 226028
2229	Rastriya Insaaf Party	604, Anubhav Eledco, Udyan -2, Raibareli Road, Lucknow -226025, Uttar Pradesh
2230	Rastriya Naba Nirman Party	Jemadevi Pentho Street, Old Berhamapur, PO-Berhamapur, PS – Bada Bazar, Dist. Ganjam, Odisha – 760009
2231	Rastriya Sadabahar Party	72,Tulsi Mandi, Hotel Maharani, Maharani Chowk, Post- Gulzarbagh, Thana- Aalamganj, Patna City, District- Patna, Bihar 800007.
2232	Rayalaseema Congress Party	5/62, Pedduru Road, Galiveedu Kaspa, Galiveedu Post and Mandal, Y.S.R Kadapa District, Andhra Pradesh – 516267.
2233	Rayalaseema Parirakshana Samithi	Door No. 70-125-B-71, Near Highway, Kallur, Kurnool Town, Andhra Pradesh – 518003
2234	Rayalaseema Praja Samithi	H.No.5-54,Chowdeswari Bazar,Post & Mandal-Kodumur,Kurnool District,Andhra Pradesh-518464
2235	Rayalaseema Rashtra Samithi	Door No.22/160, Vasanthapeta,Kadapa District, Proddatur-516360,Andhra Pradesh
2236	Real Democracy Party	37, Akshar Diamond Market, Sardar Chowk, Mini Bazar, Varachha Road, Surat, Gujarat – 395006.
2237	Reforms Party of India	1-10-50, Baptist Peta, Eluru-534001, Andhra Pradesh.
2238	Regional Democratic Secular Congress	Lower Lumparing, P.O. Laban, Distt. East Khasi Hills, Shillong – 793004 Meghalaya.
2239	Republican Backward Congress	Plot No. 4, Gali No. 1, Ward No.1,M.C. Colony, Charkhi-Dadari, Disstt. Bhiwani, Haryana-127306
2240	Republican Bahujan Sena	305, Shahu Smruti Building, 3rd Floor, Mahatma Phule

		Nagar, Behind Meenatai Thakrey Udyan, Thane (West), Maharashtra – 400606
2241	Republican Paksha (Khoripa)	Ensa Hutments, 8-9, Azad Maidan, Infront of Mumbai Maha Nagar Palika, Fort, Mumbai-400 001, (Maharashtra).
2242	Republican Party of India	Satnam Mansion, 3 rd Floor, Building No.245, P Dmello Road, Roll No.1393, Above Muncipal Co-operative Bank, Opposite GPO, Mumbai – 400001
2243	Republican Party of India (Athawale)	No.3/4,Insa Hutment,Azad Maidan,Fort,Mumbai,Maharashtra-400001
2244	Republican Party of India (Democratic)	Mukund Niwas, India Nagar, Latur-413512 (Maharashtra).
2245	Republican Party of India (Karnataka)	Office No. 49/1, B.Nagasandra, Yamaluru Post, Bangalore, Karnataka- 560037.
2246	Republican Party of India (Khobragade)	Gita Villa, East Marredpally, Secunderbad, (Andhra Pradesh).
2247	Republican Party of India (Rashtriya)	House No. - 67, 68, Street No. – 15, Block – 28, Vishwas Nagar, Shahdara, New Delhi- 110032
2248	Republican Party of India (Reformist)	B-12/704, Vijay Park,Kasarvadavli, G.B.Road, Thane (W), Maharashtra - 400615.
2249	Republican Party of India (Sivaraj)	10, Solai Street, Ayanavaram, Chennai-600023 (Tamil Nadu).
2250	Republican Party of India (Social)	Property No.-2618, Ward No. Tukum-2, (Old Ward 1C), Samta Colony, Opp. St Workshop, Tadobe Road, Chandrapur, Maharashtra- 442401
2251	Republican Party of India Bharatha	No. 2001, 1 st A Main Road 8 th Cross, Jaimuni Rao Circle, (Otagere), M.C. Layut, Vijayanagar, Bangalore, Karnataka- 560040.
2252	Republican Party of India Ektavadi	B-9/667, Dev Nagar, Karol Bagh, New Delhi – 110005.
2253	Republican Party of India(A)	1/16, Sanjay Complex, T.T. Nagar, Bhopal-462003,(Madhya Pradesh).
2254	Republican Sena	Shop No. 6, New Nirmal Society, 189, Dhole Patil Road, Opp. Akshay Complex, Pune, Maharashtra-411001
2255	Revolutionary Communist Party of India (Rasik Bhatt)	84-Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700025 (West Bengal).
2256	Revolutionary Goans Party (State Party Dated 24.01.2024)	H.No.2385/A,Nagzerwada,Bicholim,North Goa,Goa-403504
2257	Revolutionary Marxist Party of India	Shaheed Sarwan Singh Cheema Memorial Trust Building, 352/1, PhagwariMohalla, Garha, Jalandhar Punjab-144022.
2258	Revolutionary Party	SH-3/40, R.S.Vishwanathpuri Colony,Nawalpur,Varanasi,Uttar Pradesh-221003
2259	Revolutionary Socialist Party of India (Marxist)	TC 24/113, Panvila, Thycadu,P.O. Thiruvananthapuram, Pin Code-695014.
2260	Revolutionary Socialist Party of Kerala (Bolshevik) RSP.B	Kerala State Committee Office, Future Centre, Sahodara, Samajam Road, Chettikulangara, Thiruvananthapuram, (Kerala).
2261	Right India Movement Party	Central Mail Box,Sree DMK Heights,Flat No. 402,D. No. 32-10-32,Venkateswara Colony,Ward No. 65,Sheela Nagar, Visakhapatnam,Andhra Pradesh-530012
2262	Right Party of India	Village & P.O. – Uttar Bahir Gachi, P.S. – Nakashipara, District – Nadia, West Bengal - 741126.
2263	Right to Recall Party	F-001-A, Supath-2 Complex, Opp Juna Wadaj Bus Stand, Ashram Road, Ahmedabad, Gujarat- 380013
2264	Rishivadi Karm Sheel Young Parmarthi Party	237/2, Gali No.-23, Gandhi Colony, Muzaffar Nagar, Uttar Pradesh-251002
2265	Rising People's Party	H.No.202,Ground Floor,Fellowship Colony,Dimapur,Nagaland-797112
2266	Roti Kapda Aur Makkan Party	Block D,Baba Complex,Harsh Nagar Etawah,Uttar

		Pradesh- 206001
2267	Royal India People's Party	Room no. 35/549 (10/37/153), Adam Bazar Building, Thrissur, Kerala - 680001.
2268	Rythu Bidda Party	8-16-93/1, Sowbagya Colony, Sriram Nagar, Chintalkunta, Hyderabad, Telangana- 500074
2269	Rythu Rajyam Party (A.P.)	D. No. 32/86-7-8, Gaddameeda Gangamma Street, Devuni Kadapa, Kadapa City, Kadapa District, A.P. – 516002
2270	Saaf Party	547/229, Jalalpur, Rajaji Puram, Lucknow, Uttar Pradesh - 226017
2271	Saath Sahakar Vikas Party	483, Dhanapur Road, Dev Bariad-7, Devgad, Baria Dahod, Tal. Devgad City, District-Dahod, Gujarat-389380
2272	Sab Jan Vikas Rashtriya Party	Shop/House of Nabi Rasul Ansari S/o Mohammad Husen, Village & Post Baragaon, Via Kharasara, District-Balia, Uttar Pradesh –277302
2273	Sabbath Party	Shop No.3, Laxmi Niwas Building, M.N. Road, Kurla (W), Mumbai-400070, MAHARASTRA.
2274	Sabhi Jan Party	E-1/32, Deen Dayal Puram, Taudhakpur Road, Naubasta, Kanpur, Uttar Pradesh - 208021.
2275	Sabka Dal United	Village and Post- Sairpur, Raitha Road, Block- Chinhat, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226201
2276	Sabki Party	B-1/1, Sector-G, Jankipuram, Lucknow, Uttar Pradesh.
2277	Sabse Achchhi Party	House No.- 222, Amipur Nangola, Majra- Haidernagar, Tehsil & District- Hapur, Uttar Pradesh.
2278	Sabse Badi Party	41/48, Pocket-2, Mayur Vihar, Phase- I, Delhi- 110091
2279	Sacho Sach Party	D-2/2406, Ekta Nagar, P.O.-Jawala Flour Mills, Amritsar, Punjab 143003
2280	Sada Haq Party	House No. 29/9/3, 29/8/2/3, VPO Mahilpur, Tehsil-Garshankar, District- Hoshiarpur, Punjab- 144527
2281	Sada Punjab Party	Shanti Nagar, Dhandari Kalan, Ludhiana, Punjab - 141001.
2282	Sadan Vikas Party	North Office Para, Gauri Shankar Nagar, House No.276, Doranda, Ranchi, Jharkhand.
2283	Saheb Jan Party	At-Galaxy Hotel, Gali No.5, Kanchan Nagar, Hathras Uttar Pradesh-273016
2284	Sainik Jankalyan Vikas Party	Shop No. 4/5/6/7, Ground Floor, Building Known as 'Saraswati Prasad Apt.', Road Pamaka, Gajanan Maharaj Mandir, Kalyan West-421301, Maharashtra
2285	Sainik Samaj Party	317, Shiva Disposal Complex, Sanyukat Yatra Bus Adda Road, Chandrabhaga, Adarsh Gram, Rishikesh, Disstt. Dehradun-249201. Uttarakhand
2286	Sajag Samaj Party	Mohalla- Nasahi, Post- Zafarabad, Tehsil/ Sada/ District- Jounpur, Uttar Pradesh- 222180
2287	Sakala Janula Party	No.7-23/1, M.Venkatayapalem, Khammam Rural, Khammam District, Telangana-507003
2288	Samaanya Praja Party	D. No. 48-11-10/4, Ashok Nagar, Opp. M.V.S Jewellers, Assilametta, Visakhapatnam, Andhra Pradesh - 530016.
2289	Samagra Utthan Party	House No. B/9, Vivekanand Park Marg, Patlitputra Colony, Patna, Bihar-800013
2290	Samagra Vikas Party	1147/8 (157), P.L. Sharma Road, Meerut, Uttar Pradesh – 250001.
2291	Samaikya Telugu Rajyam	D. No.1-39-B(Serial No. 1026A), Chayapuram Village, Vajrakarur Mandal, Anantapur District, Andhra Pradesh-515842.
2292	Samaikyandhra Parirakshana Samithi	H.No. 8-3-580/1, Yellareddyguda, Ameerpet – 500073, Hyderabad, Andhra Pradesh.
2293	Samaj Adhikar Kalyan Party	Office No.822-823, 8th Floor, M/s Bajwa Development Ltd. Sunny Business Centre, New Sunny Enclave, Sector 125, Mohali, Punjab

2294	Samaj Bhalai Morcha	134/17-C, Milap Nagar, Hoshiarpur, Punjab- 146001
2295	Samaj Parivartan Party	Village – Salarpur, Post – Karaura, Tahsil – Machhlishahar, Janpad – Jaunpur, Uttar Pradesh.
2296	Samaj Rakshak Party (Bhartiya Kranti)	Niwasi-Ken, Post-Kanwar, Tehsil-Sirathu District-Kaushambi, Uttar Pradesh- 212217
2297	Samaj Satta Dal	H.No. 74, Padara Kangal, (Bauliya), Near Primary School, Padara Kangal, Tehsil – Sadar, District – Mirzapur – 231001, Uttar Pradesh.
2298	Samaj Seva Party	House No. 27, Bahramgarh, Tehsil- Budana, District- Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.
2299	Samaj Sevak Party	568Kh/223, Sector – 7, Near Old Bharat gas Godam, Geetapalli, Alambagh, Lucknow, Uttar Pradesh.
2300	Samaj Shakti Party	House No.C-5/382, New Resettlement Colony, Bhalaswa, Delhi-110042
2301	Samaj Sudharak Party	House No.723/2, Mangal Pandey Nagar, Sector-2, University Road, Meerut, Uttar Pradesh-250004
2302	Samaj Vikas Kranti Party	Vidyalata Niwas, Khindipada, Dargah Road, Mulund Colony, Mulund (West) Mumbai, Maharashtra-400082
2303	Samajhdar Party	Vill.- Mahri (Barauli), Post – Mahri, District – Ballia, Uttar Pradesh - 221716
2304	Samajik Navnirman Party	6, Faridinagar, Picnic Spot Road, Ghanshyamkunj, Indiranagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016
2305	Samajik Nyay Navlok Party	B-172, TDI City, Fatehabad Road, Agra, Uttar Pradesh - 282006.
2306	Samajik Pragatisheel Party	Bhagat City Colony, Bilandarpur Road, Khejroli, Tehsil-Chomu, Dist.-Jaipur, Rajasthan-303803
2307	Samajik Sangharsh Party	H. No. 59, Gali No. 2, Guru Arjun Dev Nagar, Tarn Taran Road, Amritsar, Punjab-143002
2308	Samajtantric Party of India	40/1, B – Road, Bamanghachi, Howrah – 711 006, (West Bengal).
2309	Samajwadi Aam Janata Dal	Belatal Road, Laiya Place Ke Pichhe, Ward No.2, Naugaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh- 471201
2310	Samajwadi Andolan Party	Village & Post Office-Daulat Pur Billoch Gohawar, Tahsil-Chandpur, Distt.Bijnor, Uttar Pradesh-246734
2311	Samajwadi Forward Bloc	7-5-14/B, Venkateshwara Colony, Mahboob Nagar, Telangana – 509001
2312	Samajwadi Jan Parishad	Jai Malha Prasad, Reti Bunder Road, Mahagiri, Thane (W)-400601 (Maharashtra).
2313	Samajwadi Janata Party (Chandra Shekhar)	L Extension 358, Mohan Garden, Rama Park Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059
2314	Samajwadi Janata Party (Karnataka)	Room No.21, 2nd Floor, Hameed Shah Complex No.2, Cubbonpet, Main Road, Behind Ulsoor Gate Police Station, Bangalore-560002, Karnataka.
2315	Samajwadi Jankranti Party	A-454, Shastri Nagar, Delhi-110052
2316	Samajwadi Lok Parishad	Kusumpuram Colony, Natthupur Road, Post-Kurthauul, Thana-Parsa Bazar, Patna, Bihar-804453
2317	Samajwadi Samaj Party	Ward No.13, Lohia Nagar, Nagar Panchayat – Salempur, Janpad - Deoria, Uttar Pradesh – 274001
2318	Saman Aadmi Saman Party	Village- Amilwan, Post- Khutar, P.S.-Mada, District-Singrauli, Madhya Pradesh- 486886.
2319	Saman Adhikar Party	62/271, Nagla kachhiyan, (Mustafa Quarter Colony), Agra Cantt, Agra, Uttar Pradesh.
2320	Saman Bhagidari Party	538Kh/404, Dindayal Nagar, Khadra, Sitapur Road, Lucknow, UTTAR PRADESH-226020
2321	Samaniya Makkal Nala Katchi	S.F.No.1172/12A, Karur Bypass Road, Indira Nagar, Erode, Tamil Nadu-638002
2322	Samanya Janatha Party (Loktantrik)	No.- 17, House No.- 29, Basavana Durga (Koramma Camp), Gangavathi, District- Koppal, Karnataka-583227

2323	Samarth Bharatvarsh Party	39A, DDA Flats (Old), Chilla, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi- 110091
2324	Samarth Kisan Party	Prabandhak – Mother Teresa Convent School, Village & Post – Manauri, Tehsil – Chayal, Janpad – Kaushambi, Uttar Pradesh.
2325	Samata Kranti Dal	Plot No.3547/3875, Mouza Gautam Nagar, Garage Chhaka, Temple Road, old Town Bhubaneswar – 751002, Odisha.
2326	Samata Party	220, Vitthalbhai Patel House, Rafi Marg, New Delhi – 110001.
2327	Samata Samadhan Party	E-1/150, Arera Colony, Bhopal, Madhya Pradesh.
2328	Samata Sangharsh Party	55 B, Radheypuri Extension-1, Delhi-110051
2329	Samatamoolak Samaj Party	194,Kanshi Sadan,A.B. Road,Vill. & Post- Renhat, Land Survey, No.299/01/1[S], Patvari Renhat, Tehsil- Ghatigaon, District - Gwalior, Madhya Pradesh - 475330
2330	Samathuva Makkal Kazhagam	139- T.H. Road, Kaladipet, Thiruvottiyur, Chennai, Tamil Nadu-600019.
2331	Sambhaji Brigade Party	Sai Complex, Gala No.7, New Mondha, Hingoli, Tehsil & District-Hingoli, Maharashtra-431513
2332	Sambidhan Bachao Party	24/A,2,S.D.Mukherjee Lane, Post & P.S.- Rishra, District-Hoogly, West Bengal-712248
2333	Samdarshi Samaj Party	Village- Manikapur Majre Saray Pandey, Post- Jauras, Pargana & Tehsil- Haidergarh, District- Barabanki, Uttar Pradesh.
2334	Samnak Janta Party	Survey No. 120, Plot No. 9, Near Bhavsar Chowk, Aniketnagar, Taroda, (Kd.), Malengaon Road, Nanded, Tq. & District - Nanded, Maharastra -431605.
2335	Samoohek Ekta Party	13/51, Parmat, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208001
2336	Sampark Vikas Party	Shop No. 3, Nandkishor Appt., Near Chandranagar Bus Stop, Naryan Nagar, Paldi, Ahmedabad, Gujarat-380007
2337	Sampoorn Samarpan Party	Acharya Ramchandra Shukla Nagar, Bhujauli Colony, Plot No. E.W.S. – 209-210, Deoria UTTAR PRADESH - 274001
2338	Sampoorna Bharat Kranti Party	WZ- 150, Village- Bodhela, VikasPuri, New Delhi- 110018
2339	Sampoorna Samaj Party	H. No. 464, Village & Post – Gairwah, P.S. – Sarpatahan, Tehsil – Shahganj, District – Jaunpur, Uttar Pradesh-223103.
2340	Samras Samaj Party	Raji Jarai, Mouja – Ghamroj, Tehsil – Sohna, District – Gurgaon, Haryana.
2341	Samrat Ashok Sena Party	House No. 1546, Village and Post- Belsar, Tehsil- Tarabganj, District- Gonda, UTTAR PRADESH- 271401
2342	Samrat Mihir Bhoj Samaj Party	F-64/C9/197, Sector-40, Noida, (Near Sainath Mandir), District Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh- 201303
2343	Samruddha Odisha	201, Sitalkunj Apartment, Plot No. M63, Madhusudan Nagar, Bhubaneshwar – 751001, Orissa.
2344	Samst Samaj Party	70, A R Mechanical Works, Shivanagar-2, Mauja Gaddiwala, Near B.S. Woolen Mill, Panipat, Haryana- 132103
2345	Samta Dal (Pragatisheel)	H. No. 480, Village – Lisari, Tehsil & District – Meerut, Uttar Pradesh - 250002.
2346	Samta Samjwadi Congress Party	K - 56/114-7 (Raniphatak), Ausanganj, Varanasi - 221001, Uttar Pradesh
2347	Samta Vikas Party	House Harbhajan Jangde, Ward No. 17, Mandideep, Tehsil – Goharganj, District - Raisen, Madhya Pradesh
2348	Samtawadi Republican Party	108, Rampuram, PAC Road, Kanpur, Uttar Pradesh.
2349	Samuga Makkal Katchi	No.3 Mudalair Street, Vallam Village, Kanchepuram Dt. Tamil Nadu – 602105.
2350	Samyak Parivartan Party	Village –Janki Nagar, Behind of Ranipurwa School,

		Vikas Khand – Jhanjhri, Near of Mande Nala Bridge, Post – Bus Stop, Janpad – Gonda, Uttar Pradesh.
2351	Samyak Party	Village and Post- Manda, District- Allahabad, Uttar Pradesh-212104
2352	Sanatan Sanskriti Raksha Dal	Village – Taraon, Post, Thana & Tehsil – Koraon, Distt. – Allahabad, Uttar Pradesh.
2353	Sangathit Janta Party	No.177, Shiva Khand, Vishwakarma Nagar, Delhi-110095
2354	Sangharsh Party of India	House No. 314, Shanti Niketan, D.M. Road, Bulandshahr, Uttar Pradesh - 203001
2355	Sangharsh Samaj Party	H. No. 44, Village – Dhaka, P.O. – Akha, Tehsil – Aonla, District – Bareilly, Uttar Pradesh - 243001.
2356	Sangharsh Sena	11, Sairaj Complex, Pandit Naka, Shahapur, Tq. Shahapur, District – Thane, Maharashtra – 421601
2357	Sanjhi Virasat Party	506, Chanderlok colony, Street No.- 3, Mandoli Road, Shahdra, Delhi- 110093
2358	Sankhyanupati Bhagidari Party	New Vighrapur, Mithapur, (Bus Stand) Patna-800001
2359	Sanman Rajkiya Paksha	56, Tirupati Nagar, Lohara, Taluk & District - Yavatmal, Maharashtra – 445002
2360	Sanyogwadi Party	Shop No.3, First Floor, Commercial 1, Paras Tiera, Sector-137, NOIDA, Uttar Pradesh-201304.
2361	Sanyukt Bharat Paksh	Ratnam Bunglow, Near Meenatai Thakre Garden, M.I.D.C Road, Badlapur (East), Taluka-Ambarnath, Thane, Maharashtra-421503
2362	Sanyukt Janadesh Party	356/225/257, Ashok Nagar, Kale Pahar, Alamnagar Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226017.
2363	Sanyukt Kisan Vikas Party	Village- Suraundha, Post- Barki Basholi, P.S.- Dumraon, District- Buxar, Bihar- 802119
2364	Sanyukt Kranti Party	Ward No.3, Lanji, Balaghazt, Madhya Pradesh - 481222
2365	Sanyukt Samaj Morcha	H.No.92-C, Ward No.13, Bhagwanpura Road, Samrala, Ludhiana, Punjab-141114
2366	Sanyukt Samajwadi Dal	11, Zones Lines, Agra – 282004, Uttar Pradesh.
2367	Sanyukt Sangharsh Party	Showroom No.10, Lower Ground Floor, High Ground Road, Nabha, Sub-Tehsil–Zirakpur, Mohali, Distt.– S.A.S.Nagar–140603, (Punjab)
2368	Sanyukt Vikas Party	Village – Sarsaul, Post Office – Muni, P.S. – Araniya, Tehsil – Khurja, District – Bulandshahr, Uttar Pradesh.
2369	Sapaks Party	144, Vidya Nagar, Hoshangabad Road Bhopal, Madhya Pradesh-462004
2370	Sarav Sanjhi Party	Saggar Hospital, Near Peer Baba Maddi Shah Ji, Bassi Khuwaju, Hoshiarpur, Punjab- 146001
2371	Sardar Patel Siddhant Party	Village – Newada, Post – Bahuta, Tehsil – Patti, District – Pratapgarh, Uttar Pradesh - 230135.
2372	Sardar Vallabhbhai Patel Party	1, Olekar House, Dattapada Road, Borivali (East), Mumbai – 400 066.
2373	Sarv Adi Dal	First House, Ward-14 Govardhan, Rawabhata, Opp, Punjabi Dhaba, Birgaon, Raipur Bilaspur Highway, Distt-Raipur, Chhattisgarh-492001
2374	Sarv Jan Party (Bharat)	E-734, Behind Krishna Mandir, Shakarpur, Delhi- 110092
2375	Sarv Jan Sarv Samaj Party	2/248, TF, Subhash Nagar, New Delhi – 110027.
2376	Sarv Rajya Party	548GH/71, Teji Khera, Talkatora Road, Manak Naar, Near J.R.P.F., Lucknow Uttar Pradesh- 226011.
2377	Sarv Samaj Party	46, Rajeev Nagar, Mandi Chowk, Gadhmutkeshwar, Hapur, Uttar Pradesh- 245101
2378	Sarv Sambhaav Party	Yadav Bhawan, Puwayan Road, Village & Block- Banda, Tehsil- Puwayan, District- Shahjahanpur, Uttar Pradesh.
2379	Sarv Vikas Party	Village – Prateet Nagar, N.H. – 58, Near of Post Office, Raiwala, Dehradun, Uttarakhand - 249205.
2380	Sarva Hit Party	602-B, Khasra No. 298/199, 298/207, 298/209, Mohalla Bans, Sunar Wali Gali, Village – Ghitorni, New Delhi- 110030 .

2381	Sarva Jan Samaj Party (Nand Kishore Chawla)	Chawla Properties, Laxmi Vihar, Camry Road, Hisar, Haryana.
2382	Sarva Janata Party	Central Party Office # 17, Javalli (Village), Pillangere (Post), Shimoga (Taluk), District – Shimoga – 577227 Karnataka.
2383	Sarva Samaj Janata Party	Village and Post- Oril (Khapadiya Chak), Tehsil- Phoolpur, P.S.- Pawari, District- Azamgarh Uttar Pradesh- 223222
2384	Sarva Samaj Janhit Party	Ghuripur (Jakhaon) in Gyanpur Road Gopiganj, Tehsil- Gyanpur, Distt. Bhadohi Uttar Pradesh- 221304
2385	Sarva Samaj Kalyan Party	Bijraj Bhawan, Village - Singharpur, Post – Ahamadpur, Mathura Road, Aligarh, Uttar Pradesh.
2386	Sarva Suraksha Party	Village and Post- Tilakhwar, District - Karchhana, Allahabad, Uttar Pradesh
2387	Sarvadharam Party (Madhya Pradesh)	120/1, Ashoka Garden, Tahasil – Nazul, Distt.- Bhopal - 462023, Madhya Pradesh
2388	Sarvajan Hitay Party	70/59, Leader Road, Allahabad, Uttar Pradesh -211003.
2389	Sarvajan Kalyan Loktantrik Party	COFFED, Meen Bhawan, 3rd Floor, New Punaichak, West Boring Canal Road, Patna, Bihar – 800023.
2390	Sarvajan Samaj Party (D)	Village & P.O. : Wadala Bangar, Tehsil: Gurdaspur, District: Gurdaspur-143511 Punjab.
2391	Sarvajanika Adarsha Sena	At-20/1, 2 nd Main, 8 th Cross, Chamundi Layout, Vidyananyapura, Bengaluru-560097
2392	Sarvar Party	Village & Post-Vasantpur, Campierganj, Janpad- Gorakhpur, Uttar Pradesh – 273158
2393	Sarve Bhavanti Sukhinah Party	Village & Post - Mamdar, Tehsil & P.S. – Rampur Naikin, District – Sidhi, Madhya Pradesh.
2394	Sarvhara Dal	Kewala Fariyatta, Via. Gidhour, Distt- Jamui (Bihar).
2395	Sarvhara Vikas Party	H.No.102, Jangal Matadeen, Aryapuram Colony, Post - Padari Bajar, Gorakhpur, Uttar Pradesh-273014
2396	Sarvhit Samaj Sewa Party	H. No. 177, Village & Post – Shahjahanpur Baijna, P.S. – Dadon, District – Aligarh, Uttar Pradesh-202133.
2397	Sarvjan Awaz Party	No.528, Block-B, Platinum Heights, Sector- 18B, Dwarka, New Delhi-110078
2398	Sarvjan Lok Shakti Party	T.A. 184/2, Tughlakabad Extension, New Delhi- 110019
2399	Sarvjan Navyug Vikas Party	Vill.+P.O.- Bishunpur Bedaulia, P.S.- Jandaha, Distt. – Vaishali, Bihar-844505
2400	Sarvjan Samta Party	774, Geetanjali Vihar, Ward No. 28, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201102
2401	Sarvjan Sanatan Party	H. No.B1/148,A-1A, Assi Varanasi, Uttar Pradesh- 221005.
2402	Sarvjan Sewa Party	163/200/1, Salari-Ka-Hata, Chikmandi, Maulviganj, Lucknow, Uttar Pradesh-18.
2403	Sarvjan Sukhay Party	Adda Nihal, Manikpur Visu, Tehsil Etawa, Main Road, NH-2, District Etawa, Uttar Pradesh-206001
2404	Sarvlokhit Samaj Party	16/94,A-Block, Baba Colony, Burari, Delhi-110084
2405	Sarvodaya Bharat Party	B- 19, Sector- O, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
2406	Sarvodaya Karnataka Paksha	"Aniketana" First Floor, SJM Samudaya Bhavana, Kalidasa Road, Gandhinagar, Bangalore-560 009, (Karnataka).
2407	Sarvodaya Prabhat Party	B-3/231, Nand Nagri, Delhi- 110093
2408	Sarvpriye Samaj Party	Mohalla- Ashok Nagar Shahariya, Vishnu Puram Colony, Distt. Etawah, Uttar Pradesh- 206001.
2409	Sarvsamaj Nyaya Party	No. 101 at 'Ocean Tower', Commercial Complex, Plot No. 1152/53, Jhotwara Road, Jaipur, Rajasthan-302012.
2410	Sarvshakti Dal	D-60, Dev Nagar, Murlipura, Sikar Road, Jaipur, Rajasthan- 302039.
2411	Sarvshreshth Dal	Village - Shahdaudpur or Kakorgahna, P.O. & Tehsil – Sader, District – Jaunpur, Uttar Pradesh
2412	Sashakt Bharat Party	H. No. 345, Parashar Bhavan, Jatun Ka Mohalla, p.O.

		Kannauj, Tehsil-Bhadesar, Distt. Chittorgarh, Rajasthan-312613.
2413	Sathi Aur Aapka Faisala Party	Plot No. 2005, Village – Chamrahara, Mahnar Road, District – Vaishali, Bihar - 844507.
2414	Satta Kalyan Party	No.D-144, Paras Prabhu Society, Near Sonal Park, Insanpur, District-Ahmedabad, Gujarat-382443
2415	Sattari Yuva Morcha	House No. 48, Kankire, Guleli, Sattari, Goa.
2416	Sattathagam Makkal Katchi	1-3/1020B, Green Garden, Vinayagam Patty, Distt. - Salem, Tamil Nadu- 636008
2417	Satya Bahumat Party	A-112, Pratap Nagar, Street No. 15, Mayur Vihar Phase-1, Delhi- 110091.
2418	Satya Kranti Party	H. No. – 176 E, Shivpur, Sahbazganj, Gorakhpur, Uttar Pradesh.
2419	Satya Shikhar Party	H. No. - 70-A, Village – Narharpur (Shankarpur), P.O. Miyaganj, District – Faizabad, Uttar Pradesh - 224208.
2420	Satya Vikas Party	No. B-7, Shailja Apartment, Near Sugma Flat, Vasna Ahmedabad, District-Ahmedabad, Gujarat-380007
2421	Satyanishth Jan Sewak Party	House No.128, Ward No.5, Lalit Nagar, Opposite SDM's Residence, Tehsil and P.O-Sunder Nagar, District-Mandi, Himachal Pradesh-175019
2422	Satyawadi Rakshak Party	B/501, Yogi Pujan Appartment, Akshar Farm Road, Vidhya Nagar, Gujarat-388120.
2423	Saurashtra Janta Paksha	H.No. 6/3/116, Himmat Lal Parmar Road, Wadipara, Surendra Nagar, Gujarat- 363001
2424	Savarn Samaj Party	East of Stadium, Nand Hardware, Sirmor Road, Rewa-486001, (Madhya Pradesh).
2425	Secular Alliance of India	Keswani Complex, 1 st Floor, Above Navjeevan Cooperative Bank Ltd., Chopda Court Branch, Ulhasnagar – 421003. Maharashtra.
2426	Secular Democratic Congress	No. 958/D, ward No. 13, (Old No. 722/D in ward No. 10), Kelakam (Near Kelakam Police Station), P.O-Kelakam Grama Panchayat, District- Kannur, Kerala-670674
2427	Secular Inqlab Party	Ho.No.-202, Rajeev Garden, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201102
2428	Secular National Dravida Party	Kadakkavoor Buildings, Thumpara Nagar, Mundakkal, Kollam City, Kollam-691001, Kerala.
2429	Secular Party of India	House No.122-A, Ramvihar, Old Janipur, Jammu-180007 (J& K).
2430	Secular Republican Democratic Party	Adam star Complex, Room No. 132, 1 st Floor, 2 nd Block, Thodupuzha, Idukki District, Kerala.
2431	Sehajdhari Sikh Party	622/9, Near Telephone Exchange, Raikot, District Ludhiana, Punjab.
2432	Serv Bhalai Party	H.No. 625, New Azad Nagar, Sultanwind Road, Amritsar, Punjab - 143001.
2433	Service Adhered with Integrity Desam Party	Plot No. 29, Phase-I, Main Road, Near Police Station, Vanasthalipuram, Hyderabad, Telangana State-500070
2434	Service Class Party	HIG, 4/305, Vineet Khand Gomtinagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226010
2435	Seva Dal	532 (Opp.126-R), C.R. College Road, Model Town, Rohtak – 124001, Haryana
2436	Seva Samrajya Party	Dhabunaik Tanda, Aanandiwadi, Tq. – Palam, District – Parbhani, Maharashtra- 431536.
2437	Shakti Sena (Bharat Desh)	Simi Bhawan, National Highway 43, Cross Lane Tiraha, Devpuri, Raipur, Chhattisgarh-492015.
2438	Shaktimaan Samaj Party	Plot No. 133, Kaushalpuri, Phase-II, Near By Grammer School Road, Post-Khojpur, Distt.-Ayodhya(Faizabad) Uttar Pradesh- 224001
2439	Shane Hind Fourm	B-111/1, B-Block, Ashok Vihar Phase-I, New Delhi-110052

2440	Shanknad Party	Chamber No. 6, Election Office Road, Civil court Compound Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208001
2441	Shanti Morcha	X-919, Chand Mohalla, Gandhi Nagar, Delhi-110031.
2442	Shining India Party	Ward No.6, Post – Deshnoke, District - Bikaner, Rajasthan – 334801
2443	Shiromani Akali Dal (Amritsar) (Simranjit Singh Mann)	Village Quilla S. Harnam Singh, P.O. Tellania, District-Fatehgarh Sahib, Punjab- 140 406.
2444	Shiromani Akali Dal (Sanyukt)	Plot No.92,Sector-82,Airport Road,SahibzadaAjit Singh Nagar (Mohali),Punjab-140308
2445	Shiromani Akali Dal (Taksali)	No. 30, Guru Har Rai Avenue, Opposite Khalsa College, Amritsar, Punjab- 143001
2446	Shiromani Lok Dal Party	Building No. 108, Near Krishna Mandir, Opposite Dana Mandi, G.T. Road, Amritsar, Punjab.
2447	Shivrajya Party	Flat No. B/102, Deccan Apartment, Union Park, Pali Hill, Khar (West) Mumbai- 400052
2448	Shoshit Inquilab Party	Murlichak, Jagdev Path,Near Jagdev Smriti Apartments,Post Office-B.V. College, Patna,Bihar- 800014
2449	Shoshit Samaj Dal	Center Office : Dakshnini Mandiree,Patna-800001 (Bihar).
2450	Shoshit Sandesh Party	Gird Badgaon, Sant Ravidas Nagar, Bhadohi, Uttar Pradesh.
2451	Shram Shakti Party	J-1749, J- Block, Jahangirpuri, Delhi- 110033
2452	Shramajeevi Party	1-6-48, Old Alwal, Post – Bollaram, Secunderabad – 500010, Andhra Pradesh.
2453	Shri Janta Party	Manda Sadan, Dwarika Nagar, Rewa, Madhya Pradesh - 486001.
2454	Shubha Karnataka	House No.1262, Kustagi Road, 1st Cross, Gajendragad, Distt. Gadag - 512114, Karnataka
2455	Sikkim National People's Party	The Dzong,MG Marg,Gangtok,East Sikkim-737101
2456	Sikkim Rajya Manch Party	Yangang Bazaar, P.T.C Road, P.O.-Yangang, P.S- Ravangla, South Sikkim, Sikkim- 737134
2457	Sikkim Republican Party	Central Pendum, Sajong Ward No.- 3, P.O.- Upper Pendum, P.S.- Rongpo, East Sikkim- 737132
2458	Sikkim United Front	Sapkota Building , Assam Lingzey Souraney, P/O- Assam Lingzey, P.S- Ranipool, East Sikkim- 737135
2459	Sirupaanmai Makkal Nala Katchi	No. 16A, 9 th Cross Street, Anna Nagar, Pammal, Kachipuram District, Chennai, Tamil Nadu-600075
2460	Smart Indians Party	Grampanchayat- Ghana Khamariya, Opp. Jain Building, Jabalpur, Madhya Pradesh- 482005
2461	Smast Bhartiya Party	W-6/5, DLF City Phase-III,Gurgaon – 122002, Haryana.
2462	Social Action Party	Mylackal House, Ranny, PathanamtittaDistt. Pin- 689072 (Kerala).
2463	Social Democratic Party of India	C-4,Hazarat Nizamuddin West,New Delhi – 110013
2464	Social Justice Party of India	H. No. 2-97, Chinaravirala- Village, Hayathnagar Mondal, Ranga Reddy- District, Telangana State- 501505
2465	Social Movement Party	H.O. – 539, Lane No. – 29, Rajpura Mangotrian, Jammu, Jammu & Kashmir-180001.
2466	Socialist Janata Party	XB-1, Sah Vikas Apartment,Patparganj, Delhi – 110 092
2467	Socialist Party (India)	Lohiya Mazdoor Bhawan, H. No. 41/557, Dr. Tufel Ahmed Marg, Narhi, Lucknow, Uttar Pradesh.
2468	Socialist Republican Party	State Committee Office, Tutor's Lane, Statue, Trivandrum – 695001 (Kerala).
2469	Socialist Unity Centre of India (Communist)	48-Lenin Sarani (First Floor),Kolkata – 700 013,West Bengal.
2470	Socialist Workers Party	Plot No – 218, Backside of Binayak Enclave, At- Kolathia, P.O. – Aiginia, District – Khordha, Bhubaneswar, Odisha – 751019
2471	Socialistic Democratic Party	Post Box No.1089, General Post Office, Srinagar-

		190001, Jammu and Kashmir.
2472	Sonanchal Sangharsh Vahini	Plot No. 597, Vikas Nagar Robertsganj, Sonebhadra, Uttar Pradesh- 231216
2473	South India Forward Bloc	63, Municipalayam Road, (42/4 – 68 C), Arapalayam, Kanmaikarai Main Road, Madurai, Tamil Nadu – 625016.
2474	Spashtwadi Jan Aadhar Party	MI-344, Double Storey, First Floor, Barra-2, Kanpur City, Uttar Pradesh-208027
2475	Star Altruistic Humanitarian Unity Party	Tehsil Road, Gauriganj, Distt. Amethi, Uttar Pradesh- 227409
2476	State Samvibhajana Party	H. No. 56, Village – Sonkhas, Tq. – Ner, District – Yavatmal, Maharashtra - 445102.
2477	Statesman India Party (Intellectual)	H.No. 21, Near Officers Colony A, Shiv Vihar, In front of Hanuman Temple, Meenawala, Panchyawala, Jaipur, Rajasthan – 302034.
2478	Studentz United For Nation Party	D. No. 12-464/4, B- Block, Tadepalli, District- Guntur, Andhra Pradesh - 522501
2479	Subhashwadi Bhartiya Samajwadi Party (Subhas Party)	F-10, Patel Nagar 111, District- Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201003
2480	Sudesi Makkal Needhi Katchi	No. 24/38, FF2, Kutti Gramini Street, Raja Annamalai Puram, Chennai, Tamil Nadu- 600028
2481	Sudharwadi Party	Mohalla-Piuni Bag, Ward No.-32, Bettiah, Post-Bettiah, Thana-Bettiah Town, Distt.-Pashchim Champaran, Bihar-845438.
2482	Suheldev Bharatiya Samaj Party	Village - Mirangaj, Post Office - Rampur Rasda, District - Balia, Uttar Pradesh - 221712
2483	Suheldev Party	Village & Post - Phulesh, District-- Azamgarh, Uttar Pradesh – 223224
2484	Sumetee Mukti Morcha	Plot No. 347(LR) 391(RS), Khatian No. 2194(LR), Mouza- Pancnai, Area 5 Decimal, P.S.- Matigara, District- Darjeling, West Bengal- 734010
2485	Sunahara Bharat Party	Building No. #B-17, 2173/2A/1A, Jammu Colony, Abdullahpur Road, Ludhiana Punjab-141003.
2486	Sunder Samaj Party	Village + Post – Nangoi, Tahsil - Kharasia, Distt. – Raigarh, Chhattisgarh – 496665.
2487	Sunehra Punjab Party	319, Sector-9, Chandigarh-160009
2488	Super Nation Party	57/1, Thathavalli Village, Kurumbhageri Post, Tirupattur Taluk, Vellore District, Tamil Nadu – 635653
2489	Super Power India Party	78, Upper Ground Floor, Block-A, NRI City Centre, Pari Chowk, Greater Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201310
2490	Super Rangers Party	Shop No. 51, 3rd Floor, Skanda Shopping Mall, Behind Coles Memorial Church, Kurnool, Andhra Pradesh- 518001
2491	Super Stars Makkal Kalagam	D. No. 26, AVP Layout, 2 nd Street, Gandhi Nagar, Tiruppur, Tamil Nadu- 641603
2492	Supreme Zero Party of Bharat	Ward No.6, Holding No.222, Upara Shahi, Khordha Municipality, At/PO/PS/District-Khordha, Odisha- 752056
2493	Suraaj Seva Dal	Village – Ramdi Jasuva, P.O. – Fatehpur, Tehsil- Haldwani, District – Nainital, Uttarakhand
2494	Suraksha Samaj Party	Mohalla – Tarkapur (SonkarBasti), Bhawan No. 1102/1, Ward No.7, Post & Tehsil – Sadar, Janpad – Mirzapur, Uttar Pradesh - 231001.
2495	Surya Janaseva Party	#2, Second Floor, 5 th Cross, Anjana Nagara, Bangalore, Karnataka- 560091
2496	Surya Revathi Praja Party	H. No. 54, APR Pranav Antila, Bachupally, Hyderabad, Telangana - 500090
2497	Sushasan Party	House No. 558, Vill. + Post – Badsa, Tehsil – Bawanikhed, Distt. Bhiwani-127032, Haryana.
2498	Svatantra Bharat Satyagrah Party	Shop No. – 7 & 8, Upper Ground Floor, Bhagwati

		Arcade, Jawahar Road No.-5, Udhna Udhyog Nagar, Udhna, Surat, Gujarat - 394210.
2499	Swabhimani Janta Dal	Nirbhay Cold Store, Khalwaenar, Dumrow, Buxar, Bihar-802119
2500	Swabhimani Party	31/666, New Shanti Nagar, Raipur, Chhattisgarh – 492001
2501	Swabhimani Paksha	Jaisingpur, District Kolhapur, Maharashtra – 416 101.
2502	Swachh Bharat Party	Sai Baba Mandir Bhojyavas, Bhankrota, Ajmer Road, Jaipur Rajasthan.
2503	Swachh Swasth Swawlambijan Party	H.No. 108, Payagipur, Opposite of near ITI, Sultanpur, Uttar Pradesh- 228001
2504	Swadesh Jan Sewak Party	J.P.Nagar, NaiBasti, Premchak Urf Umarganj, Ballia, Uttar Pradesh- 277001
2505	Swadeshi Ekta Manch	B-3/253, Vinay Khand-3, Gomti Nagar, In Front of Gomti Nagar Railway Station, Lucknow, Uttar Pradesh- 226010.
2506	Swadeshi Hind Party	Village & Post-Hatisa, Mathura Road Crossing ke Pass, Tehsil & District-Hathras, Uttar Pradesh-204101
2507	Swadhin Swaraj Party	213/63, Mahatma Gandhi Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh-200001
2508	Swadhinta Party	Ground Floor, House of Late Suresh Prasad, Situated at College Gate, Purab bazar, Ward No. 30, Saharsa, Bihar-852201
2509	Swaraj (J)	Jungle Suhas Kunwari (Mahavir Chhapra), Post Office – Mahavir Chhapra, Police Station – Belipar, Tehsil – Sadar, District – Gorakhpur, Uttar Pradesh.
2510	Swaraj Bhartiya Nyay Party	H.No.C-50, Main 20 Futa Road, Meet Nagar, Shahdara, Delhi-110094
2511	Swaraj India	Unit 109, 1 st Floor, M.M. House, 59 Rani Jhansi Road, New Delhi – 110055.
2512	Swaraj Janata Party	B-79-B, Street No. 7, Shiv Vihar, Karawal Nagar, Delhi-110094
2513	Swaraj Kranti Party	B-31, Second Floor, Tejendra Complex, Opp.C.M.C., Odhav Road, Odhav, Ahmedabad, Gujarat- 382415
2514	Swaraj Party (Loktantrik)	H.No. -17, Village – Mogalpura, Gram Panchayat – Mogalpura, P.O. – Bakhtiyarpur, District – Patna, Bihar – 803212
2515	Swarajya Lokshahi Party	Swarajya Bhawan, 301, 302, Kudera, Chambers, Next to Sancheti Hospital, Shivajinagar, Pune, Maharashtra- 411005
2516	Swarajya Nirman Sena	House No. 396/1, Indira Vasahat, Uttam Nagar, Pune, Maharashtra - 411023.
2517	Swarajya Party of India	B-33, Sector-C, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh., PIN Code-226024.
2518	Swarajya Rashtra Nirman Sena	H. No. 797, Ward No. 01, Post-Koregaon, Bhima, Taluk-Shirur, Distt. Pune, Maharashtra- 412216
2519	Swarajya Sena (Maharashtra)	No. 586, Moh. Masurdi, Post- Taka, Tehsil- Ausa, District- Latur, Maharashtra- 413520
2520	Swarajya Shakti Sena	At-64, Greens, 1101, B Wing, Next to Poddar International School, Tagore Road, Santacruz West Mumbai-400054
2521	Swarna Bharat Party	G-249 Palam Vihar, Gurgaon, Haryana – 122017.
2522	Swarnim Bharat Inquilab	L.G. - 22, Sunrise Tower 579, M.G. Road, Indore, Madhya Pradesh.
2523	Swatantra Bharat Paksha	‘Rahi’, Khokadpura, Aurangabad-431001, Maharashtra.
2524	Swatantra Indian Labour Party	Khasra No.916, At Village Dhilawal, Garhiya, Post – Bhopat Patti, P.S. Mau Darwaja, District – Farrukhabad, Uttar Pradesh - 209625
2525	Swatantra Jantaraj Party	811/1, Civil Line Anshik, Ward No. 52, Jhansi, Uttar Pradesh- 284001.
2526	Swatantra Party (Jan)	195, ST Mary’s Road, Alwarpet, Chennai, Tamil Nadu-

		600018
2527	Swatantra Rashtravadi Party	12-H, In front of Traffic Kotwali, Dariyaganj, New Delhi-110 002.
2528	Swatantra Samaj Party	Village & Post – Lebhri, P.S. – Darauli, Block/Circle – Mairva, Pin Code – 841 239, District – Siwan, Bihar.
2529	Swatantrata Abhivyakti Party	No.2, Mahavirnagar, Opp. Kalyan Mill, Near Chetna Hotel, Naroda Road, Shaijpur-Bogha, Ahmedabad, Gujarat-382345
2530	Swayam Krushi Party	No. 17/B, Nanjappa Complex, Ground Floor, Kanakpurmain Road, Banashankari, Shakambari Nagar, Bengaluru, Karnataka-560070
2531	Swayam Shashan Party	Chamber No. 10, Rao Tula Ram Block, Opp. Court No. 21, Gate No. 2, Distt. Gurgaon, Haryana-122018
2532	Tamil Maanila Congress (Moopanar)	No.4, Ashoka Road, Alwarpet, Chennai – 600018.
2533	Tamil Maanila Katchi	No. 74, Jermiah Road, Vepery, Chennai, Tamil Nadu – 600007
2534	Tamil Manila Murpokku Dravida Kazhagam	No. 27, 1 st Floor, Gudiyattam Road, Opp. Railway Kalayana Mandapam, Katpadi, Vellore- District, Tamil Nadu- 632007
2535	Tamil Nadu Ilangyar Katchi	No. 23, Ganesh Avenue, Sakthi Nagar, Porur, Chennai, Tamil Nadu- 600116
2536	Tamil Nadu Peasants & Workers Party	No. 1, Jayammal Road, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
2537	Tamil Telugu National Party	Old No. 4/51, New No. 197, Perumal Koil Street, T.Edaiyar Post, Thirukoilur Taluk, Villupuram District, Tamil Nadu- 607203
2538	Tamil Thayaga Makkal Munnetra Katchi	No. 61/2, Second Floor, 5th Main Road, CIT Nagar, Nandanam, Chennai, Tamil Nadu- 600035
2539	Tamilaga Makkal Dravida Munnetra Kazagam	3-196, Vembarpatty(PO), Vembarpatty, Taluk & District - Dindigul, Tamil Nadu – 624008.
2540	Tamilaga Makkal Munnetra Kazhagam	563, Shanti Colony, N.K.B. Nagar, Palayamkottai, Tirunelveli, Tamil Nadu.
2541	Tamilaga Makkal Nala Katchi	2/272, A Rajapalayam Main Road, Kuvalaikanni (PO), Tenkasi District, Tamil Nadu - 627753
2542	Tamilaga Makkal Thannurimai Katchi	D.No. 4A, Mahalakshmi Nagar, Near the Court, Kattanachampatty Village, Rasipuram Taluka, Namakkal District, Tamil Nadu- 637408
2543	Tamilaga Sthabana Congress	26/1, 33E, Henry Road, Nesamony Nagar, Nagercoil, Tamil Nadu- 629001.
2544	Tamilar Desiya Munnani	119/A, Dippoline C.Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu- 600043
2545	Tamilar Makkal Katchi	Village – Thumbalahallidam, P.O. – Gendiganahalli, Taluk – Palacode, District – Dharmapuri, Tamil Nadu - 635205.
2546	Tamilnadu Mahatma Gandhi Makkal Katchi	Door No. 9-2/1C, Thettivilai Veedu, Near Sree Devi Kumari Women's College, Kuzhithurai, Kanyakumari District, Tamil Nadu - 629163.
2547	Tamilnadu Makkal Nalvazhvu Periyakkam	No.6A, 10th Cross Street, Thiruvengada Nagar, Thirunirvur, Thiruvallur District, Avadi Legislative Assembly Constituency, Thiruvallur Parliament Assembly Constituency, Tamil Nadu- 602024.
2548	Tamilnadu Makkal Urimai Katchi	43, V.O.C. Nagar, Kichipalayam, Salem, Tamil Nadu – 636015.
2549	Tamilnadu Telungu Makkal Katchi	Door No.-1/803, Opposite Karpagam University, Pollachi Main Road, Coimbatore, Tamil Nadu – 641021
2550	Tamizhaga Murpokku Makkal Katchi	82/1, 5th Street, Padmanabha Nagar, Adyar, Chennai – 600020, Tamil Nadu.
2551	Tamizhaga Vaazhvirimai Katchi	13-6-54, Pillaiyar Koil Street, Samrajapettai Post, Mecheri Mettur Tk., Salem District, Tamil Nadu – 636451.
2552	Tamizhar Desam Katchi	27/44, Kudi Street Periya, Kothamangalam Ramji

		Nagar,Tiruchi West Taluk,Piratiyur west village,Tiruchirapalli District-Tamil Nadu – 620009
2553	Tarang Party	KHP/55/26,Yogendra Vihar Naubasta,Kanpur,Uttar Pradesh-208021
2554	Tararani Paksha	W. No. 6,H. No. 2067, Dhangar, Mal,(Shivnagar),Korochi,Tal. Hatkangale,District – Kolhapur,Maharashtra – 416109
2555	Teen Ek Party	At-Podalguda, P.O. Majhiguda, Distt. - Nabarangpur, Odisha- 764059.
2556	Tehreeke Inquilaab Party	Ansar Nagar, Abdul Rasheed Manzil, Tajoddin Baba Nagar, Near Ilahi Masjid, Latur, Maharashtra-413520
2557	Tejas Jankalyan Party	26A, Central Road (Golf Green), Jadavpur, Kolkata, (KMC ward No. 095), West Bengal – 700032.
2558	Telangana Communist Party of India	H. No. 3-4-760/19, Beside Narayanaguda, Flyover Bridge, Barkatpura, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500027.
2559	Telangana Dravida Prajala Party	D.No.-1-158/1,Village-Seethampet,Mandal-Hasanparthy,District-Hanamkonda,Telangana-506371
2560	Telangana Inti Party	14-70, V.T. Colony, Post & Mdl.- Nekirekal, District-Nalgonda, Telangana, - 508211
2561	Telangana Jaghir Party	H.No. 4-32/1, Munuganoor Village, Abdullapurmet Mandal, Ranga Reddy District, Telangana State- 501511
2562	Telangana Jana Samithi	Door No. 7-1-215/E, Balkampet, Near Nature Cure Hospital, Hyderabad, Telangana-500016
2563	Telangana Karmika Raithu Rajyam Party	Village – Bairanpally, Post – Siddapur, Mandal – Hasanparthy, District – Warangal,Telangana.
2564	Telangana Labour Party	H.No.8-2-293/82/BJR/A/1, BJR Nagar, Film Nagar, Jublee Hills, Mandal: Shaikpet, Hyderabad, Andhra Pradesh-500096.
2565	Telangana Loksatta Party	Plot No. 46, Flat No. 201, Gunrock Teachers Colony, Trimulgherry, Secunderabad- 500015 Andhra Pradesh
2566	Telangana Minorities OBC Rajyam	17-3-4, Rein Bazar, Yakutpura, Hyderabad, Andhra Pradesh -500023.
2567	Telangana Pragati Samithi	ADR Estate House No. 2-22-295, 2 nd Floor, Bhagyanagar Colony, Above Bank of India, K P H B Main Road, Kukatpally, Hyderabad, Andhra Pradesh – 500072.
2568	Telangana Praja Samithi (Kishore, Rao and Kishan)	H.No.10-4-108, Girmajipet, Warangal-506002 Andhra Pradesh.
2569	Telangana Praja Shakthi Party	H.No.- 3-5-233, 1 st Floor, Kota Gally, Shivaji Nagar, Opposite to Andhra Bank, R.R.Chowrastha, Nizamabad, Telangana - 503001
2570	Telangana Prajaa Jeevana Rythu Party	H.No.10-157/1, Malkajgiri, Medchal,Malkajgiri District,Hyderabad,Telangana-50047
2571	Telangana Prajala Party	H.No.12-13-830/15, Gokulnagar, Street No. 1, Tarnaka, Secunderabad, Telangana- 500017
2572	Telangana Rajya Samithi	D. No. 1-4-177/148 & 149/201, Old Alwal Secunderabad, Hyderabad, Telangana - 500010
2573	Telangana Rashtra Punahnirmana Samithi	H. No.1-3-186/a, Vidya Nagar, Bhongir, District – Nalgonda, Andhra Pradesh - 508116.
2574	Telangana Republican Party	H.No. 2-134, Tanedarpally Village, Marriguda Mandal, Nalgonda District, Telangana State- 508245
2575	Telangana Sakalajanula Party	H. No. 4-2-99, NFC (Nuclear Fuel Corporation Colony), Bandlaguda Jagir (Village) & (Post), Rajendra Nagar Mandal, Ranga Reddy Dist. – 500 086 Andhra Pradesh
2576	Telangana Studentz United for Nation Party	H.No. 3-85, Bowrampet Village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Telangana-500043.
2577	Telangana Yuva Shakti	Flat No. 404, H.No. 2-2-25A/1, Jeelani Meadows Apartment, D.D. Colony, Amberpet, Hyderabad, Telangana- 500013
2578	Telangana Independent Party	House No.5-2-13, Tirumala Nagar, Moulali , R.R.

		District, Kapra Circle, Hyderabad, Andhra Pradesh-500040
2579	Telugu Bahujana Party	8/160-A, Mittapalem Street, Gudur, SPSR Nellore District, Andhra Pradesh – 524101.
2580	Telugu Congress Party	8-2-38, Opp. G.P. office, Bhavaninagar, Vemulawada, Karim Nagar District, Andhra Pradesh – 505302.
2581	Telugu Janata Party	No.70-7-16/2A,Ramnayyapeta,TSR Nagar, Road No.2,Kakinada Urban Mandal,E.G.District,Andhra Pradesh-533003
2582	Telugu Prajaa Patham Party	4-96/25/3, GF-103, Chinamusidiwada, Revenue Ward 70, Vishakahpatnam, Andhra Pradesh- 530051
2583	Telugu Rajadhikara Samithi Party	13-56, Sanjeeva Nagar,Kanchikacherla,NTR District,Andhra Pradesh-520018
2584	Telugu Rashtra Shakti Party	302, GVR, Residency, Beside GVR Towers, Gannavaram, District- Krishina, Andhra Pradesh-521101
2585	Telugu Sena Party	3-6,PathaAngadi Bazar,Devapur, Bellampelli,Kasipeta,Distt-Mancheryal,Telangana-504218
2586	Telugu Vijayam Party	Flat No.306,Sinivasa Towers,Near Kerala Hotel,Ibrahimpattam,Vijayawada-Krishna District,Andhra Pradesh- 521456
2587	Thakkam Katchi	1/2755,Nehru Street(Old Annai Theresa Street),V.P.Singh Nagar,Pammathukulam Post,Chennai,Tamil Nadu-600052
2588	Thamilaga Makkal Suthanthira Kalagam	No. 19/1,Sellapa Kounder Street,Velayuthampalayam,P. Pugalur Taluk,Karur District,Tamilnadu – 639117
2589	Thamizh Desiya Munnetra Kazhagam	No.143-A,Mela Veethi,Main Road,Thiruppanandal-Post,Thiruv daimaruthur-Taluk,Thanjavur-District,Tamil Nadu,Pin-612504
2590	Thamizh Perarasu Katchi	3/6,Paari Street (Extn.),Choolaimedu,Chennai,Tamil Nadu- 600094.
2591	Thamizhaga Dravidar Katchi	No.32/217,Gandhi Road,West Tambaram,Tambaram (TK),Chengalpattu District,Chennai,Tamil Nadu-600045
2592	Thamizhaga Munnetra Congress	No. 91, Ponnusamy Nagar, 3 rd Street Perambur, Division 68, Chennai-600011, Tamil Nadu.
2593	Thamizhaka Padaippalar Makkal Katchi	No. 72, Neyveli Main Road, Kurinjipadi Taluk, Cuddalore Distt.-Tamil Nadu, Tamil Nadu - 607303
2594	Thamizhar Munnetrak Kazhagam	2/5, Thiruvalluvar Salai, Perumal Nagar, Mogappair, Chennai, Tamil Nadu- 600037.
2595	The Agrani Party	Located at Anmol House,Lichi Bagan,Pankhatoli,P.O.-Ramana,Dist.-Muzaffarpur,Bihar-842002
2596	The Future India Party	No: 2/191 B, Nethaji Street, Opp. to Elite School, M.A. Nagar, Redhills, Chennai, Tamil Nadu - 600052.
2597	The Imperial Party of India	190, Shrinagar Main, Indore – 452001, Madhya Pradesh.
2598	The Indian Aspirations party	Office Unit No.- 205, Peninsula Plaza, A/16, Veer Industrial Estate,Veera Desai Road, Andheri West, Mumbai, Maharashtra- 400053.
2599	The Lok Party of India	Room No. 7, Building No. 61, 1 st Floor, 2 nd Lane, M.R. Road, Kamathipura, Mumbai – 400 008. Maharashtra .
2600	The National Road Map Party of India	B-145, New Ashok Nagar, Delhi- 110096.
2601	The Plurals Party	Sukhbaso Complex,3 rd Floor,Opposite Western Hotel,Plot No. 130,Danapur Khagul Road,P.O.-Danapur,Distt.- Patna,Bihar-801503
2602	The Public Welfare Party	Sonapur Complex, Alhadnagar, Ward No.14, East of Zilla Complex High School, Gadchiroli, Maharashtra - 442605.
2603	The Religion of Man Revolving Political	Kabiritha, Kabitanagar, P.O.Bongaon, Distt. 24-

	Party of India	Parganas (North)-743235 (West Bengal).
2604	Third View Party	203, Hill View, Plot No. 85, Lullanagar, Near Mount Carmel Convent School, Pune-411 040, (Maharashtra).
2605	Thozhilalar Party	No. 28A, Metu Street, Nemilichery, Chrompet, Chennai-600044 Tamil Nadu.
2606	Thrinamool Tamil Nadu Congress	189/1, Amaravathi Street (Near Five Roads), Reddiyur Village, District – Salem - 636004, Tamil Nadu.
2607	Tipra Motha Party	Khatian No. 1201, Mouja- Jirania, Revenue Circle- Jirania, R.S. Plot no. 1493/7543, C.S. Plot no. 471, 468/P, Khumulwng, Tripura-799035
2608	Tipraland State Party	Old Kalibari Road, Krisnanagar, Agartala, West Tripura, Tripura- 799001.
2609	Tipu Sultan Party	56/2, Attar House Near Karbala Bes, Revivar Peth, Ambajogai, District-Beed, Maharashtra-431517
2610	Tola Party	H. No. – 56, Ward No. – 14, Andhua Patti, Hodel, (Palwal), Haryana.
2611	Total Vikas Party	C-95 A-1, 2 nd Floor, Ardee City, Sector – 52, Gurgaon, Haryana – 122011.
2612	Tripura Peoples Party	8/9, Jail Ashram Road, Dhaleswar, Agartala, TRIPURA- 799007
2613	Truth, Equality, Justice Applying Service Dal	B-35, Anandlok, Near Shriji Baba School, Post – Krishna Nagar, Govardhan Marg Mathura, Teh. & Dist. – Mathura, Uttar Pradesh- 281004.
2614	Tuluvere Paksha	Door. No – 2-139(5), Koyyuru Cross Laila Village, Belthangady, Dakshina Kannada, Karnataka-574214.
2615	Twenty 20 Party	Building No.IV/172, Ikkarnadu Panchayath, Kadayiruppu PO, Kunnathunadu Taluk, Ernakulam Dist., Kerala - 682311
2616	Udarwadi Samrasta Party	133/1, Harijan Basti, Gaon Samaypur, Delhi- 110042
2617	Uday Bharatam Party	A-13, Sector 44, Gautam Budh Nagar, Noida, Uttar Pradesh-201301
2618	Udaya Chandra Desam Party	No.27, KamarajNeduchalai, Old Perungulathur, Chennai, Tamil Nadu-600063
2619	Udiyoman Democratic Party of India	4/3C, Orient Row, Ground Floor, Kolkata-700017
2620	Ujala Party	E-26, Gali No.9, Near Water Tank, Subhash Vihar, Bhajanpura, Delhi-53.
2621	Ulaga Makkal Katchi	No. 15/24A, Methukummal Junction, Methukummal Post, Kanyakumari District, Tamil Nadu – 629172.
2622	Ulzaipali Makkal Katchy	74, Santhi Nagar, Ist Street, S.M. Nagar Post, Chennai – 600 062 Tamil Nadu.
2623	Ummeed Party of India	Gram - Shishu, Vill. /PO - Shishu, Ward - 12, Tehsil - Dantaramgarh, P.S.- Ranoli, District - Sikar, Rajasthan - 332405.
2624	United Democratic Front Secular	539/13, Shastri Nagar, Meerut, Uttar Pradesh.
2625	United Goans Democratic Party	1st Floor, Casa Dos Aliados, Behind Gomat Vidya Niketan, Absde Faria Road, Margao, Goa-403601.
2626	United Goans Party	Shop No.7, H.No. 18/5/6, Gramilo Apartment, Dondrem, Taleigao, Tiswadi, Goa.
2627	United India Party	No. 4-2-256/K/1, Bheemunipatnam N.T.P.C, Ramagundam (Mandal), Karimnagar, Telangana – 505215
2628	United Naga Democratic Party, Nagaland	Ward No. 7, Near Agape School, Chumukedima – 797 103, Dimapur – 797 112 (Nagaland).
2629	United National Party	Village Shantinagar, Mauja - Sannpura, Post – Gonsili, Tehsil – Baah, District - Agra, Uttar Pradesh – 283104
2630	United People's Front	City Regency Building, R.K.B. Road, Dibrugarh, ASSAM-786001
2631	United Republic of Bharath Party	D. No. 6-9-1373A, Defence Colony, Near A.P.H.B. post Office, Besides, Kanchimatam Hospital, Chottoor, District, Tipupati, Andhra Pradesh- 517501

2632	United Republican Party of India	80/81, C.A.H. College-By-Pass Road, Melvisharam, Walaja Taluk, Distt.- Vellore Tamil Nadu- 632509
2633	United Secular Congress Party of India	2/104 B, Kurla Jai Hind Budhvikas,SRA Grihnrman Sanstha,Maryadit Nehru Nagar, Kurla (East),Mumbai-400024, Maharashtra.
2634	United Socialist Party	B 41-H/6, Bright Street, 2 nd floor, P.O. Circus Avenue, P.S. Karaya, Kolkata, West Bengal- 700017
2635	United States of India Party	No. 10/116, Mathaganeri, South Street, Sembikulam(PO), (PO), Vadakankulam (Via), Taluk - Radhapuram, District - Tirunelveli, Tamil Nadu- 627116.
2636	Universal Brotherhood Movement	57-D, Sattur Main Road, Kovilpatti, District - Thoothukkudi, Tamil Nadu- 628501.
2637	Universal Family Party	Taobungkhok,P.S-Patsoi, P.O-Langjing, Manaipur, Imphal West, 795113
2638	Universe Citizen Party	15-5-122, Vinay Nilaya,Opp. Karnataka Law & Pharmacy College,Dhyanmandir Road,Rapure Colony,Bidar,Karnataka- 585401
2639	Urban & Rural Party	H.No.660/7/P.003,Gaura Bangh, Kursi Road,(Phool Bagh),Lucknow,Uttar Pradesh-226026
2640	Urimai Meetppu Kazhagam	New No. 10A, Krishna Street, Irumbuliur, West Tambaram,Chennai-600045, Kanchi Street,Tamil Nadu.
2641	Utkal Bharat	Plot No. 296/2624, At – Govinda Prasad, East Canal Road, In front of Twin Bridge, P.O. – G.G.P. Colony, Bhubaneswar-751010 Odisha.
2642	Utkal Samaj	Anandayan, Plot No.-567/2,Kanan Vihar, Phase – II,Bhubaneswar – 751 031Orissa.
2643	Utkrisht Party	1 st Floor, Rakesh Cloth House, Main Bazar, Village-NarotMehra, Tehsil & District- Pathankot, Punjab.
2644	Uttama Prajaakeeya Party	7/A, 1 st Cross, 3 rd Stage, 3 rd Phase, 6 th Block BSK, BSK 3 rd Stage, Kathiriguppe, Bengaluru, Karnataka - 560085.
2645	Uttar Bhartiya Vikas Sena	201/202, 2 nd Floor, Sukumar Corner,127- J.P.Road, DawoodBaug Lane,Andheri (West), Mumbai, Maharashtra- 400058.
2646	Uttar Pradesh Navnirman Sena	House No. 3, Sector- 15A, District- Gotambuddh Nagar, Noida, Uttar Pradesh- 201301
2647	Uttar Pradesh Republican Party	552/2, Rajendra Nagar, 2nd Street, Lucknow-226004 (U.P.).
2648	Uttara Janashakti Sena	H. No. 66,67,Shivapura Colony (Anchatageri Layout),Near Rajadhani Colony,Gokul Road,Hubli,Karnataka-580028.
2649	Uttara Karnataka Party	No.25,4 th cross,MSR Nagar,Bengaluru,Karnataka- 560054
2650	Uttara Raashtra Telangana Party	H. No. 4-32/B, Gandhi Nagar, Brahmanpally, Arnoor, Jakranpally, District-Nizamabad, Telangana-503224.
2651	Uttarakhand Jan Samarthan Party	Amrit Kaur Road Civil 17, New Road Dehradun, Uttarakhand-248001
2652	Uttarakhand Janata Party	Plot No.6,Prakash Enclave,Shimla Road,Sewla Kalan,District – Dehradun Uttrakhand– 248001
2653	Uttarakhand Janekta Party	18F-/Sector-3B Near C-Block,Type-II,New Tehri,Uttarakhand- 249001
2654	Uttarakhand Janshakti Party	Sushila Berthwal Niwas, Near Doordarshan Prasara Bharti Office, Haridwar Bye-Pass Road, Dehradun, Uttarakhand- 248001.
2655	Uttarakhand Kranti Dal	Rochipura, P.O. Majra, Dehradun, Uttarakhand).
2656	Uttarakhand Kranti Dal (Democratic)	85/12 – B, Nash Villa Road, Dehradun-248001, (Uttaranchal).
2657	Uttarakhand Parivartan Party	Sah Bhavan, Veer Chandra Singh Garhwali Marg, Gairsain,Distt. – Chamoli, Uttarakhand.
2658	Uttarakhand Pragatisheel Party	13, Subhash Road,Opposite back gate of St. Joseph School,Dehradun-248001, Uttrakhand.

2659	Uttarakhand Raksha Morcha	H. No. 1, Village – Nouka (Dour Wala), Post - Mothronwala, Vikashkhanda Raipur, District – Dehradun, Uttarakhand.
2660	Uttarakhand Samanta Party	33, Gangotri Vihar, Lane No.1, Nehrugram Road, Dehradun, Uttarakhand – 248005
2661	Utthan Rashtriya Vikas Party	Ganpati Smart City, Flat no.507, Satlaj Tower-4, Vaipur Sikander, Agra, Uttar Pradesh-282001
2662	Uzhaippaalar Munnetra Kazhagam	18, M.G.R. Nagar, Venkataraman, Salal, Chollai, Pallam, K.K. Nagar, Chennai, Tamil Nadu-600078
2663	Vada Tamil Nadu Munnetra Katchi	No.209/42, Sri Iyappa Nagar, Kaliyamm Koil Street, Virugampakkam, Chennai, Tamil Nadu-600092
2664	Vaicharik Kranti Party	F- 11, 12, 13, Ishwari Dayal Complex-92, Gautam Buddha Marg, Lucknow, Uttar Pradesh.
2665	Vaidik Samajwadi Party	Arya Shiv Nagar, Jayantipur road Barf Khane ke behind, Moradabad, Uttar Pradesh-244001
2666	Valamaana Tamizhagam Katchi	H-982, 23 rd Street, 13 th Main Road, Annanagar, Chennai, Tamil Nadu- 600040.
2667	Valimai Valartchi Indians Party	411 D, Goundachi Palayam, Vadamugam Vellore, Erode District, Tamil Nadu - 638112.
2668	Vallarasu Party	H. No.-6(23), Mosque Steet, Mylapore, Mylapore, Chennai Tamil Nadu- 600004
2669	Vanchit All India Shoshit Yatharthvadi Party	H.No.42a.Ward No.4-6, Indira Nagar, Near- Paidliganj, Nala Road, P.S.-Taramandal, District- Gorakhpur, Uttar Pradesh-273009
2670	Vanchit Bahujan Aaghadi	Survey No. 858B/2, 'Akash' Bhigvan Road, Behind Ranade Petrol pump, Ashok Nagar, Baramati, District – Pune, Maharashtra - 413102
2671	Vanchit Samaj Party	Circle- Bankipur, R.Circle No.- 13, Ward- 36, Mohalla- Pump House Gali Talab Parr, Lalji Tola, Police Station- Gandhi Maidan- Patna, District- Patna, Bihar- 800003
2672	Vanchitsamaj Insaaf Party	39, Adarsh Nagar, c/o Dr. Sheikh Maholi Road, Mathura, Uttar Pradesh.
2673	Vande Bharat Party	Gaddopur Mathiya, Nearby ITI School, Post -Gaddopur Majhawa, Distt. - Ayodhya, Uttar Pradesh-224001
2674	Vande Republic Party	555, Niti Khand-3, Near Pipal Chowk, Indrapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201014
2675	Vastavik Bharat Party	Plot No.-16, Chanakyapuri, Minal residency, Gate No.-1 ke pas, J.K.Road, Bhopal, Madhya Pradesh-462041
2676	Vasudhaiv Kutumbakam Party	Ward No. 07, Holding No.1050 New, Mohalla- Sahebda Ganj, District- Darbhanga, Bihar.
2677	Vasundhara Jan Vikas Dal	Khata No. 39, 59, Plot No. 32, 35 and 36, Mauja and Thana No. 371, New Thana No. 27, NH-2, Shiv Sagar, District – Rohtas, Bihar – 821111
2678	Veerath Thiyaagi Viswanathadoss Thozhilalarkal Katchi	Manickavasagar Arangam, No. 1/9, Chengam to Tiruvannamalai Main Road, Kariamangalam Village & Post, Chengam Taluk, Tiruvannamalai District, Tamil Nadu- 606709
2679	Venukabinavargala Mahila Raithu Party	Door No.- 3-110A, Chakrayapalem Village, Kollipara Mandalam, Guntur District, Andhra Pradesh.
2680	Vichara Jagruthi Congress Paksha	Door No. 275 of Hebbalu Village and Post, Davangere Taluk and District, Karnataka.
2681	Vidarbha Maza Party	237, Post- Ubali, Tahsil- Kalmeshwar, District- Nagpur, Maharashtra.
2682	Vidarbha Rajya Aghadi	Block No. 4, Daftari Complex, Opposite Dadaji Dhuniwale Math, Nagpur Road, Grampanchayat Nalwadi, District- Wardha, Maharashtra
2683	Vidhyarthula Mahilala Raithula Mahasena Party	Dr.No. 74-6/1-1A, VSR Road, Ayyappanagar, Patamata, Vijayawada, Andhra Pradesh.
2684	Vidhyarthula Rajakiya Party	H.No. 11-13-624/4, Flat No. 402, I.B. Nagar, Haripuri Colony, Road No. 3, Saroornagar (M), Rangareddy,

		Andhra Pradesh- 501505
2685	Vidial Valarchi Perani	37-B, Keela theru, Ichikamalai Patti, K.Sathanur (Post), Thiruchirapalli, Tamil Nadu - 620021
2686	Vidiyalai Thedum Indhiyargal Party	#10/2032, South Thiruppachethi, Post - Thiruppachethi, Taluk - Thiruppuvanam, District – Sivagangai, Tamil Nadu 630610.
2687	Viduthalai Chiruthaigal Katchi	No. 16, Chinnaiah Street, T-Nagar, Chennai – 17, Tamil Nadu.
2688	Viduthalai Kalam Katchi	D. No. 2-48, Bodinaickenpatty, Oorpuram, Ward-2, Bodinaickenpatti(P), Singalandapuram Via, Rasipuram (TK), Namakkal District, Tamil Nadu - 637412
2689	Viduthalai Makkal Munnetra Kazhagam	No. 11, Kabilar Street, Devanampattinam, Cuddalore District, Tamil Nadu.
2690	Vijay Bharat Party	H.No. 402, 3 rd Floor, Plot No. 2-3, Gali No. 3, Friends Encalve, Shahberi, Greater Noida Extension, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 201009
2691	Vijaya Bharatha Makkal (People) Party	70, 2 nd Floor, Braod Bazzar Street, Ambur-635802, Vellore District, TAMIL NADU
2692	Vijaya Janata Party	No. 9, Om Sai Shankthi Nilaya, Bharathinagara, Hundasamaranahalli Post, Jala Hobali, Bangalore North Taluk, Bangalore Karnataka- 560058
2693	Vikas India Party	T-192, Street No.2, Gautam Puri, Delhi-110053
2694	Vikas Insaf Party	House No. 23, Ward No.10, Mahmoodpur Pargana, Near P. C. F. Godown, Tehsil- Sadar, District – Fatehpur, Uttar Pradesh -212601
2695	Vikas Manch	Bhura Chowk, Post office & Tehsil- Nokha, District- Bikaner, Rajasthan- 334803
2696	Vikas Party	Satyagarh Marg, Darul Safa Compound, Lucknow (Uttar Pradesh).
2697	Vikassheel Insaan Party	Ghar Apna Apartment, Ward No. 38, Flat No. 604, Phase-03, Abhiyanta Nagar, Ranjan Path, P.O.-Danapur Cantt, P.S- Rupaspur, District Patna, Bihar-801503
2698	Vikassheel Janta Party	First Floor, (Ground Floor Ayurvedic Chikitsalaya), Chauhan Market, Behta Chowraha, Lalganj, (Near Hanuman Mandir), Vaishwara, Rai Bareli, District-Rai Bareli, Uttar Pradesh- 229206
2699	Villagers India Party	Talpali Pada (Near Durgamandap Chowk), district- Bolangir, Odisha- 767001.
2700	Vindhya Janta Party	Makan NO-M.I.G.1-86, Padamdhar Colony, Rewa In huzur, Tehsil of Rewa, District Rewa, Madhya Pradesh- 486001
2701	Viraj Jan Party	H. No. A-21, Shiv Vihar, Meena Wala, Jaipur, Rajasthan-302034
2702	Viro Ke Vir Indian Party	First Floor, B-2, Sarthi Complex-2, Manekpura, Liliya Road, Amreli, Gujarat-365601.
2703	Vishal Janta Party	No. 1/4649/183, Budh Bazar Gali, Sub Gali No.08, Mandoli Road, New Modern Shahadra, Delhi- 110032
2704	Vishal Party of India	Village – Chaurha, P.O.-Degham, Tehsil – Garhshankar, District – Hoshiarpur, Punjab – 144527.
2705	Vishva Shakti Party	B-10/144, Pradeep Vihar, Nathupura More Delhi - 110084.
2706	Vishwa Adarsh Bharat Party	House No. 251, Mega Pathology, Behind of Court , Sookh Vilas Colony, Badwani, Tehsil- Badwani, District- Badwani, Madhya Pradesh- 451551
2707	Vishwa Bandhutva Party	Village-Ghooripur, Post-Badaunadih, Thana-Kadipur, District- Sultanpur, Uttar Pradesh- 228175.
2708	Vishwa Bharath Party	H.No.5-6-160B, Krishna Nagar NTPC, Jyothinagar, Ramagundam, Peddapalli

		District, Telangana-505215
2709	Vishwa Hindustani Sangathan	3/105, Anandnagar, 100 ft. Ring Road, Satellite Vejalpur, Ahmedabad, Gujarat.
2710	Vishwa Jagriti Party	74/16A, Paramhans Marg, Shipra Path, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan-302020
2711	Vishwa Jana Party	Door No. 4-122, Padmavati Nagar, Thogatavari Street, Podalakur, District- SPSR Nellore, Andhra Pradesh
2712	Vishwa Jana Samrajyam Party	MIG-74, H.No. 15-13-vii-m-74, Phase VII, KPHB Colony, Kukatpally, Hyderabad, Telangana State- 500085
2713	Vishwa Manav Samaj Kalyan Parishad	Village & Post – Chandapur, Wazirganj, District – Gonda, Uttar Pradesh.
2714	Vishwa Shanti Party	Plot No. III-F/621, Sector-III-F, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201010
2715	Vishwa Tamil Kazhagam	Door No. 70/2, Block No. 1, Raajiv Nagar, Kandhampatty, Salem West (TK), Distt. Salem, Tamil Nadu – 636005.
2716	Vishwanath Pratap Janta Dal	Ward-2, Malviya Nagar Infront of State Bank of India, Main Road Madhugarh, District Jalaun Uttar Pradesh- 285126
2717	Vision India Party	16-216, Siva Giri Colony, Mulapet Nellore, Andhra Pradesh-524003
2718	Viswa Bharath People's Party	18/9, Poonga Nagar, Irugur, Coimbatore, Tamil Nadu – 641103
2719	Vivasayigal Makkal Munnetra Katchi	403, SRPK Complex, Udaiyarpalayam, Thalavaipatty-Post, Attur -Taluk, Salem- District, Tamil Nadu-636102
2720	Voice of Labour Party (Jammu & Kashmir)	Khasra No. 539, Village- Atti, Post- Fathepur, Tehsil & District- Rajouri, Jammu & Kashmir- 185131
2721	Voters Independent Party	No. 903, 1 st Floor, 6 th Block, 80 Feet Road, Koramangala, Ejipura, Ward No. 148, Bangalore, Karnataka - 560095
2722	Voters Party International	H. No. 385, Street No. 12/3, Wazirabad Village, Delhi-110084.
2723	Vyabasayi Kisan Alpasankhyak Morcha	H. No.12, Maharajganj, Jamui, District – Jamui, Bihar – 811307.
2724	Vyavastha Parivartan Party	At Baudh Diamond, Taluka Panchayat Road, Opp. of Court, Post & Taluka-Ghogha, District- Bhavnagar, Gujarat.
2725	Watan Janta Party	3/4/7 A, Mugalpura, Ayodhya, Faizabad, Uttar Pradesh
2726	Wazib Adhikar Party	Village & Post – Pohaddi Bela, Block – Ghanshyampur, District – Darbhanga, Bihar – 847427.
2727	Welfare Party of India	E - 57/1, Abul Fazal Enclave-1, Jamia Nagar, New Delhi - 110025
2728	West Bengal Socialist Party	42-Ananda Palit Road, Kolkata-700014, (West Bengal).
2729	Y.S.R. Telangana Party	Flat No. 401-A, Third Floor, Siddhardha Sravanti Apartment, No. 8-3-169/35, Plot No.35, Siddhardha Nagar, Yousufguda, Telangana, Hyderabad - 500038
2730	Yekikrutha Sankshema Rashtriya Praja Party	D No7-1-500, NGO Colony, YSR Street, Siddavatam Road, Badvel-516227, YSR District, Andhra Pradesh.
2731	Young India Party	Circle No. 28, Holding No. 128/113, Arya Kumar Road, Machhuatoli, P.S- Kadamkuan, District - Patna, Bihar - 800004
2732	Young India Tangress Party	Yelam Galli, Tugav(H), Taluk – Bhalki, Distt. – Bidar, Karnataka.
2733	Young India United Party	House of Madan Mohan Mishra, Village- Mangalpurva, Post- Parsa, Gondari, Block- Haldharmau, Tehsil- Colonel Ganj, District- Gonda, Uttar Pradesh- 271126
2734	Young Senior Rich Common People Kings Party	Flat No. 403, (Door No. 54-9-2398), 4th Floor, Saveer Towers, Venkateswara Colony, Main Road, Guntur, Andhra Pradesh-522001
2735	Young Star Empowerment Party	34, Ground Floor, 2 nd Main Road, 11 th Cross Road,

		Singasandra, Subhash Nagar, B- Block, Begur Village, Hobli, Bangalore-560068, Karnataka.
2736	Youth and Students Party	R.P. Estates, 4/1, Poonamallee High Road, Koyambedu, Chennai-600 107.
2737	Youth India Peace Party	Assessment No.- 18, Village- Katha No.- 215, Yeshwanthpur Hobli, BangaloreNorth Taluk, Bangalore, Karnataka- 560022
2738	Youth Socialist Party	H. No. 248, Sihora Govind (Govind Nagar), Post & Thana – Katghar, Tehsil & District – Moradabad, Uttar Pradesh - 244001.
2739	YSR Bahujana Party	28/434, Rameshwaram, Proddatur-516360, Kadapa District, Andhra Pradesh.
2740	Yug Kranti Dal	H. No.122,Gali No.1,Punjabi Colony (Dharmpur),Samastipur Town,Bihar-848101
2741	Yug Nirman Party	B-84, Second Floor, Gharoli Diary Farm, Mayur Vihar Phase-III, Delhi-110096.
2742	Yug Parivartan Party	H. NO. 2179,Motiram Colony,Near Mohit Public School,Noorwala, Panipat Haryana- 132103
2743	Yuga Thulasi Party	H. No. 5-9-296, Flat No. 310, Prasad Apartment, Gunfoundry, Abids, Hyderabad, Telangana-500001.
2744	Yuva Aam Dal Aadami Vikas	Apra City,Phase-2,Sector-C,Village Mishrauliya State,Post-Mishrauli,Near-Jail Road,Dist.- Basti Uttar Pradesh- 272001
2745	Yuva Anubhav Party	House No. – 393 – I, Haritima, Rajiv Nagar, West Basharatpur, Gorakhpur, Uttar Pradesh.
2746	Yuva Bharat Atmanirbhal Dal	F/49/1A,Ayodhya Nagar,Near Shiv Mandir,N-7,CIDCO,Aurangabad,Maharashtra- 431003
2747	Yuva Bharat Rashtraseva Party	At-LGF-138,Gautam Nagar,New Delhi - 110049
2748	Yuva Bharat Save Merit Save National Dal	H.No.-33,Village-Uchetha,Pargana-Bhadohi,Dist-Sant Ravidas Nagar,Uttar Pradesh-221301
2749	Yuva Bihar Sena	H. No. 17,Batukeshwar Dutta Lane,New Jakkanpur,Patna Bihar-800001
2750	Yuva Jankalyan Party	Shop No. 06, Laxmi Ashirwad CHS Ltd., Plot No. 23, Sector- 25, Kamothe, District- Raigad, Maharashtra- 410209
2751	Yuva Jankranti Party	Kasba – Kerakat, Mohalla – Shekhzada 2 nd , Post – Kerakat, Janpad – Jaunpur, Uttar Pradesh.
2752	Yuva Janta Party	Building No. 91/1, Grant Ganj, Main Market Mahoba, District – Mahoba, Uttar Pradesh - 210427.
2753	Yuva Karnataka Paksha	#66, Aneपुरa Village, Nidharamangala Post, Malur Taluk, Kolar District, Karnataka- 563137
2754	Yuva Krantikari Party	Adarsh Nagar, Road No. 1E, Samastipur, Bihar-848101
2755	Yuva Party	1-8-1-83, Garage No.83, Ground Floor, Baghlingampally, Hyderabad, Andhra Pradesh.
2756	Yuva Party (Democratic)	Plot No. 63, Gurukrupa Society, Panch Faliya, Dabholigam, Katargam, Surat, Gujarat- 395004.
2757	Yuva Samriddhi Dal	Flat No.101, Anil Resedicy, Bhagwat Nagar Main Road,Patna-800026,Bihar
2758	Yuva Sarkar	161, Vanmali Park Society,Harikrishna Chowk, Dharmakul Ashrit Road,Puna-Simada, Surat- 394211GUJARAT.
2759	Yuva Shakti Sanghathana	Bhangdia Wada, Tilak Ward, Tah. Chimur, District – Chandrapur, Maharashtra
2760	Yuva Star Party	Vill.-Akha, P.O.-Jayantigram Isapur Sherpur, P.S.- Bhagvanpur, Distt.-Begusarai, Bihar-851112
2761	Yuva Taram Party	H.No.- 8-1-32/4,Near Hanuman Temple Back Side,Ward No. 8,Block-1,Gattaigudem Village,Palvancho-Mandal,Badradi Kothagudem-District,Telangana- 507115
2762	Yuva Telangana Party	Plot No. 143&144, Rock Town Colony, Alkapuri,

		Mansoorabad, LB Nagar, Hyderabad- 500068, Telangana
2763	Yuva Vahini Party	D-95,LDA Colony,Kanpur Road,Lucknow,Uttar Pradesh – 226012
2764	Yuva Vikas Party	Serawan, Atrampur, Allahabad, Uttar Pradesh.

TABLE – I(B)
DELISTED REGISTERED UNRECOGNIZED POLITICAL PARTIES [RUPPs]*

Sr.No.	Name of RUPP	Headquater of RUPP
1.	Aarthik Samanta Party	189, B-Block, Gali No. 4/6,Karawal Nagar,DELHI-110094.
2.	A-Chik National Congress (Democratic)	Dakopgre (Opp. office of Inspector & School), Tura, West Garo Hills,Meghalaya – 794 101.
3.	Ajeya Bharat Party	A-14, Mohan Estates, Mathura Road, New Delhi.
4.	Akahand Bharat Maha Sangh Sarvahara Krantikari Party	Sunfool, Kota-1, (Rajasthan).
5.	Akhil Bharatiya Azad Lokhit Congress Party	Khari Mohalla, Khatikon Ka Chowk,Bhiwani, Haryana.
6.	Akhil Bharatiya Dalit Utthan Party	A-201/2, Gali No. 1, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092.
7.	Akhil Bharatiya Kranti Dal	7, Prem Colony, Pragati Path, Ist Floor,Kalyan Nagar, Behind Hanuman Mandir,Tonk Road, Jaipur – 302011, Rajasthan.
8.	Akhil Bharatiya Revolutionary Shoshit Samaj Dal	Vaishali Nagar, Sidheshwar Ves, At. & Post : Latur,Distt. Latur, 413512 (Maharashtra).
9.	Akhil Bhartiya Nagrik Sewa Sangh	Plot No. 98, Ratan Lal Nagar,Kanpur – 208022, Uttar Pradesh.
10.	Akhil Jan Vikas Dal	50A/1A, Nahar Pur, Rao S.K. Shopping Complex, Sector-7, Rohini, Delhi-85.
11.	All India Ambedkar Makkal Munnetra Kazhagam	104, Walja Road, 3rd Floor, Arivu Mani Arangam, Triplicane, Chennai, Tamil Nadu 600002
12.	All India Babu Jagjivan Ram Baba Saheb National Congress	C-22, Basement, Chirag Enclave, New Delhi-110048
13.	All India Christian Democratic and Backward People's Party	Block A-1, Flat 2, Kolkata-700054 (West Bengal)
14.	All India Dalit Welfare Congress	Flat No. 44, Sector B-4, Narela, Delhi
15.	All India Lok Raj Party	Village-Meharban, Tehsil & District-Ludhiana (Punjab)
16.	All India Mahila Democratic Front (AIMDF)	House No.6-1-57/62, Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad-500004, Andhra Pradesh
17.	All India Muttahida Qaumi Mahaz	# H. No. 19-2-23/M/J/5/E, 1 st Floor, Bahadurpura, Mecca Colony, Hyderabad-500053, Andhra Pradesh.
18.	All India Raksha Party	Post Box No. 136, Main Post Office, Karnal-132001, Haryana.
19.	All India Tribes And Minorities Front	Windrush Hill Annexe, Shimla-2 (Himachal Pradesh).
20.	All J & K Peoples Patriotic Front	Jawaharnagar, House No.97, Police Station, Ragh Bagh, Srinagar (Jammu & Kashmir).
21.	Alpjan Samaj Party	Dak Bangala Market Parishar, 1st Floor, Shop No. 28, Dak Bangla Market, P.O. – Sasaram, P.S. – Sasaram, Distt. Rohtas, Bihar – 821115.
22.	Ambedkar Kranti Dal	Shanti Homeopathic Store, Arya Samaj Chowk, Badayun, Uttar Pradesh.
23.	Ambedkar Pragatisheel Republican Dal	Dr. Lohia Colony, Shahjhapur, Pin-242001 (Uttar Pradesh).
24.	Anti Reservation Party of India	H.No. 1184, Sector-21-B, Chandigarh.
25.	Arya Sabha	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.
26.	Asom Gana Parishad Pragatisheel	H.O.-G.S. Road, Ulubari,Guwahati-781 007, Assam.
27.	Ati Pichhra Jan Dal	Village: Rampur Bakli, Post & Distt. Bijnor, Uttar Pradesh.
28.	Awami Socialist Party of India	Bukhara, Bakshiwal Road,Bijnaur – 246 701 (Uttar Pradesh).

29.	Baaratha Samuthaya Munnetra Munnani	400/12, Ist Floor, Township Commercial Complex, Kamarajar Nagar Main Road, Avadi, Chennai – 600 071, Tamil Nadu.
30.	Bahujan Ekta Party (R)	Suraj Bhawan, R.D.-136A, Dhram Pura Ex, Najafgarh, New Delhi-110043.
31.	Bahujan Kisan Dal	Kisan Bhawan, Rishabh Vihar, Circular Road, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.
32.	Bahujan Loktantrik Party	G-161, J.J.Colony, Wazirpur, Delhi-110052.
33.	Bahujan Shakti	Mines Resque Station Camps, Post – Dhansar, Distt. – Dhanbad, Jharkhand.
34.	Bam Party	538 K/780, Triveni Nagar-II, Lucknow, Uttar Pradesh.
35.	Barak Valley Territory Demand Committee	Swaraj Bhawan, Silehar Road, P.O. P.S. and District – Karimganj, Pin-788711, Assam.
36.	Begumpura Sanjha Front	193, New Rasila Nagar, Basti Danishmandan, Jalandhar, Punjab.
37.	Bhaarat Mahashakti Party	11A, DDA Flats, Priyadarshni Vihar, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
38.	Bharat Bachao Party of India	S – 528, Greater Kailash Part-I, New Delhi –110048.
39.	Bharat Desam Party	Door No. 8-3-270/1, Nehru Nagar, 9th Line, Main Road, Guntur – 522 001, Andhra Pradesh.
40.	Bharat Jan Party	324, Kailash Nagar, Ghaziabad (Uttar Pradesh).
41.	Bharat Vikas Party (Secular)	Kh. No.21/25, Near HP Petrol Pump, Upkar Properties, A-Block, Himgiri Enclave, Burari, Delhi-110084.
42.	Bharathiya Dravida Makkal Katchi	2036, 15th Main Road, Anna Nagar West, Chennai – 600 040, Tamil Nadu.
43.	Bharathiya Jana Shabdth	331(311), Ward No. 1, Kallara House, Mundella (P.O.), Vellanadu, Thiruvananthapuram – 695 543, Kerala.
44.	Bharathiya Yuvatha, Samatha, Rashtriyatha Congress Party	Flat No. G1, Ground Floor, ARK Residency Plot No. 304, Survey No. 153, 154, 163 and 143, Boduppall, Village & Gram Panchayat – Ghatkesar (Mandal), Rangareddy (District), Hyderabad-500038, Andhra Pradesh.
45.	Bharatiya Asht Jan Party	151, C Sector, Second Floor, Room No. 203, Inder Puri, Bhopal – 462022 (M.P.).
46.	Bharatiya Awaj Party	Milan Committee Sewa Sangh, Santosh Nagar, Behram Bagh, Jogeshwari West, Mumbai-440102, Maharashtra.
47.	Bharatiya Berozgar Mazdoor Kisan Dal	Bansal Gaon, P.O. Dheghat, Patti Malla, Chackaut, Distt- Almora (Uttaranchal).
48.	Bharatiya Bouddhik Vichar Party	Village – Ballanagla Patti, Post – Shahpur Kheri, Tehsil – Dhampur, Distt. – Bijnour, (Uttar Pradesh).
49.	Bharatiya Congress (M)	16, Batra Colony, M.T.X. (Sonepat), Harayana.
50.	Bharatiya Jan Kisan Party	1080C, Babaji Bag, Tilak Road, Balua Ghat, Allahabad, Uttar Pradesh
51.	Bharatiya Jan Samajwadi Party	A-62, J. J. Colony, Khanpur, New Delhi-110062.
52.	Bharatiya Lok Kalyan Dal	Area/Post/Tahsil Bikabur, Distt. Faizabad, (Uttar Pradesh).
53.	Bharatiya Loktantrik Party (Gandhi-Lohiawadi)	Satyawati Niwas, Ram Das Path, Meethapur B- Area, Patna - 800001, Bihar.
54.	Bharatiya Manavata Vikas Party	133/4, Qutub Enclave, Phase-II, New Delhi-110016.
55.	Bharatiya Parivartan Party	70-A, DDA Flat, Pandav Nagar, Near Metro Station Shadipur, New Delhi – 110008.
56.	Bharatiya Purvanchal Party	E-68, Premchand Colony, Pandeypur (1), Varanasi, UTTAR PRADESH.
57.	Bharatiya Rashtriya Janhit Party	C-2968, Sapna Colony, Lucknow-226017 (Uttar Pradesh).
58.	Bharatiya Rashtriya Swadeshi Congress Paksh	308, Ramnagari, 2/C, 3rd Floor, Alandi Road, Bhosry, Pune-411039, Maharashtra.
59.	Bharatiya Samaj Kalyan Party Bharat	Ravender Electronics, Purani Chungi, Agra Road, Hathras, Distt. Aligarh (U.P.).
60.	Bharatiya Sarvkalayan Kranti Dal	2/643/C, Rambagh Colony, Ramghat Road, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
61.	Bharatiya Shakti Sena	Shakti Sena Bhawan, Bariar No. 6, Audyaugik Kshetra Bahadarabad, Haridwar – 249402, Uttarakhand.

62.	Bharatiya Shramik Dal	L-238, Vikash Pradhikaran Colony, Indira Nagar, Rai Bareilly (U.P.).
63.	Bharteey Samajvadi Morcha	3/1108, Dehradun Chowk Saharanpur-247 001 (Uttar Pradesh).
64.	Bharti Lok Lehar Party	136, Ajit Nagar, Amritsar (Punjab).
65.	Bhartiya Deshbhakt Sangh (Brajesh)	Shop No. 1, Khasra No. 1494, Nehru Enclave, Bank Wali Gali, Alipur, Delhi – 110036.
66.	Bhartiya Gantantra Party	H. No.5, Ganga Dham, Kundan Nagar, Bagh Mughaliya, Hoshangabad Road, Bhopal, MADHYA PRADESH.
67.	Bhartiya Gorkha Janashakti	26/2, H.D. Lama Road, Darjeeling-734 101, (West Bengal).
68.	Bhartiya Harit Kranti Dal	Village & P.O. – Sonta, Via – Alipur, Kheri, Distt. Mujaffar Nagar, Uttar Pradesh.
69.	Bhartiya Hind Ekta Dal	Defence Colony, Anil Shaheed Nagar, Izatnagar, Nainital Road, Bareilly - 243122, Uttar Pradesh.
70.	Bhartiya Jan Sanmati Party	Village – Harola, Sector – 5, Noida, Uttar Pradesh.
71.	Bhartiya Jana Congress (Rashtriya)	113/70B, Lal Bahadur Shastri Nagar, Patna-800023 (Bihar).
72.	Bhartiya Janta Ki Ekta Party	Plot No. 29-A and 30-A, Khasra No. 20/1/1, Village Rajapura Khurd Delhi, Colony Mohan Garden, R-III, A-2, New Delhi - 110059
73.	Bhartiya Swarn Samta Party	201- C Block, Goyal Enclave, Faizabad Road, Chinhut Lucknow, UP.
74.	Buddhiviveki Vikas Party	R(U)-9, 2nd Floor, Pitampura, Delhi – 110088.
75.	Chandigarh Vikas Party	House No.230, Sector 9-C, Chandigarh-160009.
76.	Chhattisgarh Navnirman Sena	C. R. – 12, R.D.A. Building, Gurunanak Market, Sharda Chowk, Raipur, Chhattisgarh.
77.	Children First Party of India	703-704, Devatha Plaza, 132, Residency Raod, Bangluru-560025. Karnataka.
78.	Democratic Insaf Party	D-62, G.T.B.Nagar (Kareli), Allahabad (Uttar Pradesh).
79.	Democratic Janta Dal (J & K)	344 EP, Cristen Colony (Shaheedi Chowk), Jogi Gate, Jammu (Jammu & Kashmir).
80.	Desiya Forward Bloc	No.5, M. P. Avenue, Majestic Colony, Saligramam, Chennai-600093, Tamil Nadu.
81.	Ekta Kranti Dal U.P.	C/o Satyapal Sagar, Amanjai Jalal Nagar, Opp. Chhotti Line, Shahjapur (Uttar Pradesh).
82.	Federal Congress of India	Holmbi Khurd, Village & P.O. – Holmbi Kalan, Delhi – 110 082.
83.	Forward Bloc (Socialist)	Temple Street, P.O. & Distt. Jalpaiguri-735101 (West Bengal).
84.	Garib Janata Party	Rajinder Nagar, Main Bazar, P.O. Vijay Nagar, Batala Road, Amritsar (Punjab).
85.	Gramanchal Party	3/A, Satya Nagar, In Front of Central School, Bhubaneswar-7, Orissa.
86.	Gujarat Yuva Vikas Party	C/o Darbar Kruba Transport, Near Bus Station, Vadnagar-384 355, District-Mehsana (Gujarat).
87.	Harit Pradesh Party	H. No. 349, Village & Post – Bilsuri, Distt. – Bulandshahar, Uttar Pradesh - 203205.
88.	Haryana Janta Party	Village & Post Office – Risalu, Tehsil & District – Panipat, Haryana – 132103
89.	Haryana Samajik Nyay Party	Kothi No. 239, Sector-7, Urban Estate, Kurukshetra-136118, Haryana.
90.	Hind Ekta Mission	Village – Leduwawar, Post – Kauragahani, Tehsil – Phulpur, Distt. – Azamgarh, Uttar Pradesh.
91.	Hind Morcha	Samaj Sudhar Ashram, Siraspur, Delhi.
92.	Hind Raksha Sena	WZ-13 B, First Floor, Mukhram Park Extn. Tilak Nagar, New Delhi-110018
93.	Hind Rashtriya Ekta Party	Plot No.104, Anguri Palace, Wazirabad Road, Pasunda, Garima Garden, Sahibabad, Ghaziabad, U.P.-201 005.
94.	Hind Swarajya Ganatantra Party	S-41, Panchsheel Park, New Delhi-110017.
95.	Hindustan Action Party	156, Khanna Nagar, Loni, Ghaziabad-201102, Uttar Pradesh.
96.	Hindustan Peoples Party (Rajpal)	85A-Mohiley Nagar, Allapur, Allahabad, Uttar Pradesh.

97.	Hindustani Gareebwadi Party	61, Aggarwal Chambers, Vikas Marg, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi-110092.
98.	Hindusthan Suraksha Party	North East Zone, Berpeta Road, Near Tourists Lodge, Ward No.6, District Berpeta (Assam).
99.	Indian Federal Democratic Party	1, Balwant Rai Mehta Lane, K.G. Marg, New Delhi – 110 001.
100.	Indian Secular Congress	202, Pocket-B, SFS (DDA Flats), Sukhdev Vihar, New Delhi – 110025.
101.	Indian Voters Welfare Party	No. 608, 14th Main, Gokula 1st Stage, Bangalore – 560 054, Karnataka.
102.	Indians Front	37-12-62, NGGO's Colony, P.R. Gardens, Visakhapatnam – 530 007 Andhra Pradesh.
103.	Istatantra Parisad	At Village/Mouza – Dibyasinghapur, Khata No. 638, Plot No. 1343, P.O. Rayagurupur, P.S. – Gadisagoda, District – Puri, Odisha
104.	J & K Citizen's Party	Heera Building, Abi Guzar, Lal Chowk, Srinagar, Jammu and Kashmir.
105.	Jaghat Telugu Munnetra Kazhggam	No.33, Halls Road, P.A. Tower, F-9 & 10, Egmore, Chennai-600008, Tamil Nadu.
106.	Jai Janata Janardan Party	Mohalla-Manohari Ganj, Mardan Naka Shahar Banda, Paragna & Distt. – Banda, Uttar Pradesh.
107.	Jai Samaj Bharatiya Samaj Party	Town Area Sadat, Post – Sadat, District – Gazipur, Uttar Pradesh.
108.	Jammu & Kashmir National United Front	Post Office Building, Amphalla Chowk, Karan Nagar, Jammu Tawi – 180 005, Jammu & Kashmir.
109.	Jammu & Kashmir Save Srinagar Front	Naib Mufti Azam Manzil, Tailbal Road, Habak Crossing, Srinagar – 190 006. Jammu and Kashmir.
110.	Jammu and Kashmir Awami League	B-24, Indra Nagar, Srinagar-190001, (Jammu & Kashmir).
111.	Jammu and Kashmir Democratic Party Nationalist	Kursoo Rajbagh, Srinagar-190 008, Kashmir.
112.	Jammu and Kashmir People Democratic Front (Secular)	Rajbagh, Near Little Angels School, Srinagar, Kashmir.
113.	Jan Ekta Party	147/5, Behind ITI, Shamsheerpur, Paonta Sahib, Himachal Pradesh.
114.	Jan Lokmat Party	2, Hasrat Building, Adhyatmik Nagar, Beneath Rly. Fly Over, Dasna, Ghaziabad-201302 Uttar Pradesh.
115.	Jan Shanti Sangathan	AA-14, Chandan Van, Phase –1, Mathura, Uttar Pradesh-281001
116.	Jana Hitkari Party	A/13-14, Industrial Estate, Rasulgarh, Bhubaneswar-751 010, Orissa.
117.	Jana Unnayan Mancha	C/o Dolphin Engineering Co., 39, Shakespeare Sarani, Kolkatta-700017 (West Bengal).
118.	Janadesh Party	Radhey Niwas, Jarimari, Jagtap Wadi, Kurla Andheri Road, Mumbai – 400072.
119.	Jananayaha Munnetra Kazhagam	No.32, New Tank Street, Nungambakkam, Chennai-600034, (Tamil Nadu).
120.	Jathiya Telugu Abhivrudhi Seva Samuham	# 171, Kesavaigunta, Near S.G.S. Arts College, Tirupati -517501, Chittor District, Andhra Pradesh.
121.	Jharkhand Jan Morcha	IInd Floor, Ajmeri Tower, Mallah Toli, Ranchi – 834001, Jharkhand.
122.	Jharkhand Janadhikar Manch	Bhubaneshwari Lok, Kali Mandir Road, Vardman Compound, Ranchi – 834 001 (Jharkhand)
123.	Jharkhand Vananchal Congress	5, Ratu Road, Ranchi-834005, Jharkhand.
124.	Kaivinyager Munnetra Kazhagam	Sri Visweswara Bhavanam, 76, Millers Road, Kilpauk, Chennai-600010. (Tamil Nadu).
125.	Kamgar Samaj Dal	H. No.9/237, Mohalla : Raidopur, Post & Distt. Azamgarh, Uttar Pradesh.
126.	Karnataka Kranthi Dal	No.240, 16th Main, 6th Cross, Ist Phase, 2nd Stage, BTM (EWS) Layout, Bangalore-560076(Karnataka).
127.	Karnataka Thamizhar Munnetra Kazhagam	No.6, IInd Floor, Chick Bazar Road Cross, Shivaji Nagar, Bangalore-560051 (Karnataka).
128.	Kerala Janapaksham	PURA-36, Shyamala Nivas, Poojappura P.O., Thiruvananthapuram - 695012.

129.	Kisan Garib Nagrik Party	203, Markaz View, 2nd Floor, 24, Opposite Carrit Cinema, Jogeshwari (West), Mumbai-400103, MAHARASHTRA.
130.	Kisan Mazdoor Bahujan Party	J-1/2, Dali Bagh Colony, Lucknow (Uttar Pradesh).
131.	Kisan Vyawasayee Mazdoor Party	Prakash Bhavan, Narhi Bazar, Lucknow (Uttar Pradesh).
132.	Kongunadu Jananayaga Katchi	"Irai Arul" No. 24, Metha Layout, Laxmipuram, Peelamedu (PO), Coimbatore, Tamil Nadu – 641004.
133.	Kosal Party	G.M. College Road, Sambalpur-768004 (Orissa).
134.	Kranti Dal	132, Babuganj, Lucknow (U.P.).
135.	Kranti Parishad	House No.2019, Mistrikhan Road, Nahargarh Road, Jaipur (Rajasthan).
136.	Krantisena Maharashtra	5-A, Jyotisanan Shitladevi, Temple Road, Mahim, Mumbai, Maharashtra.
137.	Labour And Job Seeker's Party of India	66, Royapettah High Road, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu).
138.	Lal Morcha	RZC-113, Vishnu Garden, Khayala, New Delhi – 110018
139.	Lattin Congress	Bavali, Post-Khash, Distt. Meerut-250621 (Uttar Pradesh).
140.	Lok Paritran	"Saubhagya" 12-13 Tilak Nagar -II, Mahamandir, Jodhpur-342010 (Rajasthan).
141.	Loko Sanmilon	P.O.-Jaleswar, Distt.-Goalpara, Assam.
142.	Loksena	63/H/S, Madan Mohan, Burman Street, Kolkatta-700007, West Bengal.
143.	Loktantrik Chetna Party	Mumtaj Manjil, Azad Nagar, Baanda. (Uttar Pradesh).
144.	Loktrantrik Janata Front	E-13/307, Press Complex, Jawahar Park, Vikash Marg, Laxmi Nagar, Delhi – 110092
145.	Mahagujarat Janta Party	A-203, Satyamev-1, S.G. Road, Opp. High Court, Ahmedabad, Gujarat.
146.	Mahakaushal Vikas Party	'Shanti Kutir' 281, Sanjivani Nagar, Jabalpur (M.P.).
147.	Mahanayak Sardar Patel Sangh	52/98, IInd Floor, Chittaranjan Park, New Delhi-110019.
148.	Makkal Congress Vazhapadiyar	18, Telugu Brahmin Street, Velacheri, Chennai-600 042, Tamil Nadu.
149.	Makkal Desiya Jananayaka Katchi	245/6, R.K. Mutt Road, Mylapore, Chennai – 600004, Tamil Nadu.
150.	Makkal Marumalarchi Munnetra Kazhagam	No. 13A, 1 st Floor, Thiyagarajan Nagar, Kodungaiyur, Chennai - 600118, Tamil Nadu.
151.	Mana Party	5-4-719, Kattelamandi, Nampally, Hyderabad-500 001, Andhra Pradesh.
152.	Manipur People's Party (Democratic)	Qtr. No.1, Type-IV, Babupara, Imphal-795001 (Manipur).
153.	Maryadi Dal	Gram Chhoukarwada, Tehsil – Vair, District – Bharatpur, Rajasthan.
154.	Matra Bhakta Party	Raghunath Farm, Village + Post – Kundli, Sonapat, Haryana.
155.	MGR Thonderkal Katchi	No.18/33A, Vattavilai, Kappiyarai Post, Kanyakumari District-629156, Tamil Nadu.
156.	Mizoram Congress Party	Headquarters: Aizawal, Mizoram – 796 001.
157.	Naga National Party	Hd.Qtrs. Aja Daily Office, Church Road, Dewlahland, Imphal, Manipur.
158.	National Jankranti Dal	K-316, Near Bus Terminal, Opposite Qutub Minar, M.B. Road, Lado Sarai, New Delhi – 110030.
159.	National Progressive Party	House No.1080, Block-P/1, Sultan Puri Colony, New Delhi – 110041
160.	National Secular Party	C-20/B, 1st Floor, Green Park Extension, New Delhi-110 016.
161.	National Students Party	16/2, Karaneeshwarar Pagoda Street, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu).
162.	National Vikas Party (India)	B-40/A-11, Ganapati, Paradise Central Spine, Vidhya Dhar Nagar, Jaipur-302023, Rajasthan.
163.	Nava Nirmana Nagarika Samithi	6/7/8, Shankarmutt Road, Basavanagudi, Bangalore-560004 (Karnataka).

164.	Nava Telangana Party	House No. 8-2-598/B, Road No.8,Banjara Hills, Hyderabad – 500 034.
165.	Netaji Subhash Party	Shajanwa, Distt. Gorakhpur (Uttar Pradesh).
166.	News Congress	Baimahal, 2nd Floor, Wadia Street, Tardeo, Mumbai – 400 034, Maharashtra.
167.	Niswarth Sewa Party	Ved Ayurvedic Store, Near Bus Stand,Mahendregarh, Haryana.
168.	Orissa Gana Parishad	A/52, Kharvela Nagar, Unit-III, Bhubaneswar-751001.
169.	Orissa Mukti Morcha	15, Bhouma Nagar, Unit-IV, Bhubaneswar-751 001, Orissa.
170.	Pahachan Mangalkari Party	L-II-56, Madangir, Delhi-110 062.
171.	Paschimi Prajatantra Morcha	386, Shahnatthan, Meerut, Uttar Pradesh
172.	Paschimi Uttar Pradesh Swaraja Party	Sardhana Road, Kankar Khara, Meerut (Uttar Pradesh).
173.	Patriot	28-Appavu Street, Cuddalore Port, Pin-607003, Tamil Nadu.
174.	People's Democratic Conference of India	Bankra, Post Office – Birati,Kolkata – 700051, West Bengal.
175.	Peoples Power Party	P.B.No.16, Shivaji Nagar Post Office, Mumbai-400043, Maharashtra.
176.	Plains Tribals Council of Assam	P.O. & T.O. Kokrajhar, Distt. Kokrajhar (Assam).
177.	Prabuddha Bharat Party	7A, Hospital Street, 1st Floor,Kolkata – 700072, West Bengal.
178.	Praja Bharath Party	Plot No. 106, Block 'A', Archana Appartments, East Marredpally, Secunderabad-500026 (Andhra Pradesh)
179.	Praja Chaithanya Party	1-7-578/31/2, Gemini Colony,Musheerabad,Hyderabad, Andhra Pradesh.
180.	Prajatantrik Lok Ekta Dal	3, Koutilya Marg, Patna – 800 001, Bihar.
181.	Progressive Party	B Block, Gali No.5, Shani Bazaar Road, Amrit Vihar, Burari, Delhi – 110084.
182.	Progressive People's Party	House No. -975,976, Shyam Colony,Budh Vihar Phase-II,Near Krishna Mandir,P.S. – Vijay Vihar, DELHI- 110086.
183.	Puducherry Padaippali Makkal Katchi	No. 4, First Street,Thendral Nagar,Puducherry - 605013.
184.	Punjab People's Party	14, Sector 28, Arun Vihar, Noida-201303 (Uttar Pradesh).
185.	Punjab Vikas Congress Party	Panj Peer Chowk, Jalandhar, Punjab.
186.	Punjabi Dal	H.No. BV/30A, Ramgarhia, Gurdwara Road, Barnala-148101. Distt. Sangrur (Punjab).
187.	Purvanchal Gan Parishad	House No. 34, Pocket-28, Sector-24, Rohini, Delhi-110085.
188.	Purvanchal Janshakti Party	Shree Vishveshwar Ashram Satuabhar,Post – Bihari Bujurg, Khajni, Gorakhpur-273 212, Uttar Pradesh.
189.	Purvanchal Vikas Party	L-131, Street No.5, Mahipal Pur Extn., New Delhi-110037.
190.	Puthiya Needhi Katchi	6, North Boag Road, T-Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
191.	Quami Janta Dal	9-B, Triloknath Road, Lal Bagh, Lucknow (Uttar Pradesh).
192.	Rajasthan Dev Sena Dal	Opposite to Bus Stand,Dhamai Haveli, Dudu, Jaipur, Rajasthan.
193.	Rajdal Haryana	D/S 45, Brass Market, Bawal Road, Rewari-123401, Haryana.
194.	Rashtrasamarjit Jansamooch	H-101, Ground Floor, Chandu Park, Krishna Naga, New Delhi-110051
195.	Rashtrawadi Samta Party	196/187 K, Village-Balipur Khurdwan,Tehsil- Gauriganj,Distt. Distt. Amethi, UTTAR PRADESH.
196.	Rashtrawadi Swarn Ekta Party	Plot No. 11, 2 nd Floor, Awadhपुरi Khand – I, Market Khargapur, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
197.	Rashtriya Agraniye Dal	Village – Khamona, Post – Resipur,P.S. – Jansa, District – Varansi, Uttar Pradesh.
198.	Rashtriya Awami Dal	152, Kazi Tola, Sailani Road,Old City, Bareilly-243005, Uttar Pradesh.
199.	Rashtriya Dehat Morcha Party	601, Rohit House, 3-Tolstoy Marg, New Delhi-110001.
200.	Rashtriya Ekta Vikas Party	Near Noor Masjid, Madina Masjid Transformer Wali Gali, Ashok Vihar Ward No.42, Loni, Tehsil and District - Ghaziabad, Uttar Pradesh.

201.	Rashtriya Hamara Dal	22/191, Dholi Khar, Mantola, Agra (Uttar Pradesh).
202.	Rashtriya Hindustan Sena, Karnataka	Shiva Shakti, 141, Behind New Bus Stand, Vasvi Nagar, Hubli-580030, Karnataka.
203.	Rashtriya Hith Congress	712, G-Block, Military Road, Karol Bagh, New Delhi – 110005.
204.	Rashtriya Indira Party	Dattपुरा, Near Subzi Mandi, Morena, (Madhya Pradesh).
205.	Rashtriya Jan Samanatawadi (Ambedkar)	71-B, Pocket A-3, Kalkaji Extension, New Delhi-110 019.
206.	Rashtriya Janandholan Paksha	“Powrabhavan”, No.567(38), 60 Ft. Road, Gokula Mathikere Layout, Bangalore-560054 (Karnataka).
207.	Rashtriya Janata Janardan Party	Suraj Ka-Purva, Atarrarural, P.O. Atarra, District Banda, Uttar Pradesh.
208.	Rashtriya Janhit Party	Kothi No.75, Sector-17, Panchkula-134 109 (Haryana).
209.	Rashtriya Jantantrik Party (Secular)	Flat No. 153-154, Vir Chand Patel Path, Patna-800001 (Bihar).
210.	Rashtriya Kamgar Party	B.W – 97 D, Shalimar Bagh, Delhi – 110088
211.	Rashtriya Kamjor Varg Party	Central Office: Post Office Building, Lal Bahadur Shastri Nagar, Post Office (Upper Floor) Patna-800023 (Bihar).
212.	Rashtriya Krantikari Janata Party	407, Durga Chambers, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005.
213.	Rashtriya Lok Jagriti Party	Near Bk. No. 27, Opp. Budh Vihar, Bhim Nagar, Ulhasnagar – 421 001, Distt. Thane, Maharashtra.
214.	Rashtriya Lok Seva Morcha	206, Lovekush Tower, Exhibition Road, Patna-800 001, Bihar.
215.	Rashtriya Lokhit Party	A-40/35A, Amarpur Madiya, Varanasi, Uttar Pradesh.
216.	Rashtriya Machhua Samaj Party	Railway Road, Dadri, Near Ravaji Farm House, Gautam Budh Nagar (Uttar Pradesh)
217.	Rashtriya Manav Adhikar Party	17/700, Village-Gopalpur, Post-Azadpur (Timarpur), Delhi-110009.
218.	Rashtriya Pragatisheel Prajatantra Party	3518, Daribapan, Opposite to Sheela Cinema, Paharganj, New Delhi-110055.
219.	Rashtriya Rajdhani Congress Delhi	8, Nath Market, Nai Sarak, Delhi-110006.
220.	Rashtriya Samadhaan Party	121-A, R-3/A-2, Mangal Bazar Mohan Garden, New Delhi - 110059.
221.	Rashtriya Samajwadi Party 'Pragatisheel'	B-248, Mohan Nagar, Thatipur, Morar, Gwalior (Madhya Pradesh).
222.	Rashtriya Sarvasamaj Party (India)	Plot No. 256, Mithila Dham Rahivashi Sangh, Opp. Jery Verghese Termate Company, Gen. A.K. Vaidya Marg, malad (East), Mumbai-400097, Maharashtra.
223.	Rashtriya Sawarn Shakti Party	299, Ground Floor, Gagan Vihar, Delhi – 110051
224.	Rashtriya Sindhi Congress	437/B/1, Rubia House, B/H, Ellis Bridge Shopping Centre, Ashram Road, Ahmedabad-380 006, Gujarat.
225.	Republican Labour Party	Block-4, House No. 236, 7th Mile Chumukedima, Dimapur-797103, Post Box –354, Nagaland.
226.	Republican Presidium Party of India	Uruli-Kanchan, Pune-412202 (Maharashtra).
227.	Samajik Ekta Party	22, Housing Board Colony, Sonipat-131001 (Haryana).
228.	Samajik Jantantrik Party	Mukam Raja Market, Cinema Road, Gopalganj Nagar Palika Post, Gopalganj-841428, Distt. Gopalganj (Bihar).
229.	Sampoorna Kranti Dal	Village – Khajoori Kalan, Post – Khajoori Khurd, Koraon, Allahabad, Uttar Pradesh
230.	Sanyukt Dastkar Party	P-205, Basti Khwaja Meer Dard, Barron Road, New Delhi-110002.
231.	Sarav Samaj Vikas Party	Bamba Road, Sailai, Post Office – Sailai, District – Firozabad, Uttar Pradesh.
232.	Sarvahara Samaj Party	68-A Block, Darulshafa, Lucknow (Uttar Pradesh).
233.	Sarvochha Rashtriya Vikas Mahaparishad	C-90, DDA Flat, West Gorakh Park, (New Jafrabad) Shahdara, Delhi-110032.
234.	Satya Vijay Party	101-C, Press House, 22, Phiroz Gandhi Press Complex, Agra – Mumbai Road, Indore – 452 008, Madhya Pradesh.
235.	Satyavadi Paksh	Room No. 4-5, Oriyan Complex, Opp. Hotel Rajdhani, Railway Station Road, Aurangabad-431005 Maharashtra.

236.	Secular Democratic Labour Party of India	6-2-44/3A, Jammibanda Street, Khammam-507001 Andhra Pradesh.
237.	Shetkari Vichar Dal	49, Mamta, Anandnagar Co-op. Housing, Gulmohar Road, Savedi, Ahmednagar-414001, Maharashtra.
238.	Shiromani Youth Akali Dal (Kahlon)	5/5051, Shakti Nagar, Khandwalla, Chaharta, Amritsar (Punjab).
239.	Shoshit Samaj Adhikar Party	Tehsil – Kole, Thana – Gandhi Park, Janpad – Aligarh, Uttar Pradesh – 202001.
240.	Shree Bharat Vikas Paksh	220, Shreeji Complex, Near Ellisbridge Post Office, Ashram Road, Ahmedabad – 380 006(Gujarat).
241.	Sikkim Gorkha Prajatantric Party	Shimma Building, P.O. & P.S. Singtam, East Sikkim-737 134 (Sikkim).
242.	Sikkim Himali Rajya Parishad Party	Tulsikunj Building, Near Telephone Exchange, P.O. – Dara Gaon, 31-A, National Highway, Tadong Bazar, Tadong, Gangtok - 737102, Sikkim.
243.	Sikkim Jan-Ekta Party	Tinzir, Namchi, South Sikkim – 737 126
244.	Sikkim Liberation Party	Tintek, East Sikkim, Gangtok, Sikkim – 737134
245.	Sikkim Sangram Parishad	Deorali Bazaar, P.O.- Tadong, Gangtok, Sikkim- 737102.
246.	Sinh Jan Sena Party	Near Public Library, Veraval-362265 (Gujarat).
247.	Sirpanch Samaj Party	T-47, Old Nangal, Delhi Cantt-110 010.
248.	Suraaj Party	6-81, Office Building, Vishal Estates, Village – Annaram, Mandal – Jinnaram, District – Medak, Andhra Pradesh – 502313
249.	Swaraj Dal	No.4 Stop, Pattar Gudda, Post-Garaheharama, Port Blair-744101 (Andaman & Nicobar Islands).
250.	Swarna Yuga Party	No. 26, “ Amma” Ist Main Road, Dollars Colony, RMV 2nd Stage, Bangalore – 560 094, Karnataka.
251.	Swatantra Adarshwadi Bhartiya Kranti Party	Village & Post- Lutuhi, Yanha Mahuli, Distt.- Sant Kabir Nagar, Khalilabad, Uttar Pradesh.
252.	Tamil Maanila Quaide Milleth League	579, Anna Salai Teynampet, Chennai – 600 006, Tamil Nadu.
253.	Tamilina Vidiyal Pulikal Iyakkam	Annai Illam, Pallavan Nagar, Third Street, Theni Main Road, Madurai-625 016, Tamil Nadu.
254.	Tamilnadu Jananayaka Congress	327, Lloyds Road, Royapettah, Chennai – 600 014, Tamil Nadu.
255.	Tamizhar Party	8/43, M.T.C. Road, Mattur Dam, 1, Salem District, Chennai-600017 (Tamil Nadu).
256.	Thanthai Periyar Dravida Munnetra Kazhagam	23, Alagappan Street, Thenkarai Periyaklam, District - Theni, Tamil Nadu - 625601.
257.	Tippu Sultan National Republic Party	No.24, Ist Main, 13th Cross, Bapujinagar, Mysore Road, Bangalore – 560 026Karnataka.
258.	Trikalinga Congress	Palanka Koligadia, P.O.- Gunthuni Barchana, District- Jajpur, Pin- 754024, Odisha.
259.	Trilinga Praja Pragati Party	B-118, Madhuranagar, S.R. Nagar post, Hyderabad-500038, Andhra Pradesh.
260.	Trinamool Gana Parishad	Ananda Plaza Complex, 4th Floor, Ganeshguri Chariali, Gawahati-781006 (Assam).
261.	United Bodo Nationalist Liberation Front	C/o Deori Bora, Rambhapuri, Kahilipara, Guwahati, (Assam).
262.	United India Peoples Party	Manjamattam, Moozhoor P.O., Kottayam Distt. (Kerala).
263.	United Indian Democratic Council	No.1205, II-Stage, Rajaji Nagar, Bangalore-560010 (Karnataka).
264.	United Minorities Front, Assam	Ulubari, Guwahati-781007 (Assam).
265.	United People's Democratic Party (Socialist)	Tangkhul Avenue, Imphal, Manipur-795001.
266.	United Peoples Party of Assam	S.S. Road, Lakhtokia, Guwahati-781001, Assam.
267.	United Reservation Movement Council of Assam	Post Box No. 2, P.O.Rehabari, Guwahati-781008 (Assam).
268.	United Tribal Nationalists Liberation Front	Deulguri, Harisingh Darrong-784510 (Assam).
269.	Urs Samyuktha Paksha	No. 46, Palace Road, Bangalore – 560 001, Karnataka.
270.	Uttarakhand Sanskriti Parishad	D-355, Vinod Nagar (West), Delhi-110092.

271.	Uttarakhand Sena Party	Jai Matadi Apartment, 10/1, Near Shankar Mandir, Juna Kalwa, Bela Road, Kalwa, Thane (W), Maharashtra-400605.
272.	Uttarkhand Janwadi Party	53-K, Rajpur Road, Dehradun, Uttaranchal.
273.	Vidarbha Vikas Party	Block A, Second Floor, Poonam Chambers, Chhindwara Road, Nagpur-13 (Maharashtra).
274.	Vidharbha Rajya Party	Kamgar Bhawan, Near Baidyanath Chowk, Great Nag Road, Nagpur-3, Maharashtra.
275.	Vidhayak Dal	HIG-205, Sector-1, Vikas Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
276.	Vikas Parishad	62A, Shastri Colony, Ambala Cantt. Haryana – 133001.
277.	Vishwa Vikas Sangh	F-53/F-1, Dilshad Colony, Delhi – 110 095.
278.	Vivasayi Anbhu Katchi	No.14, Raghava Nattan Street, Uthiramerur-603 406, Tamil Nadu.
279.	War Veterans Party	A/301-302, Pearl Aptt., I.C. Colony, Borivali (West), Mumbai-400 103, Maharashtra.
280.	West Bengal Pragatishil Indira Congress	68 – B, A.P.C. Road, Kolkata – 700 009, West Bengal.
281.	Youth Brigade	Village Kakgachi, P.O-Bhanderhali, District Hooghly, West Bengal.
282.	Yuva Jagriti Dal	3-B, Prayosha Flats, Near Gymkhana, Sector-19 Gandhinagar-382019, Gujarat.

**Vide Order of Commission dated 25.05.2022, 20.06.2022 & 13.09.2022, these RUPP's have been 'de-listed after due verification and having been sent notice. They have been given opportunity to respond against the interim order of ECI which includes the denial of a common symbol. All CEOs 'ROs' are advised that in case any "delisted RUPP" approaches for common symbol, proper due diligence and process as laid down in the ECI Order of 25.05.2022, 20.06.2022 & 13.09.2022 needs to be followed. As their address is non-existent, Form A & B required to claim a 'common symbol' also becomes inoperative for de-listed RUPPs.*

TABLE – I (C)
INACTIVE REGISTERED UNRECOGNIZED POLITICAL PARTIES [RUPPs]**

Sr.No.	Name of RUPP	Headquater of RUPP
1.	Aadarsh Janhit Party	Hathi Wali Gali, H. No. 22, Ward No. 9, Asfabad, Firozabad, Uttar Pradesh – 283203
2.	Adhunik Vikaswadi Party	D-1/425, Sector-H, L.D.A. Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
3.	Ahinsa Dal	Sikarwar Sadan, L-1/108, 109 Sector-B, Priyadarshini Colony, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
4.	Aims Party	Azad Chowk, Piprahi Bazaar, Post – Piprahi, Distt. - Sheohar BIHAR-843334.
5.	Akhand Bharat National Party	22-3-947/33/A/1/1, Mega City No.125, Purani Haveli, Opp. Setwin Office, Hyderabad-500002, Andhra Pradesh.
6.	Akhand Desham Party	6, Dwarkapuri, Sector-8, Indira Nagar, Lucknow-226016, Uttar Pradesh.
7.	Akhand Jharkhand People's Front	At & P.O.- Gidhaur, Distt. Jamui, Bihar – 811305.
8.	Akhil Bharatiya Aman Committee	1/9986, West Gorakh Park, Shahdara, Delhi-110032.
9.	Akhil Bharatiya Atyant Pichhara Sangharsh Morcha Party	Transformer Lane, North Nawada, Ara, District – Bhojpur, Bihar-802301.
10.	Akhil Bharatiya Azad Party	Phawwara Tiraha, Nai Sarak, Shajadpur, Akbarpur-224122 Janpad-Ambedkarnagar, Uttar Pradesh.
11.	Akhil Bharatiya Desh Bhakt Morcha	Puranderpur G.P.O., Patna (Bihar).
12.	Akhil Bharatiya Manav Adhikar Dal	1602, D.D.A. Janta Flats, G.T.B. Enclave, Delhi-110093.
13.	Akhil Bharatiya Manav Seva Dal	A-74, Sector-12, Noida (U.P.).
14.	Akhil Bharatiya Ram Rajya Parishad (Prem Ballabh Vyas)	Shri Krishna Bodh Dham, 7, Shankracharya Marg, Civil Lines, Delhi – 110054.
15.	Akhil Bhartiya Lok Dal	A-1, Main Road, Gokal Puri, Near Aggarwal Sweet Corner, Shani Sai Mandir, Delhi – 110094
16.	Akhil Bhartiya Loktantrik Congress	F-3, Park Road, Lucknow (U. P.).
17.	Akhilandra Mahadesam	Door No. 2-9-53, Nawabpet, Medak – 502 110, Medak District, Andhra Pradesh.

18.	All India Athithanar Makal Katchi	H.O. 24, Thangam Colony, Annagar Weat, Chennai-40, Tamil Nadu
19.	All India Bahujan Samman Party	107, Tikri Kalan, New Delhi-110041
20.	All India Mukti Dal Party	Plot No. 158/1, H. No. 37-93/55/1, Road No.3, Mathuranagar, Neredmet 'X' Roads, Secunderabad-500094, Andhra Pradesh.
21.	All India Party for the Protection of Civil Rights	100 A/5, 11th Sector, 66th Street, Ponnambalam Salai, K.K. Nagar, Chennai – 600 078
22.	All India Rajiv Krantikari Congress	B- 58, Gali No. 18, Jitar Nagar, New Delhi – 110051.
23.	All India Singaravelar Munnetra Kazhagam	No. 2/305, Singaravelar Nagar, Neelangkarai, Chennai –600 041, Tamil Nadu.
24.	All India Tamil Makkal Munnetra Kazhagam,	No. 25, Veerapandi Street, Perambur, Chennai-600 039, Tamil Nadu.
25.	All Indians' Gandhi Congress	212, Kalika Nagar, Andrahalli, Main Road, Bangaluru-560058, Karnataka.
26.	Ambedkar National Makkal Katchi	Door No. 53, Gandhi Road, (formerly Peeran Lane), Thirupattur, Vellore District, Pin-635601 Tamil Nadu.
27.	Ambedkar Samaj Party	304, Mandakini Enclave, Alaknanda, New Delhi-110019.
28.	Andhra Pradesh Navodaya Praja Party	No.3-11, Thukkuguda, Village, Maheshwaram Mandal, Mankhal Post, Ranga Reddy District (Andhra Pradesh).
29.	Antarrastriya Swarn Congress Party	Village & Post – Sarakara Vishnoi, Vikas Khand – Dilari, Tehsil – Thakurdwara, District – Moradabad, Uttar Pradesh - 244401.
30.	Ati Picchara Party	Mohalla- Badi Pahadi, PO-Sohsarai, Thana-Laheri, Zila-Nalanda-803118, Bihar.
31.	Ati Pichhda Varg Mahasangh	3/1274, Jankipuram Vistar, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
32.	Azad Hindustan Party	E Block – 265, Yadav Nagar, New Delhi – 110042.
33.	Bahujan Samaj Mukti Morcha	H. No. B-198, Gali No. 11, Ground Floor, Bhajanpura, Delhi-110053.
34.	Bahujan Uday Manch	Village: Chalakpur, Post – Jameen Rasoolpur, Distt. Ajamgarh, Uttar Pradesh.
35.	Best Class Party	House No. 94, Mohalla Alwal, Sadar- Azamgarh, Uttar Pradesh-276001.
36.	Bharat Abhyudhaya Party	6-6-35, Anasuya Nilayam, Kavadi guda Main Road, Kavadi guda, Secunderabad, Andhra Pradesh – 500380
37.	Bharat Bhrashtachar Mitao Party	New House No.4, Ground Floor, Begam Vihar, Block – A, Khasra No. 16/19, Village – Begampur, Near Bhairon Mandir, DELHI - 110086.
38.	Bharat Deshbhakt Sangathan	19/460, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226016
39.	Bharat Mangalam Parishad	Jamo Bazar, Hospital Chowk, P.O. Jamo Bazar, District Siwan, Bihar.
40.	Bharat Punarnirman Dal	K.J. – 116, Kavi Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
41.	Bharathiya Nethaji Party	3857, 4th Cross, Gayathri Nagar, Bangalore-560021 (Karnataka).
42.	Bharathiya Praja Shakti	No. 931,932, Karabala Maidana, Railway Station Cross Road, Channapattna Town & Taluk, Ramanagara District, Pin-571501 KARNATAKA.
43.	Bharatiya Jagriti Dal	RZ-21D, Gali No.4, Syndicate Enclave, Near Dabri Mode, Delhi - 110045.
44.	Bharatiya Janvadi Party	A-559, Shastri Park Extn., Buland Masjid, Delhi-110053.
45.	Bharatiya Krantikari Dal	A-5, Priyadarshini Vihar, NEW DELHI - 110092.
46.	Bharatiya Navyuvak Chetna Party	429/263, Near Amber Marriage Hall, Mojjamnagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
47.	Bharatiya Ravidas Party	Moh.Kundigarh, Post-Sadar, Ajamgarh, Uttar Pradesh.
48.	Bharatiya Satya Vijayee Party	C- 120, Begam Vihar Extension, Begampur, Delhi-110086.
49.	Bharatiya Uttam Sena	Village & Post – Kheddhain, Thana – Aander, Distt. – Siwan, Bihar.
50.	Bhartiya Deshbhakt Party	92/H/2, Pratap Market, Munirka (C/o Somu Press), New Delhi-110067.
51.	Bhartiya Gramvasi Party	Village – Vikrampur Banspar (Mani Chouraha), Post – Baitalpur, District – Deoria, Uttar Pradesh
52.	Bhartiya Jan Seva Party	Sharif Market, Hardoi Road, Sikrori, Post: Kakori, Lucknow, Uttar Pradesh-227 107.
53.	Bhartiya Mazdoor Kisan Congress Party	D-40, Meerut Road, Industrial Area, Ghaziabad-121003 Uttar Pradesh.

54.	Bhartiya Naujawan Inklav Party	2/26, Mandauli Extension, Mandauli Chungi, Shahdara, Delhi-110093
55.	Bhartiya Nojawan Dal	H.No.882, Street No.16, Phase - 4, Pushkar Vihar, Shiv Vihar, Karawal Nagar, Delhi - 110094
56.	Bhartiya Prajatantra Nirman Party	7/7/47-A, New Colony Lal Bagh, Post Office, Faizabad, UTTAR PRADESH
57.	Bhartiya Rajnitik Vikalp Party	Village - Nayatola Bariapur, Panchayat - Champapur, Ward No. 13, Thana - Bakhtiyarpur, District - Patna, Bihar.
58.	Bhartiya Samajik Nyay Morcha	Ward No.3, Vikas Nagar, Robertsganj, Janpad - Sonbhadra, Uttar Pradesh - 231216
59.	Bhartiya Sanvaidhanik Janhit Party	Virk Gold Farm, Village - Sarayjoga, Post- Kantha, Nawabganj, Unnao, Uttar Pradesh.
60.	Bhartiya Sarvsamaj Party	Lal Singh Kachri Wala, Shani Bazar Wali Gali, Tunda Nagar, Johri Pur, Delhi.
61.	Bhartiya Shakti Dal	D - 236, Vivek Vihar, Delhi - 110095.
62.	Bhartiya Shanti Kranti Party	1/80, Ratan Vihar, Kiradi, Nangloi, New Delhi - 110041.
63.	Bhartiya Shramik Party	79/4, Juhi Safed Colony, Saket Nagar, Kanpur Nagar - 208014, Uttar Pradesh.
64.	Bundelkhand Akikrit Party	Bundeli Sadan, Gram & Post - Satari, Zila - Mahoba, Uttar Pradesh
65.	Bundelkhand Mukti Morcha	Sh. Sukhlal Ice Factory Bhavan, Elite Chouraha, Jhansi-284001 (Uttar Pradesh).
66.	Christian Mannetra Kazhagam	93, Thaiyappa Mudali Street, Chennai-600001 (Tamil Nadu).
67.	Dalit Samaj Party	Navchetna Path, Shiv Puri P.O. Anishabad, Patna-800 002 (Bihar).
68.	Delhi Parivartan Party	E-37, Tagore Garden Extension, New Delhi - 110 027.
69.	Desh Bhakt Party	B-114, Preet Vihar, Delhi- 110092.
70.	Desia Pathukappu Kazhagam	"ARIVAGAM" 33, Ramakrishna Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai-600 093 (Tamil Nadu).
71.	Elatchia Dhiravida Munnetra Kazhagam	"ELATCHIAGAM" 4-A, Hindi Prachar Sabha Street, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
72.	Gandhiwadi Rashtriya Congress	Teachers Colony, Tehsil Road, Mahoaria, Post Mahoaria Town and Distt. Mirzapur (Uttar Pradesh).
73.	Garib Raj Party	H. No. 748A, Jharkhandi Kayasthwada, Sikandrabad, District - Bulandshahar, Uttar Pradesh.
74.	Garib Samaj Party (Shoshit)	Hajipur Malipur Road, Near Ram Janaki Mandir, Shankargarh, P.S. & Tehsil - Jalalpur, District - Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh-224149.
75.	Garib Vikas Party	Professor's Colony, Belbanwa, Motihari, Bihar - 845401.
76.	Gorkha Janmukti Morcha	North Point, Singamari, Darjeeling - 734104, West Bengal.
77.	Hamara Dal	C-112, Sector-G, L.D.A. Colony, Kanpur Road, Lucknow-12, Uttar Pradesh.
78.	Hind Kisan Mazdoor Party	31/419, Kela House, Maharana Pratap Nagar, Agra-4. (U.P.).
79.	Hindustan National Party	No. 103/68, College Road, Nanganallur, Chennai-600 114, Tamil Nadu.
80.	Hindustani Swaraj Party	69, Ashok Mohalla, Nangloi, Delhi - 110041.
81.	Indian Bahujan Sandesh Party (Kanshiram)	B-525, Guru Harikishan Nagar, New Delhi.
82.	Indian Democratic Republican Front	House No.-404, Sanjay Colony, Arthala Mohan Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
83.	Indian Justice Party	5, Pusa Road, IIIrd Floor, Karol Bagh, New Delhi -110 005.
84.	Indian National Green Party	A/44, Paryavaran Complex, Saidulazaib, New Delhi-30.
85.	Indian Oceanic Party	K-316, M.B.Road, Lado Sarai, New Delhi-110030.
86.	Indian People's Congress	79, Lawyers Chambers, Supreme Court, New Delhi-110001.
87.	Indian Youth Party	7/545, Vikas Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
88.	Inqalab Party of India	Mohalla Paschimi Lakhpeda, Town & Post - Mohammadi, Distt. Lakhimpur Khiri - 262 804 Uttar Pradesh.
89.	Inqalab Vikas Dal	92, Village Gawandi, Near Sardar Patel Park, Ghonda, Delhi.
90.	Jaganmay Nari Sangathan	Sector-21/5, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
91.	Jagrat Bharat Party	101, Vidhayak Niwas, Rajender Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
92.	Jai Jawan Jai Kisan Mazdoor Congress	WZ-553-A/3, Soni Kunj, Nangal Raya, New Delhi-110046.
93.	Jan Adhikar Manch	9 Shivakhand, Jhilmil, Delhi-110095.

94.	Jan Bhavana Party	C-103, Ganesh Nagar, Pandav Nagar Complex, New Delhi – 110092.
95.	Jan Ekta Dal	Gher Katebaz Khan, Near Masjid Kale Khan, Rampur, Distt. Rampur – 244 901, Uttar Pradesh.
96.	Jan Kranti Swatantrata Party	226/27, Street No.-6, Mahavir Nagar, Firozabad, Uttar Pradesh.
97.	Jan Lok Kalyan Party	Village & Post: Butrada, Tehsil: Shamli, Distt. Muzaffar Nagar, Uttar Pradesh.
98.	Jan Morcha	1, Teen Murti Marg, New Delhi-110001.
99.	Jan Samarthan Dal	12, Krishna Vihar, Jwala Nagar, Rampur, Uttar Pradesh.
100.	Jan Sangram Party	House No. 482, Sector – 3 A, Awas Vikas Colony, Bodla, Agra - 7, UP.
101.	Jana Priya	A/2, Kastel, 5, Cornwell Road, Bangalore-560025 (Karnataka).
102.	Janata Vikas Manch	C/216, Awas Vikas Colony, Meera Bhawan, Pratapgarh, UTTAR PRADESH.
103.	Janlok Rashtriya Party	452, Sector –19, Dwarka, New Delhi.
104.	Jansatta Party	L-14, Mahendra Park, Adarsh Colony, New Delhi-110 003.
105.	Janshoshit Samaj Party	A-618/7, Street No. – 8, Bhajanpura, Delhi - 110053
106.	Kamarajar Adithanar Kazhakam	6-E, Sasthan Koil Street, Pudhukudieruppu, Nagercoil-629001, Tamil Nadu.
107.	Kannada Naadu Party	54, Ground Floor, Parasana Colony, Basaveshwar Nagar, Gokul Road, Hubli – 580030, Karnataka.
108.	Kongu Nadu Munnetra Kazhagam	320, Best Complex, Kumaran Road, Tirupur-641601, Coimbatore (District), Tamil Nadu.
109.	Kosi Vikas Party	Machhli Bhawan, Dr. Ambedkar Marg, At.+P.O. & Distt. Khagaria, Bihar – 851204.
110.	Labour Samaj Party	Chamber No. 91, Civil Court, Rajnagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
111.	Laghujan Samaj Vikas Party	Badapura, Lalitpur, Uttar Pradesh.
112.	Lenin Communist Party	20, Bharathinagar, Alagappapuram, Karaikudi – 630003, Tamil Nadu.
113.	Lok Janhit Party	Village – Daloopur Sultanpur, Post – Prempur, Janpad – Kannauj, Uttar Pradesh.
114.	Lok Shakti	83, Lodhi Estate, New Delhi-110003.
115.	Lok Vikas Party	41, Vigyan Vihar, Delhi-110092.
116.	Loknayak Party	172/3 C, East Moti Bagh, Sarai Rohilla, Delhi-110 007.
117.	Maanila Konghu Peravai	No.41, Narayanaguru Road, Saibaba Colony, Coimbatore-641011, Tamil Nadu.
118.	Maha Loktantra Party	Shop No. 4, Basant Ganga Market, H. No. 762/ 648, Purana Katra, Allahabad – 211002, UP.
119.	Mahila Adhikar Party	29-A, Naharpur, Sector-7, Rohini, Delhi-110085.
120.	Manav Samaj Party	9538, Gausala Baradari, Kishanganj, Delhi-110006.
121.	Marxist Co-ordination	Temple Road, Purana Bazar, Dhanbad, Distt. Dhanbad, Jharkhand-826001
122.	Momin Conference	47/26, Waris Plaza, Hussain Ganj, Vidhan Sabha Marg, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.
123.	Musalsal Iman Samaj Party	261, Chakki Wali Gali, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
124.	Muslim Majlis Uttar Pradesh	Sultan Manzil, Takia Peer Jaleel, Lucknow (Uttar Pradesh).
125.	Namadhu Dravida Iyakkam	SCC Anthony Pillai Illam, New No.41, Old No.18, 7th Cross Street, Shenoy Nagar West, Chennai – 600030, Tamil Nadu.
126.	National Lokhind Party	C-1375, Rajajipuram, Lucknow-226017, Uttar Pradesh.
127.	National Sarvasamaj Party	H. No. 66, Khasra No. 1995, Iqbal Colony, Near of Sana Masjid, Village – Pasaunda, Pargna – Loni, Tehsil & District – Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201001
128.	National Welfare Party	16, Nehruji Nagar, Karupparayan, Koil Street, Samundipuram South, Tripur - 641603, Tamil Nadu
129.	Nationalistic Telangana Rashtra Samithi	23-6-431/1, Gowlipura, Hyderabad – 500265, Andhra Pradesh.
130.	Nav Yuvak Dal	Village - Tikra, Post – Ghunghter, Tehsil – Fatehpur, District - Barabanki, Uttar Pradesh – 225302
131.	Navbharat Nirman Party	30, DSIDC Complex, Mata Sundri Road, New Delhi-110 002.
132.	Nelopa (United)	B.D.O. Building, Durga Devi Marg, Sheesh Mehal, Hussenabad Chowk, Lucknow (Uttar Pradesh).

133.	New All India Congress Party	A-138, Main Vikas Marg, Shakarpur, Delhi – 110092.
134.	New Democratic Party of India	2nd Floor, 9A/83, W.E.A., Karol Bagh, NEW DELHI-110005.
135.	Party Kisan Mazdoor Vyapari	Railway Road, Hathras Junction, Mahatma Prakritik Chikitsalya, Nangla Hira, Hathras Junction, Mahamaya Nagar, Hathras, (Uttar Pradesh).
136.	People's Democratic Forum	C-177, Sector 'J', Aliganj, Lucknow (Uttar Pradesh).
137.	Peoples Movement of India	-9/215/15, Yojna – 3, Aavas Vikas Colony, Jhoonsi, Allahabad, Uttar Pradesh – 211 019.
138.	Pragatisheel Party	111, Badshah Nagar, Lucknow-226007 (Uttar Pradesh).
139.	Praja Party	3-5-898/1, Himayatnagar, Hyderabad-500029 (Andhra Pradesh).
140.	Prajatantrik Bahujan Shakti Dal	T-1, Shriram House, 117 H-2/52, Pandunagar, Kanpur, Uttar Pradesh.
141.	Progressive Democratic Party	Village and Post- Surjawali (Salempur), District-Bulandshahar-203001, Uttar Pradesh.
142.	Public Development Party	Murlipur Shekh Salah Takiya, Chinhat, Lucknow, Uttar Pradesh.
143.	Purvanchal Rajya Banao Dal	374, Bakshipur, (Near the North of Power House), Distt. - Gorakhpur, Uttar Pradesh.
144.	Rashtravadi Bahujan Kranti Party	Mohalla – Chiranjilal, Town – Afzalgarh, Tehsil – Dhampur, District – Bijnor, Uttar Pradesh – 246722.
145.	Rashtrawadi Jantantrik Party	Ambar Villa, 127/660, W-1, Saket Nagar, Kanpur-208014, UTTAR PRADESH.
146.	Rashtrawadi Labour Party	D-12/104, Sector-8, Rohini, Delhi – 110085
147.	Rashtrawadi Sena	Main Shahdra Chowk, Delhi – 110032
148.	Rashtriya Aman Sena	Aman House, Sanjay Gandhi Nagar, Road No. 9, Shiwaji Nagar No. 2, Govandi, Mumbai, Maharashtra-400043.
149.	Rashtriya Gramin Party	Village Chakershanpur (Kemrala), P.O. Ghoribachera (Dadri), District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
150.	Rashtriya Hind Sena	158/1, Dev Nagar, District Firozabad - 283203, Uttar Pradesh.
151.	Rashtriya Jan Sansad	Shakti Nagar, Old G.T. Road, Khurja, Distt. – Bulandshahar-203131, UTTAR PRADESH.
152.	Rashtriya Jan Sewak Party	Village : Nangla Jamalpur, Post : Panchli Khurd, Baghpat Road, Meerut, Uttar Pradesh.
153.	Rashtriya Janrakshak Party	Village – Birjapur, Post – Aduki, Distt. Mathura UTTAR PRADESH
154.	Rashtriya Jansangh	Old 20, New 35, Victoria Park, Sports Colony, Meerut, Uttar Pradesh
155.	Rashtriya Janta Congress	12, Siri Fort Road, New Delhi – 110049
156.	Rashtriya Jantantra Paksh	24, Star Apartments, Vidya Vihar Marg, Sector – IX, Rohini, Delhi – 110085
157.	Rashtriya Lok Nirman Party	M-12, Mir Vihar, Madan Pur Dabas DELHI.
158.	Rashtriya Lokmanch	1303, Naurang House, B-Block, 21-Kasturba Gandhi Marg, NEW DELHI-110001.
159.	Rashtriya Lokshahi Party	Survey No. 40/1, 40/2 & 40/3, House No. 411 & 412, Village – Beed Budhruk, Taluka – Karjat, District - Raigad, Maharashtra.
160.	Rashtriya Loktantrik Sambhav Secular Party	H. No. 411, Krishna Bihari Nagar, Banda Sagar Road, Varma Tiraha, District & Tehsil – Fatehpur, Uttar Pradesh.
161.	Rashtriya Parivartan Dal	B-4A/25, Rana Pratap Bagh, Delhi-110007.
162.	Rashtriya Peace Party	17G/322, Sector – 17, Vasundhara, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
163.	Rashtriya Prajantantrik Party	House No. 38, Gram-Janaur, Post-Kandhikala, Janpad-Jaunpur, Uttar Pradesh.
164.	Rashtriya Sadhu Vichar Council	Raidipur New, Officer Colony, Nyay Marg, Azamgarh, Uttar Pradesh.
165.	Rashtriya Samajwadi Party (United)	9, Community Centre, Ashok Vihar, Phase-II, Delhi-110052.
166.	Rashtriya Samdarshi Deshbakt Dal	Khushkari Sadan, Anand Nagar, Mandi Road Tiraha, Kasganj, Kanshiram Nagar, Uttar Pradesh.
167.	Rashtriya Samyawadi Aryan Party	570/20, Virat Nagar, Alam Bagh, Lucknow-226005, Uttar Pradesh.
168.	Rashtriya Sangharsh Party	Faridabad, Sujanganj, Jounpur-222201 Uttar Pradesh.
169.	Rashtriya Sarvjan Samaj Party	Village & Post – Mandhata, Tehsil – Sadar, Distt. – Pratapgarh, Uttar Pradesh.
170.	Rashtriya Viklang Party	114, DDA Pocket – 2, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110045.
171.	Rashtriya Yuva Sangh	B-117, Gali No. 6, East Vinod Nagar, Delhi-110091

172.	Rastriya Praja Chakravyuha Party	No. 73, Shanthinikethanam, D.K. Halli Main Road, Palar Nagar, BEML Nagar Post, Bangarapet Taluk, Kolar District, Karnataka - 563115.
173.	Republican Party of India (Kamble)	A, 703, Suryakiran Co. Op. Housing Society, Plot No. 12&13, Sector-5, Ghansoli, Navi Mumbai- 400701, Maharashtra.
174.	Gareebjan Samaj Party	B-8, New Sai Plaza, Kankarkhera, Sardhana Road, Meerut – 250001, Uttar Pradesh
175.	Revolutionary Democratic Party of India	5221, Street No. – 115, B – Block, Sant Nagar, Burari, Delhi – 110084.
176.	Sab Samaan Party	House No. 95 K, Village – Sarsanda, Post – Gopramau, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh
177.	Sadbhavana Party	Room No.14, Ist Floor, Lucknow Hotel, Sri Ram Road Choraha, Aminabad, Lucknow-226018 (Uttar Pradesh).
178.	Sakhthi Baratha Desam	2/58, Vairavan Chetty Store, Pachiyamman Padithurai, Madhurai-625001, Tamil Nadu.
179.	Samajik Insaaf Party (Rashtrawadi)	House No - 53, Village Lehari, Post Kuriyar, District – Basti, Uttar Pradesh - 272178.
180.	Samajik Nyaya Party	M-22, Mahavir Park, Marris Road, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
181.	Samajwadi Janata Dal Democratic	90, Kautilya Nagar,B.M.P.Road,P.O.Veterinary College,Raza Bazar,Patna,Bihar-800014
182.	Samajwadi Kranti Dal	3/197, Vidhayak Puram, Vinay Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
183.	Samuga Samatuva Padai	4/388, Ram Garden,Anna Salai, Palavakkam,Chennai-600041,TAMIL NADU.
184.	Sanatan Samaj Party	Ramanand Nagar, Begumpura, Ayodhya, Faizabad (Uttar Pradesh).
185.	Sanyukta Samaj Party	Village and Post-Khari,District-Bijnaur,Uttar Pradesh.
186.	Sarvajan Kalyan Party	In front of K-73, Hanuman Nagar,Kankarbag,Patna-800020,Bihar.
187.	Sarvajanik Kranti Party	Surya Lodge, Road ways,Azamgarh, Uttar Pradesh.
188.	Sarwajan Mahasabha	B-36/40, Kabir Nagar, Durgakund, Varanasi –221005, Uttar Pradesh.
189.	Satyug Party	Village – Sukhatola, Dumri,Post – Kasya,Distt. – Kushinagar,Uttar Pradesh.
190.	Shiromani Akali Dal (Republic)	9, Hakikat Nagar,Guru Tegh Bahadur Nagar,DELHI-110009.
191.	Shivaji Congress Party	House No. 31, A/P Khakurdi,Tal. Malegaon, District – Nashik,Maharashtra.
192.	Shoshit Samaj Party	4/8, Thyagraj Nagar (Near Safdarjung Bus Terminal), New Delhi-110003.
193.	Shreshthatam Rashtra Party	Village – Jagsar, Post – Sarsava,Janpad – Kheeri-Lakhimpur, Uttar Pradesh.
194.	Sikshit Berozgar Sena	Chandan Kumar Bahraicha, Khajurhawan, Madiyahun, Jaunpur, Uttar Pradesh.
195.	Socialist Party (Lohia)	Siddiqui Building, 6122, Bara Hindu Rao, Delhi-110006.
196.	Socialist Party Secular	505/506 Bhilawan, Lucknow Kanpur Road, (In front of Ajanta Hospital) Aalambagh, Lucknow -5, Uttar Pradesh.
197.	Sukhee Samaaj Party	344 Bhonjha, Ghaziabad - 201001, Uttar Pradesh.
198.	Swaraj Party – Yes (Subhash Chandra Bosh)	Village & P.O. Semrikhan Kot, Sidharth Nagar, Uttar Pradesh-272 192.
199.	Swarashtra Jan Party	Tarkapur, Phulwariya,P.O. Sadar,Distt. Mirzapur – 231001,Uttar Pradesh.
200.	Taayi Nadu Party	44/15, Kamraj Raod, Shivaji Nagar, Bangalore-560001, Karnataka
201.	Tamil Desiyak Katchi	80-A, Chamundi Shopping Complex, Salem-636007 (Tamil Nadu).
202.	Tamil Manila Dravida Munnetra Kazhagam	Door No.296, Ambedkar Street, Uthukkadu Village & Post, Walajabad Via Kancheepuram Taluka & District, Tamil Nadu.
203.	Tamizhaga Makkal Jananayaga Katchi	Vanavil Illam, No. 9,East 7th Street,Pudukkottai-622001, Tamil Nadu.
204.	Thalli Telangana Party	Plot No.50, Road No.5, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033,Andhra Pradesh.

205.	The Humanist Party Of India	34, Lavina, 52A, Tagore Road Santa Cruz (West), Mumbai-400054 (Maharashtra).
206.	Ujjawal Rashtra Party	Village - Ahirawan, Post – Barua, Tshsil – Sandila, District – Hardoi, Uttar Pradesh – 241304
207.	United Citizen Party	D-29, Kondli, Delhi-110096.
208.	United Communist Party of India	29/116, Gali No.10, Vishwas Nagar, Shahdra, Delhi-110 032.
209.	United Front (Party)	Abu Fakharuddin Plaza, Langar Toli Chauraha, Bari Path, Patna-800004, Bihar.
210.	United National Loktantrik Party	D-786, Jaidpur Extn., Part – II, Badarpur, Delhi - 110044.
211.	Upekshit Samaj Party	F-15, Bhagat Singh Market, Near Gole Market, New Delhi-110001.
212.	Uttar Pradesh United Democratic Front	38-Royal Hotel, Vidhan Sabha Marg, Lucknow, Uttar Pradesh.
213.	Vikassheel Samaj Party	305 A, Sahara Shopping Centre, Faizabad Road, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226016
214.	Voters Party	A, 1/75, Freedom Enclave, Neb Sarai, IGNOU Road, New Delhi – 110068
215.	Youth Democratic Front	H.No.1-10-63/5, Plot No.44, Chikoti Gardens, Begumpet, Hyderabad, Andhra Pradesh-500016.
216.	Youth For Equality	P-90A, IInd Floor, South Extension-II, New Delhi - 110034.
217.	Yuva Jan Jagriti Party	315, Freeway Trade Centre, Opp. I.O.C Petrol Pump, Narol – Aslali Highway, Ahemdabad, Gujarat- 382427
218.	Yuva Kranti Dal	B-667, Aman Vihar, Post Office-Sultanpuri, Distt.-North-West, New Delhi-110 086.

**** *Vide order of Commission dated 13.09.2022, the following parties have been declared “inactive”. They were served notice individually and through CEO & ECI website. They are restrained in their quest for a “Common Symbol” by the said interim order of the ECI. All CEO/RO are advised that in case any such ‘inactive’ party approaches for common symbol, proper due diligence as laid down in ECI order of 13.09.2022 needs to be adhered to. As the said parties have not updated the required material changes, in particular, their office bearers since 2014, the basis to accept Form A & B ceases to exist.***

By Order,

DILIP K. VARMA, Principal Secy.

By Order

RAJESH KUMAR, Special Chief Electoral Officer, Delhi